

प्रकाशक
विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना-३



सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

शकाब्द १८८१, विक्रमाब्द २०१६, ख्रिष्टाब्द—१९६०

मूल्य ~~₹ १०~~ सजिल्द ~~₹ १०~~ ११/५०

मुद्रक
ओम्प्रकाश कपूर
ज्ञानमण्डल लिमिटेड
वाराणसी ५५०१-१६

वक्तव्य

वेद भारतीय वाङ्मय ओर सस्कृति की अनुपम मणि-मजूपा है। किन्तु जो उसके अधिकारी होते हैं, वे ही उस मजूपा से उन मणि-रत्नों का आहरण कर सकते हैं, जिनकी दीप्ति से भारतीय लोक-मानस अतीतकाल में समुन्नत रहा है और भविष्य में समुन्नततर हो सकता है।

प्रस्तुत ग्रथ—वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति—उन्हीं मणि-रत्नों की परख प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्थ के प्रणेता वैदिक साहित्य के इने-गिने भारतीय विद्वानों में से एक हैं। आपने वेद पर और वेद-वर्णित विभिन्न रहस्यात्मक विषयों पर निर्मल दृष्टिकोण से विचार किया है। इन विचारों में आपके गहरे मानस-चिन्तन की जो पैठ दीख पडती है, कहना न होगा कि, वह आपके अन्तश्चक्षु के दर्शन का एक प्रोज्ज्वल प्रमाण है। आशा है, प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे कथन की पुष्टि करेगा।

विद्वान् लेखक का परिचय देने की यहाँ आवश्यकता नहीं। सुधी समाज आपके नाम से परिचित है।

महामहोपाध्याय श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने परिपद् के आमन्त्रण पर, पटना पधारकर अपना यह लिखित भाषण, पाँच दिनो तक, (१९५८ ई० में १५ जनवरी से १९ जनवरी तक) किया था, जिन्हे सुधी श्रोताओं ने मुग्ध भाव से सुनकर अतीव हर्ष प्रकट किया था। हमें प्रसन्नता है कि वह भाषण-माला अब प्रस्तुत ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हो रही है। इस ग्रथ में हिन्दी के यशस्वी लेखक और पुरातत्त्ववेत्ता डॉ० वासुदेवगरण अग्रवाल ने ग्रन्थ-प्रणेता और ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों पर, थोड़े में, जो सुचिन्तित भूमिका लिखी है, उसके लिए हम उनके अनुग्रहीत हैं।

विश्वास है, परिपद् के अन्य बहुमूल्य प्रकाशनों की तरह यह ग्रथ भी समुचित समादर प्राप्त करेगा।

महागिवरात्रि
१८८१ शकाब्द } }

वैद्यनाथ पाण्डेय
सचालक

वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति



महामहोपाध्याय श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेदी

दो शब्द

प्रकृत ग्रन्थ व्याख्यान-शैली से लिखा गया है, और जो बातें भूमिका में लिखने योग्य थीं, वे बहुधा ग्रन्थ के प्राक्थन में ही आ चुकी हैं। अतः अब यहाँ कोई भूमिका लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। केवल इतना ही वक्तव्य है कि भारतीय सस्कृति का मूल वेद है, यही इस पुस्तक में दिखाया गया है। हम लोगो का तो विश्वास है और क्रमशः प्रमाणों से भी सिद्ध होता जा रहा है कि विश्व-सस्कृति का भी मूल वेदों में निहित है। तब भारतीय सस्कृति के वेदमूलक होने में तो कोई सन्देह नहीं हो सकता। मध्यकाल में तिमिराच्छन्न विलुप्त-सी हो जाने के कारण वेदार्थ की यह शैली आज नवीन-सी प्रतीत होती है। अनेक मान्य विद्वान् भी परम्परा-प्राप्त होने के कारण इस शैली को नवीन कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उनसे इतना ही निवेदन है कि केवल मीमांसा-दर्शन की दृष्टि से ही आपका यह विचार है। निदान, रहस्य आदि अनेक अगो के कालवश विलुप्त हो जाने पर भी निरुक्त, बृहद्देवता आदि उपलब्ध ग्रन्थों पर यदि मनन किया जायगा, तो इस शैली के परम्परा-प्राप्त होने का सन्देह दूर हो जायगा। ये ग्रन्थ मीमांसा-दर्शन से भी बहुत प्राचीन हैं, जिनमें वेदों के अर्थ की प्राचीन परम्परा सुरक्षित है। मुख्य रूप से तो ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा भाग, जिसे अर्थवाद कहकर मीमांसा ने उपेक्षित कर दिया है, इस समस्त परम्परा का मूल है।

यह सब विषय ग्रन्थ के प्राक्थन में लिखा जा चुका है। मनु आदि महर्षि जो वेद को सर्वविद्यानिधान मानते आये हैं, और 'सर्व वेदात् प्रसिध्यति' यह जो भारतीय सस्कृति की उन्मुक्त घोषणा है, वे सब बातें इस शैली की उपेक्षा करने से कथमपि सगत नहीं हो सकती। इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए। गुरुवर विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी ओझा ने लन्दन में जब एक वेदधर्मविषयक व्याख्यान सस्कृत में दिया था, तब वहाँ के विद्वान् भी कहने लगे थे कि हम ये सब नई बातें सुन रहे हैं। इन शब्दों को सुनकर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने उस व्याख्यान का शीर्षक रखा था— 'अति नूतनम्, नहि नहि अतिप्रत्न रहस्यम्', अर्थात् बहुत ही नया, नहीं-नहीं, बहुत ही पुराना रहस्य मैं कह रहा हूँ। वही बात विद्वानों को अपनी दृष्टि में लाने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह शैली बहुत ही प्राचीन है और मीमांसा में विचारित कर्मकांड की यही मूल भित्ति है। अस्तु,

मेरा वक्तव्य यही है कि इस ग्रन्थ में मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है, वह श्रीविद्यावाचस्पतिजी के ग्रन्थों का प्रसादमात्र है। हाँ, जो कहीं कोई त्रुटि विद्वानों को प्रतीत हो, वह मेरा ही बुद्धि-दोष समझना चाहिए।

इस ग्रन्थ के सकलन और संपादन में मेरे कनिष्ठ पुत्र शिवदत्तशर्मा चतुर्वेदी व्याकरण-साहित्याचार्य, बी. ए और मेरे शिष्य पटनानिवासी वैद्य श्रीसूर्यदत्त शास्त्री

शुक्ल तथा मेरे दौहित्र कविराज दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी ने बहुत परिश्रम से सहायता की है और डॉ० श्रीवासुदेवगरणजी अग्रवाल ने महत्त्वपूर्ण भूमिका लिख देने की कृपा की है। मैंने सर्वसाधारण के लिए सुबोध रखने के अभिप्राय से अतिगभीर तत्त्वों का समावेश व्याख्यानो में नहीं किया था, उन तत्त्वों को भी डॉ० अग्रवाल ने सक्षेप में झलका दिया है और वर्तमान विज्ञान से भी बहुत अग्रे में उनकी तुलना प्रस्तुत कर दी है। इस भूमिका से प्रकृत ग्रन्थ का महत्त्व बढ़ गया है। इसलिए मैं डॉ० अग्रवाल का पूर्ण आभारी हूँ। वृद्धावस्था के कारण दृष्टिदुर्बल हो जाने से प्रूफ देखने का कार्य मैं स्वयं नहीं कर सका और सम्पादन में जो सहायक थे, वे भी कार्यान्तर में व्यग्र रहे, इसलिए संस्कृत के प्रमाणों, विशेषकर वेद-मन्त्रों में बहुत अशुद्धियाँ रह गईं। इसलिए अशुद्ध वेद-मन्त्रों का शुद्ध पाठ परिशिष्ट में पुनः उद्धृत कर दिया है। फिर भी, दृष्टिदोष से जो अशुद्धियाँ रह गई हैं, उनके गोवन का भार विद्वानों पर ही है।

बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद् की प्रेरणा से ही यह ग्रन्थ प्रस्तुत हुआ और पटना में कई दिन रहकर मुझे इस ग्रन्थ के विषय पर व्याख्यान देने का भी अवसर मिला, जिसे परिषद् के सदस्यों ने बड़े प्रेम से सुना। सम्पादन और प्रकाशन में भी परिषद् के अविकारियों और कर्मचारियों का बहुत बड़ा श्रम है। इसके लिए मैं उन सबका हृदय से कृतज्ञ हूँ।

फाल्गुन शुक्ला पञ्चमी, २०१६ विक्रमानन्द
वाराणसी

गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी

भूमिका

महामहोपाध्याय पंडित श्रीगिरिधरशर्मा चतुर्वेदी ने वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति विषय पर जो व्याख्यान विहार राष्ट्रभाषा-परिषद् के समक्ष दिये थे और जो अब ग्रन्थ-रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, उनका कुछ विलक्षण ही महत्त्व है, जिसका सम्बन्ध अन्य ग्रन्थों के साथ प्रायः नहीं देखा जाता। यहाँ वैदिक तत्त्वज्ञान के विषय में पाठकों को एक ऐसे दृष्टिकोण का परिचय मिलेगा जो अत्यन्त प्राचीन होते हुए भी सर्वथा नवीन कहा जा सकता है। वेदों पर जो साहित्य अभी तक हमें उपलब्ध होता है, उसमें या तो वेदान्तविषयक ब्रह्मज्ञान का या यज्ञीय कर्मकाण्ड का ही नित्पण पाया जाता है। किन्तु इन भाषणों में वैदिक परिभाषाओं के अर्थापन या व्याख्या की एक नई शैली का आश्रय लिया गया है, जिसे पंडितजी ने 'वैदिक विज्ञान' यथार्थ सजा दी है। जिस समय वैदिक मन्त्रों की रचना हुई या उन पर ब्राह्मण ग्रन्थों में आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक अर्थों का ऊहापोह यज्ञपरक मीमांसा के आधार पर किया गया, उस समय ऋषि वस्तुतः किस तथ्य का कथन करना चाहते थे, इस प्रश्न का उत्तर अत्यन्त गूढ़ है और श्रृंगग्राहिकया इसका उत्तर हम नहीं ढूँढ पाते। इस विषय में पश्चिमी और भारतीय नूतन विद्वानों की एक सी असहाय स्थिति है। किन्तु यह निश्चय है कि वैदिक ऋषि अपने निगूढ़ शब्दों द्वारा किसी बोधगम्य तथ्य को ही प्रकट करना चाहते थे। वैदिक विज्ञान या सृष्टि-विद्या की व्याख्या ही उन्हें इष्ट थी। वेद के सम्बन्ध में इस प्रकार का साहसपूर्ण विस्तृत समाधान जयपुर के विद्यावाचस्पति वेदसमुद्र पंडित मधुसूदनजी ओझा ने अपने सस्कृत ग्रन्थों में उपनिबद्ध किया, जिनकी संख्या २०० के लगभग है और जिनमें से लगभग ५० ही अवतक मुद्रित हो सके हैं।^१ पंडित श्रीगिरिधरजी ने वैदिक विज्ञान का यह अव्ययन अपने गुरु श्री ओझाजी से प्राप्त किया और अपनी सहज प्रज्ञाशील प्रतिभा से उसे उपवृद्धि किया है। वेद, पुराण, दर्शन, काल्य, व्याकरण विषयों में एक जैसी मामिक दृष्टि इस समय श्रीगिरिधरजी को प्राप्त है, वह अन्यत्र दुर्लभ ही है। अपनी उसी प्रतिभा के बल पर श्रीगिरिधरजी ने अनेक क्लिष्ट वैदिक विज्ञान के विषयों का इन व्याख्यानो में नित्पण किया है। जैसे त्रयी विद्या क्या है, मर्त्य-चित्वाग्नि और अमृतचित्तेनिधेय अग्नि का क्या अभिप्राय है और दोनों में क्या भेद है, अर्द्धेन्द्र मनु-तत्त्व से क्या इष्ट है (पृ० १३३), ऋषि, देव और पितृदेव में परस्पर क्या भेद है (पृ० १३४-१४८), आर्द्ध-तत्त्व का

१ ओझाजी के इस बहुमूल्य साहित्य का प्राप्य स्थान है—पंडित प्रद्युम्न ओझा, विद्याधर का रास्ता, जयपुर। प्रद्युम्नजी स्वर्गीय ओझाजी के यशस्वी पुत्र हैं, जिनके पास ओझाजी के विशाल साहित्य की पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं। ओझाजी का एक ग्रन्थ महर्षिकुलवैभव राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर (जोधपुर) से और दूसरा भिद्धान्तवाद काशी-विश्वविद्यालय से नेपाल सस्कृत-ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है।

क्या मर्म है (१५७), अग्नि-विज्ञान (पृ० १६६) और सूर्य-विज्ञान (पृ० १७३) का क्या अभिप्राय है, इत्यादि महत्त्वपूर्ण वैदिक विषयों में जिन्हें रुचि उत्पन्न हुई हो, उनके लिए जैसी स्पष्ट बोधात्मक सामग्री इन भाषणों में प्राप्त होगी, वैसी अन्यत्र नहीं। विज्ञान पाठकों को ऐसा आभास मिलेगा, मानो हम प्राचीन काल के किसी वसिष्ठ या विश्वामित्र, दीर्घतमा या याज्ञवल्क्य के आश्रम में उनकी अमृत वाणी सुनने के लिए पुनः जा पहुँचे हैं।

आइए, इन विद्याओं में से कुछ पर विचार करें।

वेद-विद्या सृष्टि-विद्या है

वेद-विद्या सृष्टि-विद्या का दूसरा नाम है। सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की व्याख्या वेद की नाना विद्याओं के रूप में उपलब्ध होती है। इन विद्याओं का अपरिमित विस्तार है। जैसे सृष्टि अनन्त है, वैसे ही वेद-विद्या भी अनन्तहीन है। विराट् और अणु इन दोनों क्षेत्रों में अर्वाचीन विज्ञान की यही तथ्यात्मक स्वीकृति है कि इन दोनों की रहस्यमयी रचना का वारापार नहीं है। अणोरणीयान्, महतो महीयान् दोनों की एकता का दर्शन करनेवाले ऋषियों ने भी यही कहा है कि इन दोनों का मूल कोई अनन्त अव्यक्त अधर-तत्त्व है। अणु और महत् दोनों में उसी की महिमा अभिव्यक्त हो रही है, किन्तु स्वयं वह अव्यय पुरुष सहस्रात्मा या अनन्त है। विश्व विराट्, अनादि और अनन्त है। इसका स्रोत अविनाशी है। देश और काल अथवा नाम और रूप के परिवर्तमान स्वस्तिक में इसका नित्य नया रूप प्रकट हो रहा है। इस प्रकार, ऋषि और वैज्ञानिक दोनों ही विश्व के रहस्य की व्याख्या करते हैं। पर ऋषियों का दर्शन इस श्रुत विश्वास से भरा हुआ है कि यह व्यक्त विश्व किसी अव्यक्त मूल स्रोत से उद्भूत हुआ है। वह अव्यक्त मूल इस व्यक्त को सृष्टि करके इसमें अनुप्रविष्ट हो रहा है।

वेदों के विषय में दो दृष्टिकोण

वेदों के विषय में पूर्व और पश्चिम में दो पृथक् दृष्टिकोण स्पष्ट सामने आते हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय मस्तिष्क की आरम्भिक चेतना की अटपटी उक्तियाँ हैं। उनमें न परस्पर सगति है और न सुलझे हुए अर्थों की स्थापना। वेद धार्मिक विश्वासों के विजडित पोथे हैं, जिनका बहुत सा अश बुद्धिगम्य नहीं है। मानव-जाति के सीखते-बच्चे जिस आश्चर्य से विश्व को देखते हैं, उसी की छाया मन्त्रों में है। उनमें किसी समन्वित या सुप्रतिष्ठित दार्शनिक विचार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी सूत्र को पकड़कर पिछले सौ वर्षों में वेदों के अनेक भाष्य और व्याख्या-ग्रन्थ पश्चिमी विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं। अपने देश में भी नये मार्ग से चलने-वाले वैदिक विद्वान् इन्हीं अर्थों में रुचि लेते हैं और उनका दृष्टिकोण भी यही है। उनके लिए ब्राह्मण-ग्रन्थों में कही जानेवाली वेद-व्याख्या अधिकांश में अनास्था की वस्तु है। किन्तु भारतीय परम्परागत दृष्टि वेद को ऋषियों का परिपूर्ण ज्ञान मानती है।

जो कोई दिव्य समष्टिज्ञान है, वे उसी की शब्दमयी अभिव्यक्ति हैं। इस अवस्था से वैदिक अर्थों के प्रति नई श्रद्धा का जन्म होता है। इन दो दृष्टिकोणों के तार्किक विवाद में जाना हमें इष्ट नहीं।

हमारा लक्ष्य वही है, जहाँ वैदिक शब्दों की अधिक-से-अधिक स्पष्ट व्याख्या प्राप्त हो सके, जहाँ मन्त्रों के अर्थों की पारस्परिक सगति लग सके, एव जहाँ मन्त्रों की परिभाषात्मक शब्दावली, यज्ञ के कर्मकाण्ड तथा सृष्टि के वास्तविक वैज्ञानिक रहस्य की एकसूत्रता या सगति प्राप्त की जा सके। पश्चिम में जो वेदार्थ का प्रयत्न हुआ, उस पर दृष्टि डालते हुए श्री ई० जे० टामस ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि समस्या सुलझी नहीं है तथा आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध सा दिखाई पड़ता है। हमारी सम्मति में भारतीय दृष्टि से ही वेदार्थ की समस्या का समाधान सम्भव है। सर्वप्रथम यह अवस्था होनी चाहिए कि जिन उपनिषद् और ब्राह्मण-ग्रन्थों की अत्यधिक महिमा कही जाती है, उन सबका स्रोत वेद है। कालान्तर के इस साहित्य में जो अमृत-दुग्ध है, उसका निर्झर वेद-रूपी गौ में ही निहित है, जिस गौ को अमृतवाक्-तत्त्व भी कहते हैं। यह अमृत-वाक् विश्व का विराट् मन या समष्टिज्ञान है। वह एक समुद्र है, जिसके एक-एक बिन्दु से मानवी मस्तिष्क सोचते और विचारते हैं। व्यक्ति के मन में जितना आज तक आ चुका है और जो कुछ भविष्य में प्रतिभासित होगा, उस सबका स्रोत उसी विश्वात्मक ज्ञान में है, जिसे वेद कहा जाता है। उसे ही अव्यक्त सरोवर, ब्राह्म सर, वाक्-समुद्र या अपौरुपेय ज्ञान कहते हैं।

उस वाक् के दो रूप हैं—एक परा, दूसरी अपरा। अपरा स्थूल शब्दमयी वाक् है, जो बुद्धि का स्पर्श करती है। किन्तु परा वाक् मूल अक्षर-तत्त्व है, जो हृदय का स्पर्श करती है, या हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से जीवन का निर्माण करती है। इसे सहस्राक्षरा वाक् भी कहते हैं। इसी अक्षर-वाक् से गायत्री आदि सप्त छन्दों का वितान या विकास होता है—

अक्षरेण मिमते सप्त वाणीः (ऋ० १।१६। २४) ।

देव-तत्त्व

वैदिक सृष्टि-विद्या की दृष्टि से विश्व में दो ही मूल तत्त्व हैं—एक देव, दूसरा भूत। देव-तत्त्व का ही दूसरा नाम शक्ति-तत्त्व है। देव या शक्ति सूक्ष्म और अदृश्य हैं। भूत दृश्य और स्थूल हैं। प्रत्येक भूत एक-एक कूट या ढेर है, जिसकी विद्युति शक्ति या देव कहलाती है। बिना देव के किसी भी भूत की पृथक् सत्ता सम्भव नहीं। मूलभूत देव तत्त्व एक और अखण्ड है। वही सृष्टि के लिए बहुभाव या नानाभाव में परिवर्तित होता है। 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढ', यही सृष्टि का मूल सूत्र है। 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति', इस नियम के अनुसार एक तत्त्व ही बहुभाव या बहुधा भाव को प्राप्त होता है। जो मूलभूत एक है, उसे वेदों में 'एकमेवाद्वितीयम्' कहा गया है। वह ऐसा एक है, जिसमें दो, तीन, चार सख्याओं की कल्पना नहीं है। किन्तु, वह अपनी निगूढ शक्ति से स्वयं ही बहुभाव को प्राप्त होता है।

यद्यपि देवों के अनेक नाम कहे गये हैं, किन्तु उन सब नामों के मूल में एक ही देव प्रतिष्ठित है—

यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रज्ञं भुवना यन्त्यन्या ।

(ऋ० १०।८।३)

प्रजापति के दो रूप

वह मूल देव-तत्त्व सप्रज्ञ भी कहा जाता है। आदि से अन्त तक वह एक प्रज्ञ या पहिली है। उसकी शक्ति का क्या स्वरूप है? इसकी मीमांसा अनेक प्रकार से की जाती है, किन्तु शब्दों में उसकी इयत्ता सम्भव नहीं। जब हम विश्वकी दृष्टि से विचार करते हैं, तब उस मूल शक्ति को प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति के दो रूप हैं—एक अनिस्त, दूसरा निस्त, एक अमूर्त्त, दूसरा मूर्त्त; एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष, एक ऊर्ध्व, दूसरा अधः, एक तत्, दूसरा एतत्। जो एतत् है, उसे ही 'इद सर्वम्' भी कहते हैं। जो विश्वातीत रूप है, वह 'तत्' है और जो विश्वात्मक रूप है, वह 'इद सर्वम्' है। प्रजापति का एक रूप 'अजायमान' और दूसरा 'बहुधा विजायते' कहा जाता है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥

(यजु० ३१।१९)

जो अजायमान या विश्वातीत रूप है, उसे गर्भ, योनि, नभ्य प्रजापति, गुहा या पर्वत के समान अविचाली अद्रि-तत्त्व भी कहा जाता है।

वही परमव्योम या परमाकाश है। परावाक् उसी का रूप है। अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, यम, मातरिश्वा, इन देवों की पृथक् कल्पना सहेतुक है, क्योंकि मूलभूत एक शक्ति विभिन्न रूपों में कार्य करती हुई देखी जाती है, किन्तु इससे उसके मूलभूत एक तत्त्व का अपलाप नहीं होता। जिस प्रकार महाकाल की दृष्टि से उपा एक है, किन्तु सापेक्ष काल या परिवर्तनशील सवत्सर की दृष्टि से प्रतिदिन नर उपा का उदय होता है, जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड में मूलभूत अग्नि-तत्त्व एक है, किन्तु शक्ति के नाना रूपों में वही बहुधा विकसित होता है, उसी प्रकार वैदिक ऋषियों ने इस तत्त्व का प्रत्यक्ष दर्शन किया था कि अनेक ब्रह्माण्डों का रचयिता प्रजापति एक है और वही तत्त्व इन सब में समाया हुआ है। दूर और निकट, अणु और महत्, भूत और भविष्य सर्वत्र उसी की सत्ता है। वही अखण्ड सूत्र पूर्व और उत्तर की समस्त सृष्टि में पिरोया हुआ है, जिसके कारण उसे अन्तर्यामी या सत्रात्मा कहते हैं। अपने अजायमान रूप से सबके भीतर प्रतिष्ठित रहकर वह एक अक्षर-तत्त्व सत्रका नियमन करता है। उसी के नियम या धर्मों के अक्ष में सब भुवनों के चक्र पिरोये हुए हैं, इसलिए वह सर्वान्तर्यामी कहा जाता है। उसी ओत-प्रोत सूत्र से सब तन्तुओं का वितान होता है, अतएव वह सत्रात्मा है।

वैदिक त्रिक

यह सृष्टि किसी महान् कवि की विलक्षण कविता है। वेदों में इसे सततन्तुमय यज्ञ कहा है। एक मन, एक प्राण और पंचभूत इन सात तन्तुओं से कोई बुननेवाला दस

पट को बुन रहा है। पचभूत को वैदिक परिभाषा में वाक् भी कहते हैं। पाँच भूतों में आकाश सबसे सूक्ष्म है। आकाश का गुण शब्द या वाक् है। अतएव पाँच भूतों के लिए वाक् यह सरल प्रतीक मान लिया गया था। यह समस्त सृष्टि पाँच भूतों की रचना है। जो प्रधान या प्रकृति है, वह तीन गुणों के तारतम्य से पचभूतों के रूप में परिणत होती है। इस पचभूतात्मक रचना को वाक् कहते हैं। 'वाट्मय. प्राणमयो मनोमय एष आत्मा'—उपनिषदों की यह परिभाषा सर्वथा सुनिश्चित है। इसका अर्थ है कि जितनी भी अभिव्यक्त सृष्टि है, उसके मूल में प्रजा या मनस्तत्त्व, प्राण तत्त्व और पचभूत इनकी सत्ता है। मन, प्राण, वाक् का त्रिक क्रमशः सत्त्व, रज और तम कहा जाता है। यह त्रिक विश्व-रचना का आधार है। सृष्टि की वैदिक कल्पना त्रिक पर समाश्रित है। तीन लोक, तीन देव, तीन छन्द, तीन मात्राएँ आदि अनेक रूपों में त्रिक की व्याख्या की जा सकती है। मैत्रायणी उपनिषद् में त्रिक की अति सुन्दर व्याख्या पाई जाती है। वहाँ कहा है, वे जो अ उ म् अक्षर हैं, वे ही उस त्रिपाद् ब्रह्म की भास्वती तन् हैं, जिसे ओम् भी कहते हैं। स्त्री-पु-नपुंसक, यह लिंगवती तन् है। अग्नि, वायु, आदित्य इन तीनों का नाम भास्वती तन् है। ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु यह अधिपतिवती तन् है। ऋक्, यजु, साम यह विज्ञानवती तन् है। भूर्भुव स्व यह लोकवती, भूत, भव्य, भविष्यत् यह कालवती, प्राण, अग्नि, सूर्य यह प्राणवती, अन्न, आप्, चन्द्रमा यह आप्यायनवती, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय यह मुखवती, बुद्धि, मन, अहकार यह चेतनवती और प्राण, अपान, व्यान यह प्राणवती तन् है। ये सब प्रजापति के ही रूप हैं। जब ओम् या प्राणसजक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण किया जाता है, तब उसी के पर और अपर ये दो रूप कहे जाते हैं। जो त्रिक के अन्तर्गत है, वह अपर रूप है और जो त्रिक से अतीत है, वही पर रूप है। जो पर है, उसे अव्यय भी कहते हैं। 'परे अव्यये सर्व एकीभवन्ति', अथवा 'यत्र विश्व भवत्येकनीडम्' यह अव्यय या परब्रह्म के लिए ही कहा जाता है। उसे ही त्रिपाद् और ऊर्ध्व भी कहते हैं।

अग्निविद्या

वैदिक सृष्टि-विद्या की दृष्टि से प्रजापति-विद्या का बहुत अधिक महत्त्व है। अग्नि-विद्या और सवत्सर-विद्या उसी के दो रूप हैं। अग्नि-विद्या या शक्ति-तत्त्व और सवत्सर-विद्या या काल-तत्त्व इन दोनों के सम्मिलित रूप का नाम यज्ञ-विद्या है। वैदिक तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से अग्नि-विद्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रजापति, ब्रह्म, महाकाल, शक्ति-तत्त्व ये सब अग्नि के ही रूप हैं। मनु ने जिसे तमोभूत अप्रजात, अलक्षण और प्रसुप्त अवस्था कहा है, उसी के घरातल पर अग्नि का जन्म होता है। ज्ञान और कर्म की जितनी शक्ति है, उन सबका प्रतीक अग्नि है। 'अग्नि सर्वा देवता.', जितने देव हैं, सब अग्नि के रूप हैं, यह ऐतरेय की परिभाषा है। प्रश्न होता है कि अग्नि-तत्त्व क्या है? क्या चूल्हे में जलनेवाली और काष्ठ से उत्पन्न होनेवाली अग्नि कोई देवता है? वेद में किस अग्नि का वर्णन है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मूल और तूल दोनों रूपों में जितनी शक्ति और उसके भेद हैं, वे सब अग्नि के ही विभिन्न

रूप हैं—‘एक एवाग्निर्बहुधा समिद्धः।’ जिसका समिन्धनक होता है, अर्थात् जो दहकती है, उसे अग्नि कहते हैं। स्थूल काष्ठ या समिधा अग्नि के समिन्धनका एक प्रतीक या उदाहरणमात्र है। इसका अर्थ यह है कि हम अग्नि को तबतक प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, जबतक वह भूत के माध्यम से प्रकट न हो। भूत को क्षर कहते हैं और उस क्षर के भीतर निवास करनेवाले अक्षर को देव कहा जाता है—

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।

प्राण या जीवन

अस्यवामीय सूक्त में कहा है कि अक्षर से ही क्षर का जन्म होता है—‘ततः क्षरत्य-क्षरम्’, अर्थात् देव या शक्ति से ही भूत का निर्माण होता है। इस अक्षर या देव-तत्त्व की अभिव्यक्ति तीन रूपों में हो रही है, एक वृक्ष-वनस्पति, दूसरे पशु-पक्षी और तीसरे मानव। इन तीनों में जो शक्ति-तत्त्व है, उसे प्राणाग्नि कहते हैं। प्राण या जीवन चैतन्य का ही रूप है, जो विश्व का सबसे महान् रहस्य है। प्रजापति-विद्या का सबसे उत्कृष्ट और रहस्यात्मक रूप प्राण या जीवन है। प्राण के स्रोत, उद्गम, वृद्धि, विकास और ह्रास के नियम मानव के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। प्राण ही आयु है, प्राण ही अग्नि है। प्राण-विद्या सब विद्याओं में मूर्धन्य है। वस्तुतः ऋषियों की दृष्टि से प्राण-विद्या ही विश्व-विद्या है। इसीकी व्याख्या यज्ञों के द्वारा की जाती है। यह प्राण-तत्त्व क्या है ? ऋषियों ने इस गूढ प्रश्न पर बहुत विचार किया था। इस विश्व में सबसे आश्चर्य यह देखकर होता है कि प्रकृति ने पंचभूत, प्राण और मन इन तीनों को एक साथ मूँथकर रहस्यात्मक जीवन तत्त्व का निर्माण किया है। उस जीवन-तत्त्व के क्या नियम हैं और उसका क्या रहस्य है, इसीकी छानबीन वेदविद्या का मुख्य लक्ष्य है। जहाँ भी जीवन है उस स्थान को यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ का आरम्भ प्राणापान के स्पन्दन से होता है। प्राण शक्ति का रूप है और शक्ति सदा दो सहकारी रूपों में प्रकट होती है, जिन्हें उसके ऋण और धन रूप कहते हैं। इन्हें मूलभूत एक प्राण के ही प्राण और अपान ये दो भेद कहा जाता है। प्राण का स्वरूप स्पन्दन है। जैसे, कोई सोता हुआ बालक जागकर अपना जीवन आरम्भ करता है, वैसे ही बीज के केन्द्र में प्रसुप्त प्राण-बिन्दु का जागरण या क्षोभ होता है। प्राण के जागरण को ही वैज्ञानिक भाषा में समचन-प्रसारण कहा जाता है—

प्राणो वै समञ्चनप्रसारणं (शतपथ, ८।१।४।१०) ।

सिकुडना और फैलना यही स्पन्दन का रूप है। धन से ऋण और ऋण से धन बिन्दु की ओर जाना और आना यही विद्युत् या शक्ति का क्रम है। इसे ही वैदिक भाषा में ‘एति च, प्रेति च’ कहते हैं। प्राण-रूपी कोई ज्योति या रोचना मानव-केन्द्र में प्रकट होती है और प्राण एव अपान के रूप में स्पन्दित होती हुई आयुपर्यन्त सक्रिय रहती है—

अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणदपानती । द्यख्यन्महिषो दिवम् ।

(ऋ० १०।१८९।२)

यही जीवन का रूप है। इस मन्त्र का देवता आत्मा या सूर्य है। वैदिक परिभाषा में विराट् आत्म तत्त्व का सर्वोत्तम प्रतीक सूर्य ही माना गया है—‘सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्थुपश्च’। मैत्रायणी उपनिषद् के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं—मूर्त्त और अमूर्त्त। जो मूर्त्त है, वह असत्य है, जो अमूर्त्त है, वह सत्य है, वही ब्रह्म है, वही ज्योति है। जो ज्योति है, वही आदित्य है, जो आदित्य है वही आत्मा है (मै० उ० ६।३)।

वैश्वानर अग्नि

विश्व में जितनी गति है, सब स्पन्दन का रूप है। वही प्राण है। पचतत्त्व या भूतो से बना हुआ शरीर काष्ठ-पजर को जोड़कर बनाये हुए निर्जीव शकट के समान है (शकटमेवाचेतनमिदं शरीरं, मै० उ० २।३)। यह प्राण ही है, जो प्रत्येक पुरुष में चेतनात्मक क्षेत्रज्ञ प्रजापति के रूप में उसे जीवित रखता है। प्राण के साथ ही प्रजा सहयुक्त है—

यो वै प्राणः सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राणः ।

सह ह्येतावस्मिन् शरीरे वसतः सहोत्क्रामतः ॥ (कौषीतकी, ३।३)

इन्द्र ने अपने विषय में यही कहा—‘प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’, अर्थात् मैं ऐसा प्राण हूँ, जो प्रज्ञा या मनस्तत्त्व के साथ प्राणियों के केन्द्र में आविर्भूत होता हूँ। मन-प्राण-वाक् इन तीनों के सम्मिलन या तानूनपत्र सम्बन्ध से जो एक नई शक्ति या अग्नि उत्पन्न होती है, उसे ही वैश्वानर कहते हैं—‘अथ य पुरुष सोऽग्निर्वैश्वानर’ (मै० उ० २।६)। मन-प्राण वाक् (माइण्ड-लाफ-मैटर) इन तीनों के मिलन से ही प्राण या जीवन की अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति के तीन क्षेत्र हैं—एक वृक्ष वनस्पति, जिनमें पचभूत प्रधान हैं दूसरे पशु-पक्षी, जिनमें प्राण या क्रिया-शक्ति मुख्य है, तीसरे मनुष्य, जिनमें इन्द्र-शक्ति या मनस्तत्त्व या प्राणात्मक प्रज्ञा-तत्त्व प्रधान है। किन्तु, तीनों में एक-एक की प्रधानता होते हुए भी तीनों में तीनों ही रहते हैं, अर्थात् वृक्षों में भी पचभूतों के अतिरिक्त प्राण और मन का अस्तित्व है। वेदों में इन्द्र को मनस्वान् कहा गया है—‘यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् ऋतुना पर्यभूषत् (ऋ० २।१२।१)। जहाँ एक या अनेक इन्द्रियों का विकास उपलब्ध है, वहाँ इन्द्र या मनस्तत्त्व की सत्ता अवश्य है।

इन्द्र-तत्त्व

शतपथ में इन्द्र को मध्य प्राण कहा गया है—‘स योऽयं मध्ये प्राण एष एवेन्द्र’, शत० ६।१।१।१)। अन्य सब इन्द्रियों उस मध्य प्राण से संचालित होती हैं। वे इन्द्र के सहचारी सामन्त प्राण कहे जा सकते हैं। यह इन्द्र-तत्त्व क्या है? शक्ति के समन्वयन या जागरण को ही ‘इन्ध दीप्तौ’ धातु के आधार से ‘इन्ध’ कहा जाता है और इन्ध-तत्त्व ही परोक्ष या सकेत-भाषा में इन्द्र कहलाता है। इस प्रकार की अनेक परोक्ष व्युत्पत्तियों ब्राह्मण-साहित्य में पाई जाती हैं। उन सबके साकेतिक अर्थ वेदार्थ की व्याख्या में सहायक होते हैं। इन्ध और इन्द्र इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध बताते हुए ऋषि का उद्देश्य यह है कि इन्द्र या मनस्तत्त्व प्राणाग्नि की सजा है। भूत, प्राण और मन इन

तीनों तत्त्वों का आदि स्रोत कहीं से आरम्भ होता है, यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। अर्वाचीन विज्ञान और वैदिक दर्शन दोनों में इसका उत्तर एक ही है, अर्थात् माता-पिता के शुक्रगोणित-सयोग से सर्वप्रथम जहाँ एक गर्भित कोष या भ्रूण उत्पन्न होता है, वहीं से जीवन का स्पन्दन आरम्भ हो जाता है। वह कोष अपनी शक्ति से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार उत्तरोत्तर आत्मविभाग द्वारा अपना स्वर्धन करते हुए एक राशि या कूट बन जाता है, जिसे शरीर कहते हैं। वह प्राणात्मक स्पन्दन अन्नाद अग्नि का रूप है, जो केन्द्र के बाहर से सोम रूप अन्न को खींचकर पचाता है और शरीर की वृद्धि करता है। यही सोम की अग्नि में आहुति है, जिससे शरीर-रूपी यज्ञ सम्पन्न होता है। यही अग्नि का जागरण है।

हिरण्यगर्भ

गर्भ-विज्ञान की दृष्टि से यह समस्त प्रक्रिया अत्यन्त स्पष्ट है। वैज्ञानिक की भाषा में कोष के भीतर प्रसृत उसका केन्द्र (न्यूक्लियस) अपना स्पन्दनात्मक कार्य आरम्भ कर देता है। ऋषि के शब्दों में वह कोष हिरण्यगर्भ कहलाता है। सर्वप्रथम इसी हिरण्यात्मक गर्भ या शिशु का जन्म होता है—‘हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।’ हिरण्य का अर्थ है अग्नि या ज्योति और गर्भ का अर्थ है शिशु या कुमार। हिरण्यगर्भ ही अग्नि का पुत्र है, जिसे ऋग्वेद में चित्र शिशु (२०।१।२) और कुमार (ऋ० १०।१३।३) कहा गया है। जीवन के रूप में उद्बुद्ध होनेवाली यह अग्नि अत्यन्त रहस्यमयी शक्ति है। इसलिए इसे अद्भुत भी कहा जाता है (ऋग्वेद ६।१५।२)। वृक्ष-वनस्पति, कीट-पतंग-पशु-पक्षी एवं मनुष्य आदि की जितनी योनियाँ हैं उनमें कुमार का यही रूप है—‘नवो नवो भवति जायमानः’। प्रत्येक पीढ़ी में जीवन की शृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह नये-नये रूपों में उत्पन्न होता रहता है। यही सृष्टि का क्रम है। एक ओर जीवन की सत्ता नये शिशु या कुमार के रूप में दिखाई देती है, दूसरी ओर सृष्टि के आदि से इसकी दुर्धर्ष और अखण्ड सत्ता सदा रही है। इसके नवीन रूप को जात या वाम और वृद्ध रूप को पति या पलित कहा गया है।

वाम-पलित होता

जो वाम या नवीन या सुन्दर है, वह प्रतिक्षण पलित की ओर बढ़ रहा है और आत्म-विकास के लिए पलित से ही जीवन तत्त्व को ले रहा है। वाम और पलित ये दोनों एक ही मूल होतृ-तत्त्व के दो रूप हैं। जो वाम या नया है, वह पलित को आत्म-केन्द्र में लेकर नवीन सर्जन करता है और जो पलित है, वह वाम को आकृष्ट करके उसे भी पलित या वृद्ध बनाता रहता है। वाम से पलित और पलित से वाम इस गति और आगति का नाम ही जीवन का स्पन्दन है। प्रत्येक घटक-कोष में यह क्रम प्रतिक्षण हो रहा है। जितनी भी भूत-सृष्टि है, सबका आदि कारण हिरण्यगर्भ या अग्नि का पुत्र वह जाग्रत केन्द्र है, जिसे प्राण या जीवन कहा जाता है। ‘अस्य वामस्य पलितम्य होतृ’, इस मन्त्र में दीर्घतमा ऋषि ने जिस तथ्य का प्रतिपादन किया है, विज्ञान का साक्षी भी सर्वथा वही है, दोनों की शब्दावली भिन्न भले ही हो।

अग्नि के हौत्र कर्म का स्वरूप

यहाँ होता शब्द ध्यान देने योग्य है। होता का अर्थ है देव या शक्ति का आवाहन करनेवाला। उस आवाहन के द्वारा बाहर से भूत तत्त्व को लेकर अग्नि में उसका हवन करनेवाला और हवन करके उसे आत्मरूप में परिवर्तित करनेवाला जो शक्ति का रूप है, वही 'होता' है। प्रत्येक गर्भित कोप (फर्टिलाइज्ड सेल) में जो स्पन्दन होता है, वह इसी हौत्र कर्म की पूर्ति के लिए है। वह बाहर से भूतो या पचतत्त्वों को केन्द्र में खींचकर उसका सवर्धन करता है। इसमें दो प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, एक अन्न-अन्नाद की प्रक्रिया है और दूसरी सवर्धन की प्रक्रिया। अन्न-अन्नाद का तात्पर्य यह है कि केन्द्र में बैठा हुआ अग्नि जो अन्नाद है, बाहर से अपने लिए अन्न या सोम चाहता है। इसे अन्नाद अग्नि की भूख या अग्रनाया कहते हैं। यदि अग्नि को सोम न मिले, तो यज्ञ की समाप्ति हो जाय और कोप के सवर्धन का कार्य रुक जाय। वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन के तीन विघेप लक्षण हैं। जहाँ भी जीवन रहता है, वहाँ इन तीनों की सत्ता पाई जाती है। उनमें पहला अन्न-अन्नाद का नियम है, जिसे वैज्ञानिक 'एसीमिलेशन' और 'एलिमिनेशन' की प्रक्रिया कहते हैं (अग्निना रयिमन्नव-त्पोपमेव दिवे दिवे)। पोषण प्राप्त करने के बाद दूसरी प्रक्रिया सवर्धन की है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सेल्-फिशन, सेल्-डिवीजन या ग्रोथ कहते हैं। इन दोनों के बाद जीवन का तीसरा लक्षण प्रजनन है। जिस बीज से प्राण की उत्पत्ति होती है, प्रजनन के द्वारा पुनः उसी बीज की सृष्टि प्रकृति का लक्ष्य है। बीज से बीज तक पहुँचना यही प्रकृति का चक्र है, जिसे ब्रह्म-चक्र एव सवत्सर-चक्र भी कहते हैं। प्रत्येक बीज काल की जितनी अवधि में पुनः बीज तब पहुँच पाता है, वही उसका सवत्सर-काल है।

किन्तु यह सवत्सर की चक्रात्मक गति है। जो बार-बार घूमती हुई काल की अवधि में नये-नये बीजों का निर्माण करती है। प्रजापति की सृष्टि में समस्त प्राण-तत्त्व या जीवन सवत्सर-चक्र से नियन्त्रित है। इसीलिए ब्राह्मण-ग्रन्थों में कहा है कि सवत्सर ही प्रजापति है—'सवत्सर एव प्रजापति' (अतपथ १।६।३।५), अर्थात् सृष्टि की जो प्रजननात्मक प्रक्रिया है, वह सवत्सरात्मक काल की शक्ति से नये-नये रूपों में प्रकट होती हुई सामने आ रही है। इस सवत्सर के दो रूप हैं—एक चक्रात्मक, दूसरा यज्ञात्मक। पृथ्वी जितनी अवधि में एक बिन्दु से चलकर पुनः उसी बिन्दु पर लौट आती है, वह चक्रात्मक सवत्सर है, अर्थात् उतनी देर में काल का एक पहिया घूम जाता है, किन्तु उसका कोई चिह्न अवशिष्ट नहीं रहता। उस सवत्सर की अवधि में देव या अग्नि या शक्ति जो भी भूत पदार्थ बाहर से खींचकर अपने स्वरूप में ढाल लेती है, वही यज्ञात्मक सवत्सर है। अग्नि में सोम की आहुति इसका स्वरूप है। चक्रात्मक सवत्सर केवल प्रतीकमात्र है, वह भातिसिद्ध है, वह केवल छन्द या आवपन या पात्र है। उस पात्र में अग्नि द्वारा सोम की जो मात्रा भर जाती है, वह यज्ञात्मक सवत्सर सत्तासिद्ध है। उसी को हम भूत-भौतिक या स्थूल दृश्य रूप में प्रत्यक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विश्व की रचना के लिए प्रजापति ने अपने आपको सवत्सर और यज्ञ इन दो रूपों में प्रकट किया है—

सवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः (शतपथ, १।२।५।१२) । सवत्सर और यज्ञ, काल और जीवन, ये दो सृष्टि के महान् रहस्य हैं । अनेक प्रकार से इनका वर्णन वेदों में और ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाया जाता है । इन विद्याओं का परिचय वेदार्थ की कुजी है ।

प्रमा-प्रतिमा

ऋग्वेद में प्रश्न किया है—

कासीत्प्रमा प्रतिमा किं निदानं । (१०।१३०।३)

अर्थात्, इस विश्व की रचना में प्रजापति के पास प्रमा या नाप-जोख क्या थी और प्रतिमा या नमूना क्या था ? इसका उत्तर यही है कि प्रमा या मात्रा निश्चित करने के लिए प्रजापति ने सवत्सर का निर्माण किया और इसकी प्रतिमा या नमूने के लिए स्वयं अपनी ही आहुति डालकर सर्वहुत यज्ञ का विधान किया । इस विश्व-रूपी यज्ञ के यूप में सर्वप्रथम कौन सा पशु बँधा गया ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि प्रजापति ने स्वयं अपनी ही आहुति इस यज्ञ में दी, प्रजापति स्वयं ही इस यज्ञ के पशु बने । जो प्रजापति का रूप है, वही पुरुष का रूप है । इसीलिए पुरुष को प्रजापति का नेदिष्ठ या निकटतम प्राणी कहा गया है—

पुरुषो वै प्रजापतेर्नेदिष्ठम् । (शतपथ ४।३।४।३)

यज्ञ-विद्या

वेद-विद्या की दृष्टि से यज्ञ-विद्या सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । यज्ञ का जो स्वरूप ऋग्वेद में उपलब्ध होता है, वह विश्व-रचना और पुरुष की अध्यात्म-रचना इन दोनों को समझने के लिए आवश्यक है । ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में अग्नि को यज्ञ का देवता, पुरोहित, ऋत्विज्, होता और रत्नों का आधान करनेवाला कहा गया है । पाँचों विशेषण सार्थक हैं और अग्नि या प्राण की मूलभूत विशेषताओं का परिचय देते हैं । अग्नि पुरोहित है । इसका तात्पर्य यह है कि समस्त देवों में अग्नि प्रत्यक्ष प्राप्त है । अग्नि के द्वारा ही अन्य देव या शक्तियाँ पकड़ में आती हैं । मानव-शरीर में जटराग्नि के रूप में अग्नि हमारे सबसे अधिक निकट और प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु है । तीन या पाँच दिन निराहार उपवास करने से अग्नि की महती शक्ति का परिचय प्राप्त किया जा सकता है । यह अग्नि अन्न का परिपाक करती है और शरीर के जितने अग-प्रत्यग है, सबका निर्माण करती है । यह अग्नि कोई ज्वाला या लपट नहीं, जो हमारे भीतर दहक रही हो । यह नितान्त पार्थिव है । आमाशय के भीतर जो अनेक रसात्मक धार या अम्ल हैं, वे ही इस अग्नि के रूप हैं, जो खाये हुए अनेक प्रकार के पदार्थों को पचाकर उनसे रस रक्त मास-भेद-अस्थि मज्जा-शुक्र इन सप्त धातुओं की चिति करते हैं । यही अग्नि का पार्थिव रूप है । ऐतरेय के अनुसार पृथिवी पुरोधाता है और अग्नि पुरोहित है । विद्वत् की मूलभूत शक्ति या अग्नि को प्रकट होने के लिए पार्थिव या भौतिक शरीर चाहिए । वह अग्नि स्वयं पार्थिव धरातल पर प्रकट होकर भौतिक देह का निर्माण करता है । यह देह नियमों से बँधा हुआ एक सस्थान है, जिसका प्रत्येक कार्य विश्व-विज्ञान के

अनुसार व्यवस्थित है। इसमें अनेक देवों का निवास है किन्तु उन सब में प्रधान देव जनि है, जिस प्रकार इन्धन के पहाड़ को शक्ति-रूप में परिवर्तित करने के लिए एक चिनगारी की आवश्यकता है। यह अग्नि की ही शक्ति है कि नित्यप्रति बाहर से अन्न का कूट या टेर लेकर उसे शक्ति और भूतो के रूप में परिवर्तित करके शरीर का संवर्धन करता रहता है। जो प्रक्रिया मानवी देह में है, वही छोटे-छोटे-से तृण और सूक्ष्म कीट-पतंग आदि के शरीर में भी है। यह विचित्र रचना है, जिसका आरम्भ एक हिरण्यगर्भ या एक गभित भ्रूण से होता है। अर्वाचीन गर्भ विज्ञान (एम्ब्रियोलॉजी) शास्त्र में शरीर-निर्माण की इस रहस्यमयी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वैदिक लोक-विज्ञान और देवता-विज्ञान के साथ उसका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा डॉ० वसन्त रेले ने अपने ग्रन्थ 'वैदिक गाड्स ऐंड फिगर्स ऑफ् वायोलॉजी' में प्रतिपादित किया है।

चयन-विद्या

शुक्र शोणित के एक गर्भ-कोष से आरम्भ करके इतने जटिल शरीर का निर्माण, यही अग्नि की चयन-विद्या है, जिसका शतपथ-ब्राह्मण में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है और जिसका मूल यजुर्वेद के अध्याय ११ से अध्याय १८ तक के मन्त्रों में आया है। इस यज्ञ को पंचचितिक कहते हैं। पंचभूतात्मक पाँच तत्वों से जो चिति होती है, उसी से शरीर की रचना सम्पन्न होती है। इसे चित्याग्नि कहा जाता है। ऋग्वेद में जिसे चित्र शिशु कहा गया है, वह अग्नि-चयन द्वारा होने के कारण ही चित्र कहा जाता है। किन्तु, यह चित्याग्नि भूतात्मक होने के कारण मर्त्य है।

प्रतिक्षण इसका सम्बन्ध चित्तेनिधेय नामक अग्नि से होता रहता है। विश्व में जो समष्टि प्राण जीवन और चेतना है, उसके साथ गर्भत्य कोष, बुद्बुद या कल्ल का सम्बन्ध माता के श्वास-प्रश्वास द्वारा बना रहता है और वही से वह अपने लिए अमृत का पोषण प्राप्त करता है। यदि अमृत-भोजन उसे प्राप्त न हो, तो भौतिक धरातल पर संचित होते हुए उस अग्नि का स्पन्दन रुक जाय। वेद ने अपने टग से इस गभित कोश को एक औटता हुआ पात्र कहा है। उसके लिए अग्नि-चयन के अन्त में अजस्र घर्म शब्द आया है (यजु० १८।६६)। उसे ही अत्यवामीय सूक्त में अभीद्ध वर्म कहा गया है (ऋ० १।१६४।३६)। इसे ही महावीर पात्र कहते हैं। विश्व की जो प्राणाग्नि है उसकी उष्णता से यह पात्र औटता रहता है। इस पात्र में सोम भरा रहता है और अग्नि का केन्द्र अपने स्पन्दनात्मक वर्षण से उस सोम को औटता है। यह पात्र एक आरम्भिक घटक-कोष के रूप में हो या लाखों कोषों का समुदाय हो, उसमें उष्णता या घर्म का नियम एक ही है। मैत्रायणी उपनिषद् में स्पष्ट कहा है कि प्राण और अपान या उपाशु और अन्तर्यामि के पारस्परिक वर्षण से एक उष्णता उत्पन्न होती है। वही पुरुष है और वही वैश्वानर अग्नि है—

अथोपांशुरन्तर्याममभिभवत्यन्तर्यामि उपांशुं च । एतयोरन्तरा
देवौष्ण्यं प्रासुवत् । यदौष्ण्यं स पुरुषः । अथ यः पुरुषः सो अग्नि
वैश्वानरः । (मै० २।६) ।

अर्वाचीन विज्ञान के अनुसार इस उष्णता की माप ९८ ८° फारेनहाइट तापक्रम है। यह उष्णता १०७ अंश से अधिक हो जाय या ९७ अंश से नीचे आ जाय, तो जीवन या प्राणात्मक स्पन्दन समाप्त हो जाता है। जो समष्टि या विराट् विश्व में आदित्य का तेज है, उसकी उष्णता असीम है। वैज्ञानिक मत में सूर्य के धरातल पर ६००० अंश और उसके केन्द्र में दो करोड़ अंश की गर्मी है किन्तु प्रकृति का ऐसा विलक्षण विधान है कि उस उष्णता का अत्यन्त नियमित अंश मानव के इस शरीर-रूपी धर्म या पात्र को प्राप्त होता है और उसी की सजा प्राण या जीवन है।

वैदिक परिभाषा में विश्व की विराट् अग्नि को अश्वमेध और शरीर की अग्नि को अर्क कहा जाता है। अर्कसजक शरीर की प्राणाग्नि तीन प्रकार की होती है, अतएव उसे त्रिधातु अर्क कहा जाता है (यजु० ८।६६)। अग्नि एक ज्योति है, उसमें तीन ज्योतियों का सम्मिलित रूप है।

प्रजापतिः प्रजया संररास्त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी
(यजु० ८।३६)।

अग्नि-वायु-आदित्य अथवा वाक्-प्राण-मन अथवा क्षर-अक्षर-अव्यय अथवा अर्वाचीन विज्ञान के शब्दों में मैटर-लाफ-माइड ये ही तीन ज्योतियाँ हैं, जिनके बिना कोई भी प्राणात्मक स्पन्दन या यज्ञ सम्भव नहीं है।

इन्हे ही प्राण-अपान-व्यान नामक तीन अग्नियों कहा जाता है, जो यज्ञ की तीन वेदियों में गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय के रूप में प्रज्वलित रहती है।

यजुर्वेद में जहाँ अग्नि-चयन या धर्मयाग का वर्णन है, वहाँ आरम्भ में ही यह प्रश्न उठाया है कि प्राणाग्नि के इस स्पन्दन का स्रोत क्या है। इसके मूल कारण को वहाँ सविता कहा गया है और उस सविता की सजा मन है। सविता के सव या मन की प्रेरणा से ही प्रजात्मक प्राण का यह स्पन्दन आरम्भ होता है और मन की शक्ति से ही जन्म भर इसका समिन्धन या जागरण चलता रहता है। 'सविता वै देवाना प्रसविता', अर्थात् सविता देवता ही प्रत्येक प्राण केन्द्र में उद्बुद्ध होकर अन्य सब देवों को खींच लाता है। सविता अन्य देवों का योक्ता है। वही सबके अन्य कर्मों का विधान करता है। 'मही देवस्य सवितु परिष्टुतिः', सविता देव की यही महती स्तुति या सर्वाधिक प्रशंसा है। इस समस्त विश्व की जो संचालक शक्ति है, वही विराट् सविता देव है। उसकी जो शक्ति प्रत्येक केन्द्र में आ रही है वह सावित्री है। सावित्री-शक्ति प्रत्येक केन्द्र को ओत-प्रोत करके वहाँ से प्रतिफलित होकर अपने मूल स्थान को लौट रही है। शक्ति का यही रूप है। वह आती है और जाती है। इसी नियम से उसके बन और ऋण ये दो रूप बनते हैं। विश्वात्मक सविता से प्राप्त होनेवाली सावित्री की धारा जब हमारे शरीर में प्रतिफलित होती है, तब उसे ही गायत्री कहते हैं। सावित्री और गायत्री का एक छन्द है। तुलोक सावित्री और पृथिवी गायत्री है। ये दोनों एकही मूलभूत शक्ति के दो रूप हैं। मनुष्य के शरीर में जो प्राण है, वह प्रति वार बाहर जाकर तुलोक के विश्वात्मक प्राण के साथ मिलकर फिर भीतर आता है, जैसा

शाङ्गधरसहिता मे कहा है—‘पीत्वा चाग्नेरपीयूष पुनरायाति वेगत’, अर्थात् शरीर-संचारी प्राण आकाश के अमृत का पान करके शीघ्रता से वारम्बार वापस लौट आता है । यही समष्टि और व्यष्टि प्राण की सम्मिलित धारा है, जिसका सन्तान-क्रम या आना-जाना जीवन का लक्षण है । जो विम्वात्मक है, उसे ही अनन्त और अमृत कहते हैं । जो अमृत है, वही देव कहा जाता है । जो मर्त्य है, उसे भूत कहते हैं । भूतो को देव का आश्रय चाहिए । तभी भूतो का जीवन सम्भव होता-है । एक क्षण के लिए भी भूत और देव का सम्बन्ध टूट जाय, तो भूत व्याकुल हो जाता है । अनन्त विद्व मे महाप्राण भरा हुआ है, किन्तु भूतात्मक देह मे उसका एक अन्न ही आ पाता है । वस्तुतः अमृत-तत्त्व का नाम ही जीवन है । अमृत-तत्त्व ही प्राण है । अग्नि को वेदो मे वारम्बार अमृत कहा गया है । अग्नि ही वह अमृत-देव है, जो मर्त्य भूतो में समाविष्ट है—‘इद ज्योतिरमृत मर्त्येषु’, अर्थात् अग्नि मर्त्य भूतो में अमृत ज्योति है (ऋग्वेद ६।१।४) । आयुर्वेद से युक्त अग्नि मर्त्य भूतो मे रहनेवाला अमृत अतिथि है (ऋ० ६।४।२) । अमृत अग्नि मर्त्य भूतो मे प्रविष्ट हुआ है, यही जीवन है (मर्त्येषु अग्निरमृतो निधायि ऋ० १०।७९। १, ७।४।४) ।

वैदिक साहित्य मे अग्नि-विद्या का अपरिमित विस्तार है । एक वाक्य मे कहना चाहे, तो अग्नि-विद्या ही वेद-विद्या है । अग्नि ही प्रजापति और अग्नि ही ब्रह्म का रूप है । वृहण या स्पन्दन अग्नि के विना नहीं होता । जल से पूर्ण एक कलत्र चूले पर रख दिया जाय, तो उसमे कोई हरकत नहीं होती । पर उसमे यदि अग्नि का संयोग कर दे, तो वह जल औटने लगता है । उसमे एक गति उत्पन्न हो जाती है । ठीक यही अवस्था प्रत्येक सृष्टि-रचना की है । आरम्भ मे प्रकृति या पंचभूत साम्य अवस्था में थे, उनमे कोई गति या क्षोभ नहीं था । उस समान व्यापक अवस्था को वैदिक भाषा मे ‘ऋत’ या ‘आप’ कहते हैं । ‘यद् आप्नोत् तस्माद् आप’, क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त था, इसलिए उसकी सजा ‘आप’ हुई (गतपथ ६।१।१९) । प्राक् सृष्टि-काल मे प्रकृति की यही साम्यावस्था परमेष्ठी भी कही जाती है । जो परमेष्ठी है उसी का नाम समष्टि (अंगरेजी यूनिवर्सल) है । मनोविज्ञान शास्त्री युग के शब्दो मे वही कलेकटिव अनकागस, अर्थात् विश्वात्मक प्रज्ञान है, जिसका अनुभव सुप्त अवस्था मे होता है । उस प्रकार की साम्य अवस्था के घरातल पर जो प्रथम क्षोभ उत्पन्न होता है वही अग्नि का स्पन्दन है । उसी के कारण एक अखण्ड तत्त्व नानाभाव या बहुभाव मे आता है । इस बहुभाव को ही वृहण या ब्रह्म कहते हैं । ब्रह्म का ही रूप अग्नि है । अतएव, ऋग्वेद मे अग्नि को ऋत का प्रथमज कहा गया है । अग्निर्हि न. प्रथमजा ऋतस्य (ऋग्वेद १०।५।७) । इसी दृष्टि से अन्यत्र कहा है कि ऋत के प्रथमज प्रजापति रूप अग्नि ने अपने तप से ब्रह्म के लिए यह सृष्टि-रूप ओदन तैयार किया (यमोदन प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणोऽपचत्, अथर्व ४।३५।१) ।

ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम् (गतपथ ६।१।१।१०), अर्थात् प्रजापति ने ब्रह्म का सर्वप्रथम सर्जन किया । यह ब्रह्म या त्रयी विद्या ही थी, जिसके द्वारा सृष्टि का विकास हुआ । अग्नि ही त्रयी विद्या का प्रतीक है । अग्नि-वायु-आदित्य ये तीन त्रयी विद्या के

रूप हैं। इनमें ऋग्वेद पिण्ड या मूर्ति का निर्माण करनेवाला है। सामवेद उस मण्डल को घेरनेवाली उसकी परिधि है। यजुर्वेद उसका केन्द्र है जिसमें स्थिति गति का निवास रहता है। प्रत्येक रचना एक-एक मण्डल या वृत्तात्मक चक्र है। जहाँ मण्डल है, वही केन्द्र, व्यास और परिधि का सम्मिलित सस्थान रहता है। इस इकाई की सजा ही त्रयी विद्या है।

ऋत के धरातल पर सर्वप्रथम अग्नि का जन्म होता है, इसलिए वेदों में अग्नि को 'अपा गर्भः', अर्थात् जल का पुत्र कहा गया है। इसका तात्पर्य यही है कि स्थिति के धरातल पर गति का जन्म ही सृष्टि का कारण है। इसे ही साम्यावस्था में प्रसुप्त प्रकृति का स्वयम्भू पुरुष के सयोग से गर्भ-धारण कहा जाता है। परमेष्ठी या ऋत की सजा महत् भी है। वह विन्दु की योनि है। अग्नि-रूप प्रजापति उसमें बीजाधान करता है। अग्नि का स्पन्दन ही वह बीज है, जिससे रचना-कार्य का आरम्भ होता है। एक गेहूँ के दाने की कल्पना कीजिए। उसमें अग्नि और सोम दोनों का सम्मिलित रूप है, किन्तु वह तबतक अकुरित नहीं होता, जबतक उसके केन्द्र में सोया हुआ अग्नि क्षुब्ध नहीं हो जाता, अर्थात् उसमें गति-आगति का स्पन्दन जन्म नहीं लेता। इस जागरण से ही वह बीज अकुरित होता है, अर्थात् एक से अनेक बनता है। जो एक है, वह निष्कल या अखड है। जो अनेक है, उसे ही नाना, बहु, ब्रह्म या गण कहते हैं।

ऋत और सत्य इन दोनों में भेद है। ऋत परमेष्ठी या समष्टि की सजा है (ऋतमेव परमेष्ठी)। उस परमेष्ठी में अग्नि के सयोग से जब एक केन्द्र का उदय होता है, तब उस केन्द्र को सत्य कहते हैं। सूर्य सत्य का रूप है। इसका निर्माण जिन नीहारिकाओं से हुआ, वे ऋत थीं। सत्यात्मक पिण्ड के एक कोने को पकड़े, तो सारा पदार्थ खिंचने लगता है। पर सरोवर में भरे हुए ऋत रूप जल का एक अंग उससे अलग होकर हमारे पात्र में आ जाता है। ऋत का कोई एक केन्द्र नहीं रहता, किन्तु सत्य का सुनिश्चित केन्द्र होता है। ऋत के भीतर केन्द्र का जन्म ही यज्ञ है। यज्ञ के लिए अग्नि का प्रज्वलित करना आवश्यक है। यह अग्नि द्यावा-पृथिवी रूप दो अरणियों के मन्थन से उत्पन्न होता है। इसे वेदों में सहस्र सूनुः (यजुर्वेद १२।२२), अर्थात् बल्ले का पुत्र कहा है। प्रत्येक यज्ञ एक-एक बल्ल है। बल्ल विना केन्द्र के प्रयुक्त नहीं होता। अतएव, प्रत्येक यज्ञ के मध्य में उसका केन्द्र आवश्यक है। इस केन्द्र को ही नाभि, हृदय या यूप कहते हैं।

दुलोक और पृथिवी ये विश्व के माता-पिता कहे गये हैं। प्रत्येक प्राणी या केन्द्र के लिए द्यावा-पृथिवी रूप माता-पिता की आवश्यकता है। द्यावा-पृथिवी की सजा रोदसी है। रोदसी वह लोक है, जिसमें कोई भी नई सृष्टि माता-पिता के विना नहीं होती। वृक्ष-वनस्पति से मनुष्यों तक जितनी योनियाँ हैं, सबमें माता-पिता का द्वन्द्व अनिवार्य है। एक-एक पुष्प में माता-पिता, योषा-वृषा या पुरुष-स्त्री के इस द्वन्द्व की सत्ता है। इसे ही मित्रावरुण का जोड़ा कहते हैं। परस्पर आकर्षण या मैत्री-भाव इस जोड़े की विशेषता है। मित्र और वरुण इन दोनों के दो मण्डलों के मिलने से

ही प्राण का जन्म सम्भव होता है। जो मित्र का मण्डल है, वह उष्ण या आग्नेय है। जो वरुण का मण्डल है, वह शीत या जलीय है। अग्नि और सोम, उष्ण और शीत, मित्र और वरुण, चुलोक और पृथिवी, इस द्वन्द्व के बिना प्राण या जीवन का जन्म सम्भव नहीं।

जिस प्रकार रोदसी विद्व मे माता और पिता अनिवार्य हैं, उसी प्रकार रोदसी मे जितनी प्राणि-सृष्टि है, वह अन्न-अन्नाद के नियम के अधीन है। जिस केन्द्र मे प्राण का जन्म होता है, उसमें अशानाया-तत्त्व या बुभुक्षा का नियम अवश्य काम करता है। बालक भूख से व्याकुल होकर रोता है। इसलिए अग्नि की सोम के लिए व्याकुलता या भूख को ब्राह्मण ग्रन्थो मे रुदन कहा है। जो अन्नाद या अन्न का खानेवाला है, वह अन्न के लिए रुदन करता है। जो रुदन करता है, वह रुद्र है ('यद्रोदीत्तस्माद् रुद्रः', गतपथ ६।१।३।१०)। अग्नि ही रुद्र है। अन्नाद अग्नि अन्न-रूप सोम के बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए अग्नि के दो रूप कहे गये हैं—एक घोर और दूसरा अघोर। अग्नि को जब सोम नहीं मिलता, तब वह उसका घोर या मृत्यु रूप हो जाता है। बिना सोम के अग्नि जिस केन्द्र मे रहती है, उसी को नष्ट कर डालती है, जैसे विना घी के दीपक की ज्वाला अपनी वत्ती को खा डालती है। किन्तु जैसे ही अग्नि को सोम मिलता है, अग्नि शान्त और शिव बन जाती है। अपनी जठराग्नि मे इस प्रक्रिया को हम नित्य देखते हैं। अन्न-रूप सोम की आहुति से वैश्वानर अग्नि कुछ घण्टो के लिए शान्त हो जाता है और फिर व्याकुल हो उठता है। अन्न-अन्नाद का यह नियम एक यज्ञ है और आवा-पृथिवी के मध्य मे जितनी सृष्टि है, सब इस नियम से व्याप्त है। इसी कारण इसे रुद्राग्नि का लोक या रोदसी कहते हैं।

एक अग्नि पृथिवी पर और दूसरी चुलोक मे सूर्य-रूप मे है। दोनो मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनो के बीच मे तीसरी अन्तरिक्ष की अग्नि है, जिसके माध्यम से दोनो का सम्बन्ध होता है। इसीलिए अग्नि त्रेता या तीन अग्नियों कही जाती है और अग्नि को वही तीन लोको मे प्रज्वलित माना जाता है—'विद्वा ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि'(यजु० १२।१९)।

मन-प्राण-वाक् ये तीन अग्नियों हैं। प्राण-अपान-व्यान भी तीन अग्नियों हैं। अग्नि, वायु और सूर्य ये भी तीन अग्नियों हैं। इस विषय मे शौनक ने बृहद्देवता मे अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख किया है—भवत् भूत और भव्य, जगम और स्थावर उनका प्रभव और प्रलय, अर्थात् उत्पत्ति और विनाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य ही प्रजापति है, जो असत् और सत् दोनो का उद्गम-स्थान है। वही अक्षर और अविनाशी-तत्त्व है। वही वाक् से प्रकट होनेवाला तत्त्व है। वह सूर्य ही अपने-आपको तीन रूपो मे विभक्त करके इन तीनो लोको मे स्थित है। सब देव उसकी रश्मियो मे समाये हुए हैं, अर्थात् क्रम से व्यवस्थित हैं। यह अग्नि के रूप मे तीन लोको मे स्थित है। ऋषि तीन नामो से उसी की उपासना करते हैं। वही प्रत्येक प्राणी के उदर मे जठराग्नि-रूप मे प्रज्वलित है। यज्ञो मे कुशा बिछाकर उसी का तीन स्थानो मे आवाहन किया जाता है। उसे ही इस लोक मे अग्नि, मध्य लोक मे वायु-इन्द्र और चुलोक मे सूर्य कहते हैं। ये ही तीन देवता हैं—

कृत्वैप हि त्रिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति ।
 देवान्यथायथं सर्वान् निवेदय स्वेषु रश्मिषु ॥
 एतद्भूतेषु लोकेषु अग्निभूतं स्थितं त्रिधा ।
 ऋपयो गीर्भिरर्चन्ति व्यञ्जितं नामभिस्त्रिभिः ॥
 तिष्ठत्येष हि भूतानां जटरे जटरे ज्वलन् ।
 त्रिस्थानं चैनमर्चन्ति होत्रायां वृक्तवर्हिषः ॥
 अग्निरस्मिन्नथेन्द्रस्तु मध्यतो वायुरेव च ।
 सूर्यो दिवीति विज्ञेयास्तिस्र एवह देवताः ॥

वैदिक प्रतीकवाद

तीन अग्नियो को ऋग्वेद में तीन भ्राता कहा गया है। पृथिवी की अग्नि पवमान, अन्तरिक्ष की पावक और द्युलोक की शुचि कही जाती है। पवमान को निर्मन्थ्य अग्नि भी कहते हैं, क्योंकि वह दो अरणियों को मथकर उत्पन्न की जाती है। यज्ञ में दो अरणियों की कल्पना महत्त्वपूर्ण है। माता और पिता त्रिशु रूप अग्नि को उत्पन्न करनेवाले दो मन्थन-दण्ड हैं। उन्हें ही प्राण और अपान भी कहते हैं। शरीर में प्राण और अपान दो लोडों के समान हैं, जो ध्यान-रूपी शिला पर दो ओर से टकराते हैं और परस्पर के घर्षण से शारीरिक अग्नि उत्पन्न करते हैं। मध्यस्थ ध्यान प्राण की सज्ञा वामन भी है। केन्द्र या हृदय में प्रतिष्ठित होने के कारण इसे वामन कहा जाता है। यही शक्ति जब केन्द्र से बाहर फैलती है, तब इसका रूप विराट् हो जाता है। शुचि-पावक-पवमान इन तीन अग्नियो को ही क्रमशः ब्रह्माग्नि, देवाग्नि और भूताग्नि भी कहते हैं। हमें केवल भूताग्नि प्रत्यक्ष होती है, शेष उसके दो रूप नहीं। जैसे, स्थूल शरीर ही भौतिक होने से प्रत्यक्ष का विषय है और आँख से देखा जाता है। उसके आधार पर रहनेवाले प्राण और मन नेत्र से दिखाई नहीं पड़ते, ऐसे ही देवाग्नि और ब्रह्माग्नि प्रत्यक्ष का विषय नहीं। शरीर के भीतर जो क्षार और अम्ल से युक्त रसात्मक भौतिक अग्नि है, उसे शल्य द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं, किन्तु शरीर के भीतर की प्राण क्रिया और मानस क्रिया की श्रुत सत्ता होते हुए भी उन्हें प्रत्यक्ष देखना सम्भव नहीं। इसी दृष्टि से पार्थिव अग्नि को स्थूल या घन, अन्तरिक्ष अग्नि को तरल और द्युलोक की अग्नि को विरल कहा जाता है। इस दृष्टि से भौतिक देह घन है। उसमें व्याप्त प्राण की क्रिया तरल और मन की क्रिया विरल है। विरल अग्नि सबसे सूक्ष्म और सबसे अधिक व्यापक होती है। यही दशा मन की है, जो निकट और दूर सर्वत्र व्याप्त हो जाता है।

वैदिक भाषा में सबसे अधिक प्रतीको का महत्त्व है। प्रत्यक्ष शब्दों की अपेक्षा परोक्ष संकेत ही अधिक महत्त्वपूर्ण है। 'परोक्षा प्रिय वै देवाः प्रत्यक्षद्विषः', यह वैदिक अर्थों का नियामक सूत्र है। मनुष्यों के कण्ठ से जिन शब्दों का उच्चारण होता है, वे शब्द उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते हैं। जैसे, गो शब्द कण्ठ से जन्म लेता है, फिर विनष्ट हो जाता है। किन्तु जो गौ पशु है, वह जैसा पूर्व में था, वैसा ही आज भी है

और आगे भी रहेगा । उसमें जो प्रक्रिया हो रही है, वह नित्य है । प्रकृति में गौ की रचना मानवी कृति नहीं, एक नित्य कृति है । अतएव वह अपौरुषेय रचना है । गौ के प्रतीक से जो अर्थ ग्रहण किये जाते हैं, वे भी नित्य होने के कारण अपौरुषेय ही हैं । इस प्रकार सृष्टि का कोई पदार्थ ऐसा नहीं, जो विश्व की रचना के परोक्ष अर्थों की व्याख्या न करता हो । सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, समुद्र, मेघ, आकाश, नदी, वृक्ष, वन, जल, अग्नि इत्यादि जितने शत-सहस्र पदार्थ हैं, सब अपने-अपने प्रतीक से सृष्टि के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं । वे शब्दमयी भाषा की अपेक्षा कहीं गम्भीर अर्थों के परोक्ष संकेत प्रदान करते हैं । ऋषियों ने अर्थों की इसी शैली को अपनाया । उदाहरण के लिए जो गौ है, वह दूध का प्रतीक है । दूध देनेवाले ओर भी कई पशु हैं, पर उनमें गौ ही श्रेष्ठ है । गौ के शरीर में कोई ऐसी रसायन-शाला है, जो जल को दूध में बदल देती है । किन्तु गौ भी तबतक दूध नहीं देती जबतक वह वृष्या नहीं देती । अतएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन या मातृत्व है । दूध और पानी में क्या अन्तर है, इस प्रश्न का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है । पानी वह है, जिसको मथने से त्रिकाल में भी घी या स्नेह नहीं प्राप्त होता । किन्तु दूध ऐसा श्वेत जल है, जिसके रोम-रोम में घृत के कण व्याप्त रहते हैं । यह घृत माता के हृदय का स्नेह है जो वह वत्स के लिए प्रकट करती है । अतएव गौ मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक है । गौ जब गर्भित होती है, तभी वह बछड़े को जन्म देती है और तभी उसमें दूध देने की क्षमता उत्पन्न होती है । गौ का मातृ-तत्त्व सोम है । वह वृषभ के शुक्र या आग्नेय गुण से गर्भ धारण करती है । यह अग्नि ही गौ के दूध में व्याप्त घृत है । पानी और घी का यही अन्तर है कि पानी से आग बुझती है और घी से प्रज्वलित होती है । अतएव ब्राह्मण-ग्रन्थों में कहा है कि घृत अग्नि का साक्षात् रूप है (एतद्वा अग्ने प्रिय धाम यद्घृतं, तै० १।१।१।६, एतद्वै प्रत्यक्ष यजत्सु यद् घृतं शतपथ १२।८।२।१५) । जिस प्रकार वृषभ और गौ से वत्स का जन्म होता है, वैसे ही पुरुष और प्रकृति के पारस्परिक सयोग से विश्व का जन्म होता है । इस विश्व-रूपी वत्स की माता को, जो अनन्त प्रकृति है, अदिति कहते हैं । वह कामदुधा और विश्वधायस् वेनु कही जाती है, अर्थात् काम ही उसका दूध है और विश्व ही उससे तृप्त होनेवाला वत्स है । इस प्रकार, केवल गौ का प्रतीक अनेक अर्थों की उद्भावना कराता है । जहाँ-जहाँ प्रजनन या मातृत्व है, वहाँ-वहाँ गौ का रूपक चलता रहता है । पृथिवी गौ है, जो अनन्त वृक्ष-वनस्पति को प्रतिवर्ष जन्म देती है । ऐसे ही विश्व के प्राणिमात्र की जितनी माताएँ हैं, सब गौ के रूप हैं । सूर्य की रश्मियाँ गौएँ हैं, जो अपनी गति से समस्त ससार में विचरण करती हैं और जिस पृथिवी से उनका सम्पर्क होता है, उसे वे गर्भ-धारण की योग्यता प्रदान करती हैं । सूर्य की उष्णता से ही पृथिवी गर्भित होती है । इसी प्रकार और सूक्ष्म स्तर में प्रविष्ट होने से ज्ञात होता है कि वाक् भी गौ है । वह मन रूपी वृषभ से गर्भित होती है । मन के विचार ही वाणी में आते हैं और दोनों के सम्मिलन से प्राण या क्रिया का जन्म होता है । वेद में अनेक प्रकार से गौ के रूपक का विस्तार पाया जाता है । ऋषियों को अर्थों की यह परोक्ष-शैली अत्यन्त मन पूत थी । जाने-

पहचाने पदार्थों को लेकर वे उनके साथ सृष्टि-विद्या के अर्थों का सम्बन्ध जोड़ देते थे। इस विश्व को जब ब्रह्म या अश्वत्थ कहा जाता है, तब उसका अभिप्राय यह है कि अश्वत्थ के जन्म की कथा से विश्व के जन्म और विकास की व्याख्या समझी जा सके। शक्ति का कोई महान् स्तम्भ पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक वृक्ष की भाँति ऊर्ध्व और स्तब्ध खड़ा है। उसे ही वाण और उदुम्बर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में उसे 'ओषण' भी कहा है। यह स्तम्भ क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि यज्ञ ही वह दृढ धर्म या धारणात्मक टेक है, जिसपर सृष्टि का दूर-से-दूर और निकट से-निकट का प्रत्येक भाग अविचल रूप से ठहरा हुआ है। यद्यपि यह ब्रह्मचक्र मदा भ्रमणशील देखा जाता है, किन्तु इसका धुरा कभी तप्त नहीं होता और जो भुवन इसमें पिरोये हुए हैं, वे तिलमात्र भी विचलित नहीं होते। इस पट का वितान अति सुन्दर है। अहोरात्र, दर्शपोर्णमास, ऋतुएँ, अयन और सवत्सर इनके अंशों से यह चक्र निरन्तर आगे बढ़ रहा है, मानो कालरूपी कोई अश्व है, जिसकी दुर्धर्ष गति इस विराट् देवरथ को चला रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतीकों की दृष्टि से ऋग्वेद विश्व के समस्त साहित्य में मूर्धन्य स्थान रखता है। इस समय ससार में धार्मिक प्रतीकों की व्याख्या के प्रति एक नई अभिरुचि देखी जाती है। पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि धार्मिक प्रतीकों के अर्थों पर विचार करने से ही अवतक का रूँधा हुआ मार्ग आगे प्रगस्त हो सकेगा। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी सहायता मनोविज्ञान-शास्त्र से प्राप्त हो रही है और भविष्य में भी प्राप्त होने की सम्भावना है।

ऋग्वेद के अनुसार यह विश्व प्रजापति के मन की रचना है। जहाँ मन है, वही कामना है। काम ही मन का प्रथम शक्ति-बीज था। उसी से यह सब रचना हुई—

कामस्तदग्रे समवर्तताधिः मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

वैदिक सृष्टि-विद्या और वर्तमान मनोविज्ञान-शास्त्र की स्थापनाओं में अद्भुत सादृश्य दिखाई पड़ता है। इस प्रकार, वेद गम्भीर विद्याओं का कोप है और भारतीय सस्कृति का वही मूल है। इन विज्ञानों का भारतीय सस्कृति से सम्बन्ध सरल भाषा में प्रस्तुत ग्रन्थ में स्फुट किया गया है। आशा है, भारतीय सस्कृति के प्रेमी इससे यथोचित लाभ उठाएंगे।

काशी-विश्वविद्यालय
महाशिवरात्रि, २०१६ विक्रमानन्द
२५, फरवरी, १९६० खृष्टाब्द

वासुदेवशरण अग्रवाल

विद्ययानुक्रमसूची

प्राक्कथन	...	३
वेद के अन्वेषण में कठिनाइयाँ	...	४
सफलता न मिलने के प्रधान कारण	...	५
यज्ञों की वैज्ञानिकता का प्रमाण	...	६
श्रीमाधवाचार्य के काल की परिस्थिति	. .	९
दूसरा कारण	...	१०
एक और कठिनता	.	१६
वर्त्तमान युग के व्याख्याकार	...	१८
पाश्चात्य विद्वान् और वेद	...	१९
विकासवाद और हासवाद	...	२०
वेद शब्द का अर्थ	...	२७
वेद प्रादुर्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय	..	४५
वेदों की विशेषता	...	६५
वेद तीन या चार	.	७०
ब्राह्मण-भाग भी वेद हैं	..	७१
शाखा-भेद	...	७२
ज्ञान और विज्ञान	.	७४
मूलतत्त्व-निरूपण	..	७८
मूलतत्त्व की आनन्दरूपता	..	८१
पुरुष-विज्ञान	..	८६
अक्षर पुरुष	..	९०
क्षर पुरुष	...	९२
यज्ञ प्रक्रिया	...	९३
शुक्र की उत्पत्ति	.	९८
आधिभौतिक कलाएँ	..	१०२
पंचभूत-सिद्धान्त	.	१०७
गगा-तत्त्व	..	११०
पृथ्वी-तत्त्व	.	११४
आकाश-तत्त्व	...	११५
षोडशी प्रजापति	.	११६
ईश्वर और जीव	.	११९

ज्ञान की निश्चयता	.	१२१
आध्यात्मिक क्षर कलाएँ (व्यावहारिक जीवात्मा)	..	१२६
सूक्ष्म प्रपञ्च की उत्पत्ति		१३१
ऋषि	.	१३४
पितृविचार		१३६
प्रेत-पितृ-निरूपण (मृत्यु के अनन्तर की दशा)	.	१३८
उत्क्रमण या शरीर-त्याग	..	१४३
सवत्सराग्नि	..	१४५
पितृलोक-गति	.	१४८
आकाश-प्रदेश का विवरण	..	१४९
लोकान्तर जानेवाला शरीर	.	१५१
पृथ्वी पर लौटने का मार्ग	...	१५३
श्राद्ध की उपपत्ति	...	१५४
दिन-रात्रि का विवरण	..	१६०
मन्त्रभाग में गति विवरण	..	१६१
देव निरूपण	..	१६३
अग्निदेव	..	१६४
वायुदेव	..	१७१
सूर्य-विज्ञान	...	१७१
मनोविज्ञान	..	१८३
तारा-विज्ञान	..	१८४
वेदों में वैज्ञानिक शिल्प	..	१८५
भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सीमा	...	१८७
भारतीय सस्कृति का मूल	..	१९३
भारतीय सस्कृति		१९४
वर्ण-व्यवस्था	..	२०२
आश्रम-व्यवस्था	...	२०८
आर्य सस्कृति के संस्कार	.	२०९
आचार्यों की वैज्ञानिकता	...	२१४
व्रत, उपवास आदि	...	२१७
पर्व और उत्सव	...	२१९
उपाकर्म	...	२१९
नवरात्र और विजयादशमी	...	२१९
दीपावली	...	२२३
होलिका	...	२२४
भक्ति और उपासना	...	२२८

अवतार का विवरण		२३२
श्रीकृष्णावतार		२३५
श्रीराधा और श्रीकृष्ण	.	२४५
शिवोपासना	.	२४८
अक्षर रूप में शिवोपासना	.	२५०
धर रूप में शिवोपासना	.	२५१
विश्वचर ईश्वर और शिवमूर्ति	...	२५३
सर्प	..	२५६
श्वेतमूर्ति	.	२५७
विभूति		२५८
शिव और शक्ति	..	२५८
शिव और विष्णु	.	२६०
मनुष्याकारधारी शिव	...	२६३
भारतीय सत्कृति पर आक्षेप का समाधान	..	२६३
अधिकार-भेद	..	२६७
उपसंहार	..	२७०
परिशिष्ट	..	२७१
शब्दानुक्रमणी		२७७

प्राक्थन

प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती

वितन्वताजस्य सती स्मृति हृदि ।

स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यत

स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम् ॥

—श्रीमद्रागवते

वैदिक विज्ञान-जैसे गम्भीर दुःख विषय पर मुझ-जैसे अल्पज्ञ सामान्य पुरुष का कुछ कहने का साहस करना यद्यपि एक प्रकार का अपराध है। निरुक्तकार भगवान् यास्क ने स्पष्ट कहा है कि 'नैतेषु प्रत्यक्षमन्त्रनृपेस्तपस्ते वा'। ऋषि और तपस्वी के आन्तरिक मन्त्रार्थ का कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, अर्थात् मन्त्रार्थ का विशद ज्ञान ऋषि वा तपस्वी को ही हो सकता है, हम-जैसे सामान्य मनुष्य उन पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते, किन्तु इस प्रकार के अधिकारी मिलना इस युग में दुर्लभ हो रहा है। तब, यदि हम सब निराश होकर चुप ही रहें, तो ऋषियों की इस सम्पत्ति के लोप हो जाने का ही भय है। इसी विचार से 'पतन्ति खे ह्यात्मसम पतत्रिण', अर्थात् आकाश तो अनन्त है, उसका पार तो गरुड-जैसे भी नहीं पा सकते, किन्तु प्रत्येक पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार उसमें उड़ान कर ही लेता है—इस न्याय से अपनी अल्पशक्ति के अनुसार जितना कुछ बन सके, उतना कहने को प्रस्तुत होने का मैंने साहस किया है। उद्देश्य केवल इतना ही है कि भारतीय महर्षियों की इस अमूल्य अतुल सम्पत्ति का मनन इस युग में भी विशेष रूप से विद्वानों में प्रसृत हो,—जिससे इस जगद्गुरु देश की सत्ता में प्रतिष्ठा बनी रह सके। इसके अतिरिक्त स्वयं अल्पज्ञ होने पर भी 'गुरु-कृपा' का एक आधार भी मुझे है। मेरे परम आराध्य गुरु जयपुर-राजसभा के प्रधान पण्डित, इसी विहार-प्रान्त के अन्तर्गत मियिला के रत्न विद्या-वाचस्पति श्रीमद्युसूदनजी ओझा वैदिक विषय के एक गम्भीर विद्वान् हुए हैं। उन्होंने सत्ता के सब व्यवहारों और मुखों का परित्याग कर अपनी सब आयु केवल वैदिक विषयों के अन्वेषण (रिसर्च) में लगाई थी। और, सन्देह है कि कई जगत्विद्यों से वेद पर इतना श्रम करनेवाला और उससे इतना विज्ञान प्राप्त कर लेनेवाला कोई अन्य विद्वान् हुआ है या नहीं। आपने वेदों के मन्त्र ब्राह्मणात्मक भाग पर कोई टीका वा भाष्य नहीं लिखा, किन्तु अपने जगत्विदिक ग्रन्थों में वेद के अर्थ में सहायता देने-वाली उन परिभाषाओं को विशद करने का सफल प्रयत्न किया, जो बहुत काल से छुट हो चुकी थी। और जिनके बिना वेद का अर्थ जानना एक अत्यन्त कठिन कार्य था। वेद के विशेष शब्द कितना गम्भीर अर्थ अपने उदर में रखते हैं—यह जानना ही अत्यन्त कठिन हो रहा है, इसी के निरूपण में आपका आजीवन प्रयास रहा। अस्तु, उनसे

पढकर वा उनके विस्तृत ग्रन्थो को देखकर जो कुछ ज्ञान की कणिका मुझे प्राप्त हुई है, उसका ही थोडा-सा अग आप लोगो के सम्मुख रखना चाहता हूँ। आशा है, विषय की गम्भीरता और उपयोगिता देखते हुए आप सज्जन मुझे क्षमा कर इधर ध्यान देने का कष्ट करेंगे।

भारतवासियों की वेद पर 'यत्परा नास्ति' श्रद्धा है, वे ससार में सबसे बढकर वेद का गौरव मानते हैं, और वेद के नाम पर प्राणो तक को निछावर कर डालने के लिए हर घडी तैयार रहते हैं, किन्तु उस ओर दृष्टि देकर विचार करनेवाले बहुत अल्प हैं। भारत के निवासी पुराने समय के जो बडे मुनि, महान् आचार्य वा पुरन्धर विद्वान्, जो १२, २४ वा ३६ वर्ष तक ब्रह्मचर्य रखकर वेद ही पढते रहते थे, वे इससे क्या सीखते होंगे, किस ज्ञान के लिए वे अपनी आयु इसमें खपा देते थे? जितना कुछ आज हम वेद में समझते हैं, वह तो उन कुशाग्र-बुद्धि महानुभावो के लिए दिनो में सीख लेने की बात थी।

आज जिसे विज्ञान कहा गया है, जिस ज्ञान के बिना आज कोई भी मनुष्य शिक्षित कहलाकर प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। वह विद्या भी वेद में है या नहीं? इसका पूरा अन्वेषण करने में बहुत अल्प प्रवृत्ति देखी जाती है।

ऐसा कोई प्रकार अभी तक नहीं निकला था, जिससे क्रमिक वेद का विज्ञान जाना जा सके। यो कहिए कि वेद का विज्ञान जिस ताले में बन्द है, उसकी चाभी अभी हमें नहीं मिली थी। हम अभी तक केवल बाहर से ही बिखरे हुए रत्नो की कान्ति देख रहे थे। मेरा विश्वास है कि ऐसी खोज से जगत् का बडा भारी लाभ होगा। वर्त्तमान साइंस की बहुत-सी थिउरियों जो अभी तक अटकल पर हैं, या अस्थिर हैं, वे इस खोज से किसी सुस्थिर रूप में दृढ हो जायँगी। बहुत-से सिद्धान्त पलट जायेंगे और बहुत-से नये विदित हो जायँगे। इस प्रकार, वैज्ञानिको की बहुत-सी असुविधाएँ दूर हो सकती हैं।

वेद के अन्वेषण में कठिनाइयाँ

इस समय बडी अडचन यह है कि वैदिक भाषा और प्रक्रिया दोनो से हम इतनी दूर जा गिरे हैं कि वेद का वास्तविक पूरा अर्थ समझना ही हमारे लिए कठिन हो गया है। आज जो वैदिक विद्वान् कहलाते हैं, वे मूलपाठ, उसके पद, क्रम, जटा, घन वा अधिक-से-अधिक उन मन्त्रो से होनेवाले कर्मकाण्ड के ज्ञान तक ही अपने कर्त्तव्य की सीमा मान लेते हैं। अर्थ-ज्ञान के लिए भी उनमें से बहुत कम सज्जन परिश्रम करते हैं, अन्वेषण की ओर तो कभी स्वप्न में भी उनकी दृष्टि नहीं जाती। अज्ञ, उपाङ्ग वा विभिन्न दर्शन-शास्त्रादि के प्रौढ ज्ञान के बिना वे अन्वेषण कर भी नहीं सकते। अन्यान्य शास्त्रो के जो प्रौढ विद्वान् हैं, वे वेद की ओर कभी दृष्टिपात नहीं करना चाहते। वे मानो यह बात ही भूल गये हैं कि अन्य शास्त्रो की प्रवृत्ति केवल वेदार्थ समझाने के लिए ही आरम्भ हुई है। व्याकरण के महाभाग्यकार भगवान् पतञ्जलि ने व्याकरण का मुख्य पहिला प्रयोजन यही बताया है कि 'रक्षार्थं वेदानामव्येयं व्याकरणम्', वेदो की रक्षा के लिए व्याकरण पढना चाहिए, किन्तु आज व्याकरण में अपना पूरा जन्म लगा देनेवाले भी

वेदों का कभी स्वप्न में भी नाम नहीं लेते। न्याय के प्रधानाचार्य गौतम, कणाद ने भी वेद-प्रामाण्य के समर्थन में पूरा बल लगाया है। वेद-प्रामाण्य का समर्थन ही अपना मुख्य लक्ष्य माना है, किन्तु वर्तमान में न्याय एक प्रधान शास्त्र समझकर ही पढ़ा जाता है। तब, वेद का अन्वेषण करे कौन ? इसमें वेद-विज्ञान के अन्वेषण की चर्चा ही आज भारत में बहुत कम है। स्वतंत्र भारतमें सस्कृति की अन्वेषण-संस्थाएँ भी कई जगह खुल रही हैं, किन्तु कुछ पुराने ग्रन्थों का सम्पादन कर देना—उन ग्रन्थों के समय आदि का कुछ विचार कर देना—यस इसमें ही वे अपना कर्तव्य पूर्ण मान रहे हैं। वेद-पुराण के अन्वेषण करने की प्रवृत्तिवाले विद्वान् ही उन्हें नहीं मिलते।

हममें सन्देह नहीं कि अर्थ समझने-समझाने की सात-आठ शताब्दी पूर्व से आज तक बहुत-सी चेष्टाएँ बड़े-बड़े महानुभावों ने की हैं, और आर्य-जाति उनकी उदारता और कृपा का ऋण कभी नहीं चुका सकती, किन्तु यह कहना ही पड़ता है कि पूर्ण सफलता नहीं मिली।

सफलता न मिलने के प्रधान कारण

प्राचीन समय के सब वेदों में सर्वमान्य भाग्य मुहूर्तिनामधेय परम श्रद्धास्पद श्रीसायण, माश्रवाचार्य के हैं। ये (सायण और माधव) दोनों भ्राता थे, और विजयानगरम् के बुद्ध महाराज के अमात्य थे। इनके तीसरे भ्राता मोगनाथ नाम के और थे, उन्होंने भी भाग्य लिखने में सहायता दी है। इन महानुभावों के भाष्य इतने सरल हैं कि सस्कृत-भाषा का साधारण ज्ञान रखनेवाला भी इनमें मन्त्रों और ब्राह्मणों का अर्थ समझ सकता है। किन्तु, इन महानुभावों ने मन्त्र और ब्राह्मणों के अनुष्ठेय यज्ञों से सम्बन्ध रखनेवाले अर्थ ही अपने भाष्य में लिखे हैं, इससे विज्ञान का अन्वेषण करनेवालों का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इसका एक कारण तो उन्होंने ही स्पष्ट लिख दिया है कि उस काल के विज्ञान-विरहित मनुष्यों को वैज्ञानिक विषय समझाने में बहुत विस्तार करना पड़ता, और भाष्य कठिन भी हो जाता। ऋग्वेद-संहिता के प्रथम मन्त्र का विस्तृत व्याख्यान कर आगे उन्होंने लिखा है कि 'वेदविषयक उपोद्घात और प्रथम मन्त्र का व्याख्यान हमने विस्तार में लिख दिया। इससे पाठक वेद की गम्भीरता समझ लेंगे—अब आगे संक्षेप से ही सन्मार्थ करेंगे।' इसमें सन्देह नहीं कि यज्ञ विज्ञानमय है। वेद में सम्पूर्ण विज्ञान यज्ञ के रूप में ही प्रकट किया गया है। जैसे, बिना विज्ञानशाला (लेक्टोरेटरीज) की सहायता के केवल पुस्तकों से वर्तमान साइंस की शिक्षा नहीं हो सकती, वैसे यज्ञशालाओं के बिना वैदिक विज्ञान की शिक्षा भी अपूर्ण रहती है। वेद-मन्त्रों में जो विज्ञान के सिद्धान्त विदित होते हैं, उनका प्रयोग यज्ञों के द्वारा ही हो सकता है। किन्तु, यज्ञ दो प्रकार का है। एक प्राकृत यज्ञ, जो प्रकृति में सतत होता रहता है, और दूसरा अनुष्ठेय वा कृत्रिम यज्ञ, जो मनुष्यों द्वारा किया जाता है। प्राकृत यज्ञ ही इस कृत्रिम यज्ञ का आधार है। प्राकृत यज्ञ में विज्ञान के सिद्धान्त बताये जाते हैं और अनुष्ठेय यज्ञों में उनका प्रयोग बताया जाता है। इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध जानना ही मुख्य वैदिक विज्ञान है। इस सम्बन्ध का संकेत

वेदों में ही विशेषकर वेद के ब्राह्मण-भाग में स्थान-स्थान पर बताया गया है। इसका एक सुस्पष्ट निदर्शन द्रष्टव्य है—

यज्ञों की वैज्ञानिकता का प्रमाण

शतपथ-ब्राह्मण के ग्यारहवें काण्ड के चतुर्थ अध्याय के आरम्भ में ही एक आख्यायिका है कि कुरु-पांचाल (देहली और कन्नौज के मध्य) देश से अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि किसी यज्ञ में निमग्नित कर उड़ीच्य देश में बुलाये गये। 'उड़ीच्य, पश्चिमोत्तर.'—इस वाक्य के अनुसार कश्मीर-प्रान्त ही उड़ीच्य हो, ऐसा अनुमानतः प्रतीत होता है। उद्दालक ऋषि के सामने निष्क नाम का मुवर्ण का सिद्धा रखा गया, जो यज्ञ में मुख्य विद्वानों को भेंट दिया जाता था। इस पर उड़ीच्य देश के ब्राह्मणों ने विचार किया कि यह कुरु-पांचाल देश का विद्वान् स्वयं ब्रह्मा और ब्रह्मा का पुत्र है (यज्ञ का प्रधान निरीक्षक ब्रह्मा कहलाता है)। यह यदि अपनी वक्षिणा में से आया द्रव्य हमें न दे, तो क्या हम इसे वाद (शास्त्र-विचार) के लिए आह्वान कर सकते हैं? परन्तु, इस प्रकार वाद के लिए चुनौती तभी दी जा सकती है, जब हमारी ओर भी कोई इस कोटि का विद्वान् हो। ऐसा प्रगल्भ विद्वान् हमारी ओर से कौन हो सकता है? अन्त में, विचार से यह स्थिर हुआ कि गौनक गोत्र के 'स्वैदायन' इस कार्य के उपयुक्त हैं। स्वैदायन से प्रार्थना की गई कि महाशय! आप को अग्रसर बनाकर हम उद्दालक से शास्त्र-विचार करना चाहते हैं। इस पर स्वैदायन ने उन्हें आश्वासन दिया, और कहा कि मैं पहिले इनकी विद्वत्ता का पता लगा लेता हूँ कि वेद-शास्त्र में इनकी गति कहाँ तक है? उसके उपरान्त वाद के लिए प्रस्तुत हो सकूँगा। इतना कहकर स्वैदायन यज्ञ-मण्डप की ओर गये। परस्पर परिचय के अनन्तर स्वैदायन ने प्रश्न करना आरम्भ किया—

(१) गौतमपुत्र! यह पुरुष यज्ञ में वरण किया जाकर सवारी पर चढ़कर दूर देश में जा सकता है, जो दर्शपौर्णमास के आठ पूर्व के आज्य-भाग, पाँच मध्य के हविर्भाग, छह प्रजापति देवता के भाग और आठ अन्त के आज्य-भाग (यह सब कर्मकाण्ड का विषय है) जानता हो।

(२) गौतमपुत्र! वही पुरुष यज्ञ में वृत होकर जाने का अधिकारी है, जो दर्शपौर्णमास यज्ञ की उस क्रिया को जानता हो, जिसके कारण सम्पूर्ण प्रजा बिना दाँत की पैदा होती है? जिसके कारण फिर सबके दाँत पैदा होते हैं? जिस कारण वे टूटकर फिर जम जाते हैं, और जिस कारण अन्तिम अवस्था में फिर सब दाँत गिर जाते हैं? क्यों पहिले नीचे दाँत पैदा होते हैं, फिर ऊपर? क्यों नीचे के छोटे होते हैं और ऊपर के विस्तृत? क्यों दग्राएँ (दाढ़) फैली हुई होती हैं और जबड़े समान? इन बातों का दर्शपौर्णमास यज्ञ में सम्बन्ध जानना यज्ञ करानेवाले के लिए आवश्यक है।

(३) गौतमपुत्र! यज्ञ में वरण पाने का उही अधिकारी है, जो दर्शपौर्णमास यज्ञ की उस क्रिया को जानता है, जिससे सब प्रजा लोमश (रोमवाली) पैदा होती है।

जिस कारण आगे सवके म्मश्रु (दादी-मूँछ) भी निकलते हैं, जिम कारण पहिले गिर के केश ध्वेत होते हैं, और अन्तिम अवस्था मे सभी बाल पक जाते हैं ।

(४) यज्ञ करानेवाले को यह ज्ञान भी आवश्यक है कि दर्शपोर्णमास यज्ञ की किस क्रिया के अनुसार कुमार अवस्था तक वीर्य-सेचन की शक्ति नहीं होती ? क्यों युवावस्था मे हो जाती है ? और, अन्तिम अवस्था मे वह शक्ति क्यों नष्ट हो जाती है ?

(५) तेजोमय पक्षवाली यज्ञमान को स्वर्ग पहुँचाती हुई गायत्री को जो जान लेता है, वही यज्ञ मे पूज्य होकर जा सकता है । अवश्य ही आप इन सव बातों को जानते ही होंगे ।

उद्दालक ने यह सव प्रश्न सुनते ही अपना निष्क स्वैदायन के सामने रख दिया । उन्होंने निवेदन किया कि 'स्वैदायन ! आप अधिक वेदवक्ता है । मुवर्ण जाननेवाले को ही मुवर्ण मिलना चाहिए ।' इस पर स्वैदायन उद्दालक से गले मिलकर यज्ञ-भूमि से चले गये । ब्राह्मणों ने पूछा—'स्वैदायन ! गौतम-पुत्र को आपने देखा ? कैसा है ?'

स्वैदायन ने उत्तर दिया—'जैसा ब्रह्मा का पुत्र और ब्रह्मा होना चाहिए, वैसा ही उद्दालक है । इसके सामने जो खड़ा होगा, उसका सिर अवश्य झुकेंगा ।' ब्राह्मण लोग निराश होकर घर चले गये । (उनका विनय और विज्ञान-पिपासा देखकर ही स्वैदायन ने यह सिद्धान्त स्थिर किया—वार्त्तालाप मे अन्य प्रकार से भी सम्भव है—उनका पाण्डित्य समझा हो । वह सव विषय यहाँ लिखा नहीं गया ।) अस्तु,

कुछ समय के अनन्तर उद्दालक समिधा हाथ मे लेकर स्वैदायन के समीप पहुँचे और कहा—'भगवन् ! मे आपका शिष्य होकर आया हूँ ।' स्वैदायन ने पूछा—'आप मुझसे किस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं ?' उद्दालक कहने लगे—'जो प्रश्न आपने यज्ञ-मण्डप मे मुझसे किये थे, उन्हीं का उत्तर समझा दीजिए ।' स्वैदायन कहने लगे—'उद्दालक ! मुझे आपके शिष्यत्व को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं । मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर समझा देता हूँ ।'

(१) दो आधार, पाँच प्रयाज, एक अग्नि देवता का आज्य-भाग—ये दर्शपोर्ण-मास मे पहिले के आठ आज्य-भाग हैं । सोम देवता का आज्य-भाग, आग्नेय, पुरो-डाग, स्विष्टकृत और अग्नि की आहुति—ये पाँच मय्य के हविर्भाग हैं । प्राग्विन्न, इडा, आग्नीव्र, आधान ब्रह्मभाग, यज्ञमान-भाग और अन्वाहार्य ये छह प्रजापति देवता के लिए हैं । तीन अनुयाज, चार पत्नी-सयाज, और समष्टि यज्ञ (ये सव यज्ञ के विशेष पदार्थ हैं) ये आठ अन्त के आज्य-भाग हैं ।

(२) प्रयाजों मे पुरोनुवाक्या (आहुति से पहिले पढ़ने की ऋचा) नहीं होती, इसी से सारी प्रजा विना दाँत की पैदा होती है । आगे हवि मे पुरोनुवाक्या होती है, इससे सवके दाँत निकल आते हैं । फिर अनुयाजों मे पुरोनुवाक्या नहीं होती, इससे प्रजा-जनो के दाँत टूट जाते हैं । फिर, पत्नी-सयाज मे अनुवाक्या होती है, इससे सभी के दाँत फिर दृढ होते हैं । अन्त के समष्टि यज्ञ मे फिर पुरोनुवाक्या नहीं होती, इसलिए अन्तिम अवस्था मे सभी-के-सभी दाँत टूट जाते हैं । पहिले अनुवाक्या पढ़कर फिर याज्या (होम-

समय की ऋचा) से यजन किया जाता है, अतः सबके दाँत पहिले नीचे निकलते हैं, बाद में ऊपर। अनुवाक्या गायत्री है और याज्या त्रिष्टुप्, त्रिष्टुप् से गायत्री छोटी होती है, इसलिए नीचे के दाँत ऊपरवाले में छोटे होते हैं। मन्त्रों में पहले आधार किया जाता है, इससे दृष्टा पैली हुई होती है। सयाज में ममानच्छन्द रहते हैं, इसमें जवटे समान रहते हैं।

(३) क्योंकि यज्ञ में कुशाओ का आस्तरण (विछोना) किया जाता है, इसी कारण सारी प्रजा लोमयुक्त पैदा होती है। कुशामुष्टि का फिर भी स्तरण होता है, इससे प्रजाओ के श्मश्रु-रूप केश पैदा होते हैं। पहिले केवल कुशामुष्टि पर प्रहरण किया जाता है, इसलिए गिर के केश ही पहिले श्वेत होते हैं। आगे सारी कुशाओ पर प्रहरण होता है, इसलिए चरम अवस्था में सभी केश श्वेत हो जाते हैं।

(४) प्रयाजो में हवि-रूप से केवल आज्य (घृत) का उपयोग होता है, इसलिए कुमार के वीर्य में गर्भ उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि घृत जल के ही समान है। दर्शपौर्णमास के मध्य में दधि और पुरोडाश से भी हवन होता है, इसलिए मध्यम अवस्था में (दृढवीर्य द्वारा) गर्भ-जनन-शक्ति हो जाती है, क्योंकि दधि घन-रूप द्रव्य है। आगे अनुयाज में भी घृत ही हवि रहता है। इससे अन्तिम अवस्था में फिर वीर्य में जनन-शक्ति नहीं रहती।

(५) यज्ञ की वेदी ही गायत्री है, पूर्व के आठ आज्य-भाग उसके दक्षिण पक्ष हैं। अन्त के आठ आज्य उसके वाम पक्ष हैं। यही तेजोमय पक्षवाली गायत्री यज्ञमान को स्वर्ग-लोक ले जाती है।

उद्दालक स्वैदायन से यह विद्या जानकर परितुष्ट होते हैं। यही यह आख्यायिका समाप्त होती है।

यह एक उदाहरण-मात्र है। इस प्रकार अतः आख्यायिकाएँ यज्ञ के सम्बन्ध में ब्राह्मणों में मिलती हैं।

इस प्रकार की आख्यायिकाओं पर मनन करनेवाले विचारकों को यह मानना पड़ेगा कि जिस दर्शपौर्णमास यज्ञ का बालक के दाँत निकलने, केश-लोम उत्पन्न होने आदि से सम्बन्ध बताया गया है, वह अवश्य ही प्रकृति का वैज्ञानिक दर्शपौर्णमास है, जिसके आधार पर कर्मकाण्ड की विधियों के अनुसार कृत्रिम दर्शपौर्णमास याग होता है। जो वेद के श्रद्धालु यथाश्रुत ग्राही सज्जन इस बात का हठ करें कि हमारे दर्शपौर्णमास की आहुतियों के कारण ही बालको के दन्त, केश आदि की उत्पत्ति होती है, उन्हें सोचना होगा कि दर्शपौर्णमास के नाम से भी सर्वथा अनभिज्ञ ग्रामीण, यवन, अंगरेज आदि सभी के बालको के दन्त, लोमादि की उत्पत्ति होती है। कुछ ब्राह्मणों की आहुतियों का समस्त विश्व पर प्रभाव पड़ जाता है। ऐसा मानना तो वेदों का उपहास कराने का कारण बनना है। स्वच्छन्द कल्पनाओं से इन प्रसंगों का कुछ भी अर्थ-निर्धारण कर लेना विचारकों की दृष्टि में स्वारसिक नहीं हो सकता। इससे यही मानना उचित होगा कि प्रकृति के द्वारा इस प्रकार के अनेक यज्ञ हो रहे हैं, उनमें से ही एक प्रकार के यज्ञ को उपर्युक्त आख्यायिका में दर्शपौर्णमास कहा गया है। उसी यज्ञ का

यह सब फल वताया गया है। प्रकृति की इस वैज्ञानिक यज्ञ-प्रक्रिया को उस समय भी सब लोग नहीं जानते थे। कोई-कोई उसके रहस्यवेत्ता होते थे। उसी प्रकार के द्रष्टाओं ने कही-कही उन रहस्यों के सन्नेत किये हैं।

वैदिक यज्ञ-विषय की व्याख्या आगे यथावसर की जायगी। यहाँ थोड़े में उस विषय को कहना उपयुक्त न होगा। यहाँ तो इस प्रश्न का समाधान ही प्रासंगिक है कि इस प्रकार के वैज्ञानिक अर्थों की परम्परा अब तक अक्षुण्ण क्यों नहीं रही।

अस्तु, मेरा वक्तव्य यही है कि वेद के प्राचीन व्याख्याकार श्रीमाधवाचार्य ने यज्ञ-विषयक वेद-भागों के वे ही अर्थ अपने भाष्य में प्रकट किये हैं, जो मनुष्य-समाज द्वारा विधिपूर्वक अनुष्ठेय कृत्रिम यज्ञों से सम्बन्ध रखते हैं। उन्होंने प्रकृति के द्वारा सतत प्रवर्तित यज्ञ का तो यत्र-तत्र ही सन्नेत किया है।

श्रीमाधवाचार्य के काल की परिस्थिति

इसका दोष श्रीमाधवाचार्य को कुछ नहीं दिया जा सकता। उनके समय जो परिस्थितियाँ थीं, उन पर दृष्टि डालने पर स्पष्ट भासित होता है कि उन्होंने जो कुछ किया, बहुत किया। उन परिस्थितियों में इससे अधिक कार्य वे कर ही कैसे सकते थे। 'निदान', 'रहस्य' आदि वेद के मुख्य-मुख्य अङ्ग—जिनसे वैज्ञानिक अर्थ-ज्ञान में सहायता मिलती, वे व्याख्याकार माधवाचार्य के समय तक लुप्त हो चुके थे। वेदाङ्गों के इस प्रकार लुप्त होने का कारण तत्कालीन भारतीय समाज की वेदों के प्रति कटु उपेक्षा थी। वह उपेक्षा बौद्धों के सघर्ष से उत्पन्न हुई थी। उस आक्रमण के अनन्तर वैदिक कर्मकाण्ड अत्यन्त गिथिल हो गया था। यज्ञों का असली विज्ञान लोग भूल गये। साथ ही भारतीय वायुमण्डल में विज्ञान की कहीं कुछ भी चर्चा नहीं रह गई थी। उन दिनों यहाँ विज्ञान की बातें जादू-टोना समझी जाने लगी थीं। इस प्रकार के विज्ञान-शून्य समय में व्याख्याकार की दृष्टि वैज्ञानिक अर्थों की ओर कैसे जाती? उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती?

आज जब सम्पूर्ण ससार में विज्ञान की पर्याप्त चर्चा है, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति जब विज्ञान का कुछ-न-कुछ परिचय अवश्य रखता है और उसके कार्यों के हानि-लाभों का अनुभव करता है, तब उस दृष्टि से देखने पर विज्ञान की बातें भी सभी जगह कुछ-न-कुछ दिखाई देने लगी हैं। परन्तु, जिस समय ससार में कहीं विज्ञान की चर्चा ही न हो, तो विज्ञान प्रकट करनेवाले अथवा पर ध्यान जाना अति कठिन है।

इस कथन से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि आधुनिक विज्ञान के जो सिद्धान्त और प्रक्रियाएँ हैं, वे ही वेद में ज्यों-की-त्यों मिलती हैं अथवा उसे ही वेदों से किसी तरह निकाल लेना चाहिए, चाहे वे वैदिक विज्ञान के अनुकूल हों, चाहे प्रतिकूल। नहीं। नहीं!! हमारा आशय यह है कि वर्तमान में विज्ञान की चर्चा ने जब समस्त विश्व को आलोटित कर दिया, तब सभी की दृष्टि विज्ञानमय हो गई है। इसलिए, सावधान अध्ययन से वर्तमान विज्ञान की अनुकूलता रखनेवाले या प्रतिकूलता रखनेवाले सिद्धान्त दृष्टि में आ सकते हैं। उस समय इधर दृष्टि ही कैसे जाती?

इस दिशा में प्रयास करनेवालों के लिए एक कटिनाई और है कि वेद अनेक प्रकार के गम्भीर ज्ञान का भाण्डार है। विज्ञान की उच्च पुस्तक है, आरम्भिक पुस्तक नहीं। वैज्ञानिक सिद्धान्तों के भी वेदों में सूत्ररूप में संकेत-मात्र उपलब्ध होते हैं। उन वैज्ञानिक सिद्धान्तों का कोई क्रमबद्ध स्पष्टीकरण नहीं है। अनुप्रेय यज्ञ से सम्बन्ध रखने के कारण प्रसंगानुसार किसी सिद्धान्त का एक स्थान में विचार हुआ है, तो उससे सम्बद्ध दूसरे सिद्धान्त का बहुत दूर किसी अन्य स्थल पर दर्शन होता है। इसलिए इस प्रक्रिया पर सहसा दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। कल्पना कीजिए कि आज यदि साइंस की समस्त प्रारम्भिक पुस्तके लुप्त हो जायें और केवल उच्च सिद्धान्तों की पुस्तके शेष रह जायें, तो साइंस की भी यही दशा हो जाय। बाहरी सहायता के अभाव में उसे कोई न समझ सके। तात्पर्य यह है कि वैदिक विज्ञान के रहस्यों और सिद्धान्तों को अवगत करने के लिए बाहरी विज्ञान की आवश्यकता है। यह सुविधा भाष्यकारों को प्रायः नहीं थी।

दूसरा कारण

मीमांसा-सूत्रकार जैमिनि ने उक्त प्रकार की आख्यायिका, उपपत्ति आदि के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है कि—

ज्ञान का उपयोग क्रिया में है। किसी भी बात को जानकर यदि हम उस ज्ञान के अनुकूल अथवा उसके अनुसार कोई कार्य न करें, तो इस प्रकार का ज्ञान निरर्थक है। क्रिया का विधान केवल विधि-वाक्य ही करते हैं। फिर, उनसे सम्बन्ध रखनेवाली स्तुति, उपपत्ति इत्यादि बतलाने का प्रयत्न श्रुतियों में क्यों किया गया? उनसे तो किसी स्वतन्त्र क्रिया का सम्पादन होगा नहीं। तब, उनके जानने का फल ही क्या? ऐसी निरर्थक बातें कहने से तो वेदों के प्रामाण्य पर भी आघात आयगा। इस प्रश्न को उपस्थित करने के उपरान्त स्वयं ही महर्षि जैमिनि समाधान करते हैं कि वेदों में जो स्तुति, उपपत्ति आदि हैं, वे स्वतन्त्र रूप से नहीं हैं, विधि-वाक्यों के साथ ही उनका सम्बन्ध है। उन्हीं क्रियाओं की स्तुति करने या उनकी उपपत्ति बताने से उन क्रियाओं के सम्पादनार्थ मानव-प्रवृत्ति जागरित होती है। इसलिए, विधि-वाक्य प्रधान हैं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले उपपत्ति, स्तुति आदि के वाक्य उनके पोषक-मात्र हैं। इस प्रकार के वाक्यों को महर्षि जैमिनि ने 'अर्थवाद' कहा है और उनका तात्पर्य विधि के गुण प्रकट करने में है, इस बात को 'गुणवादस्तु' आदि सूत्रों में व्यक्त किया है।

यह सूत्रकार का विचार बहुत उपयुक्त था। विशेष कर कर्ममीमांसा-शास्त्र का विचार करनेवाले, कर्म को ही प्रधान बतलानेवाले आचार्य का तो यह कथन सर्वथा अभिनन्दनीय था। जो कुछ जानते हों, तदनुकूल क्रिया भी करें। क्रिया से ही पुरुषार्थ का लाभ होगा, ये बातें उनके सिद्धान्त की पर्याप्त घोषणा करती हैं। परन्तु, उनके अनुयायी आगे के ग्रन्थकारों ने उन उपपत्ति आदि के वाक्यों को सर्वथा निरर्थक ही कह डाला, उनका अपने प्रतिपाद्य अर्थ में तात्पर्य ही नहीं, उन पर मनन या विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, वे सर्वथा उपेक्षणीय हैं, यह बवण्डर उन्होंने उठाया।

ये अर्थवाद-वाक्य वेदबोधित इतिकर्तव्यताओं (विधियों) के गुण किस प्रकार बतलाते हैं, इसका विवरण इन ग्रन्थकारों ने कहीं भी नहीं दिया। उपपत्ति समझने की शक्ति से शून्य होते हुए और बौद्धों के सघर्ष से व्याकुल जनता के तत्कालीन भारत में उनकी बात मान ली गई। इस प्रकार, प्राकृत यज्ञ का विज्ञान विलुप्तप्राय ही हो गया। स्मरण रहे कि उत्तरमीमांसा के सत्रकार भगवान् व्यास, उनके भाग्यकार श्रीशंकराचार्य आदि आचार्यों और उनके अनुयायी ग्रन्थकारों ने ज्ञान को स्वतन्त्र पुरुषार्थ-साधक मानकर पूर्वमीमांसा के उक्त सिद्धान्त का समूल खण्डन किया। किन्तु ये सब यत्न उपनिषदों के वाक्यों का मर्म प्रकाशित करने तक ही रहे। ब्राह्मणों और आरण्यकों में प्रतिपादित यज्ञ की उपपत्ति बतानेवाले प्राकृत यज्ञों के बोधक प्रकरणों का रहस्योद्घाटन उस काल में भी न हो सका। डबर वित्तृत श्रुतियों से यज्ञ की इतिकर्तव्यता समझ लेने में बहुत कठिनता का अनुभव कर मुनिगो और आचार्यों ने सुगमता के लिए श्रौतसूत्र, पद्धति आदि का निर्माण किया। उनमें मानव-साध्य यज्ञ की इतिकर्तव्यता ही क्रम से लिखी गई। उसी आधार पर वेद-भाग्यकार भी चले, इसलिए भी वैज्ञानिक तत्त्व-विचार पर उनकी दृष्टि पूर्ण रूप से न जा सकी—यहाँ इस प्रकार के दो-एक उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा कि समयानुसार वैज्ञानिक अर्थों पर उनका दृष्टिपात नहीं हुआ था। यह सर्वदा स्मरण रहे कि हमारा यह प्रयत्न श्रद्धास्पद परममान्य भाग्यकार श्रीसाधवाचार्य आदि की त्रुटि दिखाने के लिए कथमपि नहीं है। वेदार्थ-विचारकों के लिए वही आश्रय है। उनकी त्रुटि दिखाने का अक्षम्य अपराध करने को हम कदापि प्रस्तुत नहीं। यह तो तत्कालीन परिस्थिति को उपस्थित करने का ही प्रयास है।

तैत्तिरीय आरण्यक (१।८।४।६) में वर्तमान साइस-जगत् में सुप्रसिद्ध आकर्षण विज्ञान को प्रश्नोत्तरात्मक शैली में अत्यन्त स्पष्ट किया गया है—

अनवर्णे इमे भूमी इयं चासौ च रोदसी
 किं स्विदत्रान्तराभूतं येनेमे विधृते उमे ।
 विष्णुना विधृते भूमी इति वत्सस्य वेदना
 इरावती धेनुमती हि भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्या
 व्यष्टम्नाद्भोदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवी मभितो मयूखैः ॥ इति ।

इसका अर्थ है कि सुन्दर वर्णवाली ये दोनो भूमि—यह पृथ्वी और यह सूर्य का मण्डल जो अन्तरिक्ष-रूप समुद्र के दोनो तट हैं, इनके मध्य में ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसने इन दोनो को पकड़कर अपने-अपने स्थान में दृढ़ कर रखा है ? यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ। इसका उत्तर है कि इन दोनो को विष्णु ने धारण कर रखा है, ऐसा वत्स ऋषि का विज्ञान है। इसी विज्ञान को ऋग्वेद-सहिता का एक और मन्त्र (म० ७।९।३) प्रमाणित करता है। मन्त्र का अर्थ है कि हे द्यावापृथिवी ! तुम दोनो स्तुति करनेवाले और हवि देनेवाले यजमान के लिए अन्नयुक्त, गोयुक्त और सुन्दर तृणयुक्त बनो। मन्त्र के उत्तरार्ध में विष्णु को सम्बोधित कर कहा गया है कि हे विष्णु ! आपने इन दोनो को अपने स्थान पर दृढ़ कर रखा है, और अपने किरण-जाल से पृथ्वी को

धारण कर रखा है। यह मन्त्र कुछ पाठभेद से यजुःसंहिता (५।१९) में भी है। वेद के कोश निघण्टु में 'विष्णु' शब्द आदित्य के नामों में आता है। पुराणों में भी द्वादश आदित्यों में एक आदित्य का नाम विष्णु है। और 'अग्निर्देवानामवभो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा देवताः', ऐतरेय-ब्राह्मण के इस आरम्भ-वचन में भी विष्णु शब्द सूर्य का ही बोधक है। प्रकृत मन्त्र में मयूरों से पृथ्वी का धारण कहा गया है, इसलिए यहाँ का विष्णु शब्द ईश्वर का बोधक होने की अपेक्षा सूर्य अर्थ के बोधन में ही अनुकूलता रखता है। फलतः, सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को धारण किये हुए है, यह आकर्षण-विज्ञान यहाँ स्पष्ट हो जाता है। कुछ विद्वान् यहाँ 'इमे भूमि' का अर्थ पृथिवी और चन्द्रमा करते हैं। 'इरावती', 'धेनुमती', 'सूयवसिनी' ये विशेषण भी इनमें अच्छी तरह समन्वित होते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य पृथ्वी और चन्द्रमा का धारणकर्त्ता है, यह विज्ञान इस लेख से और भी स्पष्ट हो गया।

आरम्भिक में इसके आगे पुनः प्रश्नोत्तर द्वारा इस विज्ञान को और भी दृढ़ किया गया है—

किं तद् विष्णोर्वलमाहुः, का दीप्तिः, किं परायणम् ।

एको यद्धारयद्देवः रेजती सेदती उभे ॥ इति ।

उत्तर—

वाताद्दिष्णोर्वलमाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते ।

त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्दिष्णोरेकमुत्तमम् ॥

अर्थात्, इन दोनों प्रकाशमान लोको को धारण करनेवाले विष्णु में ऐसा कौन-सा बल है ? यह बल कहाँ से आया ? प्रसगात् दूसरा प्रश्न भी करते हैं कि विष्णु में यह तेज कहाँ से आता है। इस बल और दीप्ति का प्रभव क्या है ? और परायण (ल्य-स्थान) क्या है ? कहाँ से ये आते हैं और अन्त में कहाँ जाते हैं ?

द्वितीय मन्त्र में उत्तर देते हैं कि विष्णु का बल वात से आता है और इनकी दीप्ति, अर्थात् तेज अक्षर पुरुष से आता है। अपने तीन पदों से इन लोको का धारण करते हैं और एक पाद इनका ऊपर होता है। 'वात' शब्द वायु का वाचक माना जाता है। इससे सिद्ध है कि आदित्य का आकर्षण वायु के द्वारा होता है—वायु भी उसमें सहकारी है। वायु अन्तरिक्ष में व्याप्त रहनेवाला देवप्राण है। आकर्षण में उसकी भी सहकारिता बताई गई है। अथवा, वात शब्द से यहाँ वायु की सूक्ष्म अवस्था 'सोम' का भी ग्रहण हो सकता है। इसका तात्पर्य होगा कि विष्णु-आदित्य का बल सोम से है। अनेकत्र ब्राह्मणों में आता है कि 'सोमेनादित्या वलिनः' सोम से आदित्य बलवान् है, सोम ही आदित्य का बल है। अक्षर पुरुष का विस्तृत विवरण हम 'पुरुष-विज्ञान-प्रकरण' में करेंगे। उसकी पाँच कलाओं में से इन्द्र-रूप प्राण यहाँ सूर्य को प्रकाश देनेवाला बताया गया है। जैसा कि शतपथ-ब्राह्मण के १४वें काण्ड (बृहदारण्यक-उपनिषद्) में स्पष्ट है—

यथाग्निगर्भा पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी ।

अर्थात्, पृथ्वी में अग्नि प्राण व्याप्त है और युलोक मूर्यमण्डल में इन्द्र-प्राण व्याप्त है। वही इन्द्र-प्राण सूर्य की दीप्ति और प्रकाश का कारण है। सूर्य के लिए एक मन्त्र में कहा गया है कि—‘निवेगयन्नमृत मर्त्यं च’, मूर्त् अमृत और मर्त्य दोनों की व्यवस्था—अर्थात्, उन्हें अपने-अपने स्थान में स्थित करता है। मूर्य-मण्डल में ऊपर के लोक अमृत कहलाते हैं, क्योंकि उनका नैमित्तिक प्रत्यय में नाश नहीं होता। नीचे के लोक मर्त्य कहे जाते हैं। वही बात यहाँ आरण्यक में भी कही गई है कि तीन पादों से पृथ्वी आदि मर्त्यों का धारण किये हुए है और एक पाद से ऊपर के लोको का। नीचे के लोको पर सूर्य का प्रभाव त्रिगुण मात्रा में है और ऊपर के लोको पर केवल एक मात्रा में। दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि सूर्य की किरणें जो चारों ओर फैलती हैं, उनमें नीचे के और दोनों पादों के भाग पृथ्वी और चन्द्रमा का आकर्षण करते हैं और किरणों के ऊपर का भाग ऊपर के लोको में जाता है। यह प्रसंग देखने पर यहाँ विष्णु पद से सूर्य का ग्रहण स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ईश्वर-रूप विष्णु का बल किसी अन्य के सम्बन्ध से नहीं आता, वह स्वयं सर्वशक्तिमान् है। उसकी दीप्ति भी अक्षर से नहीं होती, वह तो स्वयं अक्षर है। इसके अतिरिक्त इस आरण्यक में आदि से इस प्रकरण में सूर्य, अग्नि, सवत्सराग्नि आदि के ही कार्यों का स्तुति-रूप विवरण चल रहा है—इससे भी यहाँ विष्णु-पद से सूर्य का ही ग्रहण समुचित प्राप्त होता है। इस प्रकार, आकर्षण-विज्ञान का सपरिकर वर्णन इस प्रकरण में मिल जाता है। साथ ही, इतनी विशेषता भी प्रतीत हो जाती है कि वर्तमान साइंस जहाँ केवल सूर्य का आकर्षण मानकर सन्तुष्ट हो गया, वहाँ वैदिक विज्ञान ने यहाँ तक बढ़ कर पता लगाया कि सूर्य-मण्डल के प्राण-स्वरूप वारह आदित्यों में से अन्तिम विष्णु-प्राण-रूप आदित्य में आकर्षण शक्ति है, वह सूर्य और पृथ्वी दोनों मण्डलों को अपने आकर्षण में रखता है। न केवल पृथ्वी, अपितु ऊपर के लोक भी उसके आकर्षण में है और इस आकर्षण में अन्तरिक्ष के देवता वायु का भी साहचर्य है, किन्तु यह दृष्टि आधुनिक विद्वानों की ही हो सकती है, जब कि सूर्य के आकर्षण में पृथ्वी का रहना आधुनिक विज्ञान ने घोषित कर दिया है। श्रीमाधवाचार्य के समय में ऐसी कोई चर्चा न होने से उनकी दृष्टि इस ओर नहीं गई। उन्होंने यहाँ के विष्णु शब्द को जगदीश्वर भगवान् का ही वाचक माना। यद्यपि अन्यत्र विष्णु शब्द से सूर्य का भी ग्रहण उन्होंने किया है। किन्तु, सूर्य-किरणों से पृथ्वी का धारण कैसे सम्भव है, इस गुत्थी को विज्ञान-चर्चा के अभाव में वे न सुलझा सके। पुराणों की वराहावतार-कथा में यह प्रसंग आया है कि वराह ने जब पृथ्वी को जल के बाहर निकालकर जल पर स्थापित किया, तब उसे डोंवाडोल चल-प्रचल होती देख बुलाचल पर्वतों के सन्निवेश से उसे स्थिर कर दिया। स्मरण रहे कि पुराणों की वराहावतार-कथा भी वैज्ञानिक है, जिसका विवरण श्रुति, पुराण सबके आधार पर ठीक घट जाता है। यहाँ उस विषय को उठाना अप्रासंगिक होगा। यहाँ इतना ही दिखाना है कि श्रीमाधवाचार्य ने पुराणों के यथाश्रुत अर्थ के आधार पर ही श्रुति के इस प्रकरण को लगाया और ऋक्-संहिता के माध्य में ‘मयूखै’ का अर्थ ‘पर्वतै’ किया। अर्थात्, पर्वतों से विष्णु भगवान् ने पृथ्वी को धारण कर

रखा है। आरण्यक पर भी उनका भाग्य है। वहाँ भी विष्णु शब्द का अर्थ तो उन्होंने जगदीश्वर ही किया है, किन्तु मयूख का अर्थ रश्मि ही करते हैं—और उसकी सगति यों करते हैं कि जैसे शकु वा कीले गाडकर कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर कर दी जाती है, इसी प्रकार शकु, स्थानीय किरणों से विष्णु ने पृथ्वी आदि को स्थिर कर रखा है। यजुर्वेद की काण्व-शाखा पर जो माधवाचार्य का भाग्य प्रकाशित हुआ है— उसमें भी 'इरावती वेनुमती' इत्यादि मन्त्र आया है, वहाँ भी श्रीमाधवान्चार्य विष्णु पद से जगदीश्वर का ग्रहण कर 'मयूखै.' पद का अर्थ करते हैं—'मयूखै. स्वकीयतेजोभिर्जाव-रूपैः, नानाजीवैर्वराहाद्यनेकावतावेर्वा।' अर्थात्, जगन्नियन्ता विष्णु पृथ्वी को अपने तेजोरूप भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवों अथवा वराह आदि अनेक अवतारों द्वारा धारण करता है। इन्हीं अक्षरों को यजुर्वेद-वाजसनेयिसहिता के भाग्य में श्रीमहीधराचार्य ने भी उद्धृत कर दिया है। इन विवरणों से विद्वान् विवेचक समझ लेंगे कि भाग्यकार ऐसे प्रकरणों की किसी प्रकार सगति बैठाने में व्यग्र रहते हैं। कोई एक सगति उनके हृदय को सन्तुष्ट नहीं करती। उस समय विज्ञान की चर्चा न होने से उधर दृष्टि न जाना ही इसका मुख्य कारण है।

और भी देखिए, सूर्य का एक मन्त्र है—

उदुयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।

दशो विड्वाय सूर्यम् ॥

(ऋ अष्ट १।४।७)

इसका अक्षरार्थ सीधा-सीधा यह होता है कि उस जातवेदा सूर्य को, ससार को दिखाने के लिए, किरणें ऊपर लाती हैं। मन्त्र में 'उत्' उपसर्ग है और उसका सम्बन्ध यास्काचार्य और सायणाचार्य ने भी 'वह्' धातु के साथ माना है। वैदिक प्रक्रिया से भी यही उचित है। तब 'उद्वहन्ति' का शब्दार्थ ऊपर लाना ही हो सकता है, किन्तु यह समझ में नहीं आता कि किरणें सूर्य को ऊपर किस प्रकार लाती हैं या ऊपर लाने से ससार को सूर्य किस प्रकार दिखाई दे जाता है। किरणें नीचे लाती हैं—कहा जाता तो कुछ बात भी बनती। ऊपर ले जाने से और ससार को दिखाने से क्या सम्बन्ध ? किसी भाग्य या व्याख्या में इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया। किन्तु, आज वैज्ञानिकों की कृपा से इन अक्षरों का गभीर भाव हम स्पष्ट समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अब सिद्ध कर दिया है कि जिस समय हम सूर्य का उदय देखते हैं, वास्तव में उस समय सूर्य का उदय नहीं होता। अर्थात्, क्षितिज पर जबतक सूर्य नहीं आता, क्षितिज से बहुत नीचे रहता है, तभी भू-वायु के ऊपरी स्तर पर सूर्य-किरणें गिरती हैं। तरल पदार्थ पर फिसलकर वक्र हो जाना किरणों का स्वभाव है, कई बार जल में सीधी खड़ी की गई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। सन्ध्या करने समय पञ्चपात्र के जल में आचमनी टेढ़ी मुड़ी हुई देखकर कई लोग चौंक पड़ते हैं कि यह आचमनी टूट कैसे गई। इसी नियम के अनुसार वक्र होकर सूर्य-किरणें हमारी आँखों पर पहले ही आ जाती हैं—और उदय से पहले ही सूर्य को दिखा देती हैं। इस प्रकार, किरणों का सूर्य को ऊपर लाना स्पष्ट हो गया। मन्त्र सूर्य की स्तुति के प्रकरण का है।

उदय के पूर्व की ये वक्रीभूत किरणे वैदिक-दर्शन में हानिकारक मानी गई हैं। इनसे बुद्धि की ईहा मन्द हो जाती है। अतएव, पुराणों में बताया गया है कि मन्देहा नाम के राक्षस उदय होते ही सूर्य को घेर लेते हैं। ईहा को मन्द करनेवाले इन असुरों वा राक्षसों के नाश के लिए—उनके उपद्रव से बचने के लिए उसी समय में हमारा सन्धोपासन आवश्यक माना गया है। सन्धोपासन में सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाता है उससे इन मन्देहा नाम राक्षसों का नाश होता है, अर्थात् सूर्य के अभिमुख जल-प्रक्षेप से उस जल पर पड़कर ये वक्र किरणे पुन वक्र होगी, और वक्र का वक्र होना सीधापन सिद्ध कर देगा। इस प्रकार, वैदिक आचरणों में मुट्ट वैज्ञानिक भित्ति के दर्शन भी हो जाते हैं।

इसी प्रकार, सूर्य के दूरे सुप्रसिद्ध मन्त्र पर भी विचार कीजिए—

आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

इसका सीधा अर्थ यह है कि 'काले वर्ण के लोक से विचरता हुआ, मर्त्य और अमृत दोनों लोकों को सुव्यवस्थित करता हुआ, सुवर्णमय रथ से सविता (आदित्य-प्राण) समस्त लोकों को देखता हुआ या दर्शन देता हुआ, आ रहा है।' यहाँ काले वर्ण के लोक से क्या अभिप्राय है, यह प्रश्न उठता है। पृथ्वी और अन्तरिक्ष तो सूर्य के आने से उनके प्रकाश से ज्वेत हो जाते हैं। भाष्यकार इतना ही व्याख्यान कर सन्तोष देते हैं कि सूर्य के आगमन के पहले अन्तरिक्ष अन्वकारमय काले वर्ण का ही था। किन्तु 'आवर्त्तमान,' यह वर्त्तमान काल का प्रयोग उनके विचरण-काल में ही लोक को कृष्ण-वर्ण बना रहा है। वर्त्तमान साइस के द्वारा सूर्य का बार-बार फोटो लेकर सूर्य के अन्दर काले धब्बे स्पष्ट दिखाये जा रहे हैं। इस परीक्षण से मन्त्र का वास्तविक अर्थ समझने में बड़ी सहायता मिलती है कि प्राणरूप आदित्य देवता का लोक यह सूर्य-मण्डल स्वयं कृष्ण-वर्ण है। उस कृष्ण-वर्ण के ध्रुव (सूर्य-मण्डल) द्वारा सविता-प्राण (आदित्य) विचरण करता है। उसका रथ, अर्थात् चारों ओर का विचरण-मार्ग सोममय है और सूर्य-किरणों के सर्प से प्रज्वलित होकर हिरण्यमय (सुवर्ण-जैसा रक्त-पीत वर्ण का) बना हुआ है। इस अर्थ के ध्यान में आने पर बुद्धि में एक प्रकार का प्रकाश हो जाता है, और वैदिक साहित्य पर गर्व करने का अवसर भी मिलता है कि जहाँ साइस के विद्वान् अभी फोटो के द्वारा सूर्य में काले धब्बे ही देखने में व्यस्त हैं, वहाँ लाखों वर्ष पूर्व वैदिक ऋषियों ने स्पष्ट जान लिया था, कि सूर्यमण्डल काले वर्ण का है, और उसकी किरणों द्वारा सोम को प्रज्वलित कर लोक में प्रकाश फैलाती है। गतपथ-ब्राह्मण में भी (का० ३, अ० ४, का० २ क० १५) संकेत है कि यह जो सूर्य तप रहा है, वही इन्द्र है। वह पहले नहीं तपता था। जैसे और काले वर्ण के पदार्थ हैं—ऐसा ही था। देवताओं के दिये हुए उस जुष्टतनु और प्रिय धामरूप वीर्य से ही वह तपता है। 'तनु प्रियधामवीर्य' आदि शब्द सोम के लिए ही प्रयुक्त हुआ करते हैं। अतः, सोम के कारण ही सूर्य दीप्त होता है, यहाँ यह स्पष्ट सिद्ध है। इससे अगली

काण्डका में यही तनु और प्रियधाम सोमरूप बनते हैं—यह भी कहा है। हम आगे वेद-शब्दार्थ के प्रकरण में सिद्ध करेंगे कि सोम ही 'महाव्रत' और 'साम' नाम से कहा जाता है। 'त्व ज्योतिषा वितमाववर्य', इस (ऋ० स० १।११।२२) सोम की स्तुति के मन्त्र में भी प्रकाश करना सोम का ही कार्य बताया गया है। इस गतपथ-ब्राह्मण के भाष्य में श्रीमाधवाचार्य ने सूर्य-मण्डल पहले कृष्ण-वर्ण था, यह अर्थ तो माना है, किन्तु इसकी कोई विवेचना नहीं की। सम्भवतः, 'अर्थवादों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता' इसी विचार से इसे छोड़ दिया होगा। स्मरण रहे कि इस प्रकार के अर्थ विज्ञान के युग में ही दृष्टि में आ सकते हैं। भाष्यकारों के समय में इस तरह की दृष्टि होना सम्भव नहीं था। इन उदाहरणों से विचारक समझ सकेंगे कि भाष्यकारों का विज्ञान के प्रकाशित न करने में कोई दोष नहीं था। उस समय वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव के कारण यह घटना घटी, और वेद के अनेक रहस्यमय अंगों का लोप हो जाना ही इसका प्रधान कारण हुआ।

एक और कठिनता

वैदिक विज्ञान देवता-तत्त्व पर आश्रित है। आधुनिक साइंस का मूल आधार जैसे इलैक्ट्रिसिटी है, वैसे ही वैदिक विज्ञान का मूल आधार है 'प्राण-तत्त्व'। प्राण-विद्या के द्वारा ही सम्पूर्ण विज्ञान वेदों में बताया गया है। परिचय के लिए प्राण को शक्ति (Force या Energy) कह सकते हैं, जो कि अत्यन्त सूक्ष्म है। इन्द्रियो से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। वही शक्ति जब स्थूल रूप में विकसित होती है तब उसे 'रयि' या मैटर (Matter) कहते हैं। वैदिक सिद्धान्त में दृश्यमान जगत् का इसे ही मूल तत्त्व माना गया। इलैक्ट्रिसिटी प्राण शक्ति की अपेक्षा बहुत स्थूल है। अस्तु, प्राण के ही ऋषि, पितृ, देवता असुर, गन्धर्व आदि भेद हैं। इनमें सृष्टि के आदि में प्राण की जो अवस्था होती है, उसे ऋषि-प्राण कहा गया। गतपथ-ब्राह्मण में इसका स्पष्टीकरण है—

असद्वा इदमग्र आसीत्। तद्वाहु कितदसदासीत् इति।

ऋषयो वाच तेऽग्रेऽसदासीत्। तदाहु के त ऋषय इति।

प्राणा वा ऋषयः।

(गतपथ, काण्ड ६)

प्रश्नोत्तर-शैली से उपनिषद् इस सन्दर्भ में आरम्भ में कहा गया—'यह जगत् उत्पत्ति से पहिले असत् था।' प्रश्न हुआ कि 'असत् किसे कहते हैं, अथवा वह असत् क्या था?' उत्तर मिला कि 'ऋषि ही उस समय असत्-स्वरूप थे।' यहाँ सृष्टि के पूर्व में वर्तमान ऋषियों को इन्द्रियग्राह्य न होने से असत् कहा गया। फिर, प्रश्न हुआ कि 'वे ऋषि कौन हैं?' उत्तर है 'प्राण ही ऋषि है।' इस ऋषि-प्राण का विकास होने पर आगे दसी से पितृ प्राण, देव-प्राण और असुर-प्राण, इनसे फिर गन्धर्व-प्राण और इनसे उत्पन्न होनेवाले पशु-प्राण आदि होते हैं। गतपथ के चौदहवें काण्ड के जनक-सभा-वृत्तान्त में महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप में देवताओं को प्राण-रूप कहा है।

मनुस्मृति के इस एक ही श्लोक में वैदिक प्राण-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण हो गया है—

ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानवाः ।
देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाप्वनुपूर्वशः ॥

इसका अर्थ है, ऋषि-प्राण से पितृ-प्राण की सृष्टि हुई, पितृ-प्राण से देव तथा असुर-प्राण बने, और उन्हीं से इस जड़-चेतनात्मक जगत् की रचना हुई। कहीं-कहीं 'देवमानवा' भी पाठ है। देव शब्द से वहाँ असुरों का भी ग्रहण हो जाता है और उससे उत्पन्न मानव (मनु)-प्राण भी वहाँ कह दिया गया है। इन प्राणों के अवान्तर भेदों की गणना इस प्रकार की गई है—ऋषि ७, पितृ ८, देव ३३, असुर ९९, पशु ५ और गन्धर्व २७। इन उपभेदों के भी अनेक भेद हो जाते हैं। इन्हीं ही वैदिक विज्ञान के तत्त्व (Elements) समझना चाहिए। इन्हीं के आधार पर वेदों में विज्ञान का विस्तार देखा जा सकता है। इनका आगे यथास्थान किञ्चित् स्पष्टीकरण होगा।

यह भी जान लेना चाहिए कि देवता, ऋषि, पितृ आदि शब्दों से वैदिक साहित्य में केवल प्राणों का ही संकेत नहीं है। इन शब्दों का आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक भावों से अनेक स्थानों में प्रयोग हुआ है। उदाहरणार्थ, मानव और पशु को हम प्राण-विशेष कह आये हैं, परन्तु इनका अर्थ केवल प्राण ही होता है, और कुछ नहीं, वह कथन उपहासास्पद होगा। यही बात ऋषि, पितृ, देवता आदि शब्दों के विषय में समझ लीजिए। ये शब्द भी अनेक स्थानों पर भिन्न-भिन्न अर्थों में भी प्रयुक्त देखे जाते हैं। 'ऋषि' शब्द को ही लीजिए। प्राण-विशेष-रूप मूलतत्त्व को भी ऋषि कहा गया। अव्यात्म, अर्थात् हमारे शरीरों में उस मूल तत्त्व से उत्पन्न होनेवाले प्राण, इन्द्रिय आदि भी आध्यात्मिक ऋषि हैं। तारा-मण्डल में भी ऋषि है और इन सब की गम्भीर विद्या को प्रकट करनेवाले भृगु, भरद्वाज, वसिष्ठ आदि पुरुषविशेष भी ऋषि हैं। सौम्य-प्राण पितर है, उनके आधार पर होनेवाली वसन्त आदि ऋतुएँ भी पितर हैं। प्रति शरीर में रहनेवाले सन्तानोत्पादक भाव भी पितर है और शरीर-त्याग के अनन्तर मृक्ष्म वा आति-वाहिक शरीरों में जानेवाले जीव भी पितर है। इसी प्रकार, आग्नेय प्राण भी देव है, तारा-मण्डल में भी इन्द्र आदि देव हैं। मनुष्य आदि शरीरों में भी देव है। लोकान्तरो में रहनेवाले शरीरधारी प्राणी भी देव है और इसी भू-मण्डल के उत्तर भाग में रहनेवाले मनुष्यविशेष भी देव थे।

अवग्य ही विभिन्न ऋषियों, विभिन्न देवताओं और पितर आदि में परस्पर सम्बन्ध है और वही वैदिक विज्ञान का निगूढ रहस्याश है।

देवता-तत्त्व पर विचार करते हुए निरुक्तकार श्रीवास्काचार्य ने भी यही सिद्धान्त स्थिर किया है कि—'अपि वा उभयविद्या स्युः', अर्थात् शरीरधारी और अशरीरी तत्त्व-रूप दोनों प्रकार के देवता हैं। भेदोपभेदो-सहित सभी ऋषि, पितृ, देव आदि का वेदों में यथावसर विवरण प्राप्त हो जाता है।

इनमें कर्मकाण्ड के बहुत-से अंशों का सम्बन्ध यद्यपि कारण-रूप अशरीरी

देवताओं से है, किन्तु उपासना-काण्ड शरीरधारी चेतन-देवताओं से विशेष सम्बन्ध रखता है।

श्रीमाधवाचार्य के समय में उपासना-काण्ड की प्रधानता थी। उस समय शरीरधारी देवता ही मुख्य समझे जाते थे। देवताओं का दूसरा भाव प्रकाशित करना उस समय नास्तिकता समझी जाती थी। अब तक भी प्राचीन प्रथा के कट्टर पक्षपाती बहुत-से ऐसा ही समझते हैं। यही कारण है कि देवता-प्रतिपादक मन्त्रों के वैज्ञानिक अर्थ श्रीमाधवाचार्य नहीं लिख सके। निरुक्तकार ने बहुधा ऐसे मन्त्रों के विज्ञान-तत्त्व सम्बन्धी अर्थ अपनी सभित गम्भीर और जटिल भाषा में लिखे हैं। श्रीमाधवाचार्य निरुक्तकार का आदर करते थे, अतएव अपने भाष्य में उन्होंने उनके किये हुए अर्थ को स्थान-स्थान पर उद्धृत कर दिया है, किन्तु उनका अपना अर्थ शरीरधारी देवता मानने की मर्यादा पर ही आश्रित है।

तात्पर्य यही है कि समय की परिस्थिति के अनुसार श्रीमाधवाचार्य ने श्रौत-सूत्रादि के अनुसार केवल कर्म-सम्बन्धी अर्थ ही अपने भाष्य में प्रकाशित किये हैं, इससे वैदिक विज्ञान प्रकाशित न हो सका। किन्तु, निष्पक्ष दृष्टि से यह सभी को मानना पड़ता है कि श्रीमाधवाचार्य ने वेदों पर इतना श्रम किया कि जिसके सहारे आज हम वेदों को समझने का यत्न कर सकते हैं। उनका भाष्य न होता, तो आज वेद केवल पूजा की पुस्तक रह जाती। उससे कोई कुछ न समझ सकता। वह भाषा ही हमारे लिए अज्ञेय रहती। इससे श्रीमाधवाचार्य का उपकार-भार आर्यजाति पर बहुत है।

अब यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उच्चट, महीधर आदि के भाष्यों में भी श्रौत-सूत्रानुसार कर्मप्रधान अर्थ ही मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमाधवाचार्य का ही अनुसरण किया है।

वर्तमान युग के व्याख्याकार

वेद के वैज्ञानिक युग के व्याख्याकार श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वतीजी हैं। इन्होंने वेद के गौरव की ओर आर्यजाति की दृष्टि बहुत-कुछ आकृष्ट की है। इस कारण से उनका भी उपकार विशेष माननीय है। वैज्ञानिक युग में उत्पन्न होने के कारण इनकी दृष्टि विज्ञान पर थी, यह स्वाभाविक ही था। साथ ही, वैज्ञानिक अर्थ प्रकट करने का इन्होंने यत्न भी किया। किन्तु, दुर्भाग्य से वैज्ञानिक अर्थों का कोई क्रम तब भी हाथ न लगा। किसी-किसी मन्त्र में प्रकरण के अन्वय की बात तो दूर है, उस मन्त्र के पूर्वापर-सम्बन्ध की भी परवाह न कर खास पदों से कोई वैज्ञानिक सकेत निकाल देने से, या तार, रेल, मोटर, वायुयान, बैलून आदि के नाम मन्त्रों में दिखा देने से वैज्ञानिकों को सन्तोष नहीं हो सकता, जबतक मूल सिद्धान्तों का विवरण वेदों में स्पष्ट न दिखाया जाय।

स्वामीजी के समय में भी एक बड़ी अड़चन यह थी कि अन्य विद्वानों की दृष्टि वेदों पर नहीं थी। तब विना सहायता और विना गुरु-परम्परा के ज्ञान के, केवल व्याकरण-ज्ञान के बल पर स्वामीजी जो कुछ कर सके, वह भी बहुत किया।

दूसरी बात यह थी कि स्वामीजी ने कई कारणों से अपने कुछ सिद्धान्त नियत कर लिये थे। उन पर ठेस लगने देना वे नहीं चाहते थे। स्वतन्त्र देवताओं की स्तुति-प्रार्थना वेदों में स्वीकार कर लेने पर कहीं प्रतीकोपामना सिद्ध न हो जाय, इस भय से इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवतावाचक शब्दों का अर्थ उन्होंने बहुधा 'ईश्वर' ही कर दिया है और इस प्रकार देवता-विज्ञान उनके भाग्य में भी अप्रकाशित ही रह गया। हमारे पूर्वोक्त वैज्ञानिक मन्त्रों में विष्णु आदि शब्दों का अर्थ श्रीस्वामीजी ने परमात्मा ही किया है, और इसी कारण उनमें पूर्वोक्त विज्ञान स्पष्ट न हो सका।

एक यह भी देखा जाता है कि विज्ञान के मूल सिद्धान्तों को प्रकट करने की अपेक्षा सामाजिक बातों को, अपने अभिमत आचरणों को, और प्रचलित उपभोग की सामग्री को वेद-मन्त्रों में दिखाने का उन्हें विशेष ध्यान था। इसीलिए, जिन मन्त्रों का स्पष्टतया वैज्ञानिक अर्थ हो सकता था, उनको भी उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया पर ही लगाया है। इसके अनेक उदाहरण उनके भाग्य को अवधान से देखने पर मिल सकते हैं। यह भी उस प्रकार की दृष्टि न बन सकने का एक कारण हुआ कि वेद के ब्राह्मण-भाग को और पुराणों को श्रीस्वामीजी ने बहुत उपेक्षा से देखा। बिना ब्राह्मणों की सहायता के मन्त्रों का मुख्य विज्ञान क्रमवद्ध रूप में प्रकट नहीं हो सकता। इन सब कारणों से, अवसर आ जाने पर भी, वैदिक विज्ञान प्रकट नहीं हो सका, न उसका कोई उपयुक्त मार्ग ही मिला। वैज्ञानिक समय के श्रीसत्यव्रत सामश्रमी आदि विद्वानों ने भी वैदिक विज्ञान प्रकट करने की चेष्टा कर इस दिशा में बहुत उपकार किया—किन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थ, पुराण आदि की उपेक्षा के कारण वे भी पूर्ण सफलता प्राप्त न कर सके। कुछ आलोचनात्मक ग्रन्थों के अतिरिक्त क्रमवद्ध विज्ञान का कोई ग्रन्थ भी उन्होंने नहीं लिखा।

पाश्चात्य विद्वान् और वेद

इधर कई पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों पर श्रमपूर्वक बहुत-कुछ विचार किया है और वेदों का गौरव प्रकट करते हुए उन्होंने भी भारत का उपकार ही किया है। किन्तु उनकी दृष्टि विकासवाद के सिद्धान्त पर दृढ़ है। उनका यही ध्यान रहता है कि इतने प्राचीन समय में विज्ञान के सूक्ष्म और गम्भीर सिद्धान्त ध्यान में आ जाते, और उपनिषद् कर दिये जाते, यह सम्भव नहीं था। इस सङ्कुचित दृष्टि को सामने रखकर विचार करने के कारण वेदों में कोई गहरी बात उन्हें सूझ ही नहीं सकती थी। इतना ही नहीं, गम्भीर रहस्यों को बताने का यत्न उनकी दृष्टि में वर्तमान साइंस की नकल है। और, वे उसे एक हास्य-क्रीडा का साधन समझते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों को इसीलिए महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना है कि इनसे प्राचीन जाति की रहन-सहन की व्यवस्था आदि सामाजिक बातों का पता चल जाता है।

यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों के आधारभूत विकासवाद का वर्णन भारतीय ज्ञानों में भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है, किन्तु उनके और हमारे विकासवाद में अन्तर है। इसका किञ्चित् स्पष्टीकरण भी यहाँ अप्रासंगिक न होगा, प्रत्युत मेरे प्रकृत

विषय से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध ही सिद्ध होगा, इसलिए उसका भी सक्षित विवरण यहाँ दिया जाता है।

विकासवाद और हासवाद

आजकल विकासवाद एक महाशास्त्र बन गया है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक इन दोनों विचारधाराओं में इसका पूर्ण महत्त्व है। वैज्ञानिक विचार-धारा में प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवाद माना जाता है और ऐतिहासिक विचार-धारा में मनुष्य-बुद्धि का क्रम से विकास हुआ। इस अर्थ में विकासवाद को पूर्ण प्रथय दिया जाता है। यहाँ हम ऐतिहासिक विचार-धारा के विकासवाद पर ही कुछ पर्यालोचन करना चाहते हैं। वैज्ञानिक विकासवाद भी कई अर्थों में हमारे शास्त्रों में गृहीत है—उसका विचार आगे यथावसर होगा।

इसमें किसी भी विचारशील व्यक्ति को सन्देह नहीं हो सकता कि ससार परिवर्तनशील है। ससार शब्द का अर्थ ही यह है—‘ससरतीति ससार,’ जो सदा सरकता रहे, अर्थात् एक दशा से दूसरी दशा में जाता रहे। जो ससार कल था, वह आज नहीं, और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। कल की और आज की स्थिति में अवश्य बहुत-कुछ तारतम्य होगा। इतना ही क्यों, प्रतिक्षण ही कुछ-कुछ परिवर्तन होता रहता है, किन्तु उसके समझने की शक्ति सर्व-साधारण में नहीं। सर्व-साधारण की दृष्टि में सैकड़ों वर्षों में उस परिवर्तन का प्रतिफल प्रकट हुआ करता है। जब धीरे-धीरे वह परिवर्तन स्थूल दशा में आ जाता है, तब सामान्य मनुष्य भी कह उठते हैं कि ‘अब दुनिया और की और हो गई।’ अस्तु, यह ससार का परिवर्तन-प्रवाह उन्नति की ओर जा रहा है या अवनति की ओर? इसमें कुछ मतभेद प्रतीत होता है। पाश्चात्य विद्वान् अधिकांश विकासवादी हैं। उनके मतानुसार ससार शनैः-शनैः उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। आज जो जगत् में उन्नति दिखाई देती है, वह पहले स्वप्न में भी न थी, और भविष्यत् में जो उन्नति होगी, उसका अभी किसी को स्वप्न भी नहीं। पूर्वदशा से आगे की दशा सर्वथा अच्छी होती है, यही उनका सिद्धान्त है। और सिद्धान्त के अनुरूप ही फल भी वहाँ प्रत्यक्ष है।

इसके विपरीत हमारे शास्त्र प्रायः हासवादी हैं। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि सत्य-युग में जो उन्नति थी, वह त्रेता में नहीं, त्रेता की द्वापर में नहीं और कलियुग का तो कहना ही क्या? इस युग में तो जगत् बड़े वेग से अवनति के गर्त में ही गिरता जाता है। जो यह ससार का प्रवाह अवनति की ओर जा रहा है। फिसलते-फिसलते जब अवनति की अन्तिम सीमा आ जाती है, तब फिर कोई विशेष शक्ति (अवतार) इसे उठाकर उन्नति के गिखर पर रख देती है। वहाँ से फिर यह खिसकने लगता है। तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक प्रवाह अवनति की ओर है। उन्नति तो प्रवाह में धक्का मारनेवाले विशेष कारण से एकाएक होती है। यही पुराणों के युगचरित और कल्की आदि अवतारों की कथा का सार हो सकता है।

स्थूल दृष्टि से देखने पर ये पश्चिमीय और पूर्वीय दोनों मत परस्पर विलकुल

विरुद्ध ही प्रतीत होते हैं। किन्तु, सूक्ष्म विचार करने पर उनमें, फलाग्न में कुछ एकता की भी झलक दिखाई दे जाती है। दृष्टि के भेद से एक ही प्रकार की स्थिति को एक उन्नति और दूसरा अवनति कह सकता है। हम जिसे अवनति समझते हैं, सम्भव है, उसी को दूसरा उन्नति समझे। प्रस्तुत उन्नति और अवनति अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार व्यवहार-मात्र है। एक स्थूल दृष्टान्त से यो समझिए कि आज से १००-१५० वर्ष पूर्व यहाँ मनो के भाव से अन्न मिलता था। उम समय बहुत ही अल्प-व्यय से बटे-बड़े कुटुम्बों का निर्वाह हो सकता था और अच्छे-अच्छे पदों पर भी १०-२० रुपया मात्र मासिक वेतन मिला करता था। इससे सर्वसाधारण के पास रुपया कम हुआ करता था। वर्त्तमान में रुपये का व्यवहार बहुत अधिक है। सैकड़ों-हजारों तक वेतन मिलता है, साधारण मनुष्यों की भी द्रव्य की आय कहीं बढ़ गई है, कृषकों के पास भी रुपये का आवागमन अधिक हो गया है। किन्तु, अन्न आदि आवश्यक वस्तुओं की इतनी महँगी है कि बहुतेको को पेट पालना कठिन है। अब इस स्थिति को आप पूर्व की अपेक्षा उन्नति कहेंगे या अवनति? केवल रुपये के व्यवहार की अधिकता पर दृष्टि डालनेवाले श्रुत से इसे उन्नति कह उठेंगे, किन्तु निर्वाह की स्थिति को लक्ष्य में रखने-वाले इसे अवनति कहेंगे। यो लक्ष्य-भेद से एक ही स्थिति को उन्नति या अवनति कहना फलाग्न में कुछ भी विरोध नहीं रखता, क्योंकि बात दोनों की एक ही है। इसी प्रकार, जगत् की उन्नति और अवनति के निरूपण में पाश्चात्यो का और हमारा लक्ष्य भिन्न है। भारतवर्ष सदा से अध्यात्मवादी और अधिदैववादी है। उसका लक्ष्य है अन्तर्जगत् की उन्नति या मानसिक उन्नति। और, पाश्चात्य विद्वानों का लक्ष्य है बहिर्जगत् की उन्नति या भौतिक उन्नति।

मानसिक उन्नति तभी कही जाती है, जब यम (अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, चोरी न करना), नियम (गौच, सतोष, तप, ईश्वर-भक्ति) का पूर्ण परिपालन होता हो, राग-द्वेष और उनकी मूलभूत ममता ससार में बहुत कम हो, मनुष्यों की आवश्यकताएँ बहुत अल्प हो, और एकता का भाव बहुत बड़ा हुआ हो। आधिदैविक उन्नति भी अन्तर्जगत् के देवता-तत्त्व की विचार-धारा के अधिक प्रवृत्त होने पर कही जा सकती है। उसका प्रभाव भी मन पर ही पड़ता है। मन की उस स्थिति में यत्नविशेष से अनेक प्रकार की मानसिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सकल्प की पूर्णता, पूर्ण आयु आदि उस दिशा में एक स्वाभाविक बात है, यह योग-दर्शन का सिद्धान्त है। अस्तु, इस दिशा को लक्ष्य में रखने पर हासवाद ही अनेक अंगों में दृढ होता है। हरिश्चन्द्र के सत्य, शिवि की दया, भीष्म के ब्रह्मचर्य, विश्वामित्र के तप आदि के निदर्शन आजकल ससार में स्वप्नवत् ही हैं। वैक्य-देश के अक्षपति राजा ने ऋषियों के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि—

न मे स्तेनो जनपदे, न कट्यो, न मद्यपः।

नानाहिताग्निर्नाविद्वान्, न स्वैरी स्वैरिपी कुतः ॥

(छान्दोग्योपनिषद्, अध्याय ५)

मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कोई कृपण है, न कोई मद्य पीता है,

न कोई विना अग्निहोत्र के रहता है, न कोई मूर्ख है, व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की भी मेरे राज्य में चर्चा तक नहीं है। क्या आज ससार में ऐसी कोई प्रतिज्ञा कर सकता है ? यही क्यों ? अभी कुछ पूर्व काल की ही वर्तमान समय में तुलना करने पर निष्पक्ष भाव से यह स्पष्ट मान लेना पड़ेगा कि मानसिक धर्मभाव क्रमशः बहुत-बहुत अवनत होते जा रहे हैं। धार्मिक जोश कई जातियों में अवश्य है, किन्तु धर्म का परिपालन कितना है—यह भी तो देखना चाहिए। पुराने धर्मों के सम्बन्ध में आजकल बहुत-से महाशय कहते हैं कि वे अन्धविश्वास पर अवलंबित थे, इस कारण इस प्रकार के युग में उन पर किसी की दृष्टि नहीं जम सकती। किन्तु, जिन सत्य, धर्मा, अहिंसा, अस्तेय, इन्द्रियनिग्रह आदि को सब सभ्य समाज खुले दिल से धर्म समझता है, वे भी आचरण में कहाँ तक लाये जाते हैं ? इस पर सूक्ष्म विचार करने से सबको हासवाद का पक्षपाती होना पड़ेगा। वास्तव में, आजकल के युग के सत्य, धर्मा आदि का स्वरूप ही कुछ दूसरा है। सभ्य समाज ने इनको भी सभ्य रूप दे दिया है। मृत्यु का स्थान आजकल 'पॉलिसी' ने अतिकृत कर रखा है। प्लेटफार्म पर अनाथों की बात छेड़कर अश्रु वहा देने में ही आजकल की दया समाप्त है। जनसेवकता की डींग मारकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ही इस युग का परोपकार है। मैं नहीं कहता कि ससार में कोई सत्यवादी, दयाशील या परोपकारी है ही नहीं। किन्तु, सामाजिक दृष्टि से इनका क्रमशः हास हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अदालतों में मुकदमों की संख्या, मद्यपान और अज्ञाति आदि की वृद्धि ही इसके लिए पुष्ट प्रमाण है। मन में इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाने पर अन्तर्जगत् के देवता आदि पर विश्वास ही नहीं रहता और आधिदैविक अवनति भी हो ही जाती है।

मनुष्य या मनुष्य-समाज के मनोभाव जितने सयत रहते हैं, उतना ही वह भौतिक उन्नति में कम अग्रसर होता है। इसके विपरीत जितना भौतिक (वाह्य) उन्नति की ओर अधिकाधिक झुकाव होता है, उतनी मानसिक पवित्रता कम होती जाती है। अतः, भौतिक दृष्टिवालों के विकासवाद में और आन्तरिक दृष्टिवालों के हासवाद में बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ता।

इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि भौतिक उन्नति की ओर भारतवर्ष ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, भौतिक उन्नति यहाँ कभी हुई ही नहीं या 'ऋषि' और 'वर्षर' शब्द का अर्थ एक ही है। यह सब भ्रान्ति है। किन्तु, इतना अवश्य कहा जायगा कि भौतिक उन्नति यहाँ भी क्रम से हुई थी और क्रम से ही हो सकती है।

भौतिक विज्ञान और मानसिक पवित्रता—दोनों के मेल का युग मध्ययुग था। आदियुग नहीं। उसे त्रेता कहते हैं। आदि त्रेता-युग में वाह्य-विज्ञान उन्नत होता है, एव उसमें आगे भी उन्नति और अवनति का क्रम चलता है। अतः, सम्भव है कि कई शिल्प-सम्बन्धी कलाएँ, जो आजकल अपूर्व दिखाई देती हैं, पूर्व काल में न रही हों। यह कोई आवश्यक नहीं कि आजकल की तरह मोटर-गाड़ियों का दौड़ना, वेतार के तार, ग्रामोफोन तथा रेडियो की कला का प्रचार जब हम प्राचीन भारत में

भी होना सिद्ध कर दे, तभी उन्नत कहला सके। कलाओं की उन्नति में क्रम-विकास सब को मानना पड़ेगा। साथ ही यह भी कोई असम्भव नहीं कि पूर्व काल में बहुत-सी ऐसी कलाएँ हो, जो मध्य में लुप्त हो गईं हो और आज तक न आविष्कृत हो सकी हो। टाके की मलमल और रोपड के चोर पकड़नेवाले ताले आज तक भी नहीं बन सके हैं, जिनका पुराने भारत में होना अनेक साक्षियों से सिद्ध है। यह भी किंवदन्ती बहुत प्रसिद्ध है कि आगरा के किले में एक ऐसा दीपक था, जो बिना तेल डाले ही न जाने कितने वर्षों से बराबर जल रहा था। उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का ऐसा यन्त्र लगाया गया था, जो धुँओं के रूप में निकले हुए तेल को फिर तेल-रूप में परिणत कर देता था। उसे जब एक बार अपने स्थान से हटा दिया, तब वह बुझ गया और फिर वैसा न जल सका। भारत का इतिहास कोई एक दिन का नहीं, यह लाखों वर्षों का है। इसमें अनन्त कलाओं और शतश विज्ञानों का विकास और विनाश होता रहा है। किन्तु, भारत का प्रधान लक्ष्य मानसिक पवित्रता की ओर ही रहा है। उतनी ही भौतिक उन्नति को आश्रय देना भारत ने उचित समझा था, जिससे मानसिक पवित्रता दब न सके। और, जितने भी अश में बाह्य उन्नति ने आंतरिक पवित्रता को दबाया है, उतने ही अश में भारत का हास हुआ है।

मार्कण्डेयपुराण के युग-धर्माख्यान-सम्बन्धी एक प्रकरण का (४५, ४६ अध्याय) तात्पर्य यहाँ लिखा जाता है, जिससे हमारा पूर्वकथन सर्वोच्च में प्रमाणित हो जायगा—“आदि कृतयुग में विशेष कर्म की वृत्ति न थी। उस समय की प्रजा नदी, तालाब, समुद्र, पर्वत आदि के समीप रहा करती थी। गर्मा, सर्दी की बाधा बहुत कम थी। वे मनुष्य इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रिय, अप्रिय आदि द्वन्द्वों से रहित थे। ईर्ष्या का नाम भी न था। रहने के लिए घर नहीं होते थे। पिशाच, सर्प, राक्षस, पशु, पक्षी, मकर, चोर आदि का डर न था। ऋतुओं के फल-पुष्प आदि भी तब न होते थे। वे मत्र स्वभावतः तृप्त रहते थे। ‘रसवती पृथ्वी’ ही उनके लिए आहार थी। उन सब की आयु नियत काल की होती थी। यौवन स्थिर रहता था। सब प्रकार के रूप आदि समान थे। उत्तमावस-भाव या लडाई-झगड़े का नाम न था। सकल्प-मात्र से सतति होती थी। बड़े आनन्द से जिन्दगी गुजरती थी। क्रमशः कुछ काल व्यतीत होने पर प्रजाओं में कुछ वितृप्तता (तृप्ति का अभाव, क्षुधा आदि) होने लगी। यद्यपि इच्छा-मात्र से तृप्ति हो जाती थी, किन्तु बारम्बार की इच्छा से मानसिक श्रम होने लगा। यही पहली ‘मानसी सिद्धि’ के नाश का समय है। इसके अनन्तर ‘सोल्लासा’ नाम की सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई, जल का सञ्चय भाग आकाश में जाकर मेघ-रूप में परिणत होने लगा, और क्रमशः वृष्टि आरम्भ हुई। उस सामान्य वृष्टि से ही प्रजाओं के लिए एक प्रकार के वृक्ष, जिन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है, उत्पन्न हो गये। यही वृक्ष इन प्रजाओं की भोजन, वस्त्र, निवास आदि की व्यवस्था करते थे। इनमें किसी का स्वत्व (हक) न था। वे सब के साधारण रूप से भोग्य थे। काल व्यतीत होने पर धीरे-धीरे मनुष्यों के चित्त में राग (अभिलाषा) उत्पन्न होने लगा, और त्रियों को प्रतिमास ऋतु-धर्म, बारम्बार गर्भ-धारण होने लगा। तब वे वृक्ष भी नष्ट

हो गये। यह दूसरी सिद्धि के नाश का समय है। इसके अनन्तर चार शाखाओं के दूसरे प्रकार के वृक्ष पृथ्वी में उत्पन्न हुए। इनके फलों से वस्त्र और आभूषण भी प्राप्त होते थे और उनसे सुगन्धि, सुन्दर, बड़ा पुष्टिकारक मधु मिलता था। उससे त्रेता-युग के आरम्भ में प्रजाओं का बड़े आनन्द से निर्वाह होता था। किन्तु, शनैः-शनैः इनका राग लोभ-रूप में परिणत हो गया और ये वृक्षों पर अपना-अपना हक जमाने लगे। इससे बहुधा वे वृक्ष भी नष्ट हो गये। अब सर्दा, गर्मी, क्षुधा, तृषा आदि की बाधा अधिक देखकर पहले उन्होंने पर्वत आदि के समीप नाप-नापकर पुर, नगर, ग्राम आदि बनाये। (यहाँ पुराण में नाप आदि के जो परिमाण उन्होंने स्थिर किये, वे, और पुर, ग्राम, खेत आदि के लक्षण विस्तार से लिखे हैं। प्रकृत में विशेष उपयोग न होने के कारण वह सब छोड़ दिया गया।)

“उसके बाद वृक्षों की शाखाओं और पर्वतों की गुफाओं आदि के आकार पर घर बनाना आरम्भ किया गया। शाखाओं के ऊपर, नीचे आदि का सनिवेश देखकर उनके सदृश घर बनाये गये, इसीलिए इनका पहला नाम शाखाओं के नाम पर ‘शाला’ रखा गया। इस प्रकार शीत, उष्ण आदि का तो उपाय हुआ, किन्तु क्षुधा, तृषा की व्याकुलता बढ़ती रही। उस काल में विशेष प्रकार से वृष्टि होने लगी और वृष्टि के जल से खात, गढे आदि बनने लगे। बहुत-सी छोटी-छोटी नदियाँ बहने लगीं। जल और भूमि के संयोग से ऋतुओं के पुष्प-फल उत्पन्न होने लगे। चावल, यव आदि ग्राम्य और नीवार आदि आरण्य औषधियाँ उत्पन्न हो गईं। क्रमशः जब राग और लोभ आदि बहुत बढ़ गये, और वृक्ष, क्षेत्र आदि के परस्पर स्वत्व में विवाद होने लगा, तब भूमि ने उन औषधियों को ग्रस लिया। तब प्रजाओं की पुकार पर ब्रह्मा ने भूमि से फिर उन औषधियों का रोहण किया और कर्म-सिद्धि का प्रकार चलाया। तब खेती करने की प्रक्रिया चली। राजा, प्रजा, यज्ञ, दान आदि की मर्यादा स्थापित की गई।”

इस प्रकरण पर विचारपूर्वक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकासवादियों के जैसे ही सिद्धान्तों का यहाँ वर्णन किया गया है। पहले पर्वतों में निवास, फिर वृक्षों के नीचे, फिर घरों में। पहले रसवती पृथ्वी ही आहार का साधन थी। इसका यही आशय हो सकता है कि पृथ्वी के कन्द आदि भोग्य थे। फिर फल, पत्र आदि, फिर वृक्षों का रस (मधु) और आगे क्रमशः ग्राम्य और आरण्य औषधियाँ। पहले वृक्षों के वल्कल आदि ही पहनने के काम में आते थे, फिर फलों में से वस्त्र निकलने लगे, इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि सेमल आदि की तरह कुछ ऐसे वृक्षों का परिज्ञान हुआ, जिनमें से रुई प्राप्त हो सकती थी। उससे कपड़े बनाने की विधि प्रचलित हुई। आधुनिक विकासवाद में अटकल से जो सभ्यता के विकास का क्रम निर्धारित किया जाता है, उसकी अपेक्षा इस क्रम में कहीं-कहीं भेद अवश्य है। किन्तु, मूल सिद्धान्त की एकता स्पष्ट है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि विकासवादी जिस क्रम का विकास का या उन्नति कहकर वर्णन किया करते हैं, उसी को यहाँ हास के शब्दों में वर्णन किया गया है। पूर्व प्रजा की प्रशंसा और उत्तर में

सिद्धिनाश का अनुशोचन—इस बात को स्पष्ट करता है। अतः, यद्यपि यह अवस्था सर्वशे मे हमारा लक्ष्यभूत नहीं, तथापि राग, द्वेष, ममता आदि के अभाव के लिए यह अवश्य आदर्श है।

जवतक परम्पर स्वत्व का जगडा न खडा हो, तवतक थोडे ही पदार्थों से बहुतो का उपभोग अच्छी तरह हो सतता है। किन्तु, जव लोग मेरी-तेरी पर उतर आते है और उपभोग की तृणा बढती है, तव बहुत-से पदार्थ भी अल्प ही प्रतीत होने लगते है। फिर, पूर्व की अपेक्षा दशगुणित मे भी निर्वाह नहीं होता। यही पुराण ने दिखाया है कि जव लोग ममता से उन वृधो आदि को अपना-अपना कहने लगे, उन पर हक जमाने लगे, तव वे नष्टप्राय हो गये। ममतामूलक राग, द्वेष ही को इस प्रकरण मे सब अनर्थों का मूल बताया गया है। इन्हीं से अन्त करण कल्पित होने पर कई प्रकार के कर्म करने पडते है, मुख-शान्ति जाती रहती है। आयु भी कम हो जाती है। उत्तममन्यमाधमभाव से बहुत-से पारस्परिक भेद खडे हो जाते है। इन्द्रिय-सयम न रहने पर सतति की अधिकता हो जाती है और निर्वाह मे कठिनता बढ जाती है। बाह्य उत्पत्ति पर लक्ष्य स्थापित करते ही ये सब दोष अवश्यम्भावी है। अतएव, बाह्य-विकास को ही हमारे ज्ञान हास कहते है। यहाँ इतना और स्मरण रखना आवश्यक है कि आदि दशा मे बाह्य-कलाओ का अभाव बताने पर भी हमारे यहाँ मुख्य विज्ञान का अभाव नहीं बतलाया गया है। आदि की प्रजा मे भी तप था, स्वरूप-ज्ञान था, ईश्वर-भक्ति थी, मन सयम था। अतएव, कई प्रकार की मानस सिद्धियों का वर्णन उसमे सचठित होता है। यो हास और विकास की एकवाक्यता ही बन जाती है।

इस प्रकरण से यहाँ मेरा अभिप्राय यह है कि आदि प्रजा मे आध्यात्मिक और आधिदैविक सिद्धान्तों के जानने और मनन करने की शक्ति आज की अपेक्षा बहुत अधिक रहती है। वह शक्ति पूर्व काल के सस्कारों के अनुसार आती है—यह हमारे ज्ञान्मे मे स्थान-स्थान पर व्यक्त किया गया है, यहाँ उस शक्ति की प्राप्ति के लिए उन आदि पुत्रों को कोई प्रयत्न नहीं करना पडा—इसलिए उसे ईश्वर-प्रदत्त ही कहा जाता है। आधिभौतिक सिद्धान्त भी उक्त दोनों प्रकार के सिद्धान्तों के अन्तर्गत है—इसलिए सिद्धान्तरूप से उनका भी ज्ञान रहता है, कला-रूप से बाह्य विकास चाहे आगे क्रम से हो। और, आगे भी समय-समय पर विकास और हास होते रहते हैं—यह भी हम पूर्व कह आये है। ब्रह्मा ने खेती आदि की प्रवृत्ति की—इस पूर्वोक्त पुराणोक्त का भी यही तात्पर्य है। ब्रह्मा बुद्धि के अधिज्ञता देवता है, उनकी प्रेरणा से बुद्धि मे खेती करने, घर बनाने आदि की प्रक्रिया का विकास हुआ। इसलिए पुराने समय मे विद्वान् था ही नहीं, यह यूरोपियन विद्वानों का विश्वास दृढ भित्ति पर अवलम्बित नहीं है। आध्यात्मिक और आधिदैविक विज्ञान उस समय बहुत उन्नत रूप मे था, और उन पर आधारित आधिभौतिक विज्ञान भी था। सिद्धान्तरूप से पूर्ण मात्रा मे था। यही वेदों के आविर्भाव का समय है, अतः सिद्धान्तरूप मे वहाँ सब विज्ञान पूर्ण रूप मे मिलते है।

आव्यात्मिक और आधिदैविक विज्ञानों के आधार के बिना आधिभौतिक विज्ञान अधूरा रहता है। इसीलिए आजकल के साइमन्वेत्ताओं को अपनी थिडरियों नित्य बदलनी पडती है। और, अब आगे उनका गतिनिरोध हो गया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोट्रॉन दोनों मूलतत्त्व किसी एक ही तत्त्व से निकले, यहाँ तक उन्होंने मान लिया। इससे 'सखे सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' (सबसे पहले एक ही मूलतत्त्व था—दूसरा कोई नहीं था), इस वैदिक सिद्धान्त की तो विजय उनके द्वारा भी घोषित हो गई। किन्तु, एक मूलतत्त्व से दो विरुद्ध धर्मवाले तत्त्व कैसे पैदा हों गये, यह गुत्थी अभी तक पाश्चात्य विद्वान् न सुलझा सके। और, यह बिना उक्त दोनों विज्ञानों के आधार के सुलझ भी नहीं सकती। अस्तु, हम प्रस्तुत विषय में दूर होते जाते हैं। हमारा प्रकृत कथन यही था कि सब विषयों में विकासवाद के एकान्त भक्त होने के कारण यूरोपियन विद्वानों की दृष्टि वेद के अमूल्य विज्ञान पर जम ही न सकी।

दूसरा कारण यह भी था कि वेद के पारिभाषिक शब्द, ब्राह्मणों, पुराणों और वेदाङ्गों की सहायता से ही खुल सकते हैं। किन्तु, यूरोपियन विद्वानों ने ऐसा नहीं माना। वे ब्राह्मण, पुराण, वेदाङ्ग आदि को बहुत पीछे का मानते हैं। ब्राह्मणादि से मन्त्रों का तात्पर्य समझने में कुछ भी सहायता लेना नहीं चाहते, वेद-मन्त्रों का अर्थ उनसे ही निकालना चाहते हैं। यही कारण है कि वेद की परिभाषाएँ उनकी दृष्टि में स्पष्ट नहीं होती, और अनेक शब्दों के तात्पर्यार्थ जानने के विषय में उन्हें अनेक कल्पनाओं का आश्रय लेना पडता है। वेद भारतीय शास्त्र है। यदि उनके मर्म-ज्ञान की अभिलाषा हो, तो भारतीय दृष्टि का ही आश्रय लेना होगा। यदि भारतीयतर दृष्टि रखनेवाले यूरोपियन विद्वान् वेद का रहस्यार्थ प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। वे भारतीय दृष्टि कहाँ से लायेंगे।

इस सब विस्तृत विवरण से हमने यह दिखाया कि अबतक वैदिक विज्ञान के क्रमवद्ध प्रकाशन न होने में बहुत से कारण रहे। बहुत सी कठिनाइयों के भेघ इस प्रकार छाये रहे कि वैदिक विज्ञान-मार्त्तण्ड के प्रकट होने का अवसर नहीं आया। भगवत्कृपा-वायु ने कठिनता-भेघों को दूर किया, तो अब विज्ञान-सूर्य चमका है। उसकी उपासना में विद्यावाचस्पतिजी ने उपर्युक्त विक्षेपों से बचकर, वर्त्तमान विज्ञान को भी दृष्टि में रखकर तथा ब्राह्मण, पुराण, आगम शास्त्र, बर्म-शास्त्र, वेदाङ्ग आदि की एकवाक्यता करते हुए वैदिक विज्ञान को प्रकाश में लाने का एक राजमार्ग निकाला है। मननशील विद्वानों के समक्ष अताविक ग्रन्थों के प्रणयन द्वारा वैदिक परिभाषाओं को स्पष्ट किया है। यदि विवेचक विद्वान् उस मार्ग पर चले, उसका रचिपूर्वक प्रसार करें, और परिश्रमपूर्वक उस कार्य को आगे बढ़ाने में प्रवृत्त हो जायें, तो निस्संशय वैदिक विज्ञान का प्रकाश फैल सकता है और इस शुभोदय से भारत को विश्व में अपना पुराना स्थान प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। इस प्रयास में भारत का मुख उज्ज्वल हो सकता है। यहाँ उसी मार्ग का सक्षिप्त टिक्-प्रदर्शन कराते हुए, भारतीय सस्कृति उसी पर आधारित है, यह दिखाने का प्रयत्न किया जायगा। वेद और विज्ञान शब्दों का अर्थ प्रथमतः बताते हुए, वेद में विज्ञान की प्रक्रिया की दिशा का

का सक्षित प्रदर्शन कर तदुपरान्त भारत और सस्कृति शब्दों का अर्थ और उनके साथ पूर्वोक्त विज्ञान का सम्बन्ध सधेप में बताकर डम निबन्ध को पूर्ण किया जायगा ।

प्रथमतः, वेद शब्द के अर्थ पर ही विचार प्रारम्भ किया जाय, यह उचित होगा । इस व्याख्या में विज्ञान के भी अनेक भाग प्रस्तुत हो जायगे ।

वेद शब्द का अर्थ

वेद शब्द 'विद् जाने' धातु में 'घञ्' प्रत्यय होकर बना है । 'घञ्' प्रत्यय का अर्थ भी भाव, कर्म या करण हो सकता है । इसलिए ज्ञान, ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदार्थ और ज्ञान के साधन तीनों ही वेद शब्द के वाच्य अर्थ हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त भगवान् पाणिनि ने अपने वातुपाठ में विद् धातु के अर्थ सत्ता, लाभ और विचारना— ये तीन और माने हैं । इनमें विचारना तो एक प्रकार से ज्ञान में ही अन्तर्गत हो जाता है, किन्तु सत्ता और लाभ अर्थ अतिरिक्त रहते हैं । उन अर्थों में भी उक्त तीनों प्रत्ययार्थ जोड़ने से वेद शब्द का अर्थ बहुत गभीर हो जाना है । लाभ आनन्द का उत्पादक वा आनन्द का ही एक रूप है, ऐसा सूक्ष्म विचार करने पर सत्ता, ज्ञान और आनन्द ये तीन जो ब्रह्म के लक्षण श्रुतियों में मिलते हैं—ये तीनों वेद शब्दार्थ में आ जाते हैं । अथवा यों भी कह सकते हैं कि 'विद्' धातु के अर्थों में सत्ता से उत्पत्ति, ज्ञान से पालन या जीवन, और लाभ से प्राप्ति वा लय बताया गया । इस प्रकार भी वेद शब्दार्थ में ब्रह्म के लक्षण आ गये । जिससे सब उत्पन्न हो, जिसके आधार पर जीवित रहे, और जिसमें सब लीन हो, यही ब्रह्म का लक्षण श्रुति में कहा है । इसलिए वेद शब्द, ब्रह्म शब्द का पर्याय बन जाता है । अस्तु, अन्य का विवेचन आगे स्फुट होगा, अभी ज्ञान अर्थ का ही विचार कीजिए । प्राचीन वाट्मय में ब्रह्म, विद्या और वेद इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में मिलता है । तीन वेदों के लिए 'त्रय ब्रह्म', 'त्रयी विद्या' और 'त्रयो वेदा'—ये तीनों प्रकार के प्रयोग यत्र तत्र समुपलब्ध होते हैं । यद्यपि सूक्ष्म विचार से इन शब्दों के अर्थ में व्यावहारिक दृष्टि से किञ्चित् भेद है । वेद का पहिला जो ज्ञान अर्थ हम कह आये हैं, वह तो तीनों शब्दों में समान ही है, किन्तु साधनों का भेद प्रतीत होता है । भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्तुवर्म, उनके कार्य-कारण-भाव आदि का ज्ञान यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ हो, तो उस ज्ञान को ब्रह्म शब्द से कहा जायगा । वही ज्ञान यदि पूर्वसंचित सस्कारों की सहायता में हुआ हो, तो उसे 'विद्या' शब्द से प्रकट किया जायगा । यदि वैसा ज्ञान शब्दप्रमाण से हो, तो उसे 'वेद' शब्द से कहा जायगा । इसलिए इसका समानार्थक वाक् शब्द भी सुप्रसिद्ध है । इतना ध्वान्तर भेद होने पर भी ज्ञान-मात्र पर दृष्टि रखकर तीनों शब्दों का समान रूप में प्रयोग भी बहुत प्रचलित है । पूर्वोक्त प्रकार से शब्द से होनेवाला ज्ञान और उस ज्ञान के साधन-रूप शब्द ही व्यवहार में 'वेद' शब्द के द्वारा बोध्य होते हैं । वहाँ भी विशेषकर लौकिक और अलौकिक ज्ञान के साधनरूप शब्द ही आज वेद नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गये हैं । इसलिए वेद शब्द पुस्तकों का ही वाचक बन गया, किन्तु उन वेद-पुस्तकों में वेद शब्द का और उसके अवान्तर विभागों के बोधक ऋक्,

यजुः और साम शब्दों का एव सामान्यार्थबोधक वाक् शब्द का भी व्यवहार प्रत्यक्ष ज्ञान के साधनों और साथ ही ज्ञान के विषय बननेवाले अर्थों में भी हुआ है।

यह विचार कीजिए कि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष-ज्ञान हमें किस प्रकार होता है। प्रत्यक्ष का लक्षण तो शास्त्रकारों ने यह किया है कि इन्द्रियों से जेय अयो का सम्बन्ध होने पर जो ज्ञान प्रकट हो, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। रस, स्पर्श, गन्ध, शब्द इन गुणों में देखा भी यही जाता है कि वे गुण जब हमारी, रसना, त्वचा, प्राण और श्रोत्र-इन्द्रियों पर पहुँचकर इनसे सम्बद्ध होते हैं, तभी इनका ज्ञान होता है। दूर की वस्तु का खड़ा-मीठा रस, शीतल-उष्ण आदि स्पर्श हम नहीं जान सकते। यद्यपि दूर के पुष्प आदि के गन्ध का ज्ञान हमें होता है, किन्तु वायु द्वारा जब गन्धवाले द्रव्य के अणु हमारी घ्राण-इन्द्रिय पर लाये जाते हैं, तभी होता है। एव, शब्द भी एक स्थान में उत्पन्न होने पर उसकी धारा जब हमारे कानों में आती है, तभी उसका भी ज्ञान होता है। इसी कारण, दूर का शब्द अपनी उत्पत्ति के कुछ क्षणों के अनन्तर ही हमें सुनाई देता है और जिस समय हम शब्द सुनते हैं, उस समय वह अपने उत्पत्ति-स्थान में नहीं रहता, इससे धारा-रूप से चलता हुआ वा नया-नया शब्द उत्पन्न करता हुआ वह हमारे कान तक आ गया, यह समझ में आ जाता है। किन्तु, रूप की बात निराली है, बहुत दूर की वस्तु का भी रूप हम आँखों से देखते हैं, और वह रूप हमारे देखने के समय वहाँ दूरस्थान पर भी बना रहता है। रूप वा आकार का देखना ही वस्तु का देखना कहलाता है। तब प्रश्न यह उठता है कि बिना आँख से सम्बन्ध हुए हमने आँख द्वारा उस वस्तु को वा उसके रूप और आकार को देखा कैसे? हमारे कई दर्शनकार चक्षु-इन्द्रिय का वस्तु के समीप पहुँच जाना मानते हैं। उनका विचार है कि हमारी चक्षु-इन्द्रिय तेज से बनी हुई है। तैजस पदार्थ—सूर्य, दीप आदि में से किरणें निकलती हैं, और दूर तक फैलती हैं। इसी प्रकार, आँख की भी किरणें हैं, वे जाकर वस्तु का स्पर्श करती हैं, तब हमें वस्तु का ज्ञान हो जाता है। किन्तु ज्ञान की स्थिति पर विचार करनेवाले सूक्ष्म निरीक्षक विद्वान् इस सिद्धान्त से सन्तुष्ट नहीं होते। ज्ञान एक आन्तर वस्तु है। वह शरीर के भीतर ही होता है, बाहर वस्तुप्रदेश में ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा को व्यापक कहनेवाले दर्शन इसका यो समाधान कर लेते हैं कि आत्मा जब सब जगह है, तब शरीर से दूर भी बाह्य प्रदेश में ज्ञान हो जाने में बाधक क्या? ज्ञान तो आत्मा का ही धर्म है, वह आत्मा में किसी प्रदेश में भी हो सकता है। किन्तु, इसके विरुद्ध पक्षवाले विद्वान् कहेंगे कि आत्मा भले ही व्यापक रहे, किन्तु उसका भोग-साधन तो शरीर है, यह तो सभी मानते हैं। तब आत्मा के विशेष गुण ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख आदि शरीर के भीतर ही पैदा हो सकते हैं। बाहर भी यदि इनका उत्पन्न होना मान लिया जाय, तो शरीर की आवश्यकता ही क्या? दूसरी बात यह कि ज्ञान उत्पन्न होने में मन के भी सहयोग की आवश्यकता है, बिना मन के योग के किसी इन्द्रिय के द्वारा हमें ज्ञान नहीं होता। देखा जाता है कि मन यदि दूसरी ओर लगा हो, तो कितना भी उत्तम गान हो रहा हो—मनुष्य उसे सुनता ही नहीं। कितनी भी उत्तम गन्ध आ रही हो, मनुष्य को पता ही नहीं

लगाता। हाथी घोड़े भी सामने से निकल जायें, तो पछूने पर मनुष्य कह देता है—‘जी, मेरा तो मन ठिकाने नहीं था, मैंने कुछ नहीं देखा।’ इसलिए, साख्य, वेदान्तादि दर्शनो ने ज्ञान को अन्तःकरण का ही गुण माना है। आत्मा तो निर्विकार साक्षी-मात्र है। अस्तु, वह मन तो हृदय में ही बैठा रहता है, फिर बाहर वस्तुप्रदेश में ज्ञान होगा कैसे ? कई ग्रन्थकारों ने इसके समाधान के लिए मान लिया है कि मन वा अन्तःकरण भी चक्षु के साथ बाहर चला जाता है। वही उसमें ज्ञान हो जाता है, किन्तु यह भी निरी उपहासास्पद कल्पना है। मन यदि बाहर चला जाय, तो क्षण के अन्तर्गत भर भी शरीर का धारण नहीं रह सकता। शरीर उसी क्षण वा लव में गिर जायगा। कई ग्रन्थकार कह देते हैं कि चक्षु बाहर जाकर रूप को मन के पास पकड़ लाती है, किन्तु आँख में केवल देखने की शक्ति है, पकड़ लाने की कोई शक्ति उसमें नहीं, इसलिए यह कल्पना भी पूरी नहीं उतरती। एक आँख को दबाकर टेढ़ी कर देखने से वस्तु दो दिखाई देने लगती हैं—एक अपने स्थान में और दूसरी स्थान से कुछ हटकर। उसी प्रकार, दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है—इन सब बातों की उपपत्ति इन विचारों से ठीक बैठती ही नहीं। अस्तु,

वैदिक विज्ञान इस सम्बन्ध में यह बताता है कि प्रत्येक वस्तु में उसकी प्राण-शक्ति व्याप्त है। प्राण के बिना कोई भी वस्तु ठहर नहीं सकती। वह निष्प्राण हो जाती है। बल और विधारण प्राण की ही शक्ति है। बिना प्राण के न किसी वस्तु में बल रहेगा, न उसका विधारण होगा। वह चूर-चूर होकर गिर जायगी। वह प्राण उस वस्तु के भीतर भी रहता है, और बाहर भी फैलता है। प्रत्येक पार्थिव (पृथिवी-तत्त्व के बने) पदार्थ में आग्नेय प्राण रहता है, अग्नि ही पृथिवी का प्राण है। वह अग्नि वैदिक परिभाषा में दो प्रकार का माना जाता है, चित्त और चित्तेनिधेय। अग्नि प्राण के ही चयन (चिनाई) से सब वस्तु बनी है, प्राण ही भूतों का उत्पादन करता है। इस प्रकार, वस्तु के स्वरूप सघटन में लगे हुए प्राण वा अग्नि को वैदिक परिभाषा में ‘चित्त’ कहते हैं। चित्त, अर्थात् चयन किया गया—जिसकी चिनाई हुई, वह। यों, चयन से वस्तु का स्वरूप बनाकर फिर प्राण उस पर बैठता है। जैसे, मकड़ी अपनी ही लार से जाल बनाकर उस पर स्वयं बैठती है, वा प्रकाश (तेजोद्रव्य) दीपक का स्वरूप बनाकर उस पर बैठकर दूर तक फैलता है, उसी प्रकार प्राण-शक्ति भौतिक वस्तुओं का स्वरूप बनाकर उन पर स्थित होती है। उक्त चित्त अग्नि को मृत वा मर्त्य और चित्तेनिधेय को अमृत कहा जाता है, अर्थात् चित्त में शक्ति मृत हो चुकी, वह (चित्त) अपने स्थान से हट नहीं सकता। किन्तु चित्तेनिधेय चारों ओर फैलता रहता है।

सृष्टि में चार प्रकार के पदार्थ होते हैं—स्व-ज्योति, पर-ज्योति, रूप-ज्योति और अ-ज्योति। अपने-आप प्रकाश रखनेवाले सूर्य, विद्युत्, अग्नि आदि स्व-ज्योति कहे जाते हैं। जो दूसरे के प्रकाश से चमक उठे, वे पर-ज्योति हैं—जैसे चन्द्रमा, दर्पण, जल आदि। जिनमें प्रकाश वा चमक न हो, उन्हें रूप-ज्योति कहते हैं, जैसे पृथिवी तत्त्व के बने हुए पदार्थ उनमें चमक नहीं, रूप ही उनका प्रकाश है। और, जिन वायु आदि में रूप भी नहीं होता, वे अ-ज्योति कहने योग्य हैं। इनमें स्व-ज्योति और पर-

ज्योति के प्राणभूत प्रकाश का दूर तक फैलना प्रत्यक्ष है, अतः उसे सभी मानते हैं। किन्तु, वैदिक विज्ञान बताता है कि तुल्य न्याय से रूप-ज्योति, अर्थात् पार्थिव आदि पदार्थों के प्राण भी इसी प्रकार चारों ओर फैलते हैं। वस्तु के परिमाण के अनुसार उनके फैलने की अवधि छोटी या बड़ी होती है। जैसे, छोटे-से टिमटिमाते दीपक का प्रकाश बहुत अल्प स्थान में फैलता है, बड़े लैम्प का दूर तक, और सूर्य का तो समस्त ब्रह्माण्ड में ही व्याप्त है। ऐसे ही छोटी वस्तु का प्राण थोड़ी दूर तक फैलता है, बड़ी वस्तु का दूर तक। इसीलिए, छोटी वस्तु ममीप से ही दिखाई देती है और बड़ी वस्तु पर्वत आदि बहुत दूर तक भी दीख पड़ते हैं। वस, विचारक विद्वान् समझ गये होंगे कि विभिन्न वस्तुओं के चित्तेनिवेय प्राण अपने वेग से उस वस्तु के रूप को साथ लेकर हमारी चक्षु तक आते हैं, और इसी कारण हमें अपनी चक्षु से दूर रहनेवाली भी वस्तु वा उसका रूप दिखाई देता है। इस प्राण के फैलाव को ही वैदिक परिभाषा में 'वितान वेद' कहते हैं। विस्तार होने से यह वितान है और ज्ञान का साधन होने से वेद। जहाँ तक जिस वस्तु के प्राण का वितानन वा विस्तार होता है, वहाँ तक वह वस्तु दिखाई देती है। प्राणशक्ति विना आधार के नहीं रहती वा नहीं चलती। इसलिए, अपनी आधारभूत वाक् को भी साथ लाती है। प्राण के साथ वाक् का भी वितानन (विस्तार) होता है, अर्थात् इस वेद में वाक् और प्राण दोनों मिले हुए हैं। खूब स्मरण रखिए कि वाक् और प्राण के नाम से जो आध्यात्मिक, अर्थात् शरीर के, तत्त्व हमारे परिचित हैं, वे प्राण वा वाक् यहाँ न समझे जायें। अवश्य ही वे आध्यात्मिक वाक् वा प्राण भी इनसे ही बने हुए हैं, किन्तु ये, जिनका हम वितानन बता रहे हैं, बहुत सूक्ष्म तत्त्व है। इनका निरूपण हम आगे 'पुरुष-विज्ञान'-प्रकरण में अव्यय-पुरुष की कलाओं के रूप में करेंगे। यहाँ इतना ही समझा जाय कि प्रत्येक वस्तु की शक्ति वा 'एनर्जी' उसके मैटर का अति सूक्ष्म भाग साथ लेकर दूर तक फैलती है। ये सूक्ष्म वाक् और प्राण मण्डलरूप में ही रहा करते हैं, इसीलिए चारों ओर ही उनका प्रसार है—और वस्तु चारों ओर से ही समानान्तर पर दिखाई पड़ती है। जितना उस वस्तु का आकार है, वह ऋक् कहा जाता है और जहाँ तक उसका प्रसार होगा, वह अन्तिम मण्डल उसका साम है—साम का अर्थ है समाप्ति वा अन्तिम भाग। और मध्य के जितने मण्डल हैं, उनमें व्याप्त अग्नि-तत्त्व यजु कहलाता है। ऋक् और साम तो अवधि-मात्र हैं, वस्तु का सार—उसका तत्त्व यजु, में ही भरा रहता है। नये-नये पदार्थ उसी से उत्पन्न होते रहते हैं।

वर्तमान साइंस कहता है कि वस्तु का कोई अंग नहीं फैलता, न उसका कोई अंग हमारी आँख तक आता है। सूर्य वा अन्य वस्तुत्, दीपक आदि की किरणें उस वस्तु का स्पर्श कर उसी के आकार की बनकर हमारी आँख पर आती हैं, और वे ही हमें उस वस्तु का रूप वा आकार दिखा देती हैं। उन्हीं किरणों का पुंज छाया-चित्र या 'फोटो' भी है। यहाँ साइंटिस्ट महोदय थोड़ी भूल करते हैं। प्रकाश की किरणें अवश्य आती हैं, किन्तु उनके साथ वस्तु के अंग का आना भी मानना ही पड़ेगा। यदि यह प्रश्न उठाया जाय कि 'किरणों में तो सात रूप हैं, फिर हमें कोई

वस्तु काली और कोई पीली या श्वेत क्यों दिखाई देती है ? तो इसका उत्तर वैज्ञानिक लोग देते हैं कि वह वस्तु किरणों के रूपों को खा जाती है, फिर जिस रूप को वह उगलती है, वह हमारी आँख पर आकर हमें दिखाई देता है। फिर भी, यह प्रश्न उठेगा कि कोई वस्तु काले रूप को और कोई पीले रूप को क्यों उगलती है ? तब अन्ततः वस्तु के स्वभाव वा वस्तु शक्ति की ही श्रृण लेनी पड़ेगी—कि जिस वस्तु में जिस रूप के उगलने की शक्ति है, वा जिसे उगल देने का जिसका स्वभाव है, उसे ही वह उगलती है। अच्छा, तो अब वे केवल प्रकाश की किरण ही नहीं रही, वे तो वस्तु की उगली हुई हैं—तो वस्तु का अर्थ उनके साथ जरूर है। वैदिक विज्ञान हमें वात को यों कहेगा कि जिन सूर्य आदि की किरणों को वस्तु ने खा लिया, वे तो उसमें आत्मसात् हो गए, खाई हुई वस्तु तो अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो जाती है। अब जो उगली जाती है, वे तो उस वस्तु के ही अर्थ हैं। यों तो, प्रत्येक वस्तु कुछ लेती और देती रहती है, यह वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त ही है, जिसे हम आगे यज्ञ-प्रक्रिया में स्पष्ट करेंगे। किन्तु जो कुछ लिया, वह उस वस्तु का अपना बन गया। अब जो देगी, वह उसका अपना अर्थ कहलायगा। उन्हें अब प्रकाश की किरण नहीं कह सकते। प्रकाश की किरणें वस्तु में प्रविष्ट होकर उसमें आत्मसात् हो चुकी हैं और अब जो निकली है, वे उस वस्तु के ही अर्थ हैं। और देखिए—कोई वस्तु दूर और कोई समीप दिखाई देती है, उसकी दूरी वा समीपता को भी हम पहचानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव इसमें साक्षी देगा। तब प्रश्न यह है कि एक ही आँख के धरातल पर, एक ही बिन्दु पर, आये हुए पदार्थ जब हमें दिखाई देते हैं, तब उनकी दूरी वा समीपता जानने का आधार क्या ? एक बिन्दु पर पड़े हुए प्रतिबिम्बों की दूरी वा समीपता तो हम नहीं समझ पाते, फिर एक ही आँख की बिन्दु पर पड़े हुए वस्तु-प्रतिबिम्बों की दूरी वा समीपता कैसे समझी जाय ? इमका उत्तर साइंटिस्ट यों देते हैं कि दूर वा नजदीक से आये हुए रूपों में कुछ तारतम्य होता है। उसी तारतम्य के आधार पर दूरी वा समीपता का अनुमान हो जाता है। वस्तुतः 'स्पेस', अर्थात् दूरी अथवा नजदीकी का प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान है। किन्तु यह अनुमान हमें इतना अभ्यस्त हो गया है कि उसमें क्षण विलम्ब नहीं लगता, हम उसे प्रत्यक्ष ही मान लेते हैं, जैसे चतुर चितेरा एक ही धरातल पर लिखे चित्र में रूपों की ऐसी विशेषता कर देता है कि हमें उस चित्र में वस्तुओं के मध्य में अवकाश और उनकी दूरी और नजदीकी का भान होने लगता है। नाटक के परदों में और सिनेमा के दृश्यों में जो दूरी-नजदीकी का भान है, वह इसी आधार पर तो है। वे सब तो एक ही धरातल पर हैं, किन्तु रूपों के तारतम्य से—उनकी विशेषता से हमें उनकी दूरी-नजदीकी का भान हो जाता है। यही बात हमारे वस्तुओं के प्रत्यक्ष में है। चक्षु के धरातल पर आये हुए रूपों की विशेषता से हमें दूरी वा समीपता का भान हो जाता है। वस, जब दूर वा समीप से आगत रूपों में आप विशेषता मानते हैं, तो यह भी मान लेना होगा कि वे रूप वस्तुधर्म हैं। प्रकाश की किरणें तो एक ही स्थान में चली हैं, वे सब वस्तुओं का स्पर्श कर आपकी आँखों पर आती हैं। उनका तो अपने मूलस्थान से स्थान ही अन्तर है, तब दूरी वा समीपता से

उनमे विशेषता क्यों आवेगी ? जिन वस्तुओ का स्पर्श कर वे आँख पर आती हैं, वे वस्तुएँ दूर वा समीप हैं, उनकी कुछ विशेषता ये लाती हैं। तभी तो इनमे विशेषता आती है—और वे दूरता वा समीपता का अनुमान कराती हैं। वास्तव में तो दूरता वा समीपता हमारे वैदिक विज्ञान के अनुसार अनुमेय है भी नहीं, वह प्रत्यक्ष ही है। हम 'स्पेस' वा आकाश को निरा शून्य नहीं कहते, उसमें भी तत्त्व भरे हुए हैं, वे तत्त्व भी पूर्वोक्त वेद-मण्डलो पर प्रभाव डालते हैं, जिससे उनकी बहुलता वा अल्पता भी प्रत्यक्ष से गृहीत हो जाती है। और, उस बहुलता वा अल्पता का ही नाम दूरी वा समीपता है। मैं इस अप्रकृत विषय के विस्तार में यहाँ नहीं लूँगा। इसका विषय प्रस्तुत होने पर, इसका विवरण दूँगा। यहाँ तो साइटिस्ट महानुभावों के माने हुए तत्वों पर ही विचार करना है। अस्तु, यो सूक्ष्म विचार करने पर वस्तु के अंगों का फैलना साइटिस्टों को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। अच्छा, केवल रूप के सम्बन्ध में हम यदि उनकी ही कल्पनाएँ मान भी दें, तो भी वस्तु का आकार—लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई आदि भी तो आँख से दिखाई देती है। फोटो में तो यो का या आकार बन जाता है। इसका उपपादन कैसे होगा ? वस्तु का स्पर्श कर प्रकाश की किरणों उसी क्रम से आँख पर और फोटो के कैमरे पर आ जमती है, इससे यहाँ भी वैसा आकार बन जाता है, यह साइटिस्ट महाशयों की कल्पना केवल कल्पना-मात्र ही है। किरणों का स्वभाव तो चारों ओर फैलने का है। यदि भिन्न-भिन्न वस्तुओं ने उनमें कोई खास विशेषता अर्पित न की होती, तो वे स्वयं कोई सन्निवेश बना नहीं सकती थीं। स्वतः उनमें सन्निवेश (खास तौर पर जमने का स्वभाव) नहीं है। तो, सन्निवेश अवश्य ही वस्तुधर्म है, जो किरणों के साथ आँख आदि पर आया है। यह ठीक है कि किरणों की सहायता के बिना वस्तु के वे अंग नहीं आ सकते वा वैदिक विज्ञान के अनुसार हम कहेंगे कि वस्तु का अंग यहाँ रहता हुआ भी किरणों की सहायता के बिना अभिव्यक्त—प्रकाशित नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति वा प्रकाश में तो किरणों की सहायता सभी मानते हैं, किन्तु केवल किरणों ही वस्तु के प्राण और वाक्-रूप अंग की सहायता के बिना अपने सन्निवेश से नये आकार बना लेती हैं, यह बात बुद्धि स्वीकार नहीं करती। अच्छा, यदि किरणों ही सन्निवेश बना लेती हैं, तो वे किरणों तो बहुत दूर तक व्याप्त होगी। फिर, बहुत दूर तक भी फोटो क्यों नहीं उतर जाता ? वा सीमा से बाहर बहुत दूर तक भी वस्तु दिखाई क्यों नहीं देती ? इसका वे क्या उत्तर देंगे। हमारे पास तो इसका सीधा उत्तर है कि ऋक् के अनुसार ही साम होता है। ऋक् का (वस्तु की मूर्ति का) जितना परिमाण है, उसके अनुसार ही साम-मण्डल बनेगा। साम मण्डल के भीतर ही फोटो उतर सकता है, और उसके भीतर रहनेवाला द्रष्टा ही उसे देख सकता है। आप कहे कि किरणों में सन्निवेश ले जाने की शक्ति भी नियत दूरी तक ही है, तो यह शक्ति तो उस वस्तु ने ही डाली, यही तो करना पड़ेगा। स्वतः तो सूर्य के किरणों में बहुत दूर तक फैलने की शक्ति है, उसका प्रतिनियमन किसने किया ? बात यह है कि आधुनिक साइंस, करके दिखाने की बहुत बड़ी शक्ति देता है, उसकी उपपत्ति ठीक-ठीक हृदय में

बैठाकर उसे चाणी द्वारा प्रदर्शित करना वह बहुत अल्प मिलाता है। वैदिक विज्ञान प्रत्येक बात को बुद्धिगत्त बनाता है, और उसके उपपाठन व्याख्यान की शक्ति भी देता है। अस्तु हमारा वक्तव्य यही है कि वस्तु के सध्मात्र का फैलना बुद्धिग्राह्यता के लिए मानना ही पड़ेगा, अन्यथा उपपत्ति नहीं बैठ सकती। उसके अतिरिक्त वस्तुधर्म के सध्मात्रों का वस्तु-स्वरूप के बाहर भी पले रहना और युक्तियों से भी सिद्ध होता है। आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी कहते हैं कि वृक्ष कार्बोनिक एसिड उगलते हैं, इसलिए रात को वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बहुत से वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि त्रियों का मलिन रज कुछ दूर के सुकुमार पुष्प आदि को भी कुम्हला देता है इत्यादि। हमारा आयुर्वेद-विज्ञान भी, हमली के वृक्ष के नीचे सोनेवाले को गठिया रोग हो जाता है, यह बताता है। हमारी मस्कृति का स्यशास्पर्श-विवेक सब इसी आधार पर अवलम्बित है। वाग-त्रयीचो में कुछ दूर तक भी उनकी तरी का अनुभव होता है—इत्यादि बहुत-से अनुभव इसके प्रमाणभूत हैं। हाट्टोजन ऑम्नीजन आदि का वायुमण्डल में फैला रहना मादम स्वीकार करता है। वे भी तो किसी वस्तु के अग्र ही वायुमण्डल में आये हुए हैं।

साट्टिस्ट महानुभावों को सम्भवत यह शङ्का है कि जो वस्तु के अग्र क्षीण होते जायेंगे, तो वस्तु का आकार कम होता जाना चाहिए, और कुछ दिनों में ही वस्तु लुप्त हो जानी चाहिए। किन्तु वैदिक विज्ञान में इस शङ्का का स्थान नहीं। हम प्राण-तत्त्व वा उसके सहचर वाक्-तत्त्व को स्थानावरोधक (जगह रोकनेवाली वस्तु) नहीं मानते। स्थानावरोधकता घनीभूत होने पर ही आती है, प्राण-तत्त्व तो शक्तित्रिगोप ही माना जाता है, अति सूक्ष्म वाक्-तत्त्व भी शक्ति का सहचर उर्मी रूप में रहता है। इसलिए, ऐसे तत्त्वों के निकल जाने पर भी वस्तु में न्यूनता का प्रश्न नहीं उठता। और जैसे वे तत्त्व उनसे निकलते हैं, वैसे प्रकृति-नियमानुसार भिन्न भिन्न स्थानों से आकर उनकी पूर्ति भी तो होती रहती है। अधिक व्यय होने पर तो वस्तु में जीर्णता आ ही जाती है। इस सबका विवरण यज्ञ-विज्ञान के प्रकरण में किया जायगा। जिस प्रकार की वेद-प्रक्रिया हम बताने लगे हैं, उसमें तो निकलने एवं न्यून होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऋक्, यजु और साम तीनों वेद परस्पर सम्बद्ध रूप में ही रहते हैं। साम-मण्डल के अन्तर्गत यजु ही देखने में वा फोटो, चित्र आदि में वा दूर से प्रभाव डालने आदि में कारण होता है। सब जगत् के प्राणभूत र्थों को उदाहरण मानकर इन वेदों का विवरण शतपथ-ब्राह्मण में (का० १०, आ० ५, ब्रा० २ के आरम्भ में) इस प्रकार मिलता है—

यदेतन्मण्डलं तपति, तन्महदुक्थम्, ता ऋचः स ऋचा लोकः। अथ यदेतदर्चिर्दीप्यते, तन्महाव्रतम्, तानि सामानि, स साम्नां लोकः। अथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः, सोऽग्निः, तानि यजूषि, स यजुषा लोकः ॥१॥ सैषा त्रयैव विद्या तपति। तद्वैतदप्यविद्वांस आहुः— त्रयी वा एषा विद्या तपति इति। वाग्धैव तत्पश्यन्ती वदति ॥२॥ य एष एव मृत्युः य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो अथैतदमृतम्—यदेतदर्चिर्दीप्यते, तस्मान्मृत्युर्न

म्रियते, अमृते ह्यन्तः । तस्माद् न दृश्यते अमृते ह्यन्तः ॥३॥ तदेप श्लोको भवति अन्तरं मृत्योरमृतमिति—अवरं ह्येतन्मृत्योरमृतम् । मृत्यावमृतमहितमिति—एतस्मिन्पुरुषे एतन्मण्डलं प्रतिष्ठितं तपति । मृत्युर्विवस्वन्तं वस्ते इत्यसौ वा आदित्यो विवस्वान्, एष ह्यहोरात्रे विवस्ते । तमेप वस्ते, सर्वतो ह्यनेन परिवृतो मृत्योरात्मा विवस्वति इति एतस्मिन् हि मण्डले एतस्य पुरुषस्यात्मा एतदेप श्लोको भवति ॥४॥ तयोर्वा एतयोः, उभयोः, तस्य चार्चिष एतस्य च पुरुषस्य एतन्मण्डलं प्रतिष्ठा । इत्यादि ।

गतपय-ब्राह्मण के उपर्युक्त अंश का अर्थ इस प्रकार है—

“यह जो सूर्य का मण्डल तप रहा है, वह ‘महदुग्ध’ नाम से वेदो में परिभाषित है । यह ऋचा-रूप है (अनेक ऋचाओं का समूह है) । यही ऋचाओं का लोक, अर्थात् स्थान है । यह जो प्रकाश फैल रहा है, या प्रदीप्त हो रहा है, वह ‘महाव्रत’ नाम से प्रसिद्ध है । ये ही साम कहे जाते हैं । यह (प्रकाश-मण्डल) सामो का लोक है । इस मण्डल के बीच में जो ‘पुरुष’, अर्थात् प्राणात्मा व्याप्त है, वह ७ गिन है । ये ही ‘यजुः’ कहे जाते हैं, यह यजु का लोक है । इस प्रकार, यह त्रयी विद्या, ऋक्, यजु और साम ही तप रहे हैं, किन्तु इस त्रयी विद्या, अर्थात् तीनों तत्त्वों को भिन्न भिन्न कहनेवाले भी अविद्वान् हैं । यह एक ही ‘वाक्’ (प्राण के साथ चलनेवाला सूक्ष्म तत्त्व, जो पहले कहा जा चुका है) तीन रूपों से दिखाई देती हुई मानो बोल रही है—इसके आगे ‘मृत्यु’ और ‘अमृत’-तत्त्व, जो हम पहले कह आये हैं, का भी स्पष्टीकरण है कि—मण्डल में जो पुरुष (प्राण रूप अग्नि) है, वह मृत्यु, अर्थात् मृत्यु से आक्रान्त मर्त्य है । जो प्रकाश-रूप से प्राण (चित्तेनिधेय) फैल रहा है, वह अमृत है । इसी कारण मर्त्य-मण्डल मरता नहीं, अर्थात् नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह अमृत के भीतर बैठा है । यही अमृत उसकी रक्षा कर रहा है । (प्राण के ही आधार पर वाक् जीवित रहती है । प्राण से ही उसका पोषण भी होता है, जैसा आगे स्पष्ट किया जायगा ।) वह मर्त्य-मण्डल स्वतः हमें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि वह अमृत के अन्तर्गत, अर्थात् उससे आवृत है ।” इससे स्पष्ट कर दिया गया कि मण्डल स्वतः दिखाई नहीं देता, उसके फैले हुए प्राण-रूप रश्मि-पुंज ही दिखाई दिया करते हैं । इस सारे विषय को हम एक प्राचीन मन्त्र रूप श्लोक में भी देख सकते हैं । श्लोक इस प्रकार है—

अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम् ।
मृत्युर्विवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति ॥

इसका व्याख्यान ब्राह्मण करता है कि अमृत मृत्यु से अन्तर है (अन्तर शब्द का अर्थ दूर भी होता है, वही अर्थ यहाँ अभिप्रेत है), अवर है, अर्थात् इवर हमारी ओर दूर तक फैला हुआ है । किन्तु, यह सम्पूर्ण प्रकाश-मण्डल उस मर्त्यरूप मूर्ति-मण्डल पर ही रखा हुआ है, अर्थात् उसके आवार पर ही प्रतिष्ठित है (मूर्ति के न रहने पर यह अमृत-प्रकाश-मण्डल कैसे रह सकता है ? मूर्ति के स्थान से हट जाने पर प्रकाश-मण्डल भी स्थान से हट जायगा) । यह मूर्ति मण्डल उसी के आधार पर वास

कर रहा है। ओर, वह मूर्त्ति-रूप सूर्य-मण्डल अहोरात्रजनक इस प्रकाश-मण्डल को मानो पहने हुए है (जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं), वैसे प्रकाश-मण्डल ने मूर्त्ति-मण्डल को पहन रखा है, अर्थात् प्रकाश-मण्डल मूर्त्ति का वस्त्रस्थानीय है। इस मृत्यु-मण्डल की आत्मा भी इस प्रकाश-मण्डल के केन्द्रभूत विवस्वान् नाम के प्राण पर ही प्रतिष्ठित है। यही श्लोक का आशय है। अतः, इन दोनों साम ओर यजु. की—प्रकाश-मण्डल और फैले हुए प्राण की—प्रतिष्ठा वह मूर्त्ति-मण्डल ही है। यह उक्त गतपथ-ब्राह्मण का अनुवाद हुआ। यहाँ ऋक्, यजुः और साम शब्दों का विस्पष्ट विवरण, उनकी वाक्-प्राणरूपता और उनका अन्योन्य-सम्बन्ध स्पष्ट अधरो मे बताया गया है। इसके आगे ब्राह्मण में, प्रक्रिया में और अध्यात्म में भी इन तीनों मण्डलों का विवरण है। इससे स्पष्ट सूचित कर दिया है कि वस्तु-मात्र में ये तीनों विराजमान हैं। और, इन तीनों का त्रिनिष्ठ सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा नहीं रहता, तीनों नित्य-सम्बद्ध रहते हैं। आजकल के साइटिस्ट महोदय 'प्रकाश' गणित का बहुत बड़ा विस्तार फैलाकर जो कहा करते हैं कि बहुत-से तारा-मण्डल इतनी दूर पर हैं कि उनका प्रकाश यहाँ पहुँचने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, महाभारत युद्ध के समय जो नक्षत्र हमारे आकाश-मण्डल में आया था, उसका प्रकाश अब हमारे पास पहुँचा है। वह तारा अब न मालूम कहाँ है—संभव है नष्ट भी हो गया हो, किन्तु हम उसे प्रकाश के आधार पर आज देख रहे हैं, यह सब उनकी एक रोचक कल्पना-मात्र है। किन्तु, वैदिक विज्ञान से वह विरुद्ध है, क्योंकि ऋक् और साम, अर्थात् मण्डल और प्रकाश वैदिक विज्ञान की दृष्टि में नित्य-सम्बद्ध हैं। 'ऋच्यध्यूद साम', साम-मण्डल ऋक् के ही आधार पर ठहरा है, मण्डल (मूर्त्ति) यदि नष्ट हो जाय, तो साम (प्रकाश-मण्डल) रह नहीं सकता।

यह 'वितान वेद' का सन्निभ वर्णन हुआ। दूसरे छन्दों का निरूपण करते हुए श्रुतियों में यह भी समझाया गया है कि आकार-वद्ध वह मूर्त्ति-पिण्ड भी साम-मण्डल की सीमा तक (प्रकाश की अन्तिम परिधि तक) फैला हुआ है। परिच्छेद—सन्निवेश वा मर्यादावद्ध आकार का ही नाम वैदिक परिभाषा में छन्द है। बिना ऋचा के साम रह ही नहीं सकता, इसलिए साम के साथ सन्निवेश-वद्ध मूर्त्ति भी चारों ओर फैलती है। वह स्वयं मर्त्य (गतिशून्य) है, किन्तु अमृत-प्राण उसे ले आता है। जैसा 'मृत्युविवस्वान् वस्ते', इस उक्त श्रुति में स्पष्ट किया गया है कि 'मृत्यु विवस्वान् मण्डल-प्राण को पहने हुए है'। वह अमृत मण्डल-प्राण उसे भी खींच ले जाता है। यही कारण है कि मूर्त्ति का पूरा सन्निवेश—जैसा का तैसा, उसके विगेष चिह्नों-सहित हम देखा करते हैं। इतना अवश्य है कि अमृत-प्राण की गति सूचीमुख के रूप में तिरछी (तिर्गु) होती है, अर्थात् आगे-आगे सूक्ष्म होती जाती है।

प्रत्येक मूर्त्ति के व्यास के दोनों ओरवाले बिन्दु ही छन्द हैं। उसी मर्यादा के भीतर वह मूर्त्तिपिण्ड बँधा हुआ है। कहा जा चुका है कि प्रत्येक मूर्त्ति अग्नि-रूप है, वह चित्वाग्नि है, वाक् भी उसे कहते हैं। उसका एक केन्द्र-बिन्दु है, जो प्रजापति का स्थान माना जाता है। उसी के आकर्षण में वह मूर्त्ति और इसका साम-मण्डल बद्ध हैं।

अग्नि में स्वभावतः गति है, अतः मूर्त्ति का प्रत्येक परमाणु अमृत-प्राण के साथ बाहर की ओर चलता रहता है, किन्तु केन्द्र-बिन्दु स्थिर है, वह नहीं चलता । यदि वह चल जाय, तो वस्तु के स्वरूप का नाश ही हो जाय । तब विचार में लाइए कि केन्द्र-बिन्दु के दोनो ओर के दो बिन्दु तिर्यक् रूप में चले, वे दोनो एक दूसरे की ओर तिर्यक् चलने के कारण तीसरे बिन्दु पर आकर परस्पर मिलकर एक हो गये, और अन्य अणु, जो क्रम से मूर्त्ति में से आ रहे हैं, उन सबके केन्द्र में बैठ गये । इनके तिर्यक् चलने से एक छोटा सा त्रिभुज बना । इस त्रिभुज पर जो मुख्य मूर्त्ति से निकले हुए अणुओं की एक मूर्त्ति बनेगी, वह प्रधान मूर्त्ति से २ अणु छोटी होगी, क्योंकि प्रधान का केन्द्र-बिन्दु तो चला नहीं, ओर ओर-छोर के दो बिन्दु एक हो गये, तब दो की न्यूनता हो गई । अब यहाँ जो २ अणुओं के योग से एक अणु होकर इस मूर्त्ति का केन्द्र बन गया है, वह भी आगे न जायगा । और, उसके भी आस-पास के बिन्दु दूसरा त्रिभुज बनाकर आगे एक होकर तीसरी मूर्त्ति के केन्द्र बनेंगे । वह तीसरी मूर्त्ति दूसरी मूर्त्ति से भी दो अणु न्यून होगी, ऐसे अनन्त त्रिभुज चारों ओर बनते जायेंगे, और आगे-आगे फैलने-वाली मूर्त्तियाँ क्रम से छोटी होती जायेंगी । अणु-जैसा सूक्ष्म भाग दृष्टि से पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ी दूर तो यह न्यूनता प्रतीत नहीं होती, किन्तु आगे चलकर मूर्त्ति छोटी दिखाई देने लगती है । यही कारण है कि दूर के पर्वत, वृक्ष आदि हमें छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी मूर्त्ति जो हमारी आँख में आकर बनती है वह पूर्वोक्त क्रम से छोटी होती-होती यहाँ तक बहुत छोटी हो गई है । दूर-दूर के सूर्य-चन्द्र-तारा आदि तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही छोटे हो जाते हैं । इसलिए उनके अतिविशाल आकार को भी हमारी दृष्टि बहुत छोटा देखती है । जो चलते-चलते दृश्यता की अन्तिम परिधि पर जाकर वह पिण्डमूर्त्ति अणुमात्र रह जायगी और केवल एक बिन्दु आगे चल नहीं सकता, इसलिए उससे आगे वस्तु का स्वरूप दिखाई नहीं देगा । इस क्रम में अपने स्थान पर स्थित मुख्य मूर्त्ति को 'ऋक्', अन्तिम परिधि पर चारा ओर बनी हुई अति-सूक्ष्म मूर्त्तियों को 'साम' और मध्य के अनन्त त्रिभुजों पर विराजमान मूर्त्तियों को और उनमें व्याप्त वाक् वा अग्नि-रस को 'यजु' कहा जाता है । असली 'ऋक्' हमें कभी नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि हमारी दृष्टि में और उसमें कुछ अन्तर तो अवश्य रहेगा । इसी प्रकार 'साम' की अणु-रूप मूर्त्तियाँ भी दृष्टि में नहीं आ सकती । तब केवल यजुः, अर्थात् मध्य की मूर्त्तियों को ही हम देखा करते हैं । यजुः, अर्थात् मध्यमूर्त्तियों को ही देखने का हमारी दृष्टि का स्वभाव हो गया है, इसलिए जो ऋक् हमारी दृष्टि पर भी आ जाय, वह भी हमें दिखाई नहीं देती, जैसे, आँख में लगाये हुए अञ्जन की ध्यामता वा श्वेतता हमें दिखाई नहीं देती । इसीलिए, साख्यकारिका में जहाँ न दीखने के कारणों का विवरण है—“अतिदूरात् सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोनवस्थानात् सौधभ्याद् व्यवधानादभि-भवात् समानाभिहाराच्च ।” [अर्थात् अत्यन्त दूर से, अत्यन्त समीप से, नेत्र-इन्द्रिय में विकार हो जाने पर, मन के चक्षु के साथ न रहने पर, दृश्य वस्तु के सूक्ष्म होने पर, दृश्य वस्तु के और चक्षु के मध्य में किसी ठोस वस्तु का व्यवधान हो जाने पर, दृश्य वस्तु के किसी प्रबल अन्य विषय से दब जाने पर, (जैसे सूर्य-प्रकाश से दबे हुए चन्द्रमा की चाँदनी

नहीं दिखाई देती) और अपनी समान वस्तु से मिल जाने पर (जैसे दो दीपकों का प्रकाश एक स्थान में भिन्न-भिन्न दिखाई नहीं देता) विद्यमान वस्तु भी आँख से दिखाई नहीं देती]—वहाँ दूरता की तरह अतिसमीपता को भी न देखने का कारण बताया गया है। अस्तु, हमारी आँख दो है। उन दोनों पर बाहर की वस्तुओं की किरण आती है, तो वस्तु दो दिखाई देनी चाहिए थी, किन्तु उन चक्षुओं की धारा भीतर मस्तिष्क की ओर जाकर तिर्यक् रूप में त्रिभुज बनाती हुई एक हो गई है, जैसा पहले विवृत किया जा चुका है। इसलिए, मस्तिष्क में होनेवाला प्रकाश एक ही होता है। दो वस्तु नहीं दिखाई देती। जैसे सब वस्तुओं में से प्राणरूप किरण चारों ओर फैलती है, वैसे ही हमारी चक्षु भी एक वस्तु है, उसकी भी किरणें अवश्य ही भीतर और बाहर जाती हैं। भीतर जाने के कारण तो वस्तु के भिन्न-भिन्न दो द्वारों से आई किरणें भी एक हुई, यह बताया गया है। और, बाहर जाने के कारण उनका मध्य के अल्प वा अधिक जितने पदार्थों से सम्बन्ध होता है, उसके ही आधार पर हम वस्तु की समीपता वा दूरता का ज्ञान प्राप्त किया करते हैं। कहा जा चुका है कि मध्य के पदार्थों की अल्पता ही समीपता और उनकी अधिकता ही दूरता कही जाती है। बाहर की वस्तुओं की आँख पर आई किरणें भी टकराकर चक्षु की किरणों के साथ ही पुनः बाहर लोट जाती हैं। दोनों आँखों की बाहर जाती हुई किरणों की तिर्यग्गति के कारण वे त्रिभुज बनाकर पूर्वोक्त रीति से मिल जाती हैं—इसलिए एकरूप होकर ही आगे फैलती हैं। किन्तु जब आँख में कोई विकार होने के कारण किरणों की गति में विपमता आ जाय, वा जब एक आँख को हाथ से दबाकर हम टेढ़ा कर दें, तब प्राकृतिक सूत्र का विच्छेद हो जाने के कारण दोनों आँखों की किरणें परस्पर मिलती नहीं। भीतर भी उनका सूत्र एक नहीं होता, इसलिए वस्तु दो दिखाई देने लगती हैं, और बाहर जाती हुई आँखों की किरणों के साथ लौटनेवाली वस्तुओं की किरणें भी पृथक्-पृथक् दो सूत्रों पर जाती हैं, इसलिए उनके आधार पर, जिस सूत्र पर दवाई हुई आँख की किरणें गई हैं, उस सूत्र पर हम दूसरी वस्तु देखते हैं। यद्यपि उस बिन्दु पर वस्तु नहीं होती, कुछ हटकर होती है, किन्तु किरणों की वक्रता (टेढ़ापन) उसे अपने स्थान में हटकर देखने की घटना करा देती है। पूर्वोक्त वैदिक परिभाषा के अनुसार यो समझिए कि साम-मण्डल तक प्रत्येक त्रिभुज पर ऋक् फैली हुई है, उनमें से एक स्थान की ऋक् का सम्बन्ध एक चक्षु से होता है, और सूत्र टेढ़ा हो जाने के कारण दूसरे स्थान की ऋक् का सम्बन्ध दूसरी चक्षु से हो जाता है, इसलिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो वस्तु दिखाई दे जाती हैं। कदाचित् शङ्का हो कि फिर यह दो वस्तुओं का ज्ञान भ्रम नहीं कहलायगा, यह तो यथार्थ ज्ञान ही हुआ, तो इसका समाधान है कि उन वस्तुओं में द्वित्व-प्रतीति ही भ्रम है। वे एक ऋक् से निकलती हैं, और एक साम-मण्डल में स्थित हैं, इसलिए एकता का ही ज्ञान उनमें यथार्थ है। उन्हें दो समझ लेना ही भ्रम कहलाता है। अस्तु,

वर्तमान पाश्चात्य साइंस, दूर की वस्तु छोटी क्यों दिखाई देती है, इसकी ठीक उपपत्ति नहीं बता सकता। पहिले साइंटिस्टों की कल्पना थी कि भूमि के गोल होने

के कारण ऐसी घटना होती है, जैसे समुद्र में आते हुए जहाज का ऊपर का शिखर ही बहुत दूर से हमें दिखाई देता है, शेष नीचे का भाग भूमि की गोलाई के कारण समतल में न होने से (नीचे रहने से) हमारी आँख पर नहीं आता। इसी प्रकार, सभी दूर की वस्तुओं के कुछ भाग ही आँख पर आते हैं, शेष भाग भूमि की गोलाई के कारण आँख के सूत्र पर न होने से आँख पर नहीं आते। इसलिए, पूरी वस्तु न देखने से छोटी दिखाई देती है। किन्तु यह कल्पना निरी उपहासास्पद है। जहाँ तक भूमि का सम धरातल स्पष्ट दिखाई देता है, उसके अन्तर्गत भी वस्तु छोटी दीखती है। तब वहाँ भूमि की गोलाई का प्रभाव कैसे माना जाय ? दूसरी बात यह कि पर्वत आदि का कोई उच्च भाग हमें दिखाई दे, और कोई नीचे का भाग नहीं दिखाई दे, वहाँ यह कल्पना चल सकती है। किन्तु, नीचे से ऊपर तक सम्पूर्ण पर्वत दिखाई दे रहा हो, और उसके सभी भाग छोटे दिखाई देते हो, वहाँ गोलाई क्या करेगी ? गोलाई किसी भाग को ढक सकती है, छोटा नहीं बना सकती। इसके अतिरिक्त भूमि के पदाथा में यह मनमानी कल्पना चलाइए। सूर्य, चन्द्रमा, तारा आदि जो छोटे दिखाई देते हैं, उनमें भूमि की गोलाई कैसे प्रभाव डालेगी ? इसलिए वैदिक विज्ञान के 'छन्दोवेद' के प्रदर्शित प्रकार के अनुसार ही वस्तु के छोटी वा स्थानभ्रष्ट देखने की उपपत्ति हो सकती है। और कल्पनाएँ निरी अटकल पर हैं, जो ठीक उतरती नहीं। इस प्रकार, 'वितान वेद' और 'छन्दोवेद' से यह सिद्ध हुआ प्रत्येक वस्तु का हम तक प्राप्त होना और उसका ज्ञान होना 'वेद' से ही सम्भव है। इसलिए, विद् धातु के ज्ञान और लाभ (प्राप्ति) इन दोनों अर्थों का समन्वय घटित हो गया।

पूर्वोक्त शतपथ-ब्राह्मण के पाठ में 'महोक्थ' और 'महाव्रत' शब्द और आये हैं। इनका सम्बन्ध 'रसवेद' से है। इसमें यह बताया जाता है कि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और स्थिति भी वेद के आधार पर ही है। हम पूर्व दो एक जगह शक्ति संकेत कर चुके हैं, और आगे 'यज्ञ-प्रकरण' में विशेष रूप से स्पष्ट करना है कि जड़-चेतनात्मक प्रत्येक वस्तु से कुछ अन्न (प्राण और वाक्) निकलते रहते हैं, और उनकी पूर्ति के लिए कुछ अन्न बाहर से आते भी रहते हैं। ये आने और जानेवाले तत्त्व अग्नि नाम से वैदिक परिभाषा में कहे जाते हैं, क्योंकि अग्नि शब्द इस परिभाषा में प्राण का वाचक है, और प्राण तत्त्व का ही आवागमन होता है। वाक् का अन्न तो प्राण के साथ चला जाता वा आ जाता है, वह स्वतन्त्र नहीं। किन्तु उस वाक् के अन्न के कारण अग्नि के दो रूप हो जाते हैं—एक अग्नि और दूसरा सोम। 'अग्नीषोमात्मक जगत्', यह श्रुति का सिद्धान्त है। वाक् के अन्न की प्रधानता हो जाने पर 'सोम' नाम पड़ता है और प्राण की प्रधानता में अग्नि नाम व्यवहृत है। यो प्राण की भी दो जातियाँ मान ली जाती हैं—आग्नेय प्राण और सौम्य प्राण। प्रत्येक पदार्थ में बाहर से सोम वा सौम्य प्राण ही आते हैं, क्योंकि सोम सर्वत्र व्यापक है, और वह अग्नि के द्वारा आकृष्ट होता है। अग्नि उसे अपनी ओर खींचकर अपने रूप में परिणत कर देता है, फिर सोम अग्नि-रूप ही हो गया और अग्नि तत्त्व के रूप में ही निकलता है। आगे के आकर्षण से बाहर जाकर फिर वह अपने घन में मिलकर, सोम-रूप हो जाता है।

इस तरह ये दोनों तत्व आपस में बदलते रहते हैं, इगसे मिद्ध है कि मूलतः दोनों एक ही हैं, अवस्थाभेद-मात्र है। समार में जिन पदार्थों में आर्द्रता वा चिक्नापन देखा जाय, उनमें सोम की अधिकता समझनी चाहिए, और जिनमें रुध्रता वा तीक्ष्णता (तेजी) देखी जाय, उनमें अग्नि की अधिकता जाननी चाहिए। सोम कहीं-कहीं विशेष मात्रा में रहता है, वे पदार्थ वेद-मन्त्र में गिन दिये गये हैं—

त्वामस्त ओपधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं ।

गाः त्वमाततन्धोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा चित्तमते चिचर्थ ॥

(ऋ० स० १।९।१।२२)

हे सोम ! तुमने इन सब ओपधियाँ को उत्पन्न किया है, अर्थात् ओपधियों में तुम विशेष रूप से रहते हो। सस्कृत-भाषा में ओपधि उन्हें कहा जाता है, जिनका पौधा नीच नष्ट होनेवाला हो, और फल ढेर तक ठहर सके—‘ओपधयः फल्पाकान्ताः ।’ फलों के पकते ही उनका पौधा नष्ट हो जाता है—जैसे जौ, गेहूँ, चावल आदि। ये सब वस्तुएँ ओपधि कहलाती हैं। वनस्पति उन्हें कहते हैं, जिनका पौधा चिरस्थायी हो, किन्तु फल जल्दी नष्ट हो जाय—जैसे आम, अमरुद व्रेला आदि फल। इनमें ओपधियों में सोम की प्रधानता रहती है, और वनस्पतियों में अग्नि की। सोम बल देता है, और अग्नि देता है बुद्धि। केवल फलहारी पुरुषों में बुद्धि तीव्र होगी। बुद्धि में सात्त्विकता भी होगी, किन्तु शरीर में बल अल्प होता जायगा। चावल, गेहूँ, जौ आदि में सोम प्रधान है, इसलिए उनसे बल मिलता है। अस्तु, आगे मन्त्र में कहा है कि हे सोम ! तुमने जल को उत्पन्न किया है और गौओं को भी तुमने ही उत्पन्न किया है। जल सोम का ही एक रूप है, उसमें सोम की मात्रा बहुत अधिक है, आर्द्रता और चिक्नाई उसके प्रमुख धर्म हैं। तैल, घृत आदि में चिक्नाई उसी के सम्बन्ध से होती है और गौ के दुग्ध, घृत, दधि आदि में विशेषता से सोम विराजमान है, अतएव ये सब बल और पुष्टि के देनेवाले हैं। मन्त्र के उत्तरार्द्ध में सोम की व्यापकता बताई गई है, कि हे सोम तुमने सम्पूर्ण अन्तरिक्ष आकाश-प्रदेश को विस्तृत या व्याप्त कर रखा है। तुम्हारे ही कारण आकाश इतना विस्तृत है। तुम सम्पूर्ण आकाश में फैले हुए हो। तुम ही प्रकाश द्वारा अन्वकार को हटाते हो। कहा जा चुका है कि अग्नि के आघात से सोम ही प्रज्वलित होकर प्रकाश करता है। अस्तु, सोम का परिचय देने को अप्रमत्त विषय का हमने यहाँ विस्तार किया। तात्पर्य यही था कि प्रत्येक पदार्थ में बाहर से सोम आता है, और वह अग्नि-रूप होकर निकलता है। प्रकाशशील पदार्थों में यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। तेल में जो सोम है, दीपक उसका ग्रहण करता है और उसे अग्निरूप बनाकर बाहर फेकता रहता है। सूर्य के विषय में वर्तमान विज्ञान-वेत्ता अन्वेषण कर बताते हैं कि करोड़ों मन प्रकाश और उष्णता सूर्य से निकलती रहती हैं, किन्तु उसकी प्रकृति कैसे होती है? जिम प्रकार दीपक जलानेवाला मनुष्य दीपक में तेल डालता है, उस प्रकार सूर्य में तेल कौन डालता है? साइंस इसका ठीक पता अभी तक नहीं दे सका। किन्तु वैदिक विज्ञान इसका उद्घाटन करता है। वेद कहता है कि—‘सोमेनादित्या बलिनः’, अर्थात् ‘सोम से ही आदित्य

बलवान् है। अन्तरिक्ष में चारा और प्यास अनन्त सोम को सर्व-मण्डल का आदित्य-प्राण अपने आकर्षण में अपने भीतर लेता रहता है, और उसे अग्नि के रूप में बदलता हुआ समस्त ब्रह्माण्ड में फैलता रहता है। या सर्व-मण्डल केवल दृष्टान्त रूप ? जगत् के प्रत्येक पदार्थ में आवागमन प्रक्रिया चलती रहती है। निकलनेवाले अग्निन्ध्र का नाम वैदिक परिभाषा में 'महोत्थ' है। 'उत्थ' शब्द 'उत्थ' से बना है। यह अपने स्थान से उठकर बाहर की चलाता है, इसलिए उसे 'उत्थ' या 'उत्थ' कहा है। प्रत्येक पदार्थ में छाया छोटा 'उत्थ' है। किन्तु सर्व-मण्डल का यह 'उत्थ' अति विशाल है, इसलिए उसे उक्त श्रुति में 'महोत्थ' (महान उत्थ) कहा गया है। क्या श्रुति सर्व-मण्डल को ही दृष्टान्त बनाकर प्रवृत्त है ? आनेवाले सोम तत्त्व को यथा मातृत्वं ज्ञाने । वैदिक परिभाषा में त्रत शब्द भोजन छोड़ने और भाजन लेने, दोनों अर्थों में प्रयुक्त है। व्याकरण के वास्तविककार ने भी लिखा है—'त्रताद्भोजनतादिगुणयोः, अथान् भाजन अत्र भान्त-निवृत्त दोनो अर्थो म त्रत शब्द मे 'णिन्' प्रत्यय ता विज्ञान है। हमें 'त्रत शब्द के दोनो अर्थ सिद्ध है। त्रत में दीपित यजमान जो भाजन करता है, उसका त्रत शब्द से ही व्यवहार होता है। यह बाहर से आनेवाला पदार्थ प्रत्येक वस्तु का भोजन बनकर उसे पुष्ट करता है। हम जो भोजन करते हैं, वह हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा, (पदार्थों के बाहर निकलने के द्वारा) जो न्यूनता आती है, उसकी पूर्ति कर देता है। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में होनेवाली न्यूनता की पूर्ति बाहर से आनेवाले सोम से होती है। अतः उसे महात्रत नाम दिया गया। प्रत्येक पदार्थ में त्रत है, सर्व में महात्रत है। उठकर बाहर निकलनेवाला अग्नि नाम का प्राण-तत्त्व मूर्ति-मण्डल का ही अग्र है। अबतक जो मूर्ति में आत्ममात् होकर उसका स्वरूपभूत था, वही उठकर बाहर निकलता है इसलिए उसे 'ऋक्' बतलाया गया है। परिधि, अर्थात् व्याप्ति की अन्तिम सीमा पर जाकर वही अग्नि मण्डल का आकर्षण हट जाने के कारण प्रकृति के व्यापक सोम में मिलकर सोम रूप हो जाता है, इसलिए श्रुति ने पेली हुई अग्नि को महात्रत का जनक होने से महात्रत बतलाया और उसे साम कहा है। छान्दोग्य-उपनिषद् में साम का निर्वचन अनेक प्रकार से करते हुए बतलाया है कि साम के अनेक 'प्रस्ताव' होते हैं तथा 'निधन' एक ही होता है। जहाँ से चलता हो, उसे प्रस्ताव कहते हैं और जहाँ जाकर समाप्त होता हो, उसे निधन कहा जाता है। तात्पर्य यह कि साम अनेक स्थानों से चलता है और एक स्थान पर आकर समाप्त होता है। यह लक्षण भी आगन्तुक सोम में घटित हो जाता है। कारण यह कि पैला हुआ सोम अनेक विन्दुओं से आता है और एक ऋक्-पिण्ड पर या उसके केन्द्र-विन्दु पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आवागमन रहने पर भी वस्तु सर्वथा उच्छिन्न नहीं होती। 'वही वस्तु है'—ऐसी प्रत्यभिज्ञा बनी रहती है। वह स्थिर रहनेवाली वस्तु अग्नि ही है। इसलिए, उसको श्रुति में अग्नि नाम से ही कहा है और उसे यज्ञ बतलाया है। ये हैं 'रमवेद'। सम्पूर्ण जगत् के मूलतत्त्व का नाम रम है। 'रसो वै स', परब्रह्म रसरूप ही है। उससे सम्बन्ध रखने के कारण इन्हे रस कहा और सत्ता-साधन होने के कारण वेद।

इसी आवागमन-प्रक्रिया से प्रत्येक वस्तु-पिण्ड बनता है। इसी के आधार पर

स्थित रहता है। अतएव इसका रस-वेद नाम सार्थक है। जैनदर्शन में भी सत्ता का लक्षण यही मिलता है—‘उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्’, अर्थात् जिसमें नये-नये अवयव उत्पन्न होते रहे (बाहर से तत्व आकर वस्तु-स्वरूप का निर्माण करते रहे), व्यय भी होता रहे (कोई अंश निकलता भी रहे) और यह सब होते हुए ध्रुवत्व (स्थिरता) भी रहे, वही सत् कहलाता है। इसी उत्पाद, व्यय और प्रौव्य का नाम सत्ता है। इस प्रकार, ‘विद्’ धातु का सत्ता अर्थ भी वेद-शब्दार्थ में सुसंगत हुआ। इन सब बातों पर गभीर दृष्टि डालकर ही भगवान् पाणिनि ने ‘विद्’ धातु के अर्थों का निर्देश किया है। ‘विद् विचारणे’ में विचारण का अर्थ विज्ञेय रूप से चारण अथवा चरण (चलना-फिरना) कर ले, तो वेद की उक्त समस्त प्रक्रिया का उस अर्थ में समावेश हो जायगा। इन्हीं विचारों से मुनियो तथा आचार्यों की व्यापक गभीर दृष्टि का पता चलता है। भगवान् पाणिनि का व्याकरण एक गभीर वैदिक दर्शन है। वे अपने धातुओं के अर्थ-निर्देश से ही समझा देते हैं कि कोई वस्तु नई पैदा नहीं होती, न किसी वस्तु का सर्वथा नाश होता है। किन्तु प्रकट हो जाने का नाम ही जनन या उत्पत्ति है तथा तिरोहित हो जाने या न दिखाई देने का नाम ही विनाश है। देखिए उनका धातुपाठ—‘जनी प्रादुर्भावे’ (प्रादुर्भाव—प्रकटता अर्थ को ही जन् धातु बताता है।) ‘णञ् अदर्शने’ (न दिखाई देने के अर्थ में नञ् धातु का प्रयोग है)। ‘अदर्शन लोपः’ सूत्र भी इस दार्शनिक सिद्धान्त का निर्देश कर रहा है। अस्तु, भारतीय सस्कृति की गभीरता का दिग्दर्शन कराने को हम इन विषयों का सक्षिप्त निर्देश करते चलते हैं। फिर, प्रकृत वेद जन्मार्थ के विषय पर आइए।

कहा जा चुका है कि ऋक् और साम केवल मर्यादा बाँधनेवाले हैं। इसलिए, वितान-वेद और छन्द-वेद में इन्हें छन्द ही कहते हैं। छन्द का अर्थ मर्यादा (हदबन्दी) है। रस-वेद में भी उन्हें यजुः का अक्षय या वाहन बतलाया है (शतपथ-ब्राह्मण, काण्ड १०)। क्योंकि, आवागमन तो अग्नि का होता है। उसके आने और जाने की प्रक्रिया ही ऋक् और साम है। मूल तत्व वाक्-रूप या अग्नि-रूप यजुः ही है। वह सर्वत्र ऋक् से साम-मण्डल तक फैला हुआ है। ग्रन्थ-रूप वेदों में भी विज्ञान के अनुसार यही प्रक्रिया रखी गई है—ऋक् पद्य-रूप, अर्थात् वाक्यों को नियत मर्यादा में रखनेवाली होती है। साम भी वाक्यों को नियत मर्यादा में बाँधे रहता है। किन्तु वह गेय रूप है—उसका गान होता है, इसलिए गान में वितनन होकर वह ऋक् की अपेक्षा बहुत विलुप्त हो जाता है। यजुः गद्य-रूप प्रकीर्ण फैला हुआ है। उसके पद या वाक्य किसी नियत मर्यादा में सम्बद्ध नहीं हैं। किन्तु यजुः का आहुति-प्रदान-रूप मुख्य कार्य यजुः से ही होता है।

प्रकृत वैज्ञानिक क्रम में भी कार्योंत्पादक यजुः ही है। उससे ही अन्यान्य तत्वों की सृष्टि होती है। शतपथ-ब्राह्मण (का० १०, अ० ३ के ब्रा० ५ व० १, २) में यजुः की सृष्टि-जनकता का विवरण करते हुए कहा है कि—

अयं वाव यजुर्योऽयं पवते, एष हि यन्नेवेद सर्वं जनयति, एतं रति-यन्तमिदमनुद्जायते। तस्माद्वायुरेव यजुः। अथमेवाकाशो जूः। यद्विद

मन्तरिक्षम् । एत ह्याकाशमनुजवने । तदेतद्यजुर्वायुश्चान्तरिक्षं च । यच्च
जृश्च । तस्माद्यजुरेण एव होति । तदेतद्यजुर्वायुश्चान्तरिक्षं च । प्रतिष्ठितम् ।
ऋक्सामे वहतः ।

यहाँ यत्, और जृ इन दोनों शब्दों से ('यजुः' से) यजु, बना है । यत् शब्द का अर्थ है चलता हुआ—गतिशील । आर 'जृ' शब्द का अर्थ है—स्थिर । इसलिए, यत् शब्द से वायु, आर जृ शब्द से आकाश गृहीत है । वायु और आकाश का सम्मिलित रूप 'यजुः' कहलाता है । यह 'यजुः' गतिशील होने के कारण सगको उत्पन्न करता है और आकाश में स्थिति-शक्ति होने के कारण वह सगको प्रतिष्ठित रखता है । महोक्वय, और महाव्रत की पूर्वोक्त-आवागमन-प्रक्रिया में आने-जानेवाला यह यजु ही है । अतः, यजु, ऋक् और साम पर प्रतिष्ठित है । ऋक् और साम उभयों को वहन करते हैं, अर्थात् बाहर निकालते और भीतर प्रवेश कराते हैं । उमील्लिए, 'त्रयी', अर्थात् तीनों वेद ही सबके उत्पादक और प्रतिष्ठापक हैं । यही उक्त श्रुति का आशय है । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि ये 'वायु' एवं 'आकाश', पञ्चभूतों के अन्तर्गत 'वायु' तथा 'आकाश' नहीं हैं, क्योंकि भूत तो बहुत पीछे उत्पन्न होते हैं । वेद तो प्राण-रूप हैं । अतः उनके बहुत पूर्व की अवस्था है । वेदों से आगे भूतों की उत्पत्ति होती है, मन्त्र में कई प्रकार के क्रम हैं । अतएव अन्यत्र श्रुतियों में इस 'यजुः' को अग्नि-रूप भी कहा जाता है—

अग्निर्जागार तसृचः कामयन्ते अग्निर्जागार तमु सामानियन्ति ।

अग्निर्जागार तमयं सोम, आह तदाहमास्ते सस्ये न्योकाः ॥

(ऋक् ५ । ४४ । १५)

अर्थात्, अग्नि जाग रहा है । ऋचाएँ उसी की कामना करती हैं—अर्थात् उसी में रहती हैं । साम भी उसमें प्राप्त होते हैं । उसी जागते हुए अग्नि से सोम कहता है कि 'मे तुम्हारी मित्रता में हूँ, किन्तु तुमसे छोटी श्रेणी का हूँ ।' यहाँ ऋक्-साम के प्रसगावग अग्नि पद से यजु ही लिया जाता है । यजु को अग्नि-रूप पूर्वोक्त शतपथ श्रुति में भी कहा गया है । और, अग्नि नाम प्राण का है—यह हम अनेक बार कह चुके हैं ।

आश्चर्य के साथ देखा जाता है कि आधुनिक विज्ञान 'साइंस' में इस प्रकरण का स्पष्ट प्रतिबिम्ब आ गया है । साइंस पहले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि को मौलिक तत्व मानता था, इनका परस्पर परिवर्तन नहीं हो सकता, यह उसकी घोषणा थी । किन्तु खोज करते-करते यह अब इस तथ्य तक पहुँच गया है कि इन 'ऑक्सीजन' आदि का परस्पर परिवर्तन होता है, इसलिए ये मौलिक तत्व नहीं हैं । मौलिक तत्व केवल दो ही हैं—१ इलैक्ट्रॉन, २ प्रोटोन । इनमें 'प्रोटोन स्थिर है और 'इलैक्ट्रॉन, चारों ओर घूमता है, उन दोनों से ही सब तत्व बने हैं । इस प्रकार, गतिशील और स्थिति-शील पदार्थों से जगत् की उत्पत्ति, आज का विज्ञान भी मानता है, किन्तु हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व के ब्राह्मण-ग्रन्थ में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा है । फिर भी, स्मरण रखना चाहिए कि पाश्चात्य 'साइंस' की खोज अभी भौतिक तत्वों तक ही सीमित है, किन्तु

वैदिक-विज्ञान इससे कई श्रेणी ऊपर आप को ले जाता है, जैसा कि आगे स्पष्ट हो जायगा। अस्तु

तीन प्रकार के वेदों का यह सक्षित विवरण हुआ। इन वेदों का स्फुट प्रादुर्भाव 'आदित्य' में होता है। और, 'आदित्य' की मुख्य शक्ति का नाम 'गायत्री' है। यही कारण है कि गायत्री वेदों की माता कही गई है, एव ये वेद 'गायत्रीमातृक' कहलाते हैं। इनसे भी उच्च श्रेणी के पुरुष-तत्त्व और जगत्कारण 'ब्रह्म' को भी 'वेद' नाम से श्रुतियों में कहा गया है। आगे पुरुषविज्ञान में कहा जायगा कि अव्यय पुरुष की कलाएँ मन, प्राण, और वाक् ही सब सृष्टि के मूल-तत्त्व हैं। इनका विशेष-विवरण तो उसी प्रकरण में होगा, यहाँ वेद के प्रसंग से इतना कह देना आवश्यक है कि इनमें से वाक् को ऋग्वेद, प्राण को यजुर्वेद, और मन को सामवेद, श्रुतियों में कहा गया है। कहा जा चुका है कि भूतो का आदिम सूक्ष्म भाग ही वाक् है, उससे ही सब पदार्थ बनते हैं। उसी वाक् के भेद ऋक्, साम और यजु हैं। इसीलिए श्रुति में यह कहा गया है कि—

ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः
सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्,
सर्वं तेजः सामरूपं हि शश्वत्
सर्वं हृदि ब्रह्मणा हैव सृष्टम् ॥

(तैत्तिरीय-ब्राह्मण २।१२)

(सब मूर्त्तियाँ ऋक् से ही उत्पन्न हुई हैं। सभार में गति, अर्थात् क्रियाएँ जितनी हैं, वे सब सदा यजु से उत्पन्न हैं और जितने तेज हैं, वे साम का रूप हैं, इस प्रकार ब्रह्म, अर्थात् वेद से ही सब कुछ की सृष्टि हुई है। ब्रह्म नाम वेद का है, यह आरम्भ में ही स्पष्ट कह चुके हैं। ऋक् को यहाँ मूर्त्तिरूप पिण्ड की उत्पत्ति बताना ऋक् को वाक् का रूप सिद्ध करता है, क्योंकि वाक् से ही सब मूर्त्ति और पिण्ड बनते हैं। गति, अर्थात् क्रिया, का मूल कारण यजु है, उसकी प्राणरूपता इससे सिद्ध हुई। क्योंकि, सम्पूर्ण क्रियाओं का मूल-कारण प्राण ही है। तेज शब्द से यहाँ रूप विवक्षित है, दर्शन शास्त्रों के अनुसार भी रूप तेज का ही मुख्य गुण है। उस रूप का ही वितनन और विस्तार होता है, उस विस्तार का कारण मनस्तत्त्व है। वह साम-रूप बतयाया गया है। तात्पर्य यह कि दृश्य जगत् को तीन ही रूपों में बाँटा जा सकता है—कर्म, रूप, और नाम। नाम और मूर्त्ति का अभेद है, इसलिए नाम शब्द से भी मूर्त्ति का ही बोध होता है। इनके मूल कारण हैं क्रमशः—वाक्, प्राण, और मन। इनको ही उक्त श्रुति में ऋक्, यजु, और साम कहा गया है। ये मन, प्राण, वाक्-रूप तीनों वेद, ब्रह्मरूप ही कहलाते हैं। ब्रह्मा शब्द से भी इनका श्रुति में व्यवहार है। इनका उद्भव सर्वप्रथम सत्यलोक और स्वयम्भू-मण्डल में ही हो जाता है। यहाँ से सर्वत्र इनका प्रसार होता है। आगे सूर्य-मण्डल में इनका स्फुट प्रादुर्भाव होता है, जैसा पहले ही कह चुके हैं। वहाँ ये वेद गायत्री-

मातृक हो जाते हैं। अतपत्र-ब्राह्मण की पुरश्चरण श्रुति' (४।६।१।५) में कहा गया है कि ऋक्, यजुः, साम नाम की जो तीन विधाएँ हैं—उनमें यह पृथ्वी ऋक् है, अन्तरिक्ष यजुः है, और तुलोक साम है। यह वाक् की एक गहनी है। द्वितीय गहन विष्णु है और तृतीय इन्द्र। ऋक् और साम इन्द्र हैं, और यजुः विष्णु है। ऋक् और साम वाक् हैं, यजुः मन है आदि। विचार करने पर उग्रा भी आशय प्रवाक प्रकरणों से मिल जाता है। हमारी इस पृथ्वी के प्राण-रूप अग्नि की व्याप्ति सूर्य मण्डल तक है। इसीलिए इसका साम 'रन्तर साम' के नाम से व्यवहृत हुआ है। पृथ्वी का साम सूर्य के रथ का तरण करता है, अर्थात् सूर्य के प्रकाश-मण्डल को पारकर विद्यमान तक पहुँचता है। वहाँ तक पृथ्वी का दर्शन हो सकता है। यदि सूर्यमण्डल पर स्थित होकर कोई पृथ्वी को देखे तो, एक छोटे-से बिन्दु के रूप में यह दिखाई देगी, उगम आगे न दिखाई पड़ेगी। सूर्य-मण्डल का साम, बृहत्साम कहलाता है, वह बहुत बड़ा है, पृथ्वी का साम उसके पेट के अन्दर आ जाता है। अन्त, उस प्रकार से पृथिवी-मण्डल को लक्ष्य रखकर वेदों का यदि विचार करें, तो पृथिवी ऋक् है और तुलोक, जो सूर्यमण्डल का स्थान है, वह साम है। मध्य में जहाँ पृथिवी का रम-रूप प्राण फैला हुआ है, वह अन्तरिक्ष, यजुः नाम से कहा गया है। इस व्याप्ति को सहज और साहसी के नाम से ही श्रुति में कहा जाता है, तो यह पूर्वोक्त पृथिवी से तुलोक तक पृथिवी के देवता अग्नि की एक साहसी हुई। इसी प्रकार, अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र वा विद्युत् की भी व्याप्ति होकर साहसी बनती है और आदित्य-मण्डल के प्राण 'विष्णु'-प्राण की भी साहसी होती है। इसके अनन्तर जो वाक्, प्राण और मन-रूप वेद हमने अभी बताये हैं—उनकी दृष्टि से उक्त श्रुति में कहा गया है कि ऋक् और साम वाक् रूप होने से इन्द्र है—वाक् ऐन्द्री ही कही जाती है। इन्द्र उसका अधिष्ठाता है और यजुः विष्णु है, वह मन है। अन्यत्र श्रुतियों में ऋक् को वाक्, प्राण को यजुः, और मन को 'साम' कहा है। किन्तु, यहाँ यह आशय रखा गया है कि प्राण और वाक्, एक ही रूप है, प्राण ही चयन के द्वारा वाक् रूप में परिणत होता है। प्राण इन्द्र है, यह आगे ऋषि-विवेचन में स्पष्ट किया जायगा। ऋक् और साम, पूर्वोक्त रीति से प्राण से सकलित वाक्-रूप है। अतः दोनों को यहाँ वाक्-रूप, और इन्द्र रूप बताते हुए, प्राणाधिष्ठित वाक् का ही रूप बताया गया है। मन, इन दोनों का जनक, मुख्य तत्त्व है यह आगे अव्यय पुरुष के विवरण में स्पष्ट होगा। मुख्य तत्त्व सूर्य-मण्डल और सौर-प्राणों में ही प्रादुर्भूत है। इसलिए उसे मुख्य आदित्य-प्राण के वाचक विष्णु शब्द से कहा गया। वस्तुतः, ये तीनों ही वेद सदा से सम्मिलित रहते हैं और सभी पदार्थ इन तीनों से ही उत्पन्न हैं। इसीलिए किसी को एक स्थान में किसी वेद का रूप और दूसरे स्थान में अन्य वेद का रूप बताने में कोई विरोध नहीं होता। हमारी त्रिलोकी

१ त्रयो वै विद्या ऋचो यजू पि सामानि । इयमेवर्चो स्या छर्चति । योऽर्चति स वागेवर्चा वाचा छवति । योऽर्चति सोऽन्तरिक्षमेव यजू पि । धौ सामानि । सैवा त्रयो विद्या सौम्येऽध्वरे प्रयुज्यते । १ ।
तद्वा एतद् सहस्र वाच प्रजातम् । द्वे इन्द्रस्तृतीयं विष्णु । ऋचश्च सामानि चेन्द्रो यजू पि विष्णु । ३ । इत्यादि ।

के तीन देवता अग्नि, वायु और सूर्य को भी कई श्रुतियों में ऋक्, यजु. और साम के रूप में बताया है। अग्नि ऋक् है, वायु यजु. है और आदित्य साम है। कई श्रुतियों में इन तीनों देवताओं से तीनों वेदों की उत्पत्ति भी बताई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण आगे वेद-प्रादुर्भाव के निरूपण में किया जायगा। इस तरह वाक् गद्य से और ऋक्, यजु, साम गद्यों से अनेक वैज्ञानिक अर्थ श्रुतियों में प्राप्त होते हैं।

यहाँ बहुत-से विद्वान् सज्जनों को शंका होगी कि आरम्भ से यहाँ तीन ही वेदों का विवरण क्यों ? इस प्रसङ्ग में चौथा अथर्ववेद क्यों नहीं आया ? इसका उत्तर यही है कि वैज्ञानिक परिभाषा में ये तीनों वेद अग्नि-रूप हैं, और अथर्ववेद आप-रूप और सोमप्रधान है, जिसका विवरण आगे सृष्टि-प्रक्रिया में ही करेंगे।

यह मूलतत्त्व रूप वैज्ञानिक वेदों का सक्षिप्त विवरण हुआ। इन सब वेदों का निरूपण जिन ग्रन्थों और पुस्तकों में है, वे ही हमारी आर्य जाति के सर्वस्व, सर्वमान्य ग्रन्थ-रूप वेद हैं। उन वेदों का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसमें भी बड़ा मतभेद सुनकर विचारक विद्वान् बड़ी भ्रान्ति में पड़ जाते हैं, इसलिए उनके प्रादुर्भाव का भी यहाँ निरूपण कर देना प्रसङ्गप्राप्त है।

वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय

यह शब्दप्रमाण-रूप स्वतःप्रमाण वेद ग्रन्थ सभी ज्ञान-विज्ञानों का भाण्डार है, यह आर्य जाति का सुदृढ विश्वास है। यह ग्रन्थ रूप वेद मनुष्य जाति को किम प्रकार मिला, इस पर शिष्ट-सम्प्रदाय में तीन प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हैं, जिनका विवरण प्राचीन भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में मिलता है।

- (१) वेद किसी के बनाये हुए नहीं, स्वतः आविर्भूत हैं। अतः, अपौरुषेय है।
- (२) वेद ईश्वर-कृत हैं। ईश्वर-रूप ही हैं, ऐसा सिद्धान्त भी इसी के अन्तर्गत है।
- (३) ईश्वर के अनुग्रह से जिन परीक्ष विषयों का ज्ञान प्राप्त कर महर्षियों ने अपने गन्धों में प्रकट किया, वे ही वेद हैं। (ब्रह्मा को प्रथमतः प्राप्त हुए, वा अग्नि, वायु, सूर्य को प्राप्त हुए, उन्होंने प्रचार किया—वे मत भी इसी शाखा में अन्तर्निहित होते हैं)।

इन तीनों मतों की अवान्तर शाखाएँ बहुत हैं, जिनकी संख्या ४० से ऊपर है। वेद को न माननेवाले सम्प्रदायों के ऐसे मत भी हैं, जो वेद को निर्दय पुरुषों, धूर्तों के बनाये मानते हैं। और, कुछ एक पाश्चात्य विद्वान् वेदों को प्रारम्भिक सभ्यता-काल के अपरिपक्व ज्ञान के फलभूत कहते हैं, किन्तु उन सबकी विस्तृत समालोचना यहाँ नहीं की जायगी। केवल शिष्ट-परिगृहीत पूर्वोक्त तीन सिद्धान्तों पर ही विवेचन किया जायगा। विवेचन से ही विरुद्ध मतों की आलोचना हो जायगी।

पहला सिद्धान्त मीमांसा के आचार्य जैमिनि ने प्रकट किया है, और भाष्यकार गवरस्वामी, वार्त्तिककार कुमारिलभट्ट आदि ने इसका विस्तृत विवेचन किया है। इनकी प्रधान युक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

- (क) मनुष्य जिन स्वर्ग, देवता आदि को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, अथवा

किस कर्म के द्वारा आत्मा मे किस प्रकार का अपूर्व वा गस्कार उत्पन्न होता है, यह नहीं जान सकता, इन्ही सत्र स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का विवरण वेदो मे प्राप्त होता है, विना ज्ञान के शब्द-प्रयोग हो नहीं सकता । उगलिए, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वेद शब्दों के प्रयोक्ता को इन परोक्ष वस्तुओं का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ? कदाचित् यह उत्तर दिया जाय कि 'ज्ञान किसी को था ही नहीं, विना ज्ञान के ही आडम्बर से पर-वचना के लिए ऐसे शब्द गट दिये गये', तो यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि एक तो वेदो की शब्द-रचना सुव्यवस्थित है, प्रमाण-शब्दों मे जिम प्रकार कार्य कारण-भाव का विवरण होना चाहिए, आर साध्य, साधन, इतिकर्तृत्वता रूप तीन अशो वी परिपत्ति जिस प्रकार से विद्वानों के शब्दों मे होनी चाहिए, उगी प्रकार की वेदों मे देखी जाती है । अतः, उन्हे वचक अल्पज्ञो की कृति नहीं कहा जा सकता । दूसरे जो लाभ प्रत्यक्षसिद्ध है, जैसे— वृष्टि, आरोग्य-प्राप्ति आदि । उनके जो उपाय वेदो मे बताये गये है, उनका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है । तब उन्हे अप्रामाणिक कैसे कहा जाय । इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जिन स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का वर्णन वेदो मे है, वह प्रामाणिक ही है । स्मरण रहे कि मीमांसा के मत मे जवतक अप्रामाण्य का कोई कारण न बताया जाय, तवतक ज्ञान को प्रमाण ही माना जाता है । प्रामाण्य स्वतःसिद्ध है और अप्रामाण्य किसी कारण से आता है, इसलिए जव अप्रामाण्य मानने का कोई कारण नहीं, तो वेद मे प्रामाण्य ही सिद्ध रहेगा । ऐगी स्थिति मे उसके वक्ता को स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का ज्ञान कैसे हुआ—यह प्रश्न शेष रह जाता है । प्रमाणान्तर से इन वस्तुओ का ज्ञान होना सम्भव नहीं, कदाचित् यह कल्पना की जाय कि स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का ज्ञान सामान्य मनुष्यो को नहीं होता, किन्तु उच्च श्रेणी के योग, तप आदि से सम्पन्न ऋषि-मुनि आदि इन सध्म तत्त्वो का भी अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से ज्ञान प्राप्त कर लेते है और वेद-शान्त्र द्वारा दूसरो को उपदेश देते है । यह कल्पना भी ठीक नहीं उतरती, क्योंकि वहाँ भी प्रश्न होगा कि योग, यज्ञ, तप आदि करने की प्रेरणा ही उन्हे कहाँ से मिली ? योगादि का ज्ञान वेद से ही माना जाता है और वेद को इनके आधार पर उत्पन्न मान लिया जायगा, तो स्पष्ट अन्योन्याश्रय दोष हो जायगा । विना योग, तप आदि के वेद का निर्माण नहीं हो सकता और विना वेद के यज्ञ, तप आदि जाने नहीं जा सकते, इस अन्योन्याश्रय से उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं । इसलिए, अगत्या वेद को अकर्तृक ही मानना पडता है, अर्थात् उनका बनानेवाला कोई नहीं, वह स्वतः प्रादुर्भूत है ।

(ख) दूसरी युक्ति अकर्तृक माननेवालो की यह है कि जो वस्तु जिसकी बनाई होती है, उसके साथ उसके कर्त्ता का स्मरण किसी-न-किसी रूप मे हो ही जाया करता है, किन्तु वेद के कर्त्ता का स्मरण अभ्रान्त रूप मे आजतक किसी को नहीं हुआ । इससे भी यही सिद्ध होता है कि इनका कर्त्ता कोई है ही नहीं । यदि होता, तो उसका अवश्य स्मरण होता । कदाचित् यह कहा जाय कि बहुत-से पुराने गृह, कूप, आराम आदि ऐसे मिलते है, जिनके बनानेवाले की स्मृति आज किसी को नहीं, किन्तु फिर भी वे अकृनिम तो नहीं माने जा सकते । इसी प्रकार, शब्द-समूह-रूप वेद

को भी अकृत्रिम कैसे कहा जाय ? तो इसका यही उत्तर है कि जीर्ण कूप, आराम आदि के कर्त्ता का किसी-न-किसी रूप में किमी-न-किसी को अवश्य स्मरण रहता ही है। किन्तु वेद के कर्त्ता का स्मरण तो किसी को भी हुआ हो, ऐसा पता नहीं लगता। जिन विद्वानों ने प्रतिपक्ष रूप में खड़े होकर भी इस बात का प्रयत्न किया कि हम कर्त्ता का पता लगावेगे ही, वे भी निश्चित रूप से किसी निर्णय पर पहुँचने में असफल ही रहे। जब कोई पता लगा ही नहीं सकता, तो स्पष्ट ही मानना पड़ेगा कि वेद का कर्त्ता कोई है ही नहीं।

मन्त्रों के साथ जिन ऋषियों का उल्लेख मिलता है, वे ही उनके कर्त्ता हैं, यह मानना तो नितान्त ही भूल है। वे तो प्रवचनकर्त्ता हैं, अर्थात् जिन्होंने मन्त्रों का प्रचार किया या इनके अनुष्ठान से और इनकी बताई हुई विद्याओं और विधियों से लाभ उठाया, उन्हीं के नाम मन्त्रों के साथ प्रतिष्ठित रखे गये हैं। वे कर्त्ता नहीं हो सकते।

(ग) कुछ विद्वान् यह भी युक्ति देते हैं कि केवल स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का ही ज्ञान अनुपपन्न नहीं, सृष्टि के आरम्भ में मरुत वनाना, खेती करना आदि विभिन्न व्यावहारिक ज्ञान भी मनुष्यों को सर्वप्रथम कैसे हुआ ? जब मनुष्यों की यह प्रकृति देखी जाती है कि उन्हें बिना सिखाये नई बात स्वतः नहीं आती। शिक्षा प्राप्त कर लेने पर वे भले ही देखी हुई बातों के आधार पर नई-नई खोज कर सकें, किन्तु कुछ भी जिन्होंने नहीं सीखा है, वे स्वयं कोई खोज कर डाल, यह असम्भव है। कई विद्वानों ने अनुभव के आधार पर लिखा है कि कुछ छोटे बालकों को भेड़िये उठा ले गये, बहुत समय बाद उनका पता चला और उन्हें लाया गया, तो वे किसी भी प्रकार की मानवीय चेष्टा में असमर्थ पाये गये। वे न बोल सकते थे और न कोई मानवोचित व्यवहार ही कर सकते थे। इससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि मनुष्य सीखने पर ही कुछ कर सकता है। इसलिए आरम्भ में वेद के द्वारा ही उन्हें यह सारा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ, अतः वे वेद किसी मनुष्य के बनाये नहीं हो सकते।

इस सिद्धान्त पर एक बहुत बड़ा प्रश्न यह उठता है कि वेद शब्दसमूह-रूप हैं और शब्द का उत्पादन कण्ठ, तालु आदि शरीरावयवों की सहायता से होता है, तो जब एक भी शब्द अकृत्रिम उत्पन्न नहीं हो सकता, तब शब्दसमूह-रूप वेद को अकृत्रिम कैसे मान लिया जाय ? इसका उत्तर भीमासक देते हैं कि शब्द उत्पन्न नहीं होता, वह नित्य है। वर्तमान में जिन कारणों को हम शब्द का उत्पादक समझते हैं, वे उत्पादक नहीं, अभिव्यञ्जक मात्र हैं। उच्चारण से नित्य शब्द की अभिव्यक्ति मात्र होती है, इसलिए तो भिन्न-भिन्न मनुष्यों द्वारा उच्चारित क, ग आदि वर्णों में प्रत्यभिज्ञा हो जाती है कि यह वही ककार, गकार है आदि। यदि उच्चारण से शब्द उत्पन्न होता, तो भिन्न-भिन्न पुरुषों द्वारा उच्चारित वर्ण भिन्न-भिन्न होते और उनमें वही ककार है, इत्यादि प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती थी। और, उच्चारण-काल में ही वर्ण उत्पन्न होते और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते, तो उनका समुदाय भी नहीं बन सकता था। फिर वर्णसमुदाय-रूप पद और पदसमुदाय-रूप वाक्य कहाँ से बनते ? पद-वाक्यों से अर्थ-प्रतीति होकर जो व्यवहार चलता है, वह कैसे चलता ? इसलिए वर्णों को नित्य ही मानना पड़ेगा। उनका

समुदाय भिन्न-भिन्न प्राकृतिक सामग्री से हो गया है। वर्णसमुदाय रूप ही वेद है, इसलिए उनकी अकृत्रिमता में कोई बाधा नहीं आती।

यह भी स्मरण रहे कि मीमांसकों के सिद्धान्त में दृश्य जगत् की सृष्टि आर प्रलय मानने में कोई भी प्रमाण नहीं है। वे मानते हैं—'न कदाचिदनीटञ्ज जगत्', अर्थात् जगत् सदा इसी रूप में चल रहा है। इसमें भिन्न अवस्था में कभी था, ऐसा मानने का कोई प्रमाण नहीं है। उपनिषदादि के सृष्टि प्रलय-प्रतिपादक वाक्य अर्थवादमात्र हैं। वे विधियों की स्तुतिमात्र करते हैं, स्वार्थ में उनका कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए जैसे सब जगत् अनादि काल से इसी रूप में चला आ रहा है, उसी प्रकार वेद भी अनादि काल से चले आ रहे हैं, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं। उस सिद्धान्त का पुष्टीकरण श्रुति-स्मृति-पुराण आदि से भी होता है।

यथा प्रदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्ग व्युच्चरन्ति, एव वा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदं सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इति ।

(श० ब्रा०, काण्ड १४, बृहदारण्यकोपनिषद्)

इसका अभिप्राय यह है कि जैसे प्रज्वलित पावक से छोटे-छोटे अग्निकण निकलते हैं, उसी प्रकार महाभूत परमात्मा के निःश्वास-रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वाङ्गिरस वेद आदि प्रकट होते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता कि जैसे निःश्वासादि में मनुष्य का स्वातन्त्र्य नहीं है, वह इच्छापूर्वक श्वास-प्रश्वास नहीं चलाता, प्रत्युत प्रकृति के नियमानुसार श्वास-प्रश्वासादि उससे प्रकट होते हैं, वैसे वेद-निर्माण में भी ईश्वर की स्वतन्त्रता नहीं है, वह उन्हें इच्छापूर्वक नहीं बनाता, किन्तु नित्य वेद उससे प्रकटमात्र हो जाते हैं। 'नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा', इस श्रुति में भी यही आशय प्रकट किया गया है कि नित्य वाणी-रूप वेदों को स्वयंभू ईश्वर ने प्रकाशित कर दिया।

यदि वै प्रजापतेः परमस्ति वागेव तद् ।

(श० प० ५।१।३।११)

अर्थात्, प्रजापति से भी पर कोई वस्तु है, तो वह वाक् ही है। इत्यादि श्रुतियों में वेद-रूप वाक् की अनादिता और नित्यता शतशः उद्धोषित हुई हैं।

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा ।

आदौ वेदमयी नित्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः ॥

अर्थात्, जिसका न आदि है, न अन्त, ऐसी नित्य वेदमयी वाणी को स्वयंभू ब्रह्मा ने प्रकाशित किया। उससे ही ससार के सब व्यवहार प्रारम्भ हुए।

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक् ।

वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥

अर्थात्, प्रजापति ने सब जाति-व्यक्तियों के नाम और कर्म एव सब प्रकार की सस्याएँ वेद शब्दों से ही बनाई ।

इन सब स्मृतियों से भी वेद की अनादिता और नित्यता स्पष्ट सिद्ध हो जाती है और इससे वेद अनादि और अपौरुषेय ही ठहरते हैं ।

दूसरा सिद्धान्त न्याय-वैज्ञानिक दर्शनों के ग्रन्थों में मिलता है । उनका कहना है कि पूर्वोक्त सिद्धान्त के अनुसार वेद किसी मनुष्य ने नहीं बनाये और वे अनादि हैं, उनसे ही सब प्रकार की प्रवृत्ति चली है, यह तो ठीक है । किन्तु शब्द को नित्य नहीं माना जा सकता, और शब्दों का समूह तो सुतरा कभी नित्य नहीं हो सकता । शब्दों की उत्पत्ति वाग्निन्द्रिय द्वारा होती है, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं, तब उसे नित्य कैसे मान लिया जाय ? और, प्रत्येक ग्रन्थ किसी रचयिता के द्वारा ही रचा जाता है, तब वेद-रूप ग्रन्थ अकस्मात् प्रादुर्भूत हो गया, यह कैसे मान लें । सृष्टि-प्रलय-व्यवस्था भी अनुमान और शब्द दोनों प्रमाणों से सिद्ध है, फिर उसका अपलपन कैसे किया जा सकता है । जबकि जगत् प्रत्यक्ष हो परिवर्त्तनशील दिखाई देता है, तब 'न कदाचिदनीदृश जगत्', यह सिद्धान्त ठहर ही कैसे सकता है । तब एक बार प्रलय होने पर फिर वेद प्रकट होंगे, तो उनका कोई कारण तो अवश्य ही मानना पड़ेगा । इसलिए यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त है कि जैसे जगन्नियन्ता परमात्मा ने सब जगत् को बनाया, वैसे ही उसी ने सब वेदों का निर्माण किया, और उनके द्वारा ही सब जगत् को शिक्षा दी । वेदों की वाक्य रचना स्पष्ट ही बुद्धिपूर्वक की हुई प्रतीत होती है । इसलिए, किसी बुद्धिमान् को उनका कारण भी मानना ही पड़ेगा । वह सर्वबुद्धि-निधान परमेश्वर ही उनका कारण हो सकता है । सब श्रुति, स्मृति, पुराण आदि भी इसी का प्रतिपादन करते हैं । पूर्व में जो प्रमाण दिये गये हैं, उनमें भी स्वयम् परमात्मा के द्वारा ही वेदों का प्रकट होना बताया गया है । निःश्वस-रूप कहने का या परमात्मा के द्वारा निर्मित न कहकर उत्सृष्ट (प्रकट किये गये) कहने का अभिप्राय यही है कि प्रतिकल्प में जत्र-जत्र सृष्टि होती है, तत्र-तत्र वे वेद इसी रूप में परमात्मा द्वारा बनाये जाते हैं । अनादि परम्परा-प्राप्त होने के कारण और कोई परिवर्त्तन किये जाने के कारण इनमें स्वतन्त्र रूप से बनाये जाने का व्यवहार नहीं किया जाता, प्रत्युत इन्हें नित्य ही माना जाता है । यह नित्य शब्द लाक्षणिक है ।

नित्यता दो प्रकार की होती है—(१) कूटस्थ नित्यता और (२) प्रवाह-नित्यता । आकाश, काल आदि जो सदा एकरूप रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्त्तन नहीं होता और निरवयव है, प्रलय में भी प्रलीन नहीं होते, वे कूटस्थ नित्य कहे जाते हैं । और जो परिवर्त्तनशील होने पर भी नित्य बने रहते हैं, वे प्रवाह नित्य हैं । जैसे—जल का प्रवाह गंगा आदि नदियों में सदा रहता है, किन्तु जो जल एक क्षण पूर्व था, वह दूसरे क्षण में नहीं रहता । इसी प्रकार, वेद के शब्द भी एक नहीं रहते, अर्थात् जो पहले थे, वे ही अब नहीं हैं । उनके सद्यः ही दूसरे शब्द उत्पन्न होते रहते हैं । उनका प्रवाह अविच्छिन्न रहता है । मन्त्र-भाग में तो स्पष्ट ही वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से श्रुत है—

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जगिरे ।
छन्दासि जगिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

(पुनपसूक्त)

अर्थात्, सवके द्वारा पूजनीय आर यजनीय परमात्मा में ऋच, यजु, साम और छन्द, अर्थात् अथर्ववेद प्रकट हुए ।

स्मृति-पुराणादि में भी ईश्वर के एकरूप ब्रह्मा के गुणों से वेदों का उत्पन्न होना कहा गया है ।

दूसरी बात यह भी है कि प्रामाण्य स्वतः सिद्ध नहीं होता, अपितु कारण में गुण होने के कारण प्रमाण में प्रामाण्य आता है । गन्द में वक्ता यदि आत हो, तो प्रामाण्य माना जाता है । ऐसी स्थिति में यदि वेद का कोई वक्ता न हो, तो उसमें प्रामाण्य कैसे माना जा सकेगा । ईश्वर को वक्ता मान लेने पर वेदों के प्रामाण्य में कोई सदेह नहीं उठ सकता, क्योंकि वह परम आत है । अतः, वेदों को ईश्वर कृत मानना ही उत्तम सिद्धान्त है । वेद अनन्त ज्ञान-रूप हैं आर ईश्वर का ज्ञान भी अनन्त माना जाता है । अतः, कई जगह वेदों को ईश्वर का रूप भी बताया गया है । ज्ञानरूपता से ही इसकी उपपत्ति समझनी चाहिए । उत्तर-मीमांसा (वेदान्त) में भी उसी से मिलता-जुलता सिद्धान्त प्राप्त होता है । वहाँ आकाश काल, आदि कोई भी पदार्थ मर्त्या नित्य नहीं माना जाता । पूर्ण रूप से नित्य तो एक परब्रह्मा ही है । आकाशादि सृष्टि में उत्पन्न होते हैं और प्रलय में विलीन हो जाते हैं । इसी प्रकार की नित्यता वे शब्दों में भी मानते हैं । और, ऐसा ही नित्य वेदों को भी कहते हैं ।

इस सिद्धान्त पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, ईश्वर भी तो निराकार है, फिर कण्ठ-तालु आदि के अभिघात से उत्पन्न होनेवाले शब्द-रूप वेद उसने कैसे प्रकट किये, शब्दों का उत्पादन निराकार के द्वारा कैसे हुआ ? और, उनका प्रसार किस रूप में हुआ ? इसका उत्तर पुराणों और आगम-शास्त्रों में इस रूप में दिया जाता है कि वाक् चार प्रकार की है—परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । इनमें से परा तो आत्मा की मुख्य शक्ति-रूप ही है । उसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता । पश्यन्ती वह वाक् है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों एक रूप में रहते हैं, दोनों का विभाग नहीं होता । इसे केवल प्रकाश-रूप कहकर शास्त्रों में वर्णन किया गया है । मध्यमा में शब्द और अर्थ का विभाग तो हो जाता है, किन्तु शब्द मन ही मन में भँडराते रहते हैं, कण्ठ, तालु आदि का कोई व्यापार उनमें नहीं होता और न उन शब्दों को कोई सुन सकता है । इसे लोक में मन से बात करना कहते हैं । चौथी वाक् वैखरी है । यह दो भागों में विभक्त है—एक उपाशु भाषण, अर्थात् काना-फूँसी और दूसरा उच्चैः स्वर का भाषण, जिसे सब सुन सके । परा, पश्यन्ती, मध्यमा का कण्ठ, तालु आदि व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं । केवल वैखरी में ही कण्ठ, तालु आदि व्यापार की आवश्यकता होती है । परा, पश्यन्ती में तो पुरुष का भी कोई स्वातन्त्र्य नहीं है । वे तो निर्विकल्प और सविकल्प ज्ञान-रूप होने के कारण स्वतः सिद्ध हैं । ज्ञान

का स्वरूप मनुष्य के बनाने से नहीं बनता। वह तो नित्य वस्तु है, जो प्रमाणों के आधार पर आविर्भूत होता है। इसी मुख्य नित्य ज्ञान को वेदान्त-दर्शन में ब्रह्म-रूप ही माना गया है, और मनोवृत्ति-रूप ज्ञान प्रमाणों के आधार पर सगठित होता है। पद्यन्ती में भी शब्द और अर्थ का विभाग नहीं हो पाता। मध्यमा में शब्द-अर्थ का विभाग होने पर वहाँ पुरुष का स्वातन्त्र्य होता है कि वह जैसे चाहे, वैसे शब्दों का सगठन कर लेता है और वैखरी द्वारा उन्हें प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में भी ऋषि-महर्षियों की पद्यन्ती या मध्यमा वाणी में परमात्मा ने वेदों को प्रकट कर दिया, और उन्होंने वैखरी द्वारा मिथ्य-प्रमिथ्यों में उनका प्रचार किया, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं आती। पुराणों में भी इतनी विशेषता और भी मिलती है कि परमात्मा ने पहले जगन्निर्माता ब्रह्मा की बुद्धि में वेदों को प्रकट किया, और ब्रह्मा के द्वारा ऋषि-महर्षियों को उनकी शिक्षा मिली। श्रीमद्भागवत में मंगलाचरण में ही यह स्पष्ट कहा गया है कि 'तेन ब्रह्म हृदा य आदिकवये', अर्थात् जिस परमात्मा ने हृदयस्थ बुद्धि के द्वारा आदिकवि ब्रह्मा को वेद-विस्तार दिया। आगे भी लिखा है—'प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताऽजस्य सती स्मृति हृदि', अर्थात् जिस भगवान् की प्रेरणा से आज ब्रह्मा को वेदों की स्मृति-रूप सरस्वती प्राप्त हुई। इसी प्रकार से अन्यान्य पुराणों में भी कई स्थानों पर वर्णन आता है।

इस पर अनेक विवेचक विद्वानों का तीसरा पक्ष यह उपस्थित होता है कि ब्रह्मा भी तो कोई शरीरधारी पुरुष नहीं, वह परमात्मा का ही एक सृष्टिकारक रूप है, और उसके चतुर्मुख आकार आदि का वर्णन तो एक वैज्ञानिक आधार पर कल्पना-मात्र है। तब वैखरी वाक् द्वारा ब्रह्मा से भी शब्दरागिरूप वेद प्रकट नहीं हो सकते। यदि ब्रह्मा को साकार भी मान लिया जाय, तो भी वह सृष्टि करता हुआ मनुष्यों को पढाता भी रहा—यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त एक ही मन्त्र भिन्न-भिन्न वेदों वा एक ही वेद में बार-बार क्यों आया ? शाखा-भेद में मन्त्रों का पाठ-भेद क्यों हुआ, और एक शाखा के पाठ की दूसरी शाखा में निन्दा क्यों की गई ? जैसा कि तैत्तिरीय शाखा में यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र का 'इषे त्वोर्जे त्वा वायव'स्थोपायव'स्थ' पाठ है, और माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 'उपायव स्थ' बोलने की निन्दा की गई है। इन सब बातों की उपपत्ति ईश्वर-कृत मानने में ठीक बैठती नहीं, इसलिए ब्रह्मा ने भी ऋषि-महर्षियों की पद्यन्ती वा मध्यमा वाक् में ही वेदों को प्रकट किया, और वैखरी वाक् में तो वेद प्रथमतः उन्हीं ऋषि महर्षियों द्वारा प्रकट किये गये, जिनका नाम उन-उन मन्त्रों के साथ लिया जाता है, और जिस स्मरण का आधार वैदिकों की परम्परा एवं सर्वानुक्रमणी-सूत्र आदि है। अतः सामान्य जनता जो केवल वैखरी वाक् को ही वेद समझती है, वा कहती है, उसकी दृष्टि में तो वेद के कर्त्ता वे ही ऋषि-महर्षि सिद्ध होते हैं—जिनके नाम मन्त्रों या ब्राह्मणों के साथ लगे हुए हैं। उन्हें ज्ञान अवश्य परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ, इसमें सन्देह नहीं। इसी अभिप्राय से स्थान-स्थान पर ऋषि-महर्षियों को ही वेद का कर्त्ता कहा गया है।

यामृपयो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्वैच्छन् देवास्तपसा श्रमेण ।
तां दैवी वाचं हविषा यजामहे सानो दधातु मृगतस्य लोके ॥
(तै. ब्रा. २।७।७)

यहाँ देव शब्द विद्वान् का बोधक ह। शतपथ ब्राह्मण (२।२।२।६) म स्पष्ट लिखा है कि देव दो प्रकार के होते ह। जो मुख्य देव ह, वे तो ह ही, उनके अतिरिक्त जो वेद पढे हुए और वेद की व्याख्या करनेवाले ह, वे विद्वान् ब्राह्मण मनुष्य होने पर भी देव हैं। ये दूसरे प्रकार के देव ही प्रकरणानुसार यहाँ पर प्राय हांगे, तब इस श्रुति का अर्थ यो होगा—

विद्वान् ब्राह्मण जो मनीषी और मन्त्रकर्ता ऋषि ह, उन्होंने अपने तप आर श्रम से जिम दैवी वाक्-रूप वेद का अन्वेषण किया, अर्थात् उसे प्राप्त आर प्रकट किया, उस दैवी वाक् की हम पूजा करते हैं, वही हमें सुकृत के लोक में प्राप्त करे।

नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः ।

(तै० ब्रा० ४।१।१)

अर्थात्, मन्त्रों के कर्ता और मन्त्रों के स्वामी ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं।

यहाँ मन्त्रपति शब्द से उनके प्रचारक लिये जायेंगे। इससे सिद्ध हो जाता है कि मन्त्रों के कर्ता भी ऋषि हैं और प्रचारक भी। प्रचारक पद से ही उन्हें प्रकरणवद् सहितादि रूप में परिणत करनेवाले भी ले लिये जायेंगे।

इमे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः ।

इत्यादि श्रुतियों द्वारा गोपथ ब्राह्मण में भी वेदों का निर्माण स्पष्ट बताया है, और अगो के नाम भी साथ है, अगो के निर्माता ऋषि ह, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। अतः, वेदों का भी ऋषियों द्वारा निर्माण इससे सिद्ध होता है।

अजान् ह वै पृथ्वीस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भवभ्या नर्पत्
तद् ऋषिणामृषित्वम् ॥

इसका अर्थ है कि तपस्या करते हुए अजपृथ्विन नाम से प्रसिद्ध महापुरुषों को स्वयम् ब्रह्म प्राप्त हुआ। यही ऋषियों का ऋषित्व है। यहाँ अज शब्द का अर्थ माधवाचार्य आदि भाष्यकारों ने यह किया है कि वे ऋषि लोग सृष्टि के आरम्भ में एक बार ही जन्म ग्रहण करते हैं। हम ससारी जीवों की तरह बार बार जन्म-मरण के चक्र में नहीं पडते। तात्पर्य यह कि वे ईश्वर-प्राप्त दिव्य ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, बार-बार वेद-प्रचार के लिए आधिकारिक पुरुष बन जाते हैं। इसीलिए, बार-बार जन्म-प्रवाह में न पडने के कारण ही उन्हें 'अज' कहा गया है और ज्ञान द्वारा वे निर्मल हो गये हैं, यह पृथ्विन शब्द का अर्थ है। पृथ्विन शुक्ल का वाचक है। निर्मल को शुक्ल कहना युक्ति-युक्त है। अज शब्द का दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि—

अजामेकां लोहितशुक्लरूपां वह्नीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगा अजोऽन्यः ॥

इस द्येताधर-श्रुति में प्रकृति को अज और पुरुष को अज कहा गया है। पुरुष सर्वथा निर्लिप्त रहता है। वह प्रकृति का द्रष्टामात्र है, उसके गुणों से बद्ध नहीं। इसी प्रकार, वे ऋषि लोग प्रकृति के बन्धन से विमुक्त हो गये, अतः उन्हें अज कहा गया। तीसरी बात यह भी है कि अजपृथिन आदि नामों से पुराणों में कुछ ऋषि प्रसिद्ध हैं, उन्हीं का यहाँ उल्लेख हुआ है। अस्तु, जो कुछ भी हो, इस श्रुति से इतना अवश्य सिद्ध हो जाता है कि तपस्या करते हुए ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला, और इसी कारण वे ऋषि कहलाये। ऋक्-सहिता का एक मन्त्र भी इस विषय का संकेत करता है—

यज्ञेन वाचः पदवीयसायस्तानन्वचिन्दन्तृपिसु प्रविष्टाम् ।
ता मा भृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसनमन्ते ॥

(ऋक् १०। ७१। ३)

इसका अर्थ है कि विदितार्थ धीरे पुरुषों ने पद से प्राप्त होने योग्य वाक् के मार्ग को यज्ञ से प्राप्त किया और उस वाक् को अति सूक्ष्म अर्थों के जाननेवाले ऋषियों में प्रविष्ट पाया। तदनन्तर उस वाक् को विस्तार से सवाद्वन कर बहुत देगों में फैलाया, अर्थात् बहुतों को पढाया। ऐसी वाक् को शब्द करते हुए सात पक्षी चारों ओर फैलाते हैं। यहाँ पक्षीवाचक 'रिम' शब्द से गायत्री आदि सात छन्द विवक्षित है। इन छन्दों की पक्षिरूपता ब्राह्मणों में कई जगह वर्णित हुई है। छन्दों को पक्षी क्यों कहा जाता है, यह वैज्ञानिक तत्त्व है। जिसका विवरण यहाँ अप्रासङ्गिक हो जायगा। अस्तु, प्रकृत विषय में इस मन्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि पहले ऋषियों के हृदयों में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने उसे छन्दोबद्ध किया, और वाक्य-रूप में मुनियों को पटाया, और मुनियों ने मनुष्यों में उसका प्रचार किया।

यो वै ज्ञातोऽनूचानः स ऋषिः ।

(ज० प० ब्रा० ४। ३। ९)

यह ब्राह्मण-श्रुति भी यही संकेत करती है कि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसका अनुवचन करते हैं, अर्थात् औरों को पढाते हैं, वे ही ऋषि कहलाते हैं।

ये समुद्रान्निखनन् देवास्तीक्ष्णाभिरभ्रिभिः ।

सु देवो अद्यतद्विद्याद् यत्र निर्वपणं दधुः ॥

यह मन्त्र भी इसी विषय का संकेत करता है। इसका व्याख्यान शतपथ ७।५।२। ५२ में किया गया है कि देव, अर्थात् विद्वानों ने मन-रूप समुद्र से वाक्-रूप तीक्ष्ण कुदालों द्वारा खोदकर त्रयी विद्या-रूप वेदों को बाहर निकाला। उन ऋषियों के इस त्रयी विद्या-रूप ज्ञान को उन्होंने जिस ग्रन्थ में स्थापित किया, उसको भी श्रेष्ठ विद्वान् ही जान सकता है। सर्वसाधारण उसे अब भी नहीं पा सकते, क्योंकि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है।

अग्निः पूर्वंभिक्षिपिभि रीड्यो नूतनैरुत ।

(ऋक् १। १। २)

यह मत्र ऋषियों का पूर्वापर-भाव बताता है। नह भी तभी सम्भव ?, जब मनुष्य-रूप ऋषियों को कर्त्ता माना जाय। यदि किमी पुरुष का सम्बन्ध वेद-मन्त्रों से न माने, तो पूर्वापरी भाव किसका ? अर्थात्, पूर्व ऋषि कौन और अपर ऋषि कौन, इसकी कोई व्यवस्था नहीं लगाई जा सकती।

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान्महर्षयः।
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥

अर्थात्, युगों के अन्त में जब वेद अन्तर्हित, अर्थात् प्रलीन हो गये, तब आगे पुनः युग का आरम्भ होने पर इतिहास-सहित उन वेदों का व्रता की आज्ञा से ऋषिगण ने प्राप्त किया। इत्यादि बहुत-सी स्मृतियों भी ऋषियों के द्वारा ही वेदों की प्रवृत्तना बतला रही है।

साक्षात् यह कि लौकिक शब्दों का यह क्रम प्रसिद्ध है कि पहले वक्ता किसी लौकिक प्रमाण के द्वारा अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है और उसे दूसरों को बताने के लिए शब्दों द्वारा प्रकट करता है। यह प्रक्रिया वेदों में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि किसी भी दूसरे लौकिक प्रमाण से वेद-प्रतिपादित स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए, इस दृष्टि से तो ज्ञान-रूप वेद को अपारुपेय, अलौकिक या ईश्वर-प्रदत्त कहा जा सकता है, किन्तु सृष्टि के आरम्भ में ऋषियों ने तप वा यज्ञ किया, तब उनके अन्तःकरण में ईश्वर ने दिव्य ज्ञान दिया, उस ईश्वर-प्राप्त दिव्य ज्ञान को अपने शब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रकट किया, पढाया और फैलाया। यह प्रक्रिया सब प्रमाणों से सिद्ध होती है। निरुक्तकार यास्क ने भी प्रथम काण्ड के प्रथमाध्याय के अन्त में इस क्रम को स्पष्ट लिखा है—

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः। ते अवरेभ्योऽसाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणाय डमं ग्रन्थं समासनासिपुवदं च वेदाङ्गानि च ॥

इसका अर्थ स्पष्ट है कि आदि ऋषियों को सब जगत् के वस्तु-धर्मों का और मनुष्य के कर्त्तव्य आदि का साक्षात्कार, अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ था। (ऐसा ज्ञान उनके तप आदि से प्रसन्न भगवान् की कृपा का ही फल था, यह मानना ही पडेगा, क्योंकि किसी लौकिक प्रमाण से ऐसा ज्ञान प्राप्त होना सम्भव नहीं। हमारे शास्त्रों में बुद्धि आदि का क्रमिक हास ही माना गया है। तदनुसार जब आगे के मुनियों को वैसा तथ्य साक्षात्कार न हो सका, तब पूर्व ऋषियों ने उपदेश द्वारा मन्त्रों के रूप में उन्हें ज्ञान दिया, जिन्होंने साक्षात्कार किया वे ऋषि कहलाये, और जिन्होंने पढकर ज्ञान प्राप्त किया, वे मुनि।) आगे बुद्धि के हास के कारण जब केवल मन्त्रों के संकेत से इस प्रकार के तत्त्वज्ञान का धारण न रह सका, तब संहिता-रूप में मन्त्र-भाग और कर्मविधि-रूप में ब्राह्मण-भाग का सकलन हुआ। (विल्मग्रहण का अर्थ कई प्राचीन विद्वान् भेदपूर्वक ग्रहण करते हैं, अर्थात् भिन्न-भिन्न रूप से सब तत्त्वों को समझने के लिए भिन्न-भिन्न ग्रन्थों की

आवश्यकता हुई। किन्तु कई प्रतिष्ठित विद्वान् विल्मग्रहण का अर्थ यही करते हैं कि वैखरी वाक् के रूप में, जहाँ शब्द-अर्थ दोनों विभक्त हो चुके हैं, उस रूप में स्पष्ट ग्रहण कराने के लिए ग्रन्थों का प्रणयन हुआ। इससे वैखरी वाक् के रूप में वेदों का प्रादुर्भाव ऋषियों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है।) उनके भी अर्थ में जब सन्देह होने लगा, तब निघण्टु-ग्रन्थ और व्याकरण-शिक्षा आदि ग्रन्थ भी बनते गये। कई विद्वान् यहाँ 'समाम्नासिपु.' का अर्थ अभ्यास करना मानते हैं, और इसका यह तात्पर्य लगाते हैं कि केवल मन्त्र-संकेत से काम न चला, तब ग्रन्थों के रूप में उन अर्थों का अभ्यास किया गया। किन्तु, यह अर्थ पूर्णरूप से यहाँ समत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जब ग्रन्थों का सकलन ही न हुआ, तब अभ्यास कैसा? इसलिए कोई सकलनकर्त्ता भी तो मानना ही पड़ेगा। वे ही ऋषि कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 'इम ग्रन्थ' और 'वेदाङ्गानि च', इनका भी सम्बन्ध 'समाम्नासिपु' के साथ ही है, तब क्या व्याकरण, निघण्टु आदि वेदाङ्गों को भी अकर्त्तृक ही कहा जायाग? ऐसा सम्भव नहीं है, और न किसी ने माना है, इसलिए सृष्टि प्रलयादि व्यवस्था मानने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया ही सुसंगत होती है।

पूर्वोक्त वाक्य के अतिरिक्त निरुक्तकार यास्क ने अन्यत्र भी कई जगह वेदों के ऋषिकर्त्तृत्व का संकेत किया है। जैसा कि दैवत काण्ड के आरम्भ में ऋषि, देवता आदि की व्यवस्था बताते हुए स्पष्ट कहा है—

यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्य-
मिच्छन्स्तुति प्रयुंक्ते तद्दैवतस्स मन्त्रो भवति ।

अर्थात् ऋषि के हृदय में जो कामना हो, और उस कामना की पूर्ति जिस देवता के द्वारा होना उपयुक्त समझकर वह ऋषि जिस देवता की स्तुति करता हो, वही उस मन्त्र का देवता कहलाता है।

यहाँ ऋषि अपनी कामना की पूर्ति के लिए मन्त्र द्वारा देवताओं की स्तुति करता है, यह स्पष्ट ही कहा गया है। यह कामना पुरुषविशेष को ही हो सकती है। अपौरुषेयता वा ईश्वरप्रोक्तता में वह नहीं बन सकती। हाँ, किस देवता में कितनी शक्ति है, कौन किस कामना को पूर्ण कर सकता है, इत्यादि ज्ञान अवश्य ही उसके हृदय में ईश्वर-प्रदत्त था। आगे भी निरुक्तकार ने लिखा है—

एवमुच्चावचैरभिप्रायैर्ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति ।

(अपने भिन्न-भिन्न अभिप्रायों के अनुसार ऋषियों को मन्त्र-दर्शन होते हैं ।)

यहाँ भी ऋषियों के अभिप्राय का सम्बन्ध मन्त्रों से स्पष्ट बताया गया। वैश्वानर अग्नि किसका नाम है, इसका विवेचन करते हुए भी दैवत काण्ड के प्रथमाध्याय में निरुक्तकार यास्क ने लिखा है कि 'उधर से सूर्य की किरण पृथिवी पर आती है और उधर से पृथ्वी की प्राण-रूप किरणें ऊपर को जाती हैं, इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध देखकर ऋषि ने 'वैश्वानरो यतते सूर्येण' ऐसा कहा है। यहाँ दोनों किरणों का सम्बन्ध देखकर

शब्द-रूप में उसे कहना स्पष्ट ही, ऋषि का कार्य बताया गया है। प्रथम काण्ड के चतुर्थ अध्याय में भी निरुक्तकार कहते हैं—

त्रितं कूपेऽवहितमेतत्सूक्त प्रतिवभौ, तत्र ब्रह्मेति-
हासमिश्रमृद्धिश्च गाथामिश्रञ्च भवति ।

अर्थात्, त्रित ऋषि जत्र कूप में पड़े हुए थे, तब उनका हृदय में इस सूक्त का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उस सूक्त के मन्त्र उस ऋषि का अपना इतिहास भी बतलाते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं और देवताओं ने पहले जिनकी रक्षा की है, वह गाथा भी कहते हैं। अब भी ऋषिप्रोक्तता में किसी को सन्देह रह जाय, तो मिटना कठिन ही होगा। वात स्पष्ट है कि ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के वे द्रष्टा कहलाये, अर्थात् उन्होने उस ज्ञान का साक्षात्कार किया। और, बखरी वाक्-रूप में निबद्ध मन्त्रों की दृष्टि से वे कर्त्ता कहलाते हैं, क्योंकि शब्दानुपूर्वा का संगठन उन्होने ही किया। बृहदेवता, सर्वानुममणी आदि में जो ऋषियों और देवताओं के कई इतिहास मिलते हैं, उनमें भी यही प्रक्रिया सिद्ध होती है। अन्यान्य दर्शनप्रवक्ता या वेदान्त-प्रवक्ता मुनि या विशिष्ट विद्वान् भी इसी मार्ग का स्पष्ट उपदेश करते हैं। व्याकरण के आचार्य भगवान् पाणिनि ने तद्धित-प्रकरण में दो अधिकार पृथक् पृथक् बनाये हैं। 'कृते ग्रन्थे', जिसने जिस ग्रन्थ का प्रणयन किया हो, उसके नाम से प्रत्यय लगाकर ग्रन्थ का नाम होता है, यह एक अधिकार है। दूसरा अधिकार 'तेन प्रोक्तम्' (४।३।१०१) है, इससे प्रवचनकर्त्ताओं के नाम से भी शाखा अथवा आचार्यों के नाम होते हैं। इस सूत्र के भाष्य में महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने यह शब्दा की है कि 'कृते ग्रन्थे' अधिकार से ही काम चल जाय, तो फिर 'तेन प्रोक्तम्' अधिकार क्यों किया गया? इस पर अवान्तर प्रश्न उठाया है, 'ननु चोक्तम् नहि छन्दासि द्वियन्ते नित्यानि छन्दासि', अर्थात् वेद तो नित्य हैं, बनाये नहीं जाते। फिर उनके नामों का निर्वचन 'कृते ग्रन्थे' अधिकार से कैसे होगा? इस अवान्तर प्रश्न का उत्तर वे देते हैं— 'यद्यप्यर्थो नित्यः यात्वसौ वर्णानुपूर्वा सा अनित्या', अर्थात् वेदों का अर्थ तो नित्य है, पर शब्द-रचना तो कृत्रिम ही है। यहाँ स्पष्ट ही पूर्वोक्त प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया है। इसकी व्याख्या में कैयट ने स्पष्ट लिखा है कि महाप्रलय में जब वर्णों का सन्निवेश नष्ट हो जाता है, तब दूसरे कल्प में उत्पन्न हुए ऋषि अपने पूर्व कल्प के दृढ स्मृति से वेदार्थ का स्मरण कर शब्द-रचना किया करते हैं। नागेशभट्ट ने भी उसकी व्याख्या में लिखा है कि अग्रतः वेद नित्य है, और अग्रतः अनित्य वा बनाये हुए भी है। शाखाओं के नाम प्रवचनकर्त्ताओं के नाम से हुए हैं। इस मीमांसको की उक्ति का भी इसी सूत्र के भाष्य में खण्डन है कि प्रवचन तो प्रतिग्राम कठ, कलाप आदि शाखाओं का होता है, किन्तु उन प्रवचनकर्त्ताओंके नाम से इन शाखाओं के नाम नहीं पड़ते। इसलिए प्रथम प्रवचनकर्त्ता, अर्थात् स्वयं बनाकर प्रकाशित करनेवाले के नाम से ही शाखाओं के नाम रखे गये हैं। 'पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु' (४।३।१०३) इस सूत्र में भी सूत्रकार पाणिनि ने स्पष्ट सकेत किया है कि कई ब्राह्मण प्राचीन काल से

चले आ रहे हैं, और कई नवीन संकलित हुए हैं। इससे भी ऋषियों का निर्माता होना स्पष्ट सिद्ध होता है। वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने भी 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे' लिखकर वेदों की रचना को बुद्धिपूर्वक रचना बतलाया है। ईश्वर का नाम वेदकर्त्तारूप से उन्होंने कहीं नहीं लिया। इसी प्रकार न्यायसूत्रकार गौतम ऋषि ने वेदों का प्रामाण्य समर्थन करते हुए लिखा है कि 'मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमातप्रामाण्यात्' (न्या० २।१), अर्थात् आतोक्त शब्द का ही प्रामाण्य माना जाता है, जैसे विप-निर्हरणादि मन्त्र और आयुर्वेद का प्रामाण्य उनकी फल सिद्धि देखकर माना जाता है, फल-सिद्धि से वक्तव्य में आतत्व का निश्चय हो जाता है और स्थाली पुलाक न्याय से उनका सम्पूर्ण कथन प्रमाण ही मान लिया जाता है। इसी प्रकार वेदों का भी प्रामाण्य सिद्ध है। इसके भाष्य में वात्स्यायन ने स्पष्ट कर दिया है कि आयुर्वेद आदि के जो रचयिता हैं, वे ही वेदों के भी द्रष्टा हैं, इसलिए उनमें प्रामाण्य-निश्चय होने से सम्पूर्ण वेदों का प्रामाण्य मान लिया जाता है। नित्यत्व के कारण प्रामाण्य मानने का भाष्यकार ने स्पष्ट खण्डन किया है कि नित्यता तो केवल इसी कारण व्यवहृत होती है कि भिन्न भिन्न युगों और मन्वन्तरो में इनका अध्ययना-ध्यापन-सम्प्रदाय नहीं टूटता, इसलिए प्रवाह-नित्यता मान ली जाती है, इससे प्रामाण्य का कोई सम्बन्ध नहीं। प्रामाण्य तो आत प्रामाण्य से ही होता है। लौकिक वाक्यों में भी आत प्रामाण्य से ही वाक्यों का प्रामाण्य माना जाता है। 'आतोपदेश-शब्द' (न्या० सू० २।१), इस सूत्र के भाष्य में भी वात्स्यायन ने लिखा है—'जिसने जिस वस्तु का साक्षात्कार किया और जैसा देखा, वैसा ही उसे प्रकट किया, ऐसा उपदेश ही आत है। किसी अर्थ को प्रत्यक्ष देखना ही उसकी आति कहलाती है। उसके द्वारा प्रवृत्त होनेवाला आत है।' यह लक्षण ऋषि, आर्य और श्लेच्छ सत्र में घटित होता है। जिन विषयों का श्लेच्छों को स्पष्ट ज्ञान है, उनमें वे भी आत हैं और आर्यों को जिन विषयों का स्पष्ट ज्ञान है, उनमें वे आत हैं। इस प्रकार आत का लक्षण सब में समान है। किन्तु सर्व साधारण के द्रष्टव्य जो विषय नहीं होते, अलौकिक प्रत्यक्ष से उनका ज्ञान प्राप्त कर उनके विषय में स्पष्ट उपदेश देना ऋषियों की विशेषता है। यहाँ लौकिक और ऋषि-वाक्यों में भेद हो जाता है, अर्थात् लौकिक विषय का उपदेश देनेवाले आत होने पर भी ऋषि नहीं कहलाते, किन्तु इन्द्रियों से न जानने योग्य विषयों का तप-प्रभाव से एव ईश्वरानुग्रह से साक्षात्कार कर उनका उपदेश करनेवाले ही ऋषि कहलाते हैं।

न्याय-भाष्यकार वात्स्यायन के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रष्टा, आत और अनूचान शब्दों का एक ही अर्थ है, केवल इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष नहीं कहते, किन्तु बुद्धि में विलक्षण प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त कर जो परीक्षा, समीक्षा या अन्वीक्षा की जाती है, उसके अनन्तर होनेवाला स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष ही है। वेदान्त-दर्शन ने तो, इन्द्रियजन्य ज्ञान हो, अनभवजन्य ज्ञान हो या शब्दजन्य ज्ञान हो, सबके अनन्तर जो एक स्पष्ट प्रतिभास होता है, जिस पर अन्त-करण की दृढता हो जाती है, उसका ही निर्विकल्पक अवगम, अधिगम, प्रत्यक्ष, प्रमा आदि नामों से व्यवहार किया है।

ऐसा ज्ञान अलौकिक विषयों में भी विशेष सामर्थ्य से प्राप्त होता है और उग ज्ञान को प्राप्त करनेवाले ही 'ऋषि' कहे जाते हैं।

आविर्भूतप्रकाशानामनभिलुप्तचेतन्याम् ।

अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षाद्य चिञ्चिष्यते ॥ (हरिः)

अर्थात्, जिनके अन्तःकरण में योग-समाधि द्वारा प्रकाश हो गया है, जिनके चित्त में भ्रम कभी आ ही नहीं सकता, उन महापुरुषों का ज्ञान चाहे, वह भूतकाल का हो, या भविष्यत्काल का, प्रत्यक्ष से भिन्न नष्ट कटा जाता। न्याय ज्ञान में भी लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष मान लिया गया है। उर्गी प्रत्यक्ष को दृष्टि भी कहते हैं। इसी आधार पर ऋषियों को द्रष्टा कहा गया है। वे अलौकिक अर्थों के द्रष्टा हैं और शब्दरूप मन्त्रों के प्रवक्ता।

प्रथम सिद्धान्त के विवेचन में मीमांसकों की ओर से जो यह प्रश्न उठाया गया था कि सर्वप्रथम योग, तप आर यज्ञादि का ज्ञान ही कैसे हुआ ? इनके अलौकिक सामर्थ्य का ज्ञान भी तो वेदों से ही प्राप्त होता है, जब वेद प्रकट ही न हुए तब इनका ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकेगा। वेदों के प्रकट होने पर योग, तप आदि का ज्ञान और योग, तप, यज्ञ द्वारा ईश्वरानुग्रह प्राप्त कर वेदों का प्रकाश, यह तो स्पष्ट ही अन्योऽन्याश्रय हो गया। इसका समाधान अन्य आचार्यों की ओर से यही किया जाता है कि पूर्व-कल्प के दृढ सस्कार से प्रारम्भ के ऋषियों को तप, योग आदि के प्रभाव का स्मरण हो आता है। इसीसे वे तप आदि में प्रवृत्त होते हैं। भगवान् मनु ने (अ याय १ श्लोक ३०) लिखा है—जैसे नई ऋतु आने पर पूर्वमिद्ध उस ऋतु के चिह्न स्वयं स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं, वैसे कल्पादि में उत्पन्न होनेवाले दृढ सस्कारयुक्त प्राणी भी अपने सस्कार वश अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। पुराणों में भी सर्वतः प्रथम उत्पन्न हुए ऋषियों-मुनियों की, पूर्व सस्कार-वश स्वयं तप, योग आदि में प्रवृत्ति बताई है। सनत्कुमारों को जन्म से ही तत्त्वज्ञान प्राप्त था, यह सब पुराणों में वर्णन है, 'अजान्ह वै पृश्नीन्' इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति में भी जब तप के अनन्तर वेद का प्रादुर्भाव बताया गया है, तब वेदों के श्रद्धालु, आस्तिक पुरुषों को इस पर गङ्गा हो ही नहीं सकती कि पहिले तप में प्रवृत्ति कैसे हुई। पूर्वसस्कार-वश तप में प्रवृत्ति मानी जाती है।

सिद्ध यह हुआ कि आदि सृष्टि में उत्पन्न, तप, योग आदि में प्रवृत्त ऋषियों के अन्तःकरण में ईश्वरानुग्रह से सब विषयों का ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ। और, उसे उन्होंने शब्दों द्वारा प्रचारित किया। हमारे वेदान्त आदि दर्शनों में ज्ञान को नित्य माना गया है। वह आत्मस्वरूप है। परमात्मा को भी सत्, चित्, आनन्द, शब्द से सम्बोधित किया जाता है। वहाँ चित् का अर्थ ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से वेद सर्वथा नित्य, ईश्वर-रूप और अपौरुषेय हैं। वे कभी उत्पन्न नहीं होते। नित्य होने पर भी अन्तःकरण की वृत्ति में ज्ञान का प्रादुर्भाव किसी निमित्त से ही होता है। यहाँ ईश्वर-प्रसाद से वह ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ। इस दृष्टि से वेदों को ईश्वर-कृत मानना भी

युक्ति-युक्त है और उस ज्ञान को शब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रचारित किया, इसलिए ऋषियों को भी वेद का कर्त्ता माना जा सकता है। यो इन तीनों सिद्धान्तों का समन्वय हो जाता है, कोई परस्पर विरोध नहीं रहता।

यहाँ पुनः यह विचार उपस्थित होता है कि शास्त्रकारों ने ऐसा स्पष्ट माना है कि कोई भी ज्ञान शब्द को छोड़कर नहीं होता, प्रत्येक ज्ञान के साथ शब्द गुँथे रहते हैं।^१ आगम-शास्त्र में भी प्राथमिक सृष्टि में शब्द और अर्थ को एक रूप में ही सन्नद्ध माना जाता है। आगे चलकर शब्दधारा और अर्थधारा पृथक्-पृथक् होती है। पहले कहा जा चुका है कि पश्यन्ती वाक् में शब्द और अर्थ परस्पर सन्नद्ध ही है। मध्यमा में आकर वे विभक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने पर यह सिद्ध होगा कि आदि ऋषियों को अन्तःकरण में जो अतीन्द्रिय अर्थों का ज्ञान हुआ, उसके साथ भी शब्द अवश्य रहे होंगे। और तो क्या, ईश्वर जब सृष्टि करने का विचार करता है, तब उसके ज्ञान में भी उन अर्थों के साथ उनके वाचक शब्द भी अवश्य आते हैं, यह भी श्रुति-स्मृतियों में बताया गया है कि (स भूरिति व्याहरत् भुवमसृजत्) प्रजापति ने भू शब्द कहा और भूमि को उत्पन्न किया।

इस श्रुति का और 'वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे' (वेद के शब्दों से ही सब पदार्थों का सन्निवेश बनाया गया) इत्यादि स्मृतियों का यही तात्पर्य हो सकता है कि ईश्वर के ज्ञान में शब्दपूर्वक अर्थ पहिले उपस्थित हुए और उन अर्थों को ईश्वर ने बाहर प्रकट कर दिया। केवल निर्विकल्पक ज्ञान में शब्दों का सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसा कई आचार्य मानते हैं, किन्तु वह निर्विकल्पक ज्ञान तो किसी कार्य का सम्पादक नहीं होता। जब उसका सविकल्पक रूप बनता है, तभी उससे कुछ काम होता है। इसलिए ऋषियों का ज्ञान सविकल्पक ही था, तभी उन्होंने शब्द द्वारा उसे प्रकाशित किया, तब यही क्यों न मान लिया जाय कि ऋषियों के ज्ञान में जो शब्द आये थे, वे ही शब्द वेद थे और उन्हीं शब्दों को ऋषियों ने प्रकाशित कर दिया। उनकी रचना में ऋषियों की कोई स्वतन्त्रता नहीं थी, ऐसा मान लेने पर ईश्वर ही वेदकर्त्ता सिद्ध होगा, क्योंकि उसी ने शब्द भी ऋषियों के ज्ञान में दिये। और, शब्दों को नित्य माननेवाले तो यह भी कह सकेंगे कि शब्दों को भी ऋषियों के ज्ञान में ईश्वर ने प्रकटमात्र कर दिया, वे उत्पन्न नहीं किये गये, नित्य ही थे। इससे ईश्वर की भी स्वतन्त्रता वेदों के सम्बन्ध में नहीं है। वे तो नित्य ही हैं, इसी आशय से ईश्वर के निःश्वसरूप से वेदों का प्रकट होना कहा गया है। तब तृतीय मत का कोई आधार नहीं रह जाता। अपौरुषेयता और ईश्वर द्वारा रचा जाना ही सिद्ध होता है।

इस पर तृतीय सिद्धान्त के अनुयायी यह विवेचना करते हैं कि पश्यन्ती और मध्यमा वाणी के सम्बन्ध में हमारा कोई विवाद नहीं, उसे नित्य या ईश्वर-प्रदत्त ही मान लीजिए। हम तो केवल वैखरी, वाक्-रूप (विल्म) वेदों के सम्बन्ध में ही विचार करते हैं कि वे वेद ईश्वर-कृत, है या महर्षि-कृत। उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न रह जाता है कि जो शब्द ईश्वरानुग्रह से ऋषियों की पश्यन्ती वा मध्यमा वाक् में प्रादुर्भूत हुए,

१ 'न सोऽस्ति प्रलयो लोके य शब्दानुगमादन्ते। अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन मासते।' (हरि)

उन्ही शब्दों को ऋषियों ने प्रचारित किया वा उन्हें गमजकर सर्व-सुबोध बनाने के लिए शब्दों की रचना उन्होंने अपनी इच्छा से की। शब्दों की नित्यता मान लेने पर भी इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य शब्दों की भी आनुपूर्वा क्रिमी के द्वारा इच्छापूर्वक ही बनाई जाती है। यों तो शब्द-नित्यतावाद के अनुगार खुदशादि काव्यों की भी नित्यता वा अपौरुपेयता सिद्ध हो जायगी। इसलिए बंगरी वाक्-रूप से शब्दों की आनुपूर्वा का संगठन महर्षि-कृत है वा ईश्वर-कृत, यही विचारणीय विषय रह जाता है। वहाँ तृतीय पक्षवालो का यही कहना है कि ज्ञान जो ऋषियों की बुद्धि में प्रकट हुआ था, उसे प्रचारित करने के लिए शब्द रचना ऋषियों ने ही की। वेदों के ही स्वाध्याय से यह बात स्पष्ट हो जाती है। अस्मद् शब्द का प्रयोग वक्ता सर्वत्र अपने लिए ही करता है। यदि कोई वक्ता न हो, तो शतशः मन्त्रों में जो अस्मद् शब्द का प्रयोग आता है वहाँ उस शब्द से किसका ग्रहण किया जायगा। 'योऽस्मान्हेष्टि यं च वयं द्विष्म', 'युयोध्यस्मज्जुहुराणम्', 'अग्ने नय सुपथाराये अस्मान्' इत्यादि मन्त्रों में अस्मद् शब्द का वाच्य ईश्वर को भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर का किसी से द्वेष नहीं है, न वह अपने को सुमार्ग में ले जाने के लिए किसी से प्रार्थना ही कर सकता है। अतः, अगत्या वहाँ अस्मद् शब्द का वाच्य द्रष्टा महर्षियों को ही कहना पड़ेगा, तब उनके द्वारा शब्द-रचना होना स्पष्ट सिद्ध हो जायगा।

कुछ विद्वान् यहाँ यह समाधान करते हैं कि जो यज्ञादि में इन मन्त्रों का प्रयोग करते हैं, वे ही अस्मद् शब्द के वाच्य हैं, ऐसी प्रार्थना करने का उन्हें ईश्वर ने उपदेश दिया है। वे ही अपने लिए धन-भूमि आदि की कामना करते हैं, शत्रुओं का नाश करने की प्रार्थना करते हैं इत्यादि। किन्तु, यह समाधान भी सर्वत्र समीचीन नहीं हो सकता। बहुत से मन्त्र ऐसे प्राप्त होते हैं, जिनमें अस्मद् शब्द से यज्ञादि में प्रयोग करनेवाले को नहीं लिया जा सकता, इसके दो एक उदाहरण देना यहाँ अप्रासंगिक न होगा—

रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरी रूपमुहूर्त्तमेवैः ।

प्रसिन्धुमच्छा वृहती मनीषा वस्युरहे कुशिकस्य सूनुः ॥

(ऋ० सं० ३।३।१५)

अर्थात्, हे जलवाली नदियो ! तुम मेरे मधुर वचन द्वारा अपने शीघ्र गमन से सुहूर्त्त-मात्र विश्राम कर लो। मैं कुशिक का पुत्र अपनी रक्षा चाहता हुआ अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे सम्मुख होकर तुम से प्रार्थना करता हूँ।

इस मन्त्र का ऋषि विश्वामित्र है, वह नदियों की स्तुति करता है, इसके मूल में निरुक्तकार आदि ने यह आख्यान बताया है कि विश्वामित्र पैजवन सुदास राजा के पुरोहित थे। वह राजा से बहुत-सा धन लेकर सतलज और विपाशा के संगम पर पहुँचे, वहाँ उतरने का मार्ग न देखकर विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की और पहले निषेध करके अन्त में नदियों ने उनकी बात मानकर उन्हें मार्ग दे दिया। इस प्रकरण के मन्त्रों का यही स्वारसिक अर्थ होता है। अब यहाँ अस्मद् शब्द से इस मन्त्र का उच्चारण करनेवाले को ही लिया जाय, तो वह अपने को कुशिक-पुत्र क्यों कहेगा और नदियो

के प्रवाह को रोकने की सब प्रयोक्ताओं को क्यों आवश्यकता होती ? इसलिए इस मन्त्र का अर्थ करने में विश्वामित्र को ही वक्ता मानना आवश्यक है ।

अकारित इन्द्र गोतमेभि ब्रह्मण्योक्ता नमसा हरिभ्याम् ।
सुपेशसं वाजमाभरान् प्रातर्मसूधया वसुर्जगम्यात् ॥

(ऋ० १।६३।९)

अर्थात्, इस मन्त्र का गोतम ऋषि ही लिखा है, और गोतम गोत्र के ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति की, तुम हमें अन्न, धन आदि दो, यह इन्द्र से उनकी प्रार्थना है । अब प्रत्येक प्रयोक्ता अपने को गोतम वज्र का कैसे कह सकेगा, जैसे हिन्दी-भाषा के पुराने कवि अपनी कविता में अपने नाम की छाप दे देते थे, वैसी ही छाप इन मन्त्रों में भी स्पष्ट प्राप्त होती है, फिर भी वेदों को अस्मर्यमाणकर्तृक कहकर अपौरुषेय बतलाना मीमांसकों का कैसे सगत है, यह भगवान् ही जान सकता है ।

कारूरहं ततो भिपगुपलप्रक्षिणी न ना ।
नानाधियो वसूयवो नुगा इव तस्थिम इन्द्रायेन्द्रो परिश्रव ॥

अर्थात्, मैं मन्त्र-समूहों का रचयिता हूँ, मेरा पुत्र वैद्य है, अथवा वज्र की चिकित्सा करनेवाला ब्रह्मा है, मेरी कन्या बालू की रेत से जौ आदि अन्नों को सेकती है, अर्थात् जौ की घानी आदि बनाती है । इस प्रकार, हम लोग भिन्न-भिन्न कार्य करते हुए भी परस्पर सहयोग से रहते हैं । हे सोम ! तुम इन्द्र के लिए अपना रस निकालो ।

अब सोचने की बात है कि प्रत्येक मन्त्रप्रयोक्ता का पुत्र वैद्य हो वा उसकी लडकी घानी आदि बनानेवाली हो—यह कैसे सम्भव है । अस्तु, इस प्रकार के मन्त्र बहुत-से हैं, जिनमें अस्मद् शब्द का सम्बन्ध उनके प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है ।

आभोगयं प्रयदिच्छन्त एतनापा काः प्राञ्चो ममकेचिदापयः ।
सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम् ॥

(ऋ० १।११०।२)

इस मन्त्र का कुत्स ऋषि और ऋभु देवता बताये गये हैं । वहाँ ऋभु देवताओं को ऋषि ने अपना पूर्वज कहा है और अपनी जाति बताई है । पुराणादि से कुत्स के कुल का ऋभुओं से उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है । अब प्रत्येक मन्त्र-प्रयोक्ता ऋभु देवताओं को अपना पूर्वज कैसे कह सकेगा । अस्तु, ऐसे मन्त्रों में अस्मद् शब्द का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ही उनके प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है, अन्यथा उनका कोई अर्थ ही सुसगत नहीं होता । हाँ, कहीं-कहीं वक्ता ऋषियों ने अपने वक्तव्य विषय को किसी देवता आदि के मुख से कहलवाया है, जैसा कि इन्द्र अगस्त्य के सवाद आदि में वा वागाभ्यूणीय सक्त में, वहाँ वे देवता ही ऋषि माने जाते हैं और उनका ही अस्मद् शब्द से ग्रहण होता है । मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने अपने नाम को वहाँ गुप्त रखा है, किन्तु ऐसे मन्त्र स्वल्प ही हैं, ऐसा निरुक्तकार ने लिखा है । वह चुके हैं कि— 'अग्नि. पूर्वोभर्तृपिभिरिद्व्य', 'इति शुश्रुम धीराणा येनस्तद् विचचक्षिरे' इत्यादि मन्त्र ऋषियों का जो पूर्वापरभाव बतलाते हैं, उनकी भी सगति अपौरुषेय वा ईश्वर-वृत्त

मानकर नहीं बैठ सकती । अतः, ईश्वरानुग्रह से अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर शब्द-रचना ऋषियो ने ही स्वतन्त्रतापूर्वक की—यही वेद पर्यालोचन का सिद्ध होता है । प्रतिपात्र विषय ईश्वरानुग्रह से बुद्धि में प्राप्त हुआ, इस आशय से मन्त्रों का ईश्वर प्रणीत कहा जा सकता है और ज्ञान की नित्यता से अपौरुषेयता भी बन सकती है, किन्तु वैश्वरी वाणी में शब्दों के प्रयोक्ता तो ऋषि-महर्षि ही मानना उचित है । वे रागद्वेष रहित परम-प्राप्त हैं । यह उनकी रचना से ही स्पष्ट हो जाता है और प्रामाण्य में कोई शंका नहीं हो सकती । उन्होंने अर्थ का प्रत्यक्षवत् दर्शन किया, उन्हींलिए वे द्रष्टा बने जाते हैं । प्राप्त अर्थ का ही स्पष्टीकरण उन्होंने अपने शब्दों द्वारा किया, अतः मीमांसकों ने उन्हें प्रवचनकर्त्ता माना, यह भी ठीक ही है । लौकिक शब्दों की तरह अन्य लौकिक प्रमाणों से अर्थ जानकर शब्दों द्वारा प्रकाशित करना सम्भव नहीं—यही वेद की विलक्षणता है और इसी कारण उसे ईश्वर-वृत्त अपौरुषेय वा नित्य कहना युक्तियुक्त ही होता है । मीमांसकों की यह युक्ति भी ठीक नहीं उतरती कि इनके कर्त्ता का किसी का स्मरण नहीं, इसलिए इन्हें अपौरुषेय मानना चाहिए । जब सर्वानुक्रमणी आदि में सूक्तों, मन्त्रों आदि सब के ऋषि स्पष्ट लिखे हैं और मन्त्रों में भी यत्र तत्र कर्त्ता का नाम स्पष्ट आ जाता है, तब कर्त्ता का नाम किसी को स्मरण नहीं, यह किस आधार पर माना जा सकता है । ऋषि लोग केवल प्रवचनकर्त्ता हैं, निर्माता नहीं, यह उक्ति भी ठीक नहीं उतरती, क्योंकि ऐसा मानने में प्रमाण क्या ? वेदों को अपौरुषेय मान लेने पर प्रवचनकर्त्ता का नाम ऋषि है—यह सिद्ध होगा और ऋषि प्रवचनकर्त्ता ही हैं, निर्माता नहीं, यह मान लेने पर अपौरुषेयत्व सिद्ध होगा, यह एक प्रकार का असमाधेय अन्योन्याश्रय आ जाता है । सृष्टि-प्रलय-व्यवस्था सभी शास्त्रकारों ने मानी है, इसलिए 'न कदाचिदनीदृश जगत्' (सदा से जगत् इसी प्रकार चला आ रहा है), यह मीमांसकों का कथन भी सबसे विरुद्ध ही है । हाँ, यदि अपौरुषेय का यह अर्थ किया जाय कि प्रमाणान्तर से अर्थ को जानकर स्वतन्त्रता से जो वाक्य प्रयोग किया जाता है, वह पौरुषेय है । वेद में ऐसा नहीं, इसलिए उन्हें अपौरुषेय कहना चाहिए, तो ऐसी अपौरुषेयता पर हमें कोई आपत्ति नहीं । क्योंकि, उनके अर्थों का ज्ञान लौकिक प्रमाणों से नहीं हो सकता, यह हम भी मानते हैं ।

अब यहाँ एक प्रबल प्रश्न उठता है कि पूर्वोक्त पहले और दूसरे सिद्धान्तों की पुष्टि में जो श्रुति-स्मृतियों के प्रमाण दिये जा चुके हैं, उनकी क्या गति होगी ? ज्ञान की दृष्टि से वा वृत्त्यात्मक विषय-ज्ञान की दृष्टि से अपौरुषेय वा ईश्वर वृत्त कहा गया है, यह समाधान उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 'नित्यावागुत्सृष्टा स्वयभुवा' (यह नित्यवाणी है, स्वयम् ब्रह्मा ने इसे प्रकटमात्र किया है), 'अनादिनिधना नित्या . ' इत्यादि प्राचीन आतोक्त स्मृति में भी वेदवाणी को ही नित्य कहा है और 'तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत.' इत्यादि पूर्वोक्त पुरुषसूक्त के मन्त्र में ऋक्, यजु, साम का नाम लेकर उनकी ईश्वर से उत्पत्ति बताई गई है, तब केवल ज्ञानरूप से नित्य कहने वा अर्थ-ज्ञान ईश्वर-प्रदत्त होने के कारण ईश्वर-प्रणीत बता देने से उन प्रमाणों की स्पष्ट हत्या हो जायगी । इसलिए अपौरुषेय वा ईश्वर-प्रणीत होना ही प्रमाणसिद्ध होता है—इसका मुख्य समाधान यह है कि वाक्-शब्द मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद में केवल शब्द

के लिए ही प्रयुक्त नहीं हुआ है, किन्तु सब जगत् के उपादान कारण तप भूतो की प्रथम अवस्था को वहाँ वाक् शब्द से कहा गया है। देविण—‘वागेवेद सर्वम्’ इस ऐतरेय ब्राह्मण में वाक् की सर्वरूपता बताई गई है। शतपथ-ब्राह्मण की पुरश्चरण-श्रुति में (४।६।७।१) कहा गया है कि ऋक्, यजु., साम नाम की जो तीन विद्याएँ हैं, उनमें यह पृथ्वी ही ऋक् है, अन्तरिक्ष ही यजु है और द्युलोक ही साम है। यह एक साहस्री वाक् से उत्पन्न हुई है। दूसरा इन्द्र है और तीसरा विष्णु है, ऋक् और साम इन्द्र है, यजु विष्णु है। ऋक् और साम से जो यजु की उत्पत्ति हुई है, वह तेज से तेज की उत्पत्ति है। इन्द्र इसी को कहते हैं, जो तप रहा है, अर्थात् सूर्य का नाम इन्द्र है, यही सबका भरण-पोषण करनेवाला है, इत्यादि। शतपथ ब्राह्मण १०।५।२। १४ में भी कहा गया है कि ‘यह अग्नि ही तीन प्रकार से प्रादुर्भूत है, जिसे वाक् कहा जाता है—वह आदित्य है। उसका मण्डल ऋक् है, प्रकाश साम है और मध्य में जो पुरुष-रूप तत्त्व है, वह यजु है’, इस प्रकार के ब्राह्मणों में प्राप्त शतश विवरणों से विचारक विद्वानों को यह निश्चय हो जाता है कि वाक्, ऋक्, यजु., साम आदि शब्द वैज्ञानिक अर्थों के लिए ही यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक के जो प्रधान देवता अग्नि, वायु और आदित्य माने गये हैं, वे भी ऋक्, यजु और साम नाम से संकेतित हैं। हमारा पार्थिव अग्नि ऋक् है, उसकी व्याप्ति सूर्य मण्डल तक होती है, इसलिए उसकी दृष्टि से सौर अग्नि को साम कहा गया है और मध्य में अग्नि का सहचर वायु, यजु. नाम से व्यवहृत है।

इन वैज्ञानिक वेदों का नित्यपण हम पहले कर चुके हैं। नित्यता वा ईश्वर-कर्तृता के प्रमाणों की सगति भी वहाँ दिखाई जा चुकी है। इसलिए शिष्ट-परिग्रहीत तीनों सिद्धान्तों का समन्वय हो जाता है।

एक यह भी सिद्धान्त कई प्रमाणों से सिद्ध है कि अग्नि, वायु और सूर्य से तीनों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, इसका भी वैज्ञानिक वेदों में संकेत पहले बताया जा चुका है। ग्रन्थ-रूप वेदों में भी इस सिद्धान्त का समन्वय यों हो सकता है कि ऋग्वेद में प्रधानतया इस पार्थिव अग्नि का विवरण है। दूसरे लोको के अग्नि इसके सहचर-रूप से वर्णित है। यजुर्वेद में प्रधान रूप से अन्तरिक्ष के प्रधान देवता वायु का मुख्य रूप में वर्णन है और सामवेद, में सूर्य और आदित्य का। यह बात तीनों वेदों के आरम्भिक मन्त्रों में सङ्केत रूप से बताई गई है। ऋग्वेद के प्रारम्भ का मन्त्र है ‘अग्निमीळे पुरोहितम्’ अर्थात् यहाँ हमारे सम्मुख विराजमान पार्थिव अग्नि का हम प्रस्तवन करते हैं। यजुर्वेद के प्रारम्भ में ही वायु का प्रस्ताव किया जाता है ‘इपे त्वोञ्ज त्वा द्वायवःस्थ’ और साम-वेद के आरम्भ में ‘अग्न आयाहि वीतये’ यह मन्त्र है। अर्थात् सूर्य-लोक से आनेवाला अग्नि उसमें मुखतया प्रस्तुत है। यद्यपि सभी वेदों में सभी देवताओं की स्तुति आती है, क्योंकि सभी लोको में सभी देवता व्याप्त हैं। किन्तु एक-एक को प्रधान रखकर उसके सहचर-रूप से अन्य देवताओं का प्रस्तवन उन-उन वेदों में किया गया है। इसी आशय से ‘अग्नेर्ऋग्वेदो अजायत’ इत्यादि श्रुति में और—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म मनातनम् ।
दुदोह यद्गसिद्धव्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥

इस मनु-प्रोक्त स्मृति में अग्नि, वायु, सूर्य में ऋग्यजुःसाम वदो की उत्पत्ति बताया गई है ।

इस सम्पूर्ण प्रकरण का सारांश यह है कि वेद शब्द और उमके अवान्तर विशेष बतानेवाले ऋग्यजुःसाम शब्द, दो प्रकार के अथा में व्यवहृत होते हैं, एक जगत् के उत्पादक वैज्ञानिक अर्थ में, दूसरे उमके ज्ञान में । ज्ञान में प्रयुक्त होनेवाले वेद शब्द का भी चार प्रकार से व्यवहार होता है—शब्द समूह के उत्पादक, पश्यन्ती और मध्यमा वाक् के ज्ञान-रूप अर्थ में, उस ज्ञान से उत्पन्न होनेवाले शब्द-समूह में, उस शब्द समूह को सुनकर श्रोता के हृदय में उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में और उस ज्ञान के विषयीभूत लौकिक वा अलौकिक अथा में । उनके विशेष्य-विशेषण-भाव में वक्ता के इच्छानुसार परिवर्तन हो सकता है । लौकिक वा अलौकिक शब्दाभिव्यक्ति के जनक ज्ञान को वेद कहते हैं, उस ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्ति होनेवाले शब्दों से श्रोता को जो ज्ञान होता है, उसे भी वेद कह सकते हैं । ज्ञान से उत्पन्न वा ज्ञान के उत्पादक और ज्ञान में अर्थ के साथ अनुत्सृत रहनेवाले शब्द-समूह को भी वेद कहते हैं और उस ज्ञान के विषयीभूत और शब्दों के वाच्य अर्थ को भी वेद कहा जाता है । वेद शब्द की व्याकरणानुसार भिन्न-भिन्न व्युत्पत्तियों से ये चारों ही अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं । इनमें से वैज्ञानिक वेदों के उत्पादन में मनुष्य का कोई सामर्थ्य नहीं, वे ईश्वर-कृत, ईश्वर-निःश्वसित वा अपौरुषेय ही कहे जा सकते हैं । शब्द-समूह को विशेषण मानकर ज्ञान को विशेष्य मानने की दृशा में भी वेद सर्वथा 'अपौरुषेय' ही है, क्योंकि ज्ञान स्वरूपतः नित्य है और ऋषियों के हृदय में ईश्वर की प्रेरणा से प्रादुर्भूत हुआ । वस्तुतः, ज्ञान ईश्वर का रूप है, इसलिए वेद को ईश्वर का रूप भी कहा जाता है । ज्ञान के विषयीभूत शब्दों के वाच्य अर्थ को, यदि वेद शब्द से लिया जाय, तो वेद को ईश्वर-निर्मित और ईश्वर-निःश्वसित कहा जाता है । यदि शब्द-समूह को ही प्रधान माना जाय, तो भी यह विचारना होगा कि कौन-सा शब्द-समूह ? ज्ञान के साथ नित्य सम्मिलित पश्यन्ती वा मध्यमा वाक् का शब्द-समूह, अथवा वैखरी वाक् का शब्द-समूह । प्रथम पक्ष में भी वेदों की अपौरुषेयता वा ईश्वर-प्रणीतता ही रहेगी, क्योंकि पश्यन्ती वा मध्यमा के उत्पादन में मनुष्य का कोई व्यापार नहीं चल सकता । वे अर्थ के साथ नित्य सम्मिलित शब्द, शब्द-नित्यतावादियों के मत में अपौरुषेय है और अनित्यतावादियों के मत में ईश्वर-प्रणीत है । अब विवाद केवल वैखरी वाक् के शब्दों पर ही रह गया, वे भी शब्द-नित्यतावादियों के मत में अपौरुषेय है, ध्वनिमात्र पौरुषेय है, उससे अभिव्यञ्जित होनेवाला मुख्यस्फोट-रूप शब्द तो नित्य ही है । तब केवल आनुपूर्वी का सन्निवेश ऋषि-महर्षियों द्वारा माना जायगा । और, वाक्यस्फोट रूप शब्द को नित्य-माननेवालों के मत में तो वाक्य-रूप आनुपूर्वी नित्य ही है, इसलिए उस आनुपूर्वी की अभिव्यञ्जक प्रथम

वृत्ति के कर्त्ता होने मात्र से ऋषियों में कर्त्तृत्व का विश्राम होगा । अनित्यत्ववादियों के मत में भी लौकिक प्रमाणान्तर से अर्थ जानकर शब्द-प्रयोग करना, जैसा कि लौकिक शब्दों में होता है, वह तो वेद में है नही । ईश्वर-प्रसाद से ज्ञान प्राप्त कर केवल शब्दों का प्रयोग करने के कारण ऋषि-महर्षि प्रवक्ता या प्रणेता कहे जायेंगे । इस प्रकार, सूक्ष्म विचार करने पर वेद का कर्त्ता कौन है, इस विषय में कोई बड़ी विप्रतिपत्ति नहीं रहती, अधिकांश में उनकी अपौरुषेयता ही सिद्ध होती है । केवल बहुत थोड़े अंश में विवाद रहता है, जो नगण्य है । अतः, वेदों की अपौरुषेयता वा ईश्वर-प्रणीतता ही आर्य्य सस्कृति में प्रधानतया मान्य है ।

वेदों की विशेषता

अन्य शास्त्रों वा काव्यादि के शब्दों से वेद के शब्दों में विलक्षणता यही है कि अन्य शास्त्रों वा काव्यादि के शब्दों के प्रतिपाद्य अर्थों का ज्ञान उनके वक्ता को लौकिक प्रमाणों से होता है, दूसरे प्रमाणों से अर्थ साक्षात्कार कर वे स्वतन्त्र रूप से शब्द-प्रयोग करते हैं, इसलिए वे ग्रन्थकर्त्ता कहे जाते हैं । किन्तु वेद-शब्दों के वाच्यार्थ स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का स्फुट ज्ञान प्रमाणान्तर से संभव नहीं । यहाँ वह ज्ञान, योग, समाधि आदि द्वारा प्रसादित ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है और उस ज्ञान का मूल दूसरा कोई शब्द भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेद से प्राचीन कोई ग्रन्थ अभी तक किसी ने नहीं माना । अन्य ग्रन्थों का ज्ञान वेद से उन ग्रन्थों के अर्वाचीन होने के कारण वेदमूलक कहा जा सकता है, किन्तु वेद का ज्ञान ईश्वर-प्रदत्त के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता । इसलिए अर्थ की दृष्टि से ऋषि महर्षि द्रष्टा कहे जाते हैं और शब्दों की दृष्टि से प्रयोक्ता वा आनुपूर्वी निर्माता । यो द्रष्टृत्व और कर्त्तृत्व भी समन्वित हो जाता है ।

दूसरे वेदों में यह विशेषता है कि इनके सिद्धान्त काल-भेद से परिवर्तित नहीं होते । यही इस बात का प्रमाण है कि ये ईश्वरीय ज्ञान हैं । मनुष्य के ज्ञान में भ्रम, प्रमादादि संभव हैं । अतः, वह ज्ञान बदलता रहता है । भूल प्रतीत होने पर दूसरा अधिक विद्वान् उस सिद्धान्त को बदल देता है । किन्तु ईश्वर में भ्रम, प्रमादादि संभव नहीं, अतः ईश्वर-ज्ञान कभी नहीं बदलता । यही कारण है कि बड़े-बड़े विज्ञानवेत्ता विद्वान् बड़े विचार से जो सिद्धान्त (थिउरियों) स्थिर करते हैं, वे भी आगे बदल देने पड़ते हैं । किन्तु वैदिक सिद्धान्त ईश्वरीय ज्ञान है । उनमें आज तक कोई भूल नहीं निकल सकी । जहाँ जहाँ आधुनिक विज्ञान ने वैदिक विज्ञान के सिद्धान्तों से मतभेद दिखाकर सघर्ष किया, वहाँ आधुनिक विज्ञान को ही घूम-फिर कर वैदिक सिद्धान्तों की शरण में आना पड़ा । वैदिक सिद्धान्त अटल रहे । इसके कई एक उदाहरण हैं, दृष्टान्त-रूप में दो-तीन हम उपस्थित कर देते हैं ।

(१) वेद का अनादिकाल से अटल सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण जगत् का मूल तत्त्व एक है । 'सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' यहाँ का घण्टाघोष है । पाश्चात्य विज्ञान पहले इसके विरुद्ध चला । उन्होंने अपने कल्पित हाइड्रोजन, ऑक्सिजन,

आदि को मौलिक और अपरिवर्तनीय तत्त्व माना। अन्वेषण से उनकी संख्या बढ़ती गई। पैसठ, तिरानन्वे, अताधिक आदि रत्न संख्या-विस्तार हुआ। किन्तु आज विज्ञान शान्ते पर आ गया है कि अवतक के माने हुए अताधिक तत्त्व मौलिक नहीं, वे तो जन्य हैं। मौलिक तत्त्व तो दो ही हैं—इलुट्रोन और प्रोट्रोन। और, अब आवाज उठ गई है कि दो का भी एक ही मूल से विकास है। यों इस विज्ञान के सन्वाह-काल में भी 'सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' का विजय-शरव बज गया। यद्यपि एक तत्त्व से विकास होने की पूरी प्रक्रिया अभी विज्ञान नहीं समझ सक्ता है और दोनों ओर के पारङ्गत विद्वानों का कथन है कि विना आन्वयतिमक दृष्टि मिले, यह गुथी मुल्लेगी भी नहीं, तथापि सिद्धान्त-रूप में तो पाश्चात्य विज्ञान को वैदिक विज्ञान की शरण में आना ही पडा।

(२) यह दृश्यमान सृष्टि कितने काल से चल रही है—उस पर बहुत बडा मतभेद था। वेदोक्त युग-प्रक्रिया के अनुसार, जिसका कि विशद रूप में स्पष्टीकरण वेदानुयायी पुराणों में है, सृष्टि कुछ न्यून दो अरब वर्ष की पुरानी मानी जाती है। पाश्चात्यो के धर्मग्रन्थ इसे केवल पाँच हजार वर्ष पुरानी कहते थे। विज्ञान भी पहले सृष्टि की आयु अल्प ही बताने लगा। किन्तु इनै शनै भूगर्भ विज्ञान के आविष्कार उनकी आँखे खोलते गये। पाश्चात्य वैज्ञानिक क्रम से सृष्टि की प्राचीनता मानते-मानते आज करीब दो अरब वर्ष पुरानी सृष्टि स्वीकार कर चुके हैं। यद्यपि भारतीय शान्तों की तरह वे वर्ष, मास, तिथि आदि की पूरी गणना आज भी नहीं कर पाये हैं, उसमें न जाने कितना समय अभी और लगेगा। किन्तु सिद्धान्त-रूप में यहाँ भी वैदिक विज्ञान का विजय घोषित हो गया।

(३) वैदिक विज्ञान, शब्द को आकाश का गुण कहता आया है। वेद वाक् को इन्द्रपत्नी कहता है। इन्द्र अन्तरिक्ष का देवता सब अन्तरिक्ष में व्यापक है। पाश्चात्य विज्ञान इससे विरुद्ध चला। वह शब्द को वायु का गुण सिद्ध करनेमें लगा। किन्तु आज रेडियो के आविष्कार ने उनकी 'थिउरी' बदल डाली। आज वे मान गये कि शब्द सेकेण्डों में जितनी दूर पहुँच जाता है, उतनी गति वायु में नहीं है। इससे शब्द, 'ईथर' वा 'स्पेस' का ही गुण है। ईथर और स्पेस दोनों ही हमारे यहाँ आकाश-तत्त्व में ही अन्तर्गत है, इससे यहाँ भी वैदिक विज्ञान का जयघोष हुआ।

(४) वृक्ष, लता आदि को पहले विज्ञान चेतन नहीं मानता था। वेदादि शास्त्र इन्हे सदा से चेतन कहते थे। स्वनामधन्य भारतमूर्द्धन्य डॉ० जगदीशचन्द्र बसु ने वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही वृक्षादि में प्राणसत्ता सिद्ध कर वैदिक विज्ञान का जयध्वज फहरा दिया।

(५) और तो क्या, नित्य व्यवहार में आनेवाली ऋतुमास की गणना को ही देख लीजिए। मनुष्यबुद्धि प्रभूत ज्ञान आज तक ऋतुमासादि की गणना करने में भी समर्थ न हो सका। हमारे मुसलमान भाइयों का सुहर्रम और रमजान कभी प्रचण्ड ग्रीष्म में आता है, और कभी महाशीत में। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि ऋतु (मौसम) उनकी मास-गणना का साथ नहीं देती, उस गणना को अवैज्ञानिक घोषित करती है।

प्रति मास के दिनों का निरूपण वे कर ही नहीं सके। कभी कोई महीना उनतीस दिन का होता है, तो कभी वही तीस वा एकतीस दिन का हो जाता है। आज कौन-सी तारीख है, इसका वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। अपने को बहुत बड़ा वैज्ञानिक माननेवाली पाश्चात्य जातियों का इतिहास भी बताता है कि मौसम से भेद देखकर एक वार ग्यारह दिन बीच में से निकाल देने पड़े थे। पहली तारीख को ही वारह तारीख घोषित की गई थी। चतुर्थ वर्ष फरवरी में एक दिन बढ़ाने की कल्पना कर आगे ऐसा भेद न आने का उपाय किया गया, किन्तु फिर भी गडबडी देख गताब्दी के अन्तिम वर्ष में दिन न बढ़ाना स्थिर किया। इन बातों का आधार कुछ नहीं, केवल मनुष्यबुद्धि-प्रसृत 'थिउरी' थी। आज भी विद्वान् कहते हैं कि अब भी वर्ष-गणना में कुछ घड़ी-घण्टों का अन्तर है। कई शताब्दी वा सहस्राब्दी के बाद फिर ऐसा समय आयेगा कि तारीखें बदल देनी पड़ेगी। आज यह तारीख ही क्यों है, इसका प्रमाण तो उनके पास कुछ भी नहीं। किन्तु वैदिक विज्ञान के आधार पर चलनेवाली तिथि-मासादि प्रक्रिया कभी बदलनी पड़ी हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं। सौर वर्ष से सावन वर्ष को मिला देने के लिए जो यहाँ अधिमास का सिद्धान्त चलाया गया है, उसका मूल ऋक्संहिता में मिलता है। वारुण-सूक्त में मन्त्र है कि—

वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः । वेदा य उपजायते ।

अर्थात्, वरुण देवता वारह महीनों को जानता है, और जो नया महीना बढ़ जाता है, उसे भी जानता है। वरुण देवता से अधिक मास का क्या सम्बन्ध है, इस जटिल गम्भीर विवेचना में हम यहाँ नहीं पड़ेगे। दैवत-विज्ञान बहुत विस्तृत एक स्वतन्त्र निबन्ध का विषय है। यहाँ इतना ही संकेत कर देते हैं कि वैदिक विज्ञान के अनुसार हमारी पृथ्वी भगवान् सूर्य के वश में है वा उसकी परिक्रमा करती है और चन्द्रमा इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसी प्रकार सूर्य वरुण की परिक्रमा करता रहता है। वरुण की स्तुति में ऋक्संहिता का मन्त्र है कि—

उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ ।

अपदे पादाप्रतिधातवे वरुतापवक्ता हृदयाविधाश्चत् ॥

इसका प्रकृतोपयोगी आशय है कि वरुण राजा सूर्य को चलने के लिए बहुत बड़ा मार्ग देता है। बिना पैरवाले सूर्य को पैर भी वही देता है। इससे स्पष्ट है कि वरुण के ही आकर्षण में वद्व सूर्य-मण्डल उसकी परिक्रमा करता रहता है। इन्हीं चन्द्र, पृथ्वी, सूर्य आदिकी गति के कारण हमारे यहाँ की तिथि, मास, वर्ष आदि की व्यवस्था चलती है। इसी व्यवस्था को सुसगत चलाने के लिए अधिक मास 'उपजायते' की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से अति प्राचीन काल से बराबर चलते रहने पर भी हमारी व्यवस्था में ऋतु परिवर्तन में कोई भेद नहीं पड़ता। इसीसे विज्ञ विद्वान् समझ सकते हैं कि यह ईश्वर-ज्ञान द्वारा सम्पादित व्यवस्था है। हमारा सम्पूर्ण पंचांग तिथि, वार, नक्षत्र आदि कोई भी मनुष्य कल्पित नहीं, सब सूर्य, चन्द्रादि के आधार पर है। तिथियों की दो प्रकार की व्यवस्था है। यह सम्पूर्ण खगोल-कल्पित ३६० भागों में

विभक्त किया गया है। इसी के कल्पित तृत्तों पर सूर्य, चन्द्रमा अथवा पृथ्वी और चन्द्रमा परिभ्रमण करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा के बीच में प्रति बारह-बाग्न अश के अन्तर के अनुपात से एक-एक तिथि मानी जाती है। अर्थात्, अमावस्या तिथि को सूर्य और चन्द्रमा एक सूत्र पर रहते हैं। आगे चन्द्रमा अपनी गति के अनुसार चलने लगता है। भू-भ्रमणवादियों के मत में सूर्य स्थिर है और सूर्य का घूमना जो मानते हैं, उनके मतानुसार सूर्य एक दिन में एक अशमात्र चलता है, किन्तु चन्द्रमा एक दिन में १३ अश चलता है। भू-भ्रमण या सूर्य-भ्रमण में कोई गणित का भेद नहीं पड़ता, इसलिए समझने की सुगमता के लिए हम यहाँ दृष्टि के अनुसार सूर्य-भ्रमण को ही मानते हुए निरूपण करेंगे। उक्त प्रक्रिया के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा में १२ अश का अन्तर जबतक रहे, तबतक एक तिथि मानी जाती है। अर्थात्, १२ अश के अन्तर तक प्रतिपदा, १२ से २४ अश के अन्तर तक द्वितीया, २४ से ३६ अश के अन्तर तक तृतीया इत्यादि। जो घूमते-घूमते ३० तिथियों में ३६० अश पूरे हो जायेंगे और पुनः अमावस्या को सूर्य और चन्द्रमा एक सूत्र में आ जायेंगे। चन्द्रमा के भ्रमण का मार्ग कभी भूमण्डल के समीप रहता है और कभी बहुत दूर। समीप का घेरा छोटा होने के कारण उसके अश छोटे होते हैं और समान गति से वहाँ १२ अश अल्प समय में पूरे हो जाते हैं, किन्तु पृथ्वी से बहुत दूर का घेरा बड़ा हो जाता है। वहाँ के अश भी बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ १२ अश पूरे करने में अधिक समय लगता है। यही कारण है कि हमारी तिथियाँ घटती बढ़ती रहती हैं। जब पृथ्वी के समीप में चन्द्रमा भ्रमण करता रहेगा, तब तिथि छोटी रहेगी और दूर के भ्रमण में तिथि बड़ी हो जायगी। जो ही घड़ियों का भेद पड़ते पड़ते जहाँ एक ही दिन के भीतर दूसरे १२ अशों की भी समाप्ति हो जायगी, वहाँ तिथि टूट जायगी और जहाँ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक पूरे २४ घण्टे व्यतीत हो जाने पर भी १२ अश पूरे न होंगे, वहाँ तिथि बढ़ जायगी। यह तिथियों की एक प्रकार की व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था यह है कि चन्द्रमा का पूरा १६वाँ हिस्सा, अर्थात् एक कला जबतक सूर्य के तेज से प्रकाशित न हो जाय, तबतक एक तिथि। अमावस्या को चन्द्र-मण्डल के सम-सूत्र भाग में ठीक उसके मस्तक पर सूर्य-मण्डल रहता है, इसलिए चन्द्रमा का ऊपरी भाग जो पृथ्वी के सम्मुख नहीं है, वह उस दिन सूर्य के तेज से पूरा प्रकाशित रहता है। किन्तु पृथ्वी के सम्मुख भाग पर ऊपरी भाग का व्यवधान हो जाने के कारण कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता। इसलिए हमें उस दिन चन्द्र-मण्डल दिखाई नहीं देता। किन्तु जब चन्द्रमा १२ अश आगे निकल गया, तब वक्र भाव से १६वे अश पर प्रकाश पड़कर शुक्ल प्रतिपदा को चन्द्रमा की एक कला बन जाती है।

इतना सूक्ष्म भाग दृश्य नहीं हो सकता, इसलिए शुक्ल प्रतिपदा को भी हम-लोग चन्द्र-दर्शन नहीं कर पाते। किन्तु, द्वितीया को जब दो कलाएँ चमक उठती हैं, तब चन्द्रमा का कुछ अश हमें दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार आगे एक-एक कला बढ़ती जाती है और एक कला की पूर्ति के साथ ही एक तिथि की पूर्ति मान ली जाती है। पूर्णिमा को चन्द्रमा और सूर्य ठीक सामने आ जाते हैं, इसलिए चन्द्रमा का इधर का

भाग पूरा प्रकाशित हो जाता है। उस दिन अमावस्या से १६वीं तिथि, अर्थात् पूर्णिमा हो जाती है। फिर वक्रता के कारण १-१ अंग पर प्रकाश गिरना बन्द होता जाता है और चन्द्र-मण्डल घटने लगता है। अमावस्या को फिर दोनो मण्डलो के साथ हो जाने के कारण चन्द्रमा अदृश्य हो जाता है। यह तिथि गणना की दूसरी व्यवस्था है। इसमें स्थिति पहली व्यवस्था से विपरीत पडती है, अर्थात् जबतक चन्द्रमा पृथ्वी के समीप में घूमता रहेगा, तबतक सूर्य से दूर रहने के कारण प्रकाश न्यून अंग पर पडेगा। और, कलापूर्ति विलम्ब से होगी। किन्तु जब वह पृथ्वी से जितना दूर होगा, उतना ही सूर्य-मण्डल के समीप पहुँचेगा, इसलिए प्रकाश पडने में गीघ्रता होगी और कलापूर्ति भी गीघ्र होगी। इसलिए दोनो प्रकार की व्यवस्थाओं में घटियों का भेद पडता है। किस कार्य में कैसी तिथि लेना, यह निर्णय धर्मशास्त्रों में कर दिया जाता है। अस्तु, हमें यहाँ इतना ही कहना है कि दोनो प्रकार की तिथियों प्रत्यक्ष से जानी जा सकती है। यन्त्र से सूर्य और चन्द्रमा का वेध कर पहिले प्रकार की तिथि जान ली जायगी और चन्द्र-मण्डल को यन्त्र से स्पष्ट देखकर दूसरे प्रकार की तिथि का भी स्फुट ज्ञान हो जायगा। नक्षत्र का ज्ञान तो स्पष्ट ही हो जाता है कि जिस नक्षत्र (तारा) के समसूत्र में जवनक चन्द्रमा रहे, तबतक वह नक्षत्र कहलाता है। इस प्रकार, हमारे तिथि, नक्षत्र आदि कल्पना-प्रसूत नहीं, प्रत्यक्षगम्य हैं।

वारो की स्थिति भी सुव्यवस्थित प्रकार से है। प्राचीन ज्योतिष में ग्रहो की स्थिति इस प्रकार मानी गई है। पृथ्वी से आरम्भ कर पहले चन्द्रमा उसके आगे बुध, उसके आगे शुक्र फिर सूर्य उसके ऊपर क्रम से मंगल, बृहस्पति और सबसे अन्त में ग्रनैश्चर है। इस क्रम के अनुसार प्रातः सूर्योदय से आरम्भ कर १-१ ग्रह की एक-एक होरा (१ होरा १ घण्टे की होती है) मानी जाती है। २४ घण्टे में सातों ग्रहो की होराओं के ३ चक्कर होकर आगे ३ ग्रहो की होराएँ और व्यतीत होकर दूसरे दिन के सूर्योदय-काल में चौथे ग्रह की होरा आयगी और वह वार उसी के नाम से होगा। यह क्रम ऊपर से नीचे की ओर को चलता है, अर्थात् अभी पहले जो ग्रह-संस्था बतलाई है, वह नीचे से ऊपर की ओर थी, यहाँ उससे विपरीत क्रम है। तो अब सोचिए कि आज यदि सूर्यवार है, तो सूर्य की होरा से आरम्भ है। तीन चक्कर काटकर २२वीं होरा फिर सूर्य की होगी। २३वीं शुक्र की, २४वीं बुध की होकर वह अहोरात्र समाप्त हो जायगा। तब दूसरे दिन प्रातः चन्द्रमा की होरा होगी और सूर्यवार के दूसरे दिन चन्द्रवार होगा। अब चन्द्रमा से आरम्भ कर तीन चक्कर काटकर २२वीं होरा फिर चन्द्रमा की आई। २३वीं सबोच्च ग्रनैश्चर की ओर २४वीं बृहस्पति की होकर वह अहोरात्र भी समाप्त हो जायगा। अब तीसरे दिन प्रातः मंगल की होरा होगी, इसलिए वह मंगलवार कहलायगा। इसी क्रम से सातों वार गिन लीजिए। व्यवस्था ठीक उतरेगी। यह ठीक है कि तिथि और नक्षत्र की तरह यह वार-क्रम प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। किन्तु है ग्रह संस्था के अनुसार सुव्यवस्थित। इस प्रकार विज्ञान-सिद्ध भारत के सुव्यवस्थित पंचांग को उल्ट-पल्टकर आज कल्पित मार्ग पर हमें ले जाने की चेष्टा हो रही है, यह हमारा दुर्भाग्य ही है। अस्तु, यह प्रसंग

बहुत लम्बा हो गया। कहना केवल यही था कि वेदानुयायिनी व्यवस्था वैज्ञानिक और अटल है। यह भी वेदों की विलक्षणता है और उनके ईश्वरीय ज्ञान होने का प्रमाण है।

वेद तीन या चार

यह भी एक सन्देह का स्थान है कि ये ग्रन्थ-रूप वेद तीन ह या चार। क्योंकि, 'इति वेदान्यत्स्यी' और 'चत्वारो वेदाः', दोनों प्रकार के वाक्य प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं। इसका समाधान यह है कि रचना-भेद की दृष्टि से तो वेद तीन ही होते हैं क्योंकि रचना तीन प्रकार की हुआ करती है। गय, पय और गान। उनमें गय को यजुः, पय को ऋक् और गान को साम कहा जाता है। चौथे प्रकार की कोई रचना प्रसिद्ध नहीं। इसलिए चौथा वेद नहीं हो सकता। इस क्रम में यजुर्वेद-सहिता में जो छन्दोबद्ध पद्य आते हैं वे ऋक् ही कहलायेंगे। अथर्ववेद-सहिता में भी जो गद्य-भाग हैं, वह यजुः समझ लिया जायगा। पय-भाग ऋक् और गान-भाग भी यदि कोई मिले, तो वह साम में अन्तर्गत हो जायगा। यह तीन वेद मानने की उपपत्ति है। यज में जो कार्यकर्त्ता ऋत्विक् होते हैं, उनकी दृष्टि से वेद चार कहे जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक छोटे (इष्टि) और बड़े (सोम) यज्ञों में चार ऋत्विक् आवश्यक होते हैं। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। बड़े यज्ञों में एक-एक के तीन सहायक और होकर सोलह ऋत्विक् हो जाते हैं। किन्तु वे तीन सहायक उसी मुख्य में अन्तर्गत मान लिये जाते हैं। अस्तु, यो चार ऋत्विकों के पढ़ने के लिए एक वेद के चार विभाग भगवान् वेदान्यास ने किये हैं। जिससे एक एक वेद को पढ़कर भी कोई विद्वान् यज्ञ में ऋत्विक् बन सके। होता के पढ़ने का ऋग्वेद है, जिसे होतृ-वेद भी कहते हैं। केवल ऋग्वेद-मात्र पढ़कर वैदिक विद्वान् यज्ञ में होता बन सकता है। अध्वर्यु के पढ़ने का वेद यजुर्वेद है, वह अध्वर्यु-वेद भी कहलाता है। एव उद्गाता के पढ़ने का सामवेद है। सामवेद पढ़कर वैदिक विद्वान् यज्ञ में उद्गाता हो सकता है। इन तीन प्रकार के ऋत्विकों के लिए एक-एक वेद आवश्यक माना गया, किन्तु ब्रह्मा सबके कार्यों का निरीक्षक है। बिना उसके सब कार्यों के जाने निरीक्षण कैसे कर सकेगा। इसलिए उसे तीनों ही वेद पढ़ना आवश्यक है। तीनों के निरीक्षण के अतिरिक्त अक्सर आ जाने पर शान्तिक, पौष्टिक, प्रायश्चित्त आदि कर्म भी उसे करने पड़ते हैं। इन कर्मों के ज्ञान के लिए अथर्ववेद पढ़ना भी उसे आवश्यक होता है। यो ब्रह्मा चतुर्वेदी ही हो सकता है। अथर्ववेद उसका प्रातिस्विक वेद है। वर्त्तमान वेद-सहिताओं का सघटन इन ऋत्विकों के कार्य के अनुकूल ही हुआ है। सहिता में भी स्पष्ट बताया गया है—

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुश्वान् गायत्रं त्वेगायति शकवरीषु ।

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विभिभीत उरवः ॥

इसका अर्थ यह है कि एक होता नाम का ऋत्विक् ऋचाओं का परिपोषण करता रहता है, अर्थात् स्तोत्र-शास्त्र-रूप में उनके समूह का पाठ करता रहता है। और,

एक गायत्री आदि छन्दोवद्ध ऋचाओ का गान करता रहता है, एक ब्रह्मा नाम का ऋत्विक् कर्मों का क्रम बताता रहता है और किसी विघ्न के आ पडने पर उसकी शान्ति की विद्या का भी उपदेश करता रहता है। चौथा अध्वर्यु नाम का ऋत्विक् (अग्नि में आहुति डालता हुआ) यज्ञ के अवयवों को बनाता है। वस, इसी वेद-बोधित ऋत्विक् के कार्य के अनुसार चार सहिताओ का सघटन है और इनमें यजु-वेद का आहुति देने का कार्य मुख्य माना जाता है।

आजकल के जो कई एक विद्वान् यह घोषणा करते हैं कि वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य यज्ञ-कर्म नहीं है। उन्हें इस ऋचा पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्वयं ऋग्वेद की ऋचा ही यज्ञ यज्ञ का क्रम बता रही है, तो उसके अतिरिक्त वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या हो सकता है। अस्तु,

ब्राह्मण-भाग भी वेद हैं

यह भी कुछ दिनों से एक विवाद का विषय बन गया है कि मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है या केवल मन्त्र-भाग का। प्राचीन ग्रन्थों में इस विवाद का कोई मूल नहीं मिलता। प्राचीन ग्रन्थों में सभी जगह मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद माना गया है—‘मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्’। मीमांसा और न्याय-शास्त्र में जो वेद के विषय-विभाग किये हैं—विधि अर्थवाद, अनुवाद आदि, वे सभी मुख्यतया ब्राह्मण में ही घटित होते हैं। व्याकरण के मुख्य आचार्य भगवान् पाणिनि ने भी ‘छन्दसि’ पद से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का ग्रहण किया है। अर्थात्, उन्होंने ‘छन्दसि’ कहकर व्याकरण के जिन-जिन प्रत्यय, आदेश, स्वर आदि का विधान किया है, वे मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में पाये जाते हैं। जो कार्य केवल मन्त्र-भाग में ही इष्ट थे, उनके लिए सूत्रों में ‘मन्त्रे’ पद दिया है। केवल ब्राह्मण में होनेवाले व्याकरण-कार्यों के लिए ‘ब्राह्मणे’ पद उनके सूत्रों में आता है। इससे ‘छन्द’ पद से दोनों का ग्रहण स्पष्ट है। धर्मशास्त्र के प्रधान प्रवक्ता भगवान् मनु ने भी—

उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा ।
सर्वथा वर्त्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥

इत्यादि वचनों में ब्राह्मण के वाक्यों को वैदिकी श्रुति नाम से कहा है। इन सब वचनों को देखने से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद कहे जाते थे। इसके अतिरिक्त वर्त्तमान मन्त्र ब्राह्मणात्मक ग्रन्थों के पर्यालोचन से भी दोनों का ही वेदत्व सिद्ध होता है, क्योंकि सहिताओं में—विशेष कर शुक्र-यजुर्वेद-सहिता में जो मन्त्रों का क्रम है, वह ब्राह्मण के अनुसार ही उपपन्न हो सकता है। प्रथम मन्त्र के अनन्तर दूसरा मन्त्र क्यों आया, दूसरे के अनन्तर तीसरा क्यों आया—यह उपपत्ति शतपथ-ब्राह्मण से ही सिद्ध होती है। अन्यथा, इस क्रम का कोई वीज प्राप्त नहीं हो सकता और कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय सहिता आदि में तो आज भी मन्त्र और ब्राह्मण गमिलित रूप में ही उपलब्ध हैं। तब उनको पृथक्-पृथक् ग्रन्थ कैसे कहा जा सकता है। आधुनिक विद्वान् यह युक्ति देते हैं कि ब्राह्मण-भाग में कई जगह मन्त्रों का

व्याख्यान भिलता है, इसलिए वेद जन्म से केवल मन्त्र-भाग का ही लेना उचित है आर ब्राह्मण तो उनके एक प्रकार के भाग्य है। इसलिए उन्हें वेद नहीं करना चाहिए। विचार करने पर उनकी यह युक्ति ठीक नहीं उतरती, क्योंकि व्याकरण क महाभाष्यकार श्रीपतञ्जलि मुनि ने महाभाष्य में यह विचार उठाया है कि व्याकरण किस कहना चाहिए? केवल सूत्रों को या व्याख्या सहित सूत्रों को? उनकी निर्णय यही क्रिया है, कि व्याख्या-सहित सूत्रों का नाम व्याकरण है। उसी न्याय में व्याख्या-सहित मन्त्रों का नाम पूर्वोक्त प्रमाणों से वेद मान लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उनके अतिरिक्त ब्राह्मण केवल व्याख्या-रूप ही तो नहीं है। यजादि कर्मा की विधि, उनकी अवान्तर इतिकर्तव्यता और उनकी स्तुति आदि सब स्वतंत्र रूप में ही वर्णित है। हम अभी पूर्व मन्त्र का प्रमाण दे चुके हैं कि यज्ञ की इतिकर्तव्यता का संकेत मन्त्र-भाग में भी प्राप्त है। उसके अतिरिक्त आर सेकड़ों मन्त्रों में देवताओं का सम्बोधन करके निवेदन किया गया है कि यह हवि आप के लिए प्रस्तुत है, इसे कृपया स्वीकार कीजिए। इस यज्ञ के आप रक्षक हैं। आप का रक्षित यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करेगा इत्यादि। बिना यज्ञ के उसे स्वीकार कराने का और क्या उपाय हो सकता है। उस यज्ञ की पूरी विधि तो ब्राह्मणों में ही प्राप्त होती है। केवल मन्त्र-भाग के आधार पर तो कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता। बिना यज्ञ के इन मन्त्रों के अर्थ की समझ ही क्या ब्रूठ सकती है। वेद को यज्ञ-वेद और सब ज्ञान-विज्ञानों की निधि-रूप जो बताया जाता है, वे उक्तियों भी ब्राह्मणों के सावधान पर्यालोचन से ही सार्थक होती हैं। ब्राह्मणों के मनन से ही सब प्रकार के विज्ञान भी प्रस्फुट होते हैं। जैसा इसी निबन्ध से विद्वानों को स्पष्ट अवगत होगा। इसलिए गिष्ट-सम्प्रदाय में मन्त्र, ब्राह्मण दोनों ही वेद-पद से ग्रहीत हैं।

ब्राह्मणों में भी तीन अवान्तर विभाग होते हैं। कर्म-काण्ड के प्रतिपादक भाग का नाम ब्राह्मण ही रहता है। उपासना-काण्ड का जिस भाग में प्रतिपादन है, उसे आरण्यक कहते हैं और ज्ञान काण्ड के वा आत्मतत्त्व के प्रतिपादक भाग का उपनिषद् नाम से व्यवहार किया जाता है। ये तीनों एक ही ग्रन्थ के तीन विभाग हैं, जो सुविधा के लिए पृथक्-पृथक् नामों से पृथक्-पृथक् प्रकाशित किये गये हैं।

शाखा-भेद

वेद पढनेवालों की सुविधा के लिए भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यास ने संहिता और ब्राह्मणों का पृथक्-पृथक् सम्पादन किया, और चारों वेदों को अपने चार मुख्य

- * (१) वायवायाहि दर्शते मे सोमा अरकृता तेपा पाहि श्रुधी हवम्। — ऋक्संहिता, म १, सू २, म १।
- (२) अग्ने य यज्ञ मध्वर विश्वत परिभूरसि स इदेवेषु गच्छति। — ऋक्संहिता, म १, सूत्र १, म ४।
- (३) विश्वे देवास आगत शृणुताम इम हवम्, ऐदवर्हिरनिषीदत्।
- (४) जात वेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निद्रहाति वेद।
- (५) इन्द्र वायुरिमे स्वता उपप्रयोमि रागतम् इन्द्रवो वा सुषन्ती हि।
- (६) इन्द्र सोम पिव ऋतुना त्वा विशन्वन्दव, मत्सरास्तदौका। — ऋक्संहिता, १।१४।१४।

शिष्यो को पटाया । उन शिष्यो ने भी अपनी-अपनी गिष्य-परम्परा में उन ग्रन्थ-रूप वेदों का प्रचार किया । यो, क्रमशः फैलती हुई गुरु गिष्य परम्परा में जो कहीं-कहीं पाठ-भेद वा ब्राह्मणों के क्रम भेद हो गये, वे आजकल शाखा-भेद नाम से कहे जाते हैं । प्राचीनकाल में शाखा-भेद बहुत बढ गया था । महाभाष्यादि ग्रन्थों में मिलता है कि चारों वेदों को मिलाकर ११३१ शाखाएँ हो गई थीं । उनमें १००० शाखाएँ केवल सामवेद की थीं, क्योंकि गान में थोड़े-थोड़े स्वर का भेद गिनने पर बहुत शाखाएँ हो सकती हैं । किन्तु आज तो सब मिलाकर प्रायः १६ शाखाएँ मिलती हैं और सब शाखाएँ अध्येताओं के अभाव से लुप्त हो गईं । जो मिलती हैं, उनके पर्यालोचन से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें कहीं-कहीं कुछ पाठ भेद और कहीं क्रम-भेद है । हाँ, कृष्णयजु और शुक्लयजु नाम से जो यजुर्वेद के दो भेद आजकल प्रसिद्ध हैं, उनमें बहुत बड़ा अन्तर है । उनके भी मन्त्रों में तो बहुत बड़ा अन्तर नहीं है, किन्तु कृष्णयजु में मन्त्र और ब्राह्मणों का विभाग ही नहीं है । ब्राह्मण का पाठ भी शुक्लयजु के गतपथ-ब्राह्मण से प्रायः नहीं मिलता । इसका कारण पुराणों में एक कथा द्वारा वर्णित है कि भगवान् व्यासजी के यजुर्वेद के गिष्य वैशम्पायन थे । उनकी गिष्य-मण्डली में एक याज्ञवल्क्य भी थे । एक बार याज्ञवल्क्य की गर्वोक्ति से वैशम्पायन रष्ट हो गये और उन्होंने क्रोध-पूर्वक याज्ञवल्क्य से कहा कि तूम्हें दुष्ट हो, हमारी विद्या छोड़ दो । यह सुनते ही याज्ञवल्क्य ने एक व्रमन किया और उसमें विद्या-जनित सस्कारों को निकाल फेंका । इससे यह सिद्ध होता है कि उपनयनादि सस्कारों में गुरु लोग जैसे शिष्य में सस्कारों के सस्थापित करने की विधि जानते थे, उसी प्रकार उनके निकाल देने का विज्ञान भी उन्हें विदित था । अस्तु, इस अंश पर कोई विस्वास करे या न करे, किन्तु यह सिद्ध है कि याज्ञवल्क्य ने उस प्राचीन वेद को छोड़ दिया और सूर्य की उपासना द्वारा नवीन वेद प्राप्त किया । इसलिए इन दोनों शाखाओं में कुछ विशेष अन्तर प्राप्त होता है । शुक्लयजुर्वेद की १५ शाखाएँ और कृष्ण-यजुर्वेद की ८६ शाखाएँ ग्रन्थों में वर्णित हैं । इनमें परस्पर अवान्तर भेद बहुत स्वल्प है । आधुनिक कई विद्वान् ऐसा मानते हैं कि शाखा नाम वेद के व्याख्यान का है । किन्तु, यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जितनी वेद-सहिताएँ आज प्राप्त होती हैं, वे सब ही शाखा नाम से ही प्रसिद्ध हैं । वे यदि वेद के व्याख्यान हैं, तो मुख्य वेद फिर कौन-से हैं ?

इसका कोई निर्णय न हो सकेगा । उपलब्ध ग्रन्थों में से इच्छानुसार किसी को मुख्य वेद कह देना और किसी को शाखा कह देना, यह निर्मूल बात कैसे चल सकती है । जैसे, ऋग्वेद-सहिता आजकल दो प्रकार की उपलब्ध है । एक मण्डल-क्रम से और एक अष्टक-क्रम से । मण्डल-क्रमवाली शाकल-शाखा कही जाती है और अष्टकवाली वाष्कल-शाखा । जब दोनों ही शाखा नाम से प्रसिद्ध हैं, तब मण्डल-क्रमवाली को मुख्य वेद कह दिया जाय और अष्टक क्रमवाली को शाखा या व्याख्यान-रूप कह दिया जाय, यह तो मनमानी कल्पना हुई । अस्तु, हमें यहाँ विवाद से प्रयोजन नहीं । शिष्ट-सम्प्रदाय में सभी शाखा कहलती हैं । उनमें पूर्वोक्त प्रकार से कहीं कहीं पाठ-भेद कहीं थोड़ा क्रम-भेदमात्र है । किसी शाखा में कुछ मन्त्र अधिक मिलते हैं,

दूसरी में वे नहीं पढ़े जाते—ऐसा भेद भी कहीं प्राप्त है। ब्राह्मण, आरण्यक आदि भी किन्हीं शाखाओं के भिन्न भिन्न रूप हैं और किन्हीं शाखाओं के सम्मिलित रूप भी। मुक्त क्रमागत अपनी अपनी शाखा का ही अध्ययन ब्राह्मणा में प्रचलित है। आगे बुद्धि की मन्दता देखकर वेदों को समझने के लिए आचार्यों ने अज्ञा का भी निर्माण किया और उनका भी बहुत विस्तार हुआ। यह सब ग्रन्थ रूप वेदों के विस्तार का संकेतमात्र प्रदर्शित किया गया है। यो वेद शब्द का अर्थ विस्तारपूर्ण हुआ।

अब आगे विज्ञान शब्द की सक्षिप्त व्याख्या की जाती है।

ज्ञान और विज्ञान

संस्कृत वाङ्मय में ज्ञान और विज्ञान ये दोनों शब्द भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थों में पृथक्-पृथक् रूप से प्रयुक्त देखे जाते हैं। आजकल प्रचलित भाषा में ज्ञान शब्द सामान्यरूप से जानने के अर्थ में और विज्ञान शब्द एक निश्चित सिद्धान्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। या, यो कहिए कि अंगरेजी, 'साइन्स' शब्द का अनुवाद 'विज्ञान' शब्द से किया जाता है। साइन्स के भिन्न-भिन्न भेदों का व्यवहार यहाँ भी विज्ञान में भिन्न-भिन्न विशेषण लगाकर करते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि-आदि। अमरकोषकार ने इनका अर्थ लिखा है कि—

मोक्षे धार्जानमन्यत्र चिद्वानं शिल्पशास्त्रयोः ।

अर्थात्, मोक्ष के सम्बन्ध में जो विचार किया जाय, उस विचार और बुद्धि को 'ज्ञान' कहते हैं और इसके अतिरिक्त शिल्प या शास्त्र के विषय की बुद्धि को 'विज्ञान' कहते हैं। इसके अनुसार शिल्प, अर्थात् कारीगरी और धर्म, अर्थ तथा काम-सम्बन्धी सब विचारों को विज्ञान कहना प्राप्त होता है। किन्तु, दार्शनिक भाषा में इनका अर्थ और ही प्रकार का किया जाता है। भगवद्गीता में दो-तीन जगह साथ-साथ इन दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है—

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशश्यते ॥ (अध्याय ७)

भगवान् कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुझे विज्ञान-सहित वह ज्ञान विशेष रूप से बता देता हूँ, जिसके जान लेने पर कुछ भी जानने की बात बाकी नहीं रह जाती।

इदं तु ते गुप्ततमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ (गीता . ९, १)

अर्थात्, अब मैं तुम को अत्यन्त गुप्त विज्ञान-सहित ज्ञान का उपदेश करूँगा, क्योंकि तुम अच्छे पात्र हो। गुणों में दोष खोजने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। इन ज्ञान-विज्ञान को जानकर तुम शोक-मोहादि अशुभ प्रसंग से विमुक्त हो जाओगे इत्यादि।

इन स्थानों में ज्ञान और विज्ञान या विज्ञान-सहित ज्ञान उपदेश का विषय

वताया गया है। यहाँ शिल्प और साइन्स का कोई प्रसङ्ग नहीं है, आत्मा या ईश्वर के सम्बन्ध की ही चर्चा है। इसलिए विज्ञान शब्द का भी उसके अनुकूल ही अर्थ करना पड़ेगा।

श्रीगङ्गाराचार्य आदि व्याख्याकारों ने यहाँ इन शब्दों का यह अर्थ वताया है कि शब्द-मात्र के सुनने से जो बुद्धि होती है, उसे ज्ञान और मनन एव एकाग्रता से चित्त लगाने पर जो विस्पष्ट अनुभव होता है, उसे विज्ञान कहा गया है। यो, दार्शनिक भाषा और प्रचलित भाषा में इन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिखते हैं। तब क्या ये शब्द मूल से ही अनेकार्थक रहे ? या इनका कोई नियत अर्थ पहले रहा और धीरे-धीरे व्यवहार में भिन्न-भिन्न अर्थ आते गये, यह विचार उठता है। इसीका सक्षित विवरण यहाँ किया जायगा।

संस्कृत-व्याकरण की दृष्टि से 'वि' यह उपसर्ग विशेष, विविध और विरुद्ध अर्थों में भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रयुक्त हुआ है। इस दृष्टि से देखने पर प्रचलित भाषा और दार्शनिक भाषा में विज्ञान, शब्द का 'वि' विविध या विशेष अर्थ में प्रयुक्त जान पड़ता है। विशेष प्रकार का ज्ञान सुदृढ ज्ञान या सुनिश्चित सिद्धान्त प्रचलित भाषा में 'वि' का अर्थ माना गया है। और, यही विशेष ज्ञान या विस्पष्ट ज्ञान दार्शनिक भाषा में भी माना गया, किन्तु साहित्यिक भाषा में विविध प्रकार का ज्ञान भासित होता है, क्योंकि शिल्प आदि में विविध प्रकार का ज्ञान ही विवक्षित है।

श्रीमद्भगवद्गीता के विज्ञान-भाष्य में और वैदिक साहित्य की आलोचना में गुरुप्रवर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने इन शब्दों का एक ऐसा अर्थ लिखा है, जो तीनों भाषाओं में अनुगत हो जाता है। उनका मन्तव्य है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के अनन्त पदार्थों में एक तत्त्व को अनुगत देखना ज्ञान कहा जाता है और एक ही तत्त्व से अनन्त पदार्थों का विस्तार हुआ, इस प्रक्रिया से उसी बात को देखने का नाम विज्ञान है। अनेकता में एकता का दर्शन ज्ञान और एकता को अनेकता के रूप में विभक्त देखना विज्ञान है, यही तात्पर्य हुआ। अब देखना है कि इस प्रकार के अर्थ करने का आधार क्या है और यह अर्थ सब भाषाओं में किस प्रकार समन्वित हो जाता है। वैसे तो ज्ञान शब्द सामान्य रूप से जानने मात्र का बोधक है और विज्ञान आदि उसी के विशेष है, किन्तु जहाँ ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान आदि की श्रेणी में ज्ञान शब्द आवे, वहाँ उसको भी पृथक्ता दिखाने के लिए विशेष अर्थ में ही मानना पड़ेगा। इस प्रकार के उक्त विशेष अर्थ का आधार स्वयं भगवद्गीता में ही स्पष्ट है—

सर्वभूतेषु येनैकं भावमध्ययमीक्षते ।

अविभक्त विभक्तेषु तत्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥

अर्थात्, भिन्न भिन्न प्रकार के विभक्त, सब भूतों में, जिस प्रक्रिया में, एक ही अविनाशी तत्त्व को देखा जाय, वही सत्त्वगुण का कार्य है और उसे 'ज्ञान' कहते हैं।

यही बुद्धि मोक्ष के उपयोगी मानी गई है, इसलिए 'अमरकोष' का 'भोक्षे धीर्ज्ञानम्' लिखना भी सुसङ्गत हो गया। अब विज्ञान शब्द का विवेचन बाकी रहा। अन्यत्र पुराणों में जो इसका विवेचन मिलता है, उसमें विज्ञान शब्द के उक्त अर्थ का

भी आधार मिल जाता है। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय के नवैकादश पञ्च त्रीन् भावान् भूतेषु येन वै।

ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम् ॥ (११, १९, १४)

एतदेव हि विद्यानं न तथैकेन येन यत्।

स्थित्युत्पत्तिलयान् पश्येद् भावानां त्रिगुणात्मनाम् ॥ (११, १९, १५)

निम्नलिखित—श्लोको में भी ये शब्द आये हैं। और, इनका विवेचन करने हुए यह लिखा गया है, जगत् के अनन्त पदार्थों का नौ, ग्यारह, पाँच और तीन के रूप में वर्गीकरण करना (जैसे—न्याय वैशेषिक में नौ-द्रव्य, बौद्धदर्शन में पञ्च स्कन्ध, सांख्य में तीन गुण, जैनदर्शन में पञ्चास्तिकाय, प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में प्रकृति-पुरुष के ऊपर के ग्यारह मूल तत्त्व आदि के रूप में वर्गीकरण किया गया है) और अन्त में सब में एक ही मूल तत्त्व को अनुगत देखना—यह प्रक्रिया ज्ञान कहलाती है। इसे ही विज्ञान भी कहते हैं। किन्तु, इस प्रकार से नहीं, उसमें प्रक्रिया का भेद हो जाता है कि एक से ही सब पदार्थों की उत्पत्ति, उसी में स्थिति और अन्त में उसी में सन्न्यास, देखा जाय, उस प्रक्रिया को विज्ञान समझना। कर्मपुराण के उत्तर खण्ड के १५वें अध्याय में भी इन शब्दों का यही विवरण किया गया है कि जिस विद्या के द्वारा एक ही महेश्वर भगवान् को सर्वव्यापक, देखा जाय—वह (विद्या) ज्ञान कहलाती है और उसके विस्तार द्वारा चौदह विद्याओं से भिन्न-भिन्न तत्त्व देखे जायें, उसे विज्ञान कहते हैं।

श्रीमद्भागवतीता की ज्ञानेश्वरी टीका में श्रीज्ञानदेवजी ने भी ऐसी ही व्याख्या की है—

तीरलग्ना तरिणीव कुण्ठीभवति शेमुपी।

परवृत्तपदो दूरा द्विचारञ्चोपसर्पति ॥

तर्कोऽपि नैवोत्सहते यत्र तज्ज्ञानमर्जुन।

प्रपञ्चोऽन्यत्तु विज्ञानमज्ञानं तत्र सत्यधीः ॥

अर्थात्, तीर से बँधी हुई नाव की तरह जहाँ बुद्धि आगे न बटकर कुण्ठित हो जाती है। विचार भी अपने पैर पीछे हटाता हुआ जहाँ से दूर हट जाता है और तर्क भी जहाँ जाने का उत्साह नहीं करता, वह (एक तत्त्वरूप) ज्ञान है, और उससे भिन्न उसका बनाया हुआ यह प्रपञ्च विज्ञान और प्रपञ्च को सत्य समझ लेना है अज्ञान।

इन सब विवरणों से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि आरम्भ में विविधता के अर्थ में 'वि', उपसर्ग को मानकर एक की अनेकता देखने में ही विज्ञान शब्द की प्रवृत्ति हुई थी। आगे अनेकता का सम्बन्ध जहाँ-जहाँ विवक्षित हुआ, वहाँ यह शब्द विकास पाता गया।

एक को अनेक रूप देना ही शिल्प है। जैसे, एक ही सुवर्ण के बहुत-से आभूषण बना देना, या एक ही मृत्तिका को घट, कुडी आदि अनेक रूप देना, एक ही लकड़ी के कुर्सी, बेञ्च, तख्त आदि बहुत-से पदार्थ बना देना, यही तो शिल्प है। इसलिए शिल्प में विज्ञान शब्द की प्रवृत्ति हुई। अन्यान्य शास्त्रों में भी एक को

अनेकता दी जाती है, जैसे व्याकरण में एक शब्द और धातु के अनेक रूप, काव्य में एक ही वस्तु का अनेक रूप में वर्णन, आयुर्वेद में एक ही औषधि के कई योग तैयार करना आदि-आदि। इसीलिए, मोक्ष-शास्त्र के अतिरिक्त अन्यान्य शास्त्रों को भी विज्ञान ही कहा जाने लगा। पदार्थ-विज्ञान या 'साइंस' की भी प्रवृत्ति अनेकता की ओर ही है। रसायन-विज्ञान तो स्पष्ट ही एक को अनेक रूप देता है। मनोविज्ञान में भी अनेक रूप से एक का विश्लेषण किया जाता है। इसी कारण 'साइंस' को भी विज्ञान नाम दिया गया।

अनेक में एकता देखना कठिन बात है। वहाँ बुद्धि कुण्ठित होती है, जैसा कि श्रीज्ञानदेव ने पूर्वोक्त पद्य में समझाया है। एक तत्त्व-दर्शन तो शब्द-प्रमाणों पर श्रद्धा रखनेवाले या योग समाधि तक पहुँचनेवाले विशेष व्यक्तियों को ही हो सकता है। किन्तु एक से अनेक पदार्थ बनाना प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। अतः, एक से अनेकता का सुस्पष्ट ज्ञान होना कोई कठिन बात नहीं। एक से अनेक पदार्थ बनते हुए देखनेवाले विज्ञान को ही आधार मानकर भिन्न-भिन्न तत्त्वों में एकता का दर्शन करानेवाला ज्ञान भी दृष्टता प्राप्त करता है। विज्ञान की सहायता से ही ज्ञान में विस्पष्टता आती है। इसलिए गीता भाष्यकारों का 'विज्ञान' शब्द से विस्पष्ट ज्ञान अर्थ लेना भी हमारे विरुद्ध नहीं पड़ता, प्रत्युत अनुकूल ही रहता है।

अच्छा, यह भी देखना चाहिए कि ज्ञान और विज्ञान बताने की प्रतिज्ञा करके भगवान् ने उस प्रकरण में उपदेश क्या किया? इसकी आलोचना करने पर भी एक की अनेकरूपता और अनेक में एक तत्त्व-दर्शन, ये दोनों ही बातें यहाँ मिलती हैं, जैसा कि गीता के सप्तम अध्याय में कहा है—'मेरी प्रकृति आठ रूपों में विभक्त है।' इस प्रकार विज्ञान पहले बताकर 'मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब मेरे ही स्वरूप में अन्तर्गत है,' इस प्रकार अनेक की एकता-रूप ज्ञान कहा गया है। और, नवें अध्याय में भी ज्ञान-विज्ञान की प्रतिज्ञा के अनन्तर ये ही दोनों प्रकार की प्रक्रियाएँ मिलती हैं। ज्ञान की विस्पष्टता तो मनन और समाधि के अनन्तर होती है, उस विस्पष्टता को शब्दों से नहीं कहा जा सकता। यो, प्रकरण के अनुसार भी ज्ञान, विज्ञान शब्दों के उक्त अर्थ ही दृढ होते हैं। उपनिषद् और वेदान्त दर्शन में जगदीश्वर को ज्ञान-रूप और जीवों को विज्ञान नाम से कहा गया है। इससे भी उक्त अर्थ ही दृढ होता है, क्योंकि जीव परमात्मा के एक अंग माने जाते हैं। इस प्रकार, पर्यालोचना करने पर विज्ञान शब्द को अनेकार्थक नहीं मानना पड़ता। किन्तु मूल में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होकर वह क्रम से विकसित हुआ है, यह स्पष्ट हो जाता है। यह भी स्मरण रहना चाहिए कि अंगरेजी में 'साइन्स' और 'फिलॉसफी' शब्दों का अनुवाद संस्कृति में 'विज्ञान' और 'दर्शन' शब्दों से किया जाता है। पाश्चात्य विद्वान् इनकी परिभाषा प्रायः यही बताते हैं कि क्रियारूपता (प्रैक्टिस) में आकर जो सिद्धान्त दृढ हो जाते हैं, वे साइन्स की श्रेणी में आ जाते हैं। और, जबतक वे किसी उच्च विद्वान् की बुद्धि से प्रसृत, केवल अटकल वा विचार के ही रूप में रहते हैं, तबतक वे फिलॉसफी ही कहे जाते हैं। केवल विचार-रूप में रहना फिलॉसफी और क्रियारूप में परिणत हो जाना साइन्स है। ऐसा

विवरण कुछ विद्वानों से मुना जाता है। किन्तु गम्भृत ग्रन्थों में विज्ञान और दर्शन शब्दों के वाच्य अर्थों में इस प्रकार का भेद शिष्ट गम्मत नहीं है। जेमे, विज्ञान शब्द का अर्थ श्रीशङ्कराचार्य आदि आचार्यों ने अवगम वा प्रत्यक्ष गृहण दृढ ज्ञान क्रिया है— वैसे 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादि श्रुतियों में दर्शन शब्द का अर्थ भी वही अवगम वा निश्चयात्मक ज्ञान ही है। आध्यात्मिक तत्त्वों को भी क्रिया रूप में उपनिषदों में गमझाया गया है। जैसा कि मन की अन्नमयता का ज्ञान श्वेतश्वेतु को सोलह दिन उपवास कराकर उद्दालक ऋषि ने दृढ कराया (छान्दोग्य-उपनिषद्, प्र० ६, ख० ६)। प्रजापति ने इन्द्र और विरेचन को जलपात्र में प्रतिविम्ब दिखाकर आत्मज्ञान का उपदेश प्रारम्भ किया (छान्दोग्य, प्र० ८, ख० ६) वा दृष्ट बालाकि गार्ग्य को अजातशत्रु ने सूक्ष्म पुरुष के पास ले जाकर आत्मतत्त्व समझाने का आरम्भ किया (बृहदारण्यक, अ० ४, का० १) इत्यादि। इस प्रकार, विज्ञान और दर्शन शब्द हमारे यहाँ एक रूप में ही व्यवहार में आते हैं। हों, दर्शन शब्द का प्रयोग कहीं-कहीं 'मत' के अर्थ में भी मिलता है। 'इति हि तेषा दर्शनम्' इत्यादि। किन्तु जो दर्शनों के सिद्धान्त हमारे यहाँ माने जाते हैं, वे भी दृढ हैं। अटकल पर अवस्थित कोई नहीं। श्रेणिभेद वा अधिकारी की भूमिकाओं का भेद ही दर्शनों के सिद्धान्त-भेद का कारण है। जिस भूमिका को लक्ष्य कर जो दर्शन प्रवृत्त है, उस भूमिका में यही सिद्धान्त दृढ है। इस अप्रस्तुत विषय का विस्तार यहाँ नहीं किया जा सकता। यह एक स्वतन्त्र निबन्ध का विषय है। यहाँ इतना ही कहना है कि अटकल पर अवलम्बित वा अदृढ सिद्धान्त हमारे यहाँ दर्शन नहीं माने जाते। हम तो विज्ञान और दर्शन का भेद 'कैसे' और 'क्यों' इन दो शब्दों में कर सकते हैं। वाप (भाप) से ट्रेन कैसे चलती है, इसकी प्रक्रिया जान लेना साइन्स वा विज्ञान हुआ। क्यों चलती है, वाप में ऐसी शक्ति कहाँ से आई, ये सब विचार फिलासफी या दर्शन की श्रेणी में आते हैं। क्रिया के उपयुक्त सामग्री मात्र जानकर उसमें काम कर दिखाना साइन्स वा विज्ञान हुआ। और, उस कार्य के होने का मूलतत्त्व खोजना फिलासफी या दर्शन कहलायेगा। इस दृष्टि से देखने पर तो जो कुछ हम यहाँ कहेंगे, या कहीं भी कहते हैं—वह दर्शन की परिभाषा में ही आ सकता है। विज्ञान उसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कुछ कहते हैं, उसे करके दिखाने की शक्ति आज हममें नहीं। उस प्रक्रिया को हम बहुत काल से भूल चुके हैं। इन परिपदों का लक्ष्य भी करके दिखाना नहीं। आज तक सब कुछ वाचक आडम्बर (जवानी जमा-खर्च) है। इसलिए यहाँ तो विज्ञान शब्द का एक से अनेक की कल्पना-रूप पूर्वोक्त अर्थ मानकर ही हमें वाचक-रूप में चलना है।

मूलतत्त्व-निरूपण

इस प्रकार एक मूलतत्त्व से अनन्त पदार्थ बनने की प्रक्रिया विज्ञानशब्दवाच्य है, यह सिद्ध किया गया। इतना अवश्य है कि वेदों में यह प्रक्रिया इस प्रकार से निरूपित है कि बुद्धि उस पर ठीक जम जाती है। सन्देह वा अप्रामाणिकता की कल्पना का कोई अवसर नहीं रहता। यह भी बुद्धि में साहस हो जाता है कि इसे तो हम करके भी देख

सकते हैं। इसलिए आमत विद्वान् यहाँ 'वैदिक विज्ञान' शब्द का प्रयोग करते हैं। अस्तु, यह प्रक्रिया वेद-ग्रन्थ में किरा रूप में आम्नात है, इसका प्रकरण प्रथमतः आरम्भ क्रिया जाता है। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-विस्तृत सम्पूर्ण प्रपञ्च का मूलतत्त्व एक ही है—यह वेद का सुप्रसिद्ध घण्टाघोष है।

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परं किञ्चनास ।
एकं वा इदं विवभूव सर्वम् । (ऋक्०)
सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ।
नेह ना नास्ति किञ्चन । (छान्दोग्य०)

इत्यादि शतशः मन्त्र ब्राह्मण, उपनिषदादि श्रुतियों बार-बार इस सिद्धान्त को घोषित कर रही है। यह प्रपञ्च-सृष्टि जाग्रत् अवस्था है और प्रलय सुप्त अवस्था। वह मूलतत्त्व तो इन सब अवस्थाओं से परे है, अतएव उसमें कोई गुण वा धर्म नहीं। गुण और धर्म तो प्रपञ्च-रूप वा अवस्था-रूप हैं। वे पीछे उत्पन्न होते हैं। मूल में उनकी सत्ता कहाँ? इसीलिए वह न किसी इन्द्रिय से जाना जा सकता है, न वाणी से कहा जा सकता है, न मन में ही आ सकता है।

न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग् गच्छति, न मनो गच्छति ।

वात भी त्रिलकुल ठीक है। हम तो अवस्था वा गुण देखने वा पहचानने की ही शक्ति रखते हैं। अवस्थाओं को हटाकर मूलतत्त्व को जानने की शक्ति हमारी इन्द्रियों या मन नहीं रखते। एक छोटी सी वस्तु को ही लीजिए। आप की अंगुली में एक छोटी-सी अगूठी है। यह सुवर्ण की एक अवस्था है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बनने के पूर्व वह सुवर्ण कड़ी कासा वा गोले के रूप में रहा होगा, वे भी सुवर्ण की अवस्थाएँ या। तो, अब आप सब अवस्थाओं को हटाकर शुद्ध सुवर्ण तत्त्व को कहीं ढूँढकर देखिए वा ध्यान में लाइए, न कहीं देख सकेंगे, न मन में ला सकेंगे। जब कभी सुवर्ण-तत्त्व ध्यान में आवेगा, तो चूरा, कटक, कुण्डल, अगूठी वा तक्क—किसी-न-किसी अवस्था को साथ लेकर ही ध्यान में आवेगा। सब अवस्थाओं को छोड़कर शुद्ध सुवर्ण-तत्त्व न कहीं दिखाई दे सकता है, न कभी ध्यान में आ सकता है। जब मन ही उसे नहीं पकड़ सकता, तो वाणी कहीं से कह सकेगी। यही दशा सब वस्तुओं की है। बिखरा हुआ चूरा, मकानों पर वा बत्तों पर जमी हुई अति सूक्ष्म कणरूप रफ़ी, मोटी डली, चिनी हुई भित्ति, वे सब मृत्तिका की अवस्थाएँ हैं। इन अवस्थाओं को छोड़कर शुद्ध मृत्तिका तत्त्व क्या है, यह हम नहीं देख सकते, न कभी ध्यान में ला सकते हैं। सैकड़ों वर्षों की खोज के पश्चात् पाश्चात्य वैज्ञानिक महाशय इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि मौलिक तत्त्व दो ही हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोट्रॉन। और, सब हाइड्रोजन, ऑक्सिजन आदि तत्त्व उनकी अवस्थाएँ हैं। किन्तु जिन दो को मूल तत्त्व माना गया, उनमें भी एक निरन्तर गतिशील और एक सर्वदा स्थितिशील है। ये गति और स्थिति भी अवस्थाएँ हैं। उनमें भी अनुस्यूत एक ही तत्त्व है, यह भी उन्होंने मान लिया। किन्तु उसको अवस्था-शून्य-रूप में पहचानना उनकी

शक्ति के बाहर ही रहा है। मगनशील विद्वानों का कथन है कि जगतक वर्तमान ग्राह्य वैदिक प्रक्रिया या आध्यात्मिकता की आरंभ नष्ट होगा, तबतक हम अवस्था का छल नहीं प्राप्त कर सकेगा। अस्तु,

इस प्रकार अवस्था रहित द्रव्य के प्राप्त न होने या ध्यान में न आने के कारण ही बौद्धदर्शन में अवस्थाओं को ही मूलतत्त्व मान लिया गया और इसी आधार पर वह दर्शन वैनाशिक दर्शन कहलाया। एक अवस्था का विनाश हुए बिना दूसरी अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। जसा कि बीज से यदि अकुर बनगा, तो बीज की अपनी अवस्था पहले नष्ट हो जायगी। उसके बाद अकुर की अवस्था आ सकेगी। इसी प्रकार सुवर्ण को यदि अगूठी बनाना होगा, तो पूर्वस्थित उमरी टिकड़ी या गोले की अवस्था को गलाकर नष्ट कर देना पड़ेगा। इस प्रकार, एक तत्त्व नष्ट होकर उसके विनाश से दूसरा तत्त्व उत्पन्न होता है, अतः विनाश ही मूलतत्त्व टहरता है और उसके प्रतिपादन से यह दर्शन या विचारधारा भी वैनाशिक दर्शन कहलाता है। यह अवस्था-परिवर्तन क्रिया का ही एक रूप है। क्रिया का श्रम भी करते हैं, इसलिए इस दर्शन के विद्वान् 'श्रमण' कहे जाते हैं।

किन्तु वैदिक विज्ञान का विचार है कि यदि अवस्थाएँ ही सब कुछ होतीं, तो सब अवस्थाओं में अनुगत एक रूप की प्रत्यभिज्ञा (पहचान) कैसे हो सकती थी। अगूठी, कटक, कुण्डल, टिकड़ी, चूरा, विविध आभूषण आदि किसी भी रूप में देखकर 'यह सुवर्ण है', इस प्रकार की पहचान हमें तत्काल हाँ जाती है। अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, किन्तु सुवर्ण नहा बदला। इससे यह बात सामने आई कि न बदलनेवाला सुवर्ण एक मुख्य तत्त्व है, और पूर्वोक्त अवस्थाएँ उसमें आगन्तुक हैं, अर्थात् आती और जाती हैं। कार्य-कारणभाव के निश्चय का यही प्रकार है कि जो अनुगत रहे, उसे कारण समझा जाता है और जिनमें अनुगत रहे, उन्हें कार्य। इस नियम से प्रकृत में कारणता सुवर्ण या मृत्तिका में ही सिद्ध होती है, अवस्थाओं में नहीं। अस्तु, इसी प्रक्रिया से जब देखेंगे कि जिसे सुवर्ण कहा जाता है, वह भी तेज और पृथ्वी के अणु से बना है, इसलिए उनकी अवस्थामात्र है। वे पृथ्वी और तेज भी किसी तत्त्व की अवस्थाएँ हैं। इस प्रकार चिन्तना में अग्रसर होते हुए उस मूलतत्त्व पर पहुँचा जा सकेगा, किन्तु उसका मन में लाना या किसी को समझाने के लिए वाणी से कहना संभव न होगा। जब मोटी वस्तु सुवर्ण या मिट्टी का ही वास्तव स्वरूप पूर्वोक्त युक्ति से हम नहीं पहचान सकते, तब मूलतत्त्व को पहचानने की कथा तो बहुत दूर की है। पहले कहे गये प्रकार से सुवर्ण और मृत्तिका आदि भी एक अवस्थाविशेष हैं। इसलिए उनमें कुछ गुण और धर्म मान लिये जाते हैं और उन गुण तथा धर्मों के आधार पर उसका नामकरण भी कर लिया जाता है या उन पदार्थों का परस्पर भेद भी समझ लिया जाता है। किन्तु मूलतत्त्व तो सारी अवस्थाओं से रहित है, इसलिए न उसका कोई नामकरण हो सकता है, न कोई गुण तथा धर्म ही उसमें कहे जा सकते हैं। इसी आधार पर उसे मन और वाणी से परे कहा जाता है।

वास्तविक कोई नाम न होने पर भी यदि किसी नाम की वहाँ कल्पना करे,

तो उसके सम्बन्ध में कुछ कहना वन नहीं सकता और उसी को आधार बनाकर सारा विषय कहना है, इसलिए श्रुतियों ने उस तत्त्व के लिए काल्पनिक 'रस' शब्द का प्रयोग किया है—'रसो वै सः'। सत्, चित्, आनन्द, ब्रह्म आदि शब्दों का प्रयोग भी आगे की अवस्थाओं को देखकर उसपर आरोपित किया गया है। यहाँ यह विचार भी आवश्यक है कि किस आधार पर उसके लिए 'रस' शब्द का प्रयोग हुआ। काल्पनिक शब्द की मूलभूत कल्पना का भी कोई आधार तो होना चाहिए। निराधार कल्पना श्रुति सम्मत नहीं हो सकती। इसलिए इस शब्द के प्रयोग के आधार का अन्वेषण होना चाहिए। उस निर्गुण निरवस्थ तत्त्व में आगे उत्पन्न होनेवाले गुण और धर्मों के आधार पर नाम-कल्पना कर ली जाती है। यहाँ 'रस' शब्द आनन्द का वाचक है और मूलतत्त्व की आनन्दरूपता अनेक युक्तियों से सिद्ध होती है।

मूलतत्त्व की आनन्दरूपता

१. मूलतत्त्व से जो सारा प्रपञ्च प्रकट होता है, उसको मूलतत्त्व का विकास ही कहा जा सकता है, उसका परिणाम इसे नहीं कह सकते। क्योंकि, जगत् को उत्पन्न करने के उपरान्त भी उस मूलतत्त्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार दूध से दही बनता है, वह दूध का परिणाम है। अब दही दूध नहीं कहलाता। बीज से वृक्ष हुआ, वह वृक्ष अब बीज नहीं कहलाता, उसके गुण-धर्म भी बदल गये, किन्तु मूलतत्त्व में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इस ससार और सम्पूर्ण प्रपञ्च को इसके मूलतत्त्व का विकास ही कह सकते हैं। पुष्प की नन्ही-सी कलिका का विकास हो जाने पर भी पुष्प का नाग या उस पुष्प के गुण-धर्मों का परिवर्तन नहीं देखा जाता, इसलिए विकास शब्द वहाँ उपयुक्त है और विकास शब्द का व्यवहार आनन्द में भी देखते हैं। किसी मनुष्य को यदि आनन्द हुआ हो, तो कहा जाता है कि वह विकसित हो गया या फूल उठा। अतः, विकसित होनेवाले मूलतत्त्व को आनन्द या रस शब्द से सञ्चित करना युक्तियुक्त है।

२. शास्त्रों में आनन्द के दो स्वरूप वर्णित हुए हैं। एक शान्त्यानन्द दूसरा समृद्धयानन्द। चित्त में किसी प्रकार की चञ्चलता न उठना शान्त्यानन्द कहा जाता है और नई वस्तु की प्राप्ति पर चित्त का उल्लास वा बढना समृद्धयानन्द है। इनमें शान्त्यानन्द को ही हमारे शास्त्र मुख्य मानते हैं। इसका प्रमाण है कि कोई बड़ा विलासी रईस अपने विविध आनन्दप्रद नाच-रग, खान पान, आमोद प्रमोद आदि को छोड़कर भी शयन की इच्छा अवश्य करता है। शयन में कोई समृद्धयानन्द नहीं, किन्तु शान्त्यानन्द वहाँ अवश्य है। किसी प्रकार की चञ्चलता या क्षोभ शयनावस्था में मन में नहीं रहता। इसे सिद्ध हुआ कि समृद्धयानन्द से ऊँचकर मनुष्य शान्त्यानन्द में अवश्य जाना चाहता है और इसे शान्त्यानन्द की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है। ससार में सर्वत्र शान्त्यानन्द का प्रसार देखा जाता है। परस्पर विरुद्ध रहनेवाले तत्त्व भी एक प्रकार के सहयोग का पालन करते हुए ससार में शान्ति की व्यवस्था करते हैं।

जैसे, जल और अग्नि दोनों परस्पर विकृष्ट तत्व हैं, किन्तु अग्नि का उच्चाप जब ग्रीष्म ऋतु आदि में अपनी विशेषता से जगत् की शान्ति भंग करना चाहता है, तब जल वर्षा रूप से गिरकर उसके उच्चाप का शमन करता हुआ शान्ति की व्यवस्था कर देता है। इसी प्रकार, जल जब अधिक मात्रा में बढ़कर अपने आप्लावन में शान्ति भंग करने को उग्रत होता है, तब अग्नि उमका शोषण कर जगत् में शान्ति ले आता है। इसी प्रकार, वायु की प्रबलता को पर्वत आदि पार्थिव पदार्थ कम कर देते हैं और पृथ्वी की जटता रूप स्थिरता को हटाकर वायु उममें त्रिया-रूप भिन्न भिन्न पदार्थों के उत्पादन की शक्ति उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार, सारे तत्व परस्पर मिलकर जगत् में शान्ति की व्यवस्था करते हुए जब देखे जाते हैं, तब इनमें शान्तिरूप आनन्द का अनुस्यूत होना प्रतीत होता है और इससे इनका मूलतत्त्व भी शान्त्यानन्द रूप है, यह सिद्ध हो जाता है। कारण से ही कार्य में धर्मों का प्रादुर्भाव है, उसलए कारण को भी आनन्दरूप मानना उचित हो जाता है।

३. समृद्धयानन्द का क्या स्वरूप है, यह भी विचार्य विषय है। श्रुति ने कहा कि 'यो वै भूमा, तत्सुराम्, यदल्प तद्दुःखम्', अर्थात् महत्त्व में सुख है और अल्पता में दुःख है। अनुभवसिद्ध भी यही बात है कि जिस मनुष्य के पास जितनी सम्पत्ति, धन, पशु, गृह, भूमि आदि होती है, वह अपने को उतना ही सुखी मानता है और जिसके पास सम्पत्ति जितनी अल्प मात्रा में होती है, वह अपने को उतना ही दुःखी समझता है। जब किसी को कोई नई वस्तु गृह, भूमि, धन, सम्पत्ति आदि मिलती है, तब वह अपने को आनन्द में मग्न पाता है, यही समृद्धयानन्द है। आगे क्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट होगा कि व्यावहारिक आत्मा की पाँच कलाएँ हैं— १. बीजचिति (कारण-शरीर) २. देवचिति (सूक्ष्म शरीर) ३. भूतचिति (स्थूल शरीर) ४. प्रजा (सन्तति) ५. वित्त (सम्पत्ति)। इनमें पाँचवीं सम्पत्ति रूप कला अपनी सम्पत्ति में भी व्याप्त रहती है। जब कोई नई वस्तु प्राप्त हो, तब वह व्यावहारिक आत्मा की पाँचवीं कला उस गृह, भूमि आदि को भी अपने स्वरूप में प्रविष्ट करने को फूलती है, या विस्तृत होती है। यही आनन्द के अनुभव का हेतु है। आगे वह पदार्थ भी उस कला के स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है। इसलए, प्रसरण अवरुद्ध हो जाता और उस क्षण का जैसा आनन्दानुभव आगे नहीं रहता। किन्तु इसके विपरीत जब हमारी सम्पत्ति का कोई अंश निकल जाता है, तब उस कला के क्षीण होने के कारण दुःख का अनुभव होता है। इस विचार से जब सिद्ध हो गया कि महत्त्व में आनन्द है और अल्पता में दुःख है, तब वह मूलतत्त्व तो परम महान् है, वह विभु है, अर्थात् सर्वत्र व्यापक है, उससे अन्य किसी की अधिक महत्ता होना सम्भव नहीं, तब उसकी परमानन्दरूपता में सशय नहीं होता।

४. उक्त प्रक्रिया को ही दूसरी रीति से भी देखा जा सकता है कि जहाँ जितनी शक्ति है, वहाँ उतना ही आनन्द है। पशु, पक्षी आदि तिर्यग्योनि की अपेक्षा मनुष्य में प्रकृति दत्त शक्ति अधिक है, इसलए मनुष्य उन पशु, पक्षी आदि को काम में लेता हुआ आनन्द का अनुभव करता रहता है। घोटक-परिचालन में, हाथी के आरोहण में,

गोदोहन में या शुक, सारिकादि के शब्द सुनने में आनन्द का अनुभव करते हुए बहुत लोग देखे जाते हैं। मनुष्यों में भी ज्ञान-शक्ति, बल शक्ति या प्रभुत्व-शक्ति जिसमें जितनी अधिक हो, वह उतना ही अधिक आनन्द का अनुभव करता है। और, अपने से अल्प-शक्तिवाले पर अपना प्रभुत्व दिखाता हुआ ही विशेष आनन्दित होता रहता है, जैसे पशु, पक्षी आदि की अपेक्षा मनुष्य में प्रकृति दत्त अधिक शक्ति है, इसी प्रकार मनुष्य की अपेक्षा देव, गन्धर्व, पितर आदि में शक्ति अधिक है। इसलिए उनका आनन्द मनुष्य से अधिक माना जाता है और मनुष्य भी उनका स्थान पाने को यज्ञादि सत्कर्मों द्वारा यत्नशील रहता है। तैत्तिरीय उपनिषद् की आनन्दवल्ली में भी यह विषम स्पष्ट किया गया है कि जो मनुष्य बलवान्, बुद्धिमान्, धनवान् और युवा है, वह मनुष्य आनन्द की एक सीमा पर पहुँचा हुआ है। उसे जितना आनन्द है, उससे शतगुणित आनन्द गन्धर्वों को, उससे शतगुणित पितृ, देव आदि को, इस प्रकार शत-शतगुणित रूप आनन्द का तारतम्य वहाँ दिखाया है और जिसके हृदय में किसी कामना का उदय ही नहीं होता, ऐसे श्रोत्रिय का आनन्द इन सबके समान श्रेणी का बताया है। इस प्रकार शक्ति के आनन्द की मात्रा बढ़ती जाती है। तब जो मूलतत्त्व सर्वशक्तिसम्पन्न है, जिससे अधिक शक्ति कहीं संभव ही नहीं, उसके परमानन्द-रूप होने में विवाद का कहीं स्थान रहा ?

५. प्रत्येक प्राणी सदा आनन्द का ही इच्छा करता रहता है और जहाँ आनन्द का अनुभव करे, वही उसका प्रेम होता है। इसलिए आनन्द का ही दूसरा रूप प्रेम है, ऐसा गार्हो ने माना है। ससार में दो ही तत्त्व अनुभव में आते हैं—सत्ता और ज्ञान। असत् से विलक्षणता दिखानेवाली सत्ता सर्वत्र व्यापक है और जड-चेतन का विभाग करनेवाला ज्ञान भी चेतनो में सर्वत्र व्याप्त है। ये दोनों ही हमें सर्वदा प्रिय होते हैं। इसीलिए सत्तावाले पदार्थों के संग्रह में सदा हमारी प्रवृत्ति रहती है। हम अधिक-से-अधिक पदार्थों का संग्रह करना निरन्तर चाहते हैं। इस इच्छा से सत्तायुक्त पदार्थों में हमारा प्रेम सिद्ध है और ज्ञान-संपादन में भी हमारी निरन्तर इच्छा रहती है। जो मनुष्य जिस बात को नहीं जानता, उसे जानने के लिए सदा यत्नशील रहता है। विचारशील मनुष्य इसका अनुभव कर सकते हैं कि किसी शास्त्र की कोई बात समझ में जबतक नहीं आती, तबतक उनके चित्त में कितनी विकलता रहती है और समझ में आते ही कैसा आनन्द आता है। इससे सत्ता और ज्ञान दोनों का प्रिय होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। और, प्रियता के साथ ही उनकी आनन्दरूपता भी समझ में आ जाती है। इस प्रकार जब इनमें आनन्द-रूपता है, तब इनके मूलतत्त्व में भी अवश्य आनन्दरूपता सिद्ध होगी, क्योंकि कार्य में जो धर्म होते हैं, वे कारण से ही आते हैं। इस युक्ति से भी मूलतत्त्व की आनन्दरूपता सिद्ध हो जाती है।

६. यह भी वैदिक सिद्धान्त है कि जगत् का मूलतत्त्व और हमारा आत्मा भिन्न-भिन्न नहीं है। वह मूलतत्त्व ही आत्मा-रूप होकर हमारे भीतर भी वैठा है। इसलिए श्रुति कहती है कि मूलतत्त्व को समझने के लिए पहले अपने आत्मा को समझो। अपने

आत्मा पर जब हम विचार करते हैं, तब उगकी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जो चेतन या अचेतन प्राणी या जट आत्मा के अनुमूल हो, उगी पर प्रेम होता है। आत्मा से किचित् प्रतिकूल होते ही प्रेम हट जाता है और उगका विपरीत गुण द्वेष उसका स्थान ले लेता है। इस बात को श्रुतियों ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट दिखाया है—

तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो मित्रात् इत्यादि ।

और

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ।

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति

आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ॥ इत्यादि ।

(बृहदारण्यकोपनिषद्)

अर्थात्, यह आत्मा पुत्र से, मित्र से, सबसे अत्यन्त प्रिय है। पति की कामना के लिए स्त्री को पति के प्रति प्रेम नहीं होता, अपनी इच्छा रति के लिए प्रेम होता है। इसी प्रकार, पति का स्त्री के प्रति प्रेम स्त्री के लिए नहीं है, अपनी इच्छापूर्ति के लिए है। इत्यादि रूप से पुत्र, मित्र आदि सबका विस्तार दिखाकर अन्त में श्रुति ने कहा है कि सबकी कामना के लिए सबके साथ प्रेम नहीं होता, अपनी कामना के लिए सबसे प्रेम होता है। इसलिए, आत्मा ही प्रेम का मुख्य स्थान है और वही आनन्दमय है। यही अनुभवसिद्ध बात भी है।

इस पर कई सज्जन शका करते हैं कि यह अनुभव तो अत्यन्त स्वार्थी पुरुषों का है और श्रुति में भी स्वार्थ का ही अनुवाद प्रतीत होता है। उदारचरित पुरुषों में तो देखा जाता है कि दूसरे के हित के लिए वे अपने शरीर और प्राण को अनायास निछावर कर देते हैं। इसी प्रकार देशसेवी नेता देश हित के लिए अपने प्राणों को समर्पित करते हुए देखे गये हैं। तब अपने लिए ही सब कुछ प्रिय होता है, यह कथन केवल स्वार्थ-मूलक ही ठहरता है और यह कोई प्रशंसा की बात नहीं। किन्तु कहना पड़ेगा कि यहाँ विचार में थोड़ी भूल रह गई है। जो स्त्री, पुत्र आदि अपने पति, पिता आदि के लिए अपने शरीर या प्राणों को निछावर कर देते हैं, उनकी पति, पिता आदि में अत्यन्त भक्ति है। वह भक्ति उनके ही चित्त की एक वृत्ति है, अर्थात् उनकी बुद्धि का एक अंश है। उस बुद्धि-वृत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने शरीर या प्राण का परित्याग किया। यह सिद्ध है कि शरीर, प्राण आदि की अपेक्षा बुद्धि का और उसकी वृत्तियों का आत्मा से निकटतम सम्बन्ध है। तब आत्मा से निकटतम सम्बन्ध रखनेवाले के लिए दूर सम्बन्ध रखनेवाले का वलिदान हुआ, तो इससे तो पूर्वोक्त युक्ति ही दृढ़ हुई कि आत्मा परम प्रिय है। उससे जिसका जितना निकट सम्बन्ध है, वह अधिक प्रिय रहता है और दूर सम्बन्ध रखनेवाला न्यून। यही बात देशसेवियों में भी घटा लीजिए। उनकी देश पर निरतिशय भक्ति है और उस भक्ति रूप चित्तवृत्ति की रक्षा के लिए दूर सम्बन्धवाले शरीर, प्राण आदि को वे कष्ट देते हैं और उनका त्याग तक कर देते हैं। अस्तु,

इस प्रकार परम प्रिय होने के कारण आत्मा की आनन्दरूपता सिद्ध होती है और परतत्त्व या मूलतत्त्व उससे पृथक् नहीं, इसलिए उसकी भी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है।

७. ससार में जितने दुःख हैं, मृत्यु का दुःख उन सबसे प्रबल है। इसलिए प्राणिमात्र को जितना भय मृत्यु का रहता है, उतना और किसी का नहीं। मृत्यु अभाव-रूप है। वह जब दुःख-रूप है, तब उसके विपरीत सत्ता अवश्य ही आनन्द-रूप सिद्ध हुई, क्योंकि आनन्द और दुःख दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले हैं, यह अनुभव-सिद्ध है। ऐसी स्थिति में जो शुद्ध सत्ता रूप है और अपने अनुप्रवेग से ही सबको सत्ता देता है, उस सद्-रूप को अवश्य ही आनन्द कहना पड़ेगा।

इस प्रकार अनेक युक्तियों से मूलतत्त्व की 'रस'-रूपता सिद्ध हो जाती है और इसी आधार पर श्रुति ने मूलतत्त्व को 'रस'-रूप या आनन्दरूप बताया है। अब प्रश्न यह होता है कि गुण-धर्म-रहित और व्यापक होने के कारण क्रिया-रहित ऐसे मूलतत्त्व से यह प्रपञ्च कैसे बन गया। प्रपञ्च तो भिन्न-भिन्न प्रकार के अनन्त गुण और धर्म रखता है। यदि मूल कारण में ही गुण-धर्म नहीं थे, तो प्रपञ्च में कहाँ से आ गये। इस प्रश्न का उत्तर श्रुति, पुराण आदि सत्रों में यही दिया जाता है कि उस मूलतत्त्व-रूप परब्रह्म में ऐसी शक्ति है कि वह प्रपञ्च को रच देती है—

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते ।

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

(श्वेताश्वतरोपनिषद्)

उक्त शक्ति का नाम बल रखा जाता है। एक ही तत्त्व बल, शक्ति और क्रिया इन तीनों नामों से कहा जाता है। जब वह सुप्त अवस्था में रहे, कुछ करता हुआ न रहे, उस अवस्था में उसे बल कहते हैं और वही जब कार्य करने को समुद्यत हो, तब उसका नाम शक्ति पड़ जाता है। अन्त में क्रिया-रूप होकर वह उपगन्त हो जाता है, फिर नया बल जाग्रत होता है। इस प्रकार, रस और बल दो मूलतत्त्व सिद्ध हुए। किन्तु स्मरण रहे कि ये दो नहीं हैं, एक ही हैं, क्योंकि शक्ति शक्तिमान् से अपनी पृथक् सत्ता नहीं रखती। अग्नि और दाहकता-शक्ति इन दोनों को दो तत्त्व नहीं कहा जाता। पृथक् सत्ता रखने पर ही सख्या बढ़ती है। एक ही सत्ता यदि एक से दूसरे में सक्रान्त होती जाय, तो वहाँ पृथक् सख्या नहीं गिनी जाती। जैसे, हमारे पास धोती या दुपट्टा कोई वस्त्र है। इस वस्त्र में बहुत तन्तु (धागे) भी ओत-प्रोत हैं। तन्तु में रूई, रूई में कपास, कपास में भी मिट्टी अवश्य ही अनुगत है, किन्तु वस्त्र को देखकर पाँच वस्तुएँ नहीं कही जाती। वस्त्र एक ही कहलाता है, क्योंकि इन पाँच वस्तुओं की सत्ता वस्त्र में पृथक्-पृथक् नहीं। एक ही सत्ता पाँचों में अनुगत है। कारण की सत्ता को ही कार्य ने ले लिया। दूसरे शब्दों में कारण की सत्ता से ही कार्य सत्तावान् हो जाता है। इसलिए मृत्तिका की सत्ता कपास में, कपास की रूई में, रूई की तन्तु में और तन्तुओं की वस्त्र में आ गई, इसलिए वह वस्त्र एक ही कहलाता है। इसी प्रकार शक्ति-शक्तिमान् को भी समझिए। शक्ति अपने आश्रय से भिन्न अपनी सत्ता नहीं रखती।

बहु पृथक् होकर कभी प्राप्त भी नहीं हो सकती। जब कभी शक्ति का अनुभव होगा, आश्रय के द्वारा ही होगा। इसलिए उसे पृथक् नहीं कहा जा सकता। उस गिद्वान्त में निष्कर्ष यह आया कि वेद सगार का मूलतत्त्व 'एकमेवाद्वितीयम्' मानता है। किन्तु यह शक्ति अपने आश्रय से त्रिलकुल विरुद्ध स्वभाव रखती है। मूलतत्त्व एक और विभु (व्यापक) है। उसका किसी देश या किसी काल में अभाव नहीं। किन्तु बल-रूपा शक्ति परिच्छिन्न परिधि (limit) में है और मूलतत्त्व ही अनन्तता उसमें है। अर्थात्, सर्वत्र ही मूलतत्त्व या 'रस' में बल भी है। शक्ति शून्य मूलतत्त्व नहीं। किन्तु एक बल सर्वत्र व्यापक नहीं। सण्डगः अनन्त बल उसमें रहते हैं। मूलतत्त्व अधिनाशी है, किन्तु यह बल या शक्ति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यह शक्ति जब जाग्रत होती है, तब प्रथम कार्य यही करती है कि अपरिच्छिन्न 'रस' को अपनी परिमितता से परिच्छिन्न-सा दिखा देती है। जैसे, समुद्र के अथाह जल में उठनेवाली तरंग जल को अपने रूप में बाँधा हुआ-सा दिखाती हैं अथवा जैसे अनन्त आकाश में अपना मकान बनाने को हम पूर्व और पश्चिम की ओर दो दीवारें खड़ी करते हैं। वे दीवारें अपने घेरे में बाँधकर अनन्त आकाश को भी परिच्छिन्न-सा दिखा देती हैं। यथार्थ में कोई परिच्छेद मूलतत्त्व में नहीं होता। वह सदा अपरिच्छिन्न ही रहता है। किन्तु शक्ति के परिच्छिन्न होने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से उसमें परिच्छेद प्रतीत हो जाता है। इसीलिए इस शक्ति का नाम शास्त्र में माया रखा गया है। 'मा' धातु का अर्थ 'मिति', अर्थात् परिच्छेद या limit है। अमित या अपरिच्छिन्न में मिति या परिच्छेद दिखाने के कारण माया शब्द का व्यवहार शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ। साय ही अमित को मित कैसे दिखा दिया या अमित से अभिन्न होती हुई भी यह शक्ति स्वयं सीमित कैसे हो गई, इन बातों का कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता। इसलिए इस माया-शक्ति को अनिर्वचनीय (न कहने योग्य) भी कहा गया है। यही कारण है कि ससार में जहाँ कहीं ऐसी कोई बात दिखाई दे कि जिसकी तर्क-युक्ति आदि से कोई उपपत्ति सिद्ध न होती हो, उसे माया ही कह दिया जाता है। इस प्रकार शक्ति का माया नाम और शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न रूप में दिखाई देनेवाले मूलतत्त्व का नाम 'पुरुष' हो जाता है। 'पुरुष' शब्द का अर्थ है 'पुर में शयन करनेवाला', अर्थात् एक परिधि में परिच्छिन्न दिखाई देनेवाला।

पुरुष-विज्ञान

आगे उस एक बल पर क्रम से अन्यान्य बल प्रवाह-रूप से आते रहते हैं। इसलिए उन बलों का चयन होता रहता है। चयन शब्द का अर्थ है 'चिनाई'। जैसे, एक ईंट या पत्थर पर दूसरा ईंट या पत्थर रखकर एक दीवार खड़ी की जाती है, उसी प्रकार एक बल पर दूसरे बल का चयन होता रहता है। यद्यपि जैसे क्रिया पर क्रिया नहीं हो सकती, इसी प्रकार क्रिया की सूक्ष्म अवस्था बल पर भी दूसरा बल नहीं आ सकता। बल स्वयं क्षणिक होने के कारण दूसरे बल का आधार नहीं बन सकता। किन्तु रस में स्थित होकर बल जब प्रवाही बन गया, तब उस पर अन्य बल को भी आने का अवसर

मिलता है। इसी प्रकार चयन होते होते उन बलों में एक दूसरे के साथ ग्रन्थि भी पड़ती जाती है, इसलिए व्यवहार में तीन प्रकार के पुरुष कहे जाते हैं। जहाँ तक केवल परिच्छेदमात्र हुआ हो, चयन नहीं, वह 'उत्तमपुरुष' या 'अव्ययपुरुष' कहलाता है। बलों पर बलों का चयन हो जाने के उपरान्त उसकी 'अक्षरपुरुष' सजा हो जाती है और बलों की ग्रन्थि पड़ जाने पर वह 'क्षरपुरुष' कहला जाता है। वह क्षरपुरुष ही प्रपञ्च के रूप में परिणत हुआ करता है। इस प्रकार सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च का उपादान कारण क्षर-पुरुष, निमित्त कारण अक्षरपुरुष और स्रक्का आलम्बन वा अधिष्ठान अव्ययपुरुष है। विकार न होने पर भी परिच्छेद (लिभिष्ट) हो जाने के कारण भेद का प्रादुर्भाव वहाँ हो जाता है। बल जतक केवल जाग्रत् रहता है—परिच्छेद नहीं करता—तबतक वह 'परात्पर' है, वह एक है, वहाँ भेद नहीं। किन्तु अव्ययपुरुष में भेद उत्पन्न हो गया। अतः जहाँ 'एकमेवाद्वितीयम्' कहा हो वा परब्रह्म, परमेश्वर आदि शब्द जहाँ हो वहाँ परात्पर ही समझना चाहिए। परिच्छिन्न होने पर भी जो सबसे बड़ा है, वह 'ईश्वराव्यय' है और उसके अनन्तर छोटे-छोटे परिच्छेदवाले 'जीवाव्यय' कहलाते हैं। आगे कहे जानेवाले अक्षर वा क्षरपुरुष अव्यय की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सके हैं। जिस जीव वा वस्तु का अव्यय जितने परिमाण में होगा, उतने ही परिमाण में उसके अक्षर और क्षरपुरुष भी कार्य करेंगे। आगे कहा जानेवाला 'शुक्र', जो मूर्त्तियों का उत्पादक है, वह भी उतने ही प्रदेश में रह सकता है। अव्यय के बटने वा घटने पर ये सब भी बट-घट जाते हैं। इससे अव्यय ही स्रक्का मूल आधार माना जाता है।

इनमें प्रत्येक पुरुष की पाँच-पाँच कलाएँ वेदों में वर्णित हैं। यो, तीन पुरुषों की पन्द्रह कलाएँ हो जाती हैं और सब में अनुप्रविष्ट रहनेवाले विद्युद् मूलतत्त्व को भी (जिसका नाम वेदों में 'परात्पर' है) एक कला के रूप में गिन लेने पर यह षोडशी पुरुष (सोलह कलावाला पुरुष) प्रजापति के नाम से श्रुतियों में प्रसिद्ध है। प्रजापति का निरूपण आगे करेंगे। निम्न निर्दिष्ट श्रुति में सोलह कलाओं का निर्देश है—

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।

भूतानि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥

(मुण्डकोपनिषद्, मु० ३, ख० २, म० ७)

यह लय बतानेवाली श्रुति है। इसमें बताया गया है कि लय के समय पन्द्रह कलाएँ पर-अव्यय में प्राप्त होकर एक हो जाती हैं। यहाँ पर-अव्यय से ईश्वराव्यय का अव्यय से भी पर-परात्पर समझना चाहिए। देव, भूतविज्ञानमय, आत्मा (जीवात्मा) आदि सब पहले ईश्वराव्यय में लीन होते हैं—और आगे ईश्वराव्यय के भी परात्पर में प्रलीन होने पर सोलहवीं कला परात्परा में जाकर सब एक हो जाते हैं।

अव्यय पुरुष की पाँच कलाओं के नाम आनन्द, विज्ञान, मन प्राण और वाक् है। इन में शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न होने पर सबसे पहले मन का प्रादुर्भाव माना गया है। जिसको हम मन समझते हैं, वह तो बहुत पीछे उत्पन्न होनेवाली स्थूल अवस्था है। यहाँ जो मन बतलाया जाता है, वह अति सूक्ष्म स्रक्की आदिभूत अवस्था है।

इनके नामों में भ्रम न हो जाय, इसलिए इस सर्वप्रथम मन का श्वोषीयस मन नाम से श्रुतियों में व्यवहार है। वृद्धारण्यक, उपनिषद् में तन्मनोऽकुरुत कहकर मूलतत्त्व आत्मा से सर्वप्रथम मन का प्रादुर्भाव बताया गया है और ऋग्वेद संहिता के नासदीय सूक्त में भी—

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेतः प्रथमं तदासीत् ।

इत्यादि मन्त्र के द्वारा सर्वतः प्रथम मन और फिर उसकी इच्छावृत्ति का उद्भव बताया गया है। पूर्वोक्त प्रकार से मन में रस और बल दोनों तत्त्व हैं। इसमें दोनों प्रकार का चयन आरम्भ होता है। एक खोलनेवाला तथा दूसरा बँधनेवाला। स्मरण रहे कि गाँठ लगाने के लिए जिस प्रकार बल काम में आता है, खोलने के लिए भी वैसे ही बल की आवश्यकता हुआ करती है। खोलनेवाले बल से मन के अनन्तर विज्ञान और उसके अनन्तर आनन्द की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए, आनन्द, विज्ञान और मन ये तीनों मुक्तिसाक्षिक कलाएँ कही जाती हैं। इनका सृष्टि-प्रक्रिया में उपयोग नहीं होता। इनमें तो सृष्टि का अत्यन्त लय-रूप मुक्ति होती है। किन्तु बँधनेवाले बल से जो कलाएँ निमित्त होती हैं, उनका नाम है मन, प्राण और वाक्। मन को दोनों तरफ लिया गया है। वह बन्ध और मोक्ष दोनों का कारण है। उसी से उत्पन्न होनेवाले हमारे मन के लिए भी कहा जाता है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

अर्थात्, हमारी अध्यात्म-दशा में भी मन ही बन्ध या मोक्ष की ओर ले जानेवाला है। जब वह ससार की ओर झुकता है, तब अधिक-से-अधिक बँधता चला जायगा और जब श्रेयोमार्ग में परमात्मा की ओर चला गया, तब सारे बन्धनों से मुक्त कराकर मोक्ष-पद पर प्रतिष्ठित कर देगा। अस्तु, अव्ययपुरुष की इन पाँच कलाओं का निरूपण तैत्तिरीय-उपनिषद् में हुआ है। वहाँ 'वाक्' का नाम 'अन्न' है। वह अन्न वाक् की स्थूल अवस्था है, जो आगे स्पष्ट होगी। इनमें तीन कलाएँ मुक्तिसाक्षिक और तीन सृष्टिसाक्षिक हैं। मन को दोनों ओर ग्रहण करने से ६ हो जाती है, यह कह चुके हैं। सृष्टि के विषय में जहाँ कहीं आत्मा शब्द आया है, वहाँ शतपथ आदि ब्राह्मणों में सर्वत्र 'सोऽयमात्मा मनोमयः प्राणमयो वाङ्मयः', यह बार-बार स्मरण कराया है। अर्थात्, अव्ययपुरुष की कला-रूप ये तीन तत्त्व ही आत्मा-रूप से सम्पूर्ण प्रपञ्च में अवस्थित हैं। प्रपञ्च का यदि हम विश्लेषण करने लगे, तो तीन ही वस्तु हाथ लगती हैं—ज्ञान, क्रिया और अर्थ। उनके मूलतत्त्व ये तीन माने गये हैं—सम्पूर्ण ज्ञान का मूलतत्त्व मन है, क्रिया का मूलतत्त्व प्राण (सारी क्रियाएँ प्राण से ही निकलती हैं) और अर्थों का मूलतत्त्व 'वाक्'। यह 'वाक्' शब्द 'अवाक्' से निकला है। 'अव्' उपसर्ग के अकार का लोप व्याकरण में माना गया है। इसलिए अवाक् का 'वाक्' ही शेष रह जाता है। अवाक् शब्द का अर्थ है सबसे नीची श्रेणी की वस्तु। इसका तात्पर्य यही है कि स्थूल रूप में आ जाने के कारण यह मन और प्राण की अपेक्षा छोटी श्रेणी की वस्तु मानी जाती है। दूसरा निर्वचन यह भी है कि 'उ', 'अ' और 'अक्' इन तीनों से मिलकर वाक्

शब्द बनता है। इनमें 'अ' विशुद्ध तत्त्व, अर्थात् मन का वाचक है और 'उ' प्राण का। इन दोनों से यह अकित रहती है, इसलिए भी 'वाक्' कहलाती है। इससे आशय यही निकला कि मन और प्राण के बिना वाक् का मिलना असम्भव है। भूतो की सूक्ष्मावस्था-रूप 'वाक्' में मन और प्राण सर्वत्र व्यापक है। प्राण की व्यापकता समझ में आ सकती है, क्योंकि जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण प्रपञ्च में क्रिया-शक्ति सर्वत्र ही दिखाई देती है, किन्तु मन की व्यापकता में बहुत विचारको को सन्देह होगा। मन से निकला हुआ ज्ञान तो केवल चेतनो में ही दिखाई देता है, जड़ वस्तुओं में उसका अभाव है। तब उसे सर्वत्र व्यापक कैसे माना जा सकता है। किन्तु इसके समाधान के लिए यह पहिले दृष्टता से समझ लेना चाहिए कि वैदिक दर्शन में जड़-चेतन-व्यवहार केवल काल्पनिक है। जड़ों में ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। जड़-चेतन की उपपत्ति तो आयुर्वेद के परमाचार्य महामुनि चरक ने लिखी है कि—

सेन्द्रियं चेतनद्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम् ।

अर्थात्, जहाँ इन्द्रियो का विकास हो गया, वह चेतन कहलाने लग गया। जहाँ इन्द्रियो गुप्त ही रह गईं, विकास न पा सकी, वह जड़ कहा गया। मन या उससे प्रकट होनेवाला ज्ञान तो सर्वत्र ही है, किन्तु इन्द्रियो के अभाव में उसका विकास नहीं हो पाता। इसलिए जड़ पदार्थ में भी किञ्चित् विलक्षणता उत्पन्न होकर यदि इन्द्रियो का विकास हो जाय, तो वह चेतन-रूप में परिणत हो जाता है। जैसे, फलों के सड़ जाने पर वहाँ सैकड़ों कृमि (कीड़े) चेतन उत्पन्न हो जाते हैं। मिट्टी और लकड़ी में भी आर्द्रता आते ही कृमि और घुन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार, चेतन में भी यदि इन्द्रियो का विकास न रहे, अर्थात् वे शिथिल या विलुप्त हो जायें, तो उनमें जड़ता की प्रतीति होने लगती है। जैसे मृत, प्रसुप्त अथवा मूर्च्छित गरीर में। अस्तु, प्रस्तुत यही था कि 'वाक्' समस्त भूतो की जननी है और मन तथा प्राण उसके गर्भ में अवश्य रहा करते हैं। हमारे यहाँ साख-दर्शन की प्रक्रिया में भी भौतिक प्रपञ्च में शब्द-तन्मात्रा की उत्पत्ति सर्वप्रथम मानी जाती है। उसके आगे ही क्रम से अन्य तन्मात्राएँ और पञ्च महाभूत उत्पन्न होते हैं। इससे दार्शनिक प्रक्रिया में भी 'वाक्' की भूतजनकता सिद्ध है।

इन तीनों कलाओं में प्राण के आधार पर अक्षर पुरुष का विकास होता है। वह प्राणप्रधान या क्रियाप्रधान है और वाक् के आधार पर अक्षर पुरुष विकसित होता है। वह अर्थप्रधान है। इसकी प्रक्रिया वैदिक विज्ञान में यह बताई गई है कि जब एक व्यापक तत्त्व को परिधि के भीतर ले लिया जाय, तब वह स्वभावतः उस परिधि को तोड़कर बड़ा बनने की ओर प्रवृत्त रहता है। सजातीयकर्षण का यही सिद्धान्त है कि मिट्टी का टेल आकाश में फेंके जाने पर भी हमारे हाथ के द्वारा दी हुई शक्ति समाप्त हो जाने पर अपने आप अपने धन पृथ्वी-पिण्ड की ओर आता है। तैजस दीपक की शिखा अपने धन सूर्य-मण्डल की ओर ऊपर को ही स्वभावतः चलती है। ऐसे भूमा में से निकला हुआ वह पुरुष भूमा-रूप ही बनना सतत चाहता है और इसका प्रकार यही है कि वह अपने से बाहर के व्यापक तत्त्व को भी अपने भीतर लेता जाय। इसलिए बाहर व्याप्त तत्त्व को अपने भीतर लेने की एक प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न

होती है। जिसे शतपथ-ब्राह्मण में (बृहदारण्यक-उपनिषद् में) 'अशनाया' नाम दिया गया है। अशनाया का अर्थ है भूय, अर्थात् उसे सत्रको अपने भीतर ले लेने की भूय होती है। यह अशनाया भी एक प्रकार का बल है और रस तथा बल के लिए 'अमृत' और 'मृत्यु' शब्दों का श्रुतियों में पारिभाषिक प्रयोग है, अर्थात् वहाँ रस को अमृत कहते हैं और बल को मृत्यु। इसलिए अशनाया को भी वहाँ मृत्यु कहा गया है। उक्त परिभाषा पर ध्यान न देने के कारण ही यहाँ भाग्यकारों ने छिष्ट कल्पना की है कि जब किसी को भूय लगती है, तब वह प्राणियों को मारता है। इसलिए अशनाया मृत्यु-रूप है। वस्तुतः, इस कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं। अशनाया को मृत्यु कहने का अभिप्राय तो श्रुति का इतना ही है कि वह अशनाया एक प्रकार का बल है। अशनाया बल उत्पन्न होने पर तीन अश हो जाते हैं, जिनके नाम उक्थ, अर्क और अशिति श्रुतियों में प्रसिद्ध हैं। अशनाया से अपना अन्न लेने को उस बलविशिष्ट रस का एक अश उठता है, वह उठने के कारण 'उत्थ' या 'उक्थ' कहा जाता है। उत्थ से ही उक्थ बना है। तब वह बाहर से अन्न लेने को चलता है। इस चलन को श्रुति में 'अर्चन' कहा गया है और चलनेवाले अश से जो वस्तु बनती है, उसे कहा गया है— 'अर्क'। तब वह अपने से बाहर के जिस तत्त्व को अपने भीतर ले लेता है, वह बाहर का तत्त्व उसकी 'अशिति', अर्थात् खुराक बन जाता है। इस प्रकार, यह आकर्षण-विकर्षण-प्रक्रिया चल पड़ती है और उन परिच्छिन्नता को प्राप्त पुरुषों के बलों का एक प्रकार सघर्ष-सा मच जाता है। यही क्रियाप्रधान अक्षर पुरुष का प्रादुर्भाव है।^१

अक्षर पुरुष

यह अक्षर पुरुष प्राणप्रधान या क्रियाप्रधान है। इसकी भी पाँच कलाएँ हैं। जिनके नाम हैं—ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम। ये ही पाँचों ईश्वर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष-रूप ईश्वर के ये पाँच रूप हैं।

यदक्षरं पञ्चविधं समेति, युजो युक्ता अभियत् संवहन्ति ।
सत्यस्य सत्यम्मनु यत्र युज्यते तत्र देवाः सर्व एका भवन्ति ॥

इस श्रुति में अक्षर के पाँच भेदों का संकेत किया है और शतपथ-ब्राह्मण के ११, ७ काण्डों में इनका विशद वर्णन है।

यदर्चिमद् यदणुभ्योऽणु यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च
तदेतदक्षरं ब्रह्मसप्राणस्तद्वाङ्मनः ।

(सुण्डको०, सुण्डक २)

संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च द्यक्ताव्यक्ते भरते विश्वमीशः ।

(श्वेताश्वतरोप०, अ० १, म० ८)

१ नैवेह किञ्चनग्रासीत, मृत्युनेवेदमावृतमासीद्, अशनायया—। अशनाया हि मृत्यु तन्मनो कुरुत आत्मन्विश्यामिति। सोऽर्चनं न चरत तस्याऽस्यत अपोजायन्त। अर्चते वै मेकमभूदिति। तदेवाकृत्याकृतत्वम्।

—इत्यादि श्रुतियों में भी अक्षर पुरुष का निर्देश है। परिधि के भीतर के तत्त्व को बाहर फेंकनेवाली शक्ति का नाम इन्द्र है और बाहर फेंकने से जो स्थान रिक्त हो गया, उसकी पूर्ति के लिए बाह्य से तत्त्व लेकर पालन कर देनेवाली शक्ति का नाम विष्णु है। और, इस प्रकार आवागमन होते रहने पर भी वस्तु को एक रूप में दिखानेवाली प्रतिष्ठा शक्ति का नाम ब्रह्मा है। प्रतिष्ठा स्थिरता रखने के कारण यही सबका उत्पादक कहलाता है। ये तीनों शक्तियाँ केन्द्र में रहती हैं। केन्द्र का नाम वैदिक परिभाषा में 'नाभि' है। उस नाभि में रहने के कारण अक्षर की ये तीनों कलाएँ 'नभ्य' कही जाती हैं। अब केन्द्र से फेंके हुए रस का प्रतिष्ठा-प्राण की सहायता से बाहर एक पृष्ठ बन जाता है। उस पृष्ठ पर भी दो तत्त्व रहते हैं, बाहर जानेवाले और बाहर से आकर भीतर केन्द्र की ओर जानेवाले। इनमें बाहर जानेवाले तत्त्व का नाम अग्नि है और बाहर से वस्तु के केन्द्र की ओर जानेवाले तत्त्व का नाम सोम है। ये दोनों कलाएँ पृष्ठ पर रहने के कारण 'पृष्ठय' कहलाती हैं। स्मरण रहे कि अव्यय पुरुष की अन्तिम प्राण और वाक् नाम की कलाएँ यहाँ अग्नि और सोम के रूप में विकसित हुई हैं। इसलिए अग्नि को 'प्राण' और सोम को 'वाक्' नाम भी दिया जा सकता है। इन दोनों पृष्ठ की कलाओं का विकास तत्त्वों के बाहर निकलने के कारण ही हुआ है। इसलिए बाहर फेंकनेवाली 'इन्द्र'-शक्ति का इनके साथ विशेष सम्पर्क है और इन तीनों 'इन्द्र', 'अग्नि' और 'सोम' को मिलाकर एक ही रूप में इनकी उपासना पुराणों में प्रसिद्ध हो गई और तीन रूप सम्मिलित होने के कारण बहुत बड़ा महत्त्व हो जाने से ये तृतीय देवता महेश्वर नाम से उपास्य हो गये। इन्द्र, अग्नि और सोम ये तीनों उनके नेत्र मान लिये गये—'वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनम्'।

आगे अक्षर पुरुष के नित्पण में स्पष्ट करेंगे कि इन्द्र का अधिष्ठान सूर्य-मण्डल है, सोम का चन्द्र-मण्डल, अग्नि अपने रूप में पृथ्वी में व्याप्त है ही। इन्हीं तीनों को भगवान् महेश्वर का नेत्र कहा गया है। इस मूर्ति के रहस्य का और भी विवरण आगे भारतीय सस्कृति के प्रकरण में किया जायगा। यह सक्षेप में अक्षर पुरुष के विकास का वर्णन किया गया। सबके आदिभूत ब्रह्मा के नाम से ही समस्त शक्तियों का वर्णन ब्राह्मणों में अधिक मिलता है और अग्नि सोम का प्रपञ्च भी विस्तार से है। विष्णु और इन्द्र, इन दोनों शक्तियों के कार्य स्थान-स्थान पर सक्रिय हैं।

उभा जिग्यथुर्न पराजयेते न पराजिजे कतरश्च नैनो ।

इन्द्रश्च विष्णुर्यदपस्पृधेतां त्रेधा सहस्रं वितद्वैरयेथाम् ॥

(इन्द्र और विष्णु) दोनों ही असुरों को जीतते रहते हैं। कभी नहीं हारते। ये दोनों परस्पर भी स्पर्धा, अर्थात् युद्ध कर एक-दूसरे को दवाने की इच्छा करते हैं, किन्तु इनमें से कोई भी नहीं हारता। दोनों मिलकर तीन प्रकार के सहस्र प्रेरित करते हैं। इस ऋक्संहिता के मन्त्र में इन्द्र और विष्णु की स्पर्धा स्पष्ट वर्णित है। ये जो तीन सहस्र प्रेरित करते हैं, उनसे ही साम-मण्डल बनता है, जिसका नित्पण वेद-शब्दार्थ में किया जा चुका है।

धर पुरुष

श्रुतियों में प्रतिपादित हुआ है कि प्रजापति का अर्धभाग तो अमृत रहता है और आधा मर्त्य हो जाता है। इसका आशय है कि अक्षर पुरुष अमृतः अपने मूर्च्छ्य में भी बना रहता है और उसीका अर्ध भूतों के रूप में भी विकसित होता जाता है। भूतों के रूप में विकसित होना ही ससार की उत्पत्ति है। इसलिए कहा जा सकता है कि भूत-रूप में परिणत धर पुरुष ही ससार है। उस धर पुरुष की भी अक्षर की सहायता से पाँच कलाएँ बनती हैं, जिनके नाम हैं—प्राण, आप, वाक्, अन्नाद और अन्न। अतः पय-ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड के आरम्भ से ही इन कलाओं की उत्पत्ति का क्रमिक विवेचन है और आगे के काण्डों में भी वह विस्तृत होता गया है। षष्ठ काण्ड के आरम्भ में प्राणों का नाम 'ऋषि' लिखा है। तथा उन्हीं का विकास तीनों वेदों को माना है, जिनका निरूपण हम पहले वेद-शब्दार्थ-निरूपण में कर चुके हैं। आगे प्राण से 'आप्' की उत्पत्ति बताई गई है। अस्तु, आगे इन कलाओं का आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक रूप में विस्तृत विकास हो जाता है। सबसे उत्पादक तत्त्व आधिदैविक प्रकरण में आते हैं और उनसे दोनों प्रकार की धाराएँ चलती हैं—आधिभौतिक और आध्यात्मिक। प्रत्येक प्राणी का पृथक् पृथक् शरीर-रूप जो एक-एक पिण्ड बनता जाता है, उसका बाह्य और आन्तर विस्तार आध्यात्मिक रूप कहा जाता है। और, ब्रह्माण्ड की एक-एक शाखा में जट-चेतन-रूप समस्त तत्त्वों को उत्पन्न करनेवाले जो पाँच पिण्ड हैं, उन्हें अधिभौतिक रूप कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सबके मूल में आधिदैविक रूप है। उनसे उत्पन्न या विकसित होते हैं आधिभौतिक रूप और उनसे भी फिर विकसित होते हैं आध्यात्मिक रूप। आधिदैविक स्थिति में धर कलाओं के भी वे ही नाम रहते हैं, जो अक्षर पुरुष की कलाओं के थे, अर्थात् द्रवा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम। आधिभौतिक रूप में पाँच मण्डलों के नाम होते हैं—स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा। इनके परस्पर संयोग से उत्पन्न होनेवाले प्राणिशरीरों की पाँच कलाओं के नाम से पहले कहे जा चुके हैं—बीज-चित्ति (कारण-शरीर), देव-चित्ति (सूक्ष्म-शरीर), भूत-चित्ति (स्थूल शरीर) प्रजा, (सन्तति) और वित्त (सम्पत्ति)। इन तीनों प्रकार की पाँच-पाँच कलाओं की मूलभूत कलाएँ वे ही पूर्वोक्त पाँच हैं—प्राण, आप्, वाक्, अन्नाद और अन्न।

अक्षर पुरुष की कलाओं से धर पुरुष का विकास होने में मध्य में एक नया तत्त्व उत्पन्न होने की और आवश्यकता होती है, जिसे वैदिक परिभाषा में 'शुक्र' नाम दिया गया है। लौकिक भाषा में उसे 'वीर्य' शब्द भी कहा जाता है। जैसे, प्रत्येक प्राणिशरीर की उत्पत्ति वीर्य से देखी जाती है, वैसे ही इस सम्पूर्ण प्रपञ्च की उत्पत्ति जिससे होती है, वह भी एक वीर्य या शुक्र नाम की वस्तु है। उक्त तीन पुरुषों में केवल अव्यय पुरुष को पुरुष या अमृत शब्द से कहते हैं। अक्षर और धर को प्रकृति नाम देते हैं। श्रुतियों में इन्हे ब्रह्म शब्द से भी कहा गया है। इन पुरुष और प्रकृति के योग से उत्पन्न होनेवाला है—शुक्र। ये तीनों एक ही मूल तत्त्व के रूप हैं।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवासृतमुच्यते ।

(कठोपनिषत्)

सहिता मे भी मन्त्र है—

तदेवाग्निस्तद्वादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

(यजु.सहिता)

श्रीभगवद्गीता मे भी यही क्रम निर्धारित हुआ है । वहाँ अन्वय पुरुष को पुरुष और धर तथा अधर को उसकी अपरा और परा प्रकृति माना (सप्तम अध्याय) है । अन्तु, उक्त शुक्र की उत्पत्ति मे यज्ञ-प्रक्रिया का उपयोग आवश्यक होता है । इसलिए यहाँ पहले यज्ञ-प्रक्रिया का थोडा विवरण देना आवश्यक होगा ।

यज्ञ-प्रक्रिया

यज्ञ वैदिक विज्ञान का एक मुख्य विषय है । यह यज्ञ शब्द विज्ञान के क्षेत्र मे पारिभाषिक है । यज्ञ पाँच रूपो मे विभक्त है । यज्ञ के ये पाँच रूप इस प्रकार हैं—

१ वेदो से यज्ञ सम्पन्न होता है । वेदो का वैज्ञानिक स्वरूप वेद-शब्दार्थ-निरूपण मे पहले स्पष्ट कर दिया गया है । यज्ञ के स्वरूप-निर्माण के समय क्रमशः पहले यजु', तदनन्तर ऋक् और फिर साम अपना भाग ग्रहण करते हे । ये ही तीनो वेद क्रम से अनुप्रविष्ट होकर यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करते हे । ये तीनो वेद 'वाक्' रूप है । ये अपने स्वरूप का जहाँ तक विस्तार अथवा विकास करते है, यज्ञ भी वहाँ तक सम्पन्न होता है । जब कि वेद वाक्प्रधान है, तब यज्ञ प्राणप्रधान है और वाक् तथा प्राण नित्य ससक्त अथवा मिले-जुले रहते है । इसलिए यज्ञ के उद्भव स्थल ये वेद ही है । वेदो के त्रिधातु होने से उनका आग्रय-रूप यज्ञ भी त्रिधातु है ।

यज्ञ के द्वारा सत्य का विस्तार होता है । तीनो वेद-विद्याएँ सत्य मे ही वर्तमान रहती है ।

यज्ञ-भेदो की सृष्टि मे सर्वप्रथम स्वयम्भू यज्ञ आता है । इस स्वयम्भू यज्ञ के साथ सम्बद्ध जो तीन वेद है, उन्ही मे इस चराचरात्मक सम्पूर्ण जगत् की सत्ता है । इस यज्ञ मे सतत हवन की क्रिया चलती रहती है । यह अपने को ही अपने मे ही आहुत करता रहता है, फलत नये नये ऋग्यजु साम की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है । त्रिवेदी के उत्पन्न होने पर उससे ससर्ग रखनेवाला जब नया यज्ञ उत्पन्न होता है, तब नवीन वस्तु का निर्माण हो जाता है । ये जो सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा आदि ग्रह, उपग्रह है, ये यज्ञ के द्वारा नवीन उत्पन्न किये हुए वेदो के द्वारा सम्पाद्यमान यज्ञ-स्वरूप ही है । परन्तु इनका सम्बन्ध उस स्वयम्भू यज्ञ से अव्यय है । यत्रापि इन समस्त यज्ञो का क्रम भी उसी स्वयम्भू यज्ञ के क्रम से सर्वथा सम्बद्ध है, तथापि इतना भेद है कि इन यज्ञो का आश्रय पृथक् है और स्वयम्भू यज्ञ का आश्रय पृथक् । स्वयम्भू यज्ञ का आश्रय परमेष्ठी है । इस परमेष्ठी का अधिष्ठाता ईश्वर है । उसके तीनो वेद भी ईश्वर है तथा उन तीनो वेदो से सम्पाद्यमान यज्ञ भी ईश्वर है । उसी वेद से, उसी यज्ञ से अथवा उसी

प्रजापति से यह सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत् उत्पन्न हुआ ?। ये सब विषय पुरुष-सूक्त में संकेतित हैं। वहाँ विराट्-रूप और पुरुष की उत्पत्ति बताकर उगी के अवयवों में यज्ञ कहा है और उगी पुरुष के अवयवभूत ढंक्ताओं को यज्ञ का कर्त्ता बताया है। दूसरे मन्त्र में उसी सर्वहुत् यज्ञ में वेदों की उत्पत्ति कहकर आगे मंत्र पदार्थों की उत्पत्ति बताई गई है।^१ ब्राह्मणों में उसका विवरण है।

२ हमारे दृष्टि-पथ में जो कुछ आता है, वह मंत्र प्राण है। उस प्राण का प्रकाशक मन है और तेज-स्वरूप में टिग्राई ढेनेवाली वाक् इन प्राणों के आवरण पर रहती है। इन प्राण, मन और वाक् का सकलन करने पर एक प्रजापति होता है। इस प्रजापति में यज्ञ क्या है ? मन का प्राण में प्रविष्ट होना, उसका मन में आना और वही क्रिया वाक् के साथ होना, इस गमनागमन को ही यज्ञ कहना न्यायप्राप्त है। ऐतरेय महर्षि ने कहा है कि 'वाचश्चित्तस्योत्तरोत्तरमो यज्ञ', अर्थात् मन का प्राण में आकर वाक् बनना तथा वाक् का पुनः मन में परिवर्तित होना, इस क्रम को यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार, एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होने का क्या कारण है ? वह मध्य-स्थित प्राण ही इस प्रकार के परिवर्तन का कारण है। वही क्रिया-रूप है, अतः उसे यज्ञ कहना उपयुक्त है। मन और वाक् ये दोनों उगी प्राण-रूप यज्ञ के माध्यम चलनेवाले हैं।

३ सोम को अमृत कहा जाता है। अमृत वह इसलिए है कि वह कभी नष्ट नहीं होता, वह उपादान कारण है ससार के सम्पूर्ण पदार्थों का। जब सोम सम्पूर्ण आकाश में व्याप्त रहता है, तब उसमें रूप, रस, गन्ध आदि कुछ भी नहीं रहते, परन्तु वह सोम ही तो है, जिसके संयोग से रूप, रस, गन्धादि से युक्त पदार्थों का निर्माण हो जाता है। जब यह सोम दूसरे सोम से आघात-प्रत्याघात करता है, तब इस आघात से बल-विशेष की उत्पत्ति होती है। यह बल 'सह' शब्द से कहा जाता है। इस सह-नामक बल से स्वभावतः अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। उस सम्पूर्ण क्रिया को 'यज्ञ' शब्द से कहा जाता है, जिससे सोम के आघात से सहः नामक बल उत्पन्न होकर उससे अग्नि की उत्पत्ति होती है।

४ सोम की अग्नि में हवन करते समय सोम अग्नि के रूप में चला जाता है। वह अग्नि-ज्वाला-रूप में शक्ति-भर उठकर गान्त हो जाता है और तत्पश्चात् सोम के

१ तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपुरुष ।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथोपुर ॥
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ।
वसन्तो अस्यासीद्राज्यं ग्रीष्म इध्म शरद्धवि ॥
तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत सम्भृतं पृषदाज्यम् ।
पशून् ताश्चके वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये ॥
तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे ।
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजु स्तस्मादजायत ॥
तस्मादश्वा भजायन्त ये के चोभयादत ।
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय ॥ इत्यादि ।

(ऋग्वेदीय पुरुषसूक्त)

रूप में ही बदल जाता है। यह अग्नि के सोम रूप में और सोम के अग्नि रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित रहती है। इस परिवर्तित होने की प्रक्रिया को यज्ञ कहा जाता है।

५. सर्वादि प्रजापति का विस्तृत होना जैसे यज्ञ बताया गया और सम्पूर्ण प्रजा की उत्पत्ति उस यज्ञ से निर्दिष्ट की गई, वैसे ही प्रजाओं का निरन्तर प्रजनन जो अबाध गति से चल रहा है, वह भी यज्ञ के ही द्वारा चल रहा है। जिस प्रकार वस्तु-स्वरूप रक्षा यज्ञ से ही सम्भव है। उसी प्रकार वस्तु समुत्पादन भी यज्ञ से ही सम्भव है। इसके स्फुट दृष्टान्त भी देखे जा सकते हैं। वीज से एक छोटा पौधा बनता है। इसमें आरम्भ से यज्ञ की ही प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी में सर्वत्र अग्नि व्याप्त है। उस अग्नि पर केवल थोड़ा-सा आवरण है। आवरण को हटाते ही वह अग्नि अपना स्वरूप प्रकट कर देती है। श्रुतियों में जो 'त्र्यङ्गुला वेदि' लिखा है, उसका आशय यह है कि तीन अंगुल आवरण हटा देने से अग्नि अपना स्वरूप स्फुट कर देती है। जब कृपक नया अन्न पैदा करने को अथवा माली नया पौधा लगाने को उद्यत होता है, तब वह पहले भूमि को किञ्चित् खोदता है। उसका खोदना आवरण हटाने के लिए ही है। आवरण हटाने पर उस अग्नि पर वीज डाल दिया जाता है। वह वीज सोमप्रधान है, उसकी अग्नि पर आहुति होती है। इसके साथ ही सोमप्रधान जल का सेक भी वहाँ आवश्यक है, क्योंकि वीज में जितना सोम का अन्न था, उससे काम नहीं चल सकता था। जल में सोम की प्रचुर मात्रा है, जैसा कि पहले मन्त्र के व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार, अग्नि पर सोम की आहुति से एक यज्ञ सम्पन्न हुआ और इसका फल हुआ एक अक्षुर की उत्पत्ति। इसके आगे पुनः यज्ञ-प्रक्रिया चलती रहती है। अग्नि के भीतर जो सोम का अन्न आर्द्रता है, उसे सूर्य-मण्डल की अग्नि अपनी ओर ऊपर को खींचती है। किन्तु उसमें पार्थिवाञ्ज भी है, इसलिए वह पृथ्वी से छूट नहीं सकता। पृथ्वी का अन्न मृत्तिका उसके साथ ही खिंचती चलती है। परिणाम यह होता है कि अक्षुर क्रमशः ऊपर को बढ़ता जाता है। पृथिवी और सूर्य के आकर्षण-विकर्षण से आगे चलकर उसमें अनेक शाखाएँ भी निकल आती हैं और यज्ञ-प्रक्रिया से ही परिपाक होते-होते वहाँ पुष्प और फलों का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि पृथ्वी का स्वरूप काल है। पृथ्वी को श्रुतियों में सर्वत्र कृष्णा ही कहा गया है और सूर्य का ऊपरी कवच-भाग हिरण्यवर्ण बतलाया गया है। हिरण्यवर्ण लाल रंग को साथ लिये हुए पीले रंग को कहते हैं। इस वर्ण का पृथ्वी के दोनों वर्णों से संयोग होने पर हरित वर्ण उत्पन्न होता है। इसलिए अक्षुर और आगे उत्पन्न होनेवाले पत्र, शाखा आदि सब हरे वर्ण के होते हैं। जबतक यह यज्ञ-प्रक्रिया चलती रहेगी, तबतक पौधा या वृक्ष हरा-भरा बना रहेगा। किन्तु इस यज्ञ-प्रक्रिया का विच्छेदक भी एक प्राण आता है, जिसे यम-प्राण कहते हैं। उस यम-प्राण के द्वारा जब यज्ञ-प्रक्रिया विच्छिन्न कर दी जाती है और पृथ्वी का रस ऊपर उठना बन्द हो जाता है, तब पौधा या वृक्ष के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि अब पृथ्वी के कृष्ण वर्ण का सम्बन्ध वहाँ नहीं रहा, केवल सूर्य का उच्चत पीत वर्ण रह गया। इससे विचारकों की समझ में

आ सकता है कि वृक्षादि की उत्पत्ति और उनका धारण, ये दोनों कार्य यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा ही सम्पन्न हो रहे ह। यही स्थिति मगस्त प्राणियों की भी है। स्त्री के गर्भाशय-स्थित अग्नि पर शुक्र रूप सोम की आहुति पड़ती रहती है, उग यज्ञ प्रिया से एक नवीन प्राणिशरीर की उत्पत्ति का आरम्भ हो जाता है। जन्मश. यज्ञ प्रक्रिया ने ही शरीर समष्टित होता है और आगे जठर स्थित वैश्वानर अग्नि पर दो बार प्रतिदिन भोजन-रूप सोम की आहुति देते रहने से उसकी स्थिति बनी रहती है। जब वही यम आकर इस सोमाहुति-रूप यज्ञ-प्रक्रिया को विच्छिन्न कर देता है, तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसी आशय से श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है कि—

सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसवित्र्यध्वमेप वोऽस्त्विष्ट कामधुक ॥

अर्थात्, प्रजापति ने प्रजाओं के साथ ही यज्ञ को उत्पन्न किया और प्रजाओं को उपदेश दिया कि इसी के द्वारा तुम नये नये पदार्थों को उत्पन्न करते रहोगे और वही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा।

उपर्युक्त यज्ञ-प्रकारों के वर्णन से निष्कर्ष यह आया कि अग्नि के सस्कार को यज्ञ कहते हैं। अग्नि के वैदिक, दैविक और भौतिक रूप से तीन भेद अवगत देखे गये। इन अग्नित्रय का सस्कार करना ही यज्ञ है। वैदिक अग्नि को 'यजु' कहा जाता है। इस यजु. अग्नि के रस से ही समस्त वस्तुओं का स्वरूप सुरक्षित है। आगे वह यजु. ऋक् होता हुआ उत्क्रान्त होता है। वह फिर सोम के द्वारा साम-रूप से आता है तथा पुन. अग्नि के रूप में परिणत होकर यजु बन जाता है। यही वैदिक अग्नि का सस्कार है। दूसरा दैविक अग्नि वह है, जिसका विस्तृत स्वरूप वसु, रुद्र, और आदित्य के तारतम्य से बनता है। उसमें तेतीस देवता सन्निविष्ट रहते हैं। उसके अन्न, अर्क तथा प्राण के परस्पर परिग्रह द्वारा यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न होता है। तृतीय अग्नि भौतिक अग्नि है, उसमें हवन हुआ करता है। इस आहुति से अग्नि का स्वरूप निष्पन्न होकर फिर सोम बन जाता है। अग्नि में अग्नि और सोम दो पदार्थों की आहुति होना इसकी विशेषता है।

अग्नि-चयन यज्ञ उसे कहा जाता है, जब अग्नि के सस्कार के लिए अग्नि की ही आहुति दी जाय। सोम-यज्ञ उसे कहा जायगा, जब अग्नि-सस्कार के लिए सोम की आहुति दी जायगी। उस अग्नि के ११ भेद हैं। (१) पृथ्वी से सम्बद्ध गार्हपत्याग्नि, (२) सूर्य से सम्बन्ध रखनेवाली आहवनीयाग्नि, (३) अग्नि से सम्बन्ध रखनेवाली आठ प्रकार की धिष्ण्याग्नि तथा अन्तिम नेर्ऋत्याग्नि। इनमें अग्नि या सोम की आहुति देना ही सोम-यज्ञ है। चित्य और चितेनिधेय यह दो प्रकार की अग्नि अग्नि-चयन-यज्ञ का आधार है। जब अग्नि में अग्नि की आहुति से अग्नि का चयन किया जाता है, तब अग्नि के बलवान् होने से आत्मा भी प्रबल हो जाता है। इसीलिए भूतों का सम्बन्ध उसमें निर्वल होकर टहनी में से सूखे हुए पत्तों के अनुसार झडकर

अलग हो जाता है। अतः, आत्मा, भूमि और चन्द्रमा दोनों को छोड़कर शुद्ध निराले अग्नि-रूप से सूर्य में चला जाता है। परन्तु अग्नि में यदि सोम की आहुति दी जाय, तो आत्मा का सूर्याभिमुख गमन नहीं होता, किन्तु स्वर्ग का सुख उसको अवश्य होता है। जिस प्रकार सूर्य का सवत्सर सम्पूर्ण देवों से बना हुआ होता है, उसी प्रकार जीव के शरीर में स्थित वैदवानर अग्नि भी सम्पूर्ण देवताओं से बना हुआ है। अतः, अग्नि में सोम की आहुति देना सम्पूर्ण देवताओं की ही आहुति देना है।

इस प्रकार, यज्ञ-विज्ञान का सश्रित वर्णन किया गया। इसका साराग्न यही है कि लोक-व्यवहार में अग्नि पर सोम की आहुति देने को ही हमलोग यज्ञ कहा करते हैं। किन्तु ये अग्नि और सोम भी यज्ञ द्वारा ही उत्पादित हैं। जब अग्नि और सोम नहीं थे, तब भी यज्ञ होता था और उससे नये-नये तत्वों का आविर्भाव होता रहता था। उस समय के यज्ञ-पुरुष के अवयवों का ही परस्पर सम्मिश्रण-रूप यज्ञ है। जैसा कि पुरुष-सूक्त में बताया गया है कि—‘देवा यज्ञं तन्वाना आवधन् पुरुषं पशुम्’, अर्थात् आरम्भ में यज्ञ करते हुए देवताओं ने पुरुष को ही पशु बनाया। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस यज्ञ का वर्णन पुरुष-सूक्त में कई मन्त्रों में है कि वसन्त ही वर्षों आज्य (घृत) था, ग्रीष्म ईन्धन था, शरद् हवि था। इस प्रकार, ऋतुओं से वह यज्ञ चला था। अर्थात्, काल के अवयव और पुरुष के अवयव उस यज्ञ का सम्पादन करते थे। इसी यज्ञ से ऋग्यजु साम की भी उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात्, प्रकाश पैलना और मूर्त्ति बनना आदि जो ऋक्, साम और यजु के स्वरूप पहले दिखाये जा चुके हैं, वे भी यज्ञ-क्रिया से ही सम्पन्न होते हैं। अस्तु, प्रकृत में वक्तव्य यह था कि निर्गुण, निष्क्रिय, निस्सग एक व्यापक तत्त्व से सृष्टि कैसे हुई, इसकी उपपत्ति के लिए माया या प्रकृति नाम की मूल तत्त्व की एक शक्ति माननी पड़ी। किन्तु आगे अक्षर पुरुष तक केवल प्राण-व्यापार ही चलता रहा, प्राण भी रूप, रसादि गुणों से रहित है और स्थानावरोधक नहीं है, अर्थात् भूतों का यह स्वभाव है कि जहाँ एक वस्तु रहे, वहाँ दूसरी नहीं आ सकती है। एक भित्ति में एक छोटी-सी कील भी यदि गाड़ी जायगी, तो पहले उस भित्ति से उतना अंश हट जायगा, तब उस छोटी-सी कील का समावेश वहाँ हो सकेगा। एक विन्दु पर दो भूतों का समावेश नहीं हो सकता। किन्तु प्राण में यह बात नहीं है। वह स्थान रोकनेवाली वस्तु नहीं, इसलिए एक विन्दु पर भी बहुत-से प्राणों का समावेश हो सकता है। तब पुनः प्रश्न उठता है कि ऐसे विलक्षण धर्मवाले भूतों की उत्पत्ति हो कैसे गई, जहाँ रूप, रसादि विलकुल नहीं थे, वहाँ रूप, रसादि कैसे उत्पन्न हो गये। या जो तत्त्व स्थानावरोधक नहीं था, उसमें स्थानावरोध की शक्ति कैसे आ गई। इस प्रश्न का समाधान कर सृष्टि प्रक्रिया को बुद्धि में ठीक-ठीक बैठाने के लिए पुरुष और प्रकृति के अतिरिक्त एक ‘शुक्र’ नाम का तत्त्व और मान लेना पड़ता है। यह स्थानावरोधक हो जाता है और रूप, रसादि की भी पूर्वावस्था इसमें प्रकट होने लगती है।

इस शुक्र की उत्पत्ति भी यज्ञ-प्रक्रिया से ही हुई।

शुक्र की उत्पत्ति

धर पुरुष की मूलभूत जो पाँच बलाएँ बताई गई, उनमें प्रथम बला प्राण है और उसके द्वारा ही वाक्, यजु. और साम नाम के तीन ब्रह्मनिक वेदों का प्रादुर्भाव होता है, यह वेद-ग्रन्थार्थ-निरूपण में कहा जा चुका है। इन वेदों के यानायात-रूप परस्पर सघर्ष से एक नई वस्तु उत्पन्न हो जाती है, जिसको 'सुवेद' अथवा 'स्वेद' कहा जाता है। हमारे शरीर में ही यह अनुभवसिद्ध है कि जब कोई आकस्मिक विचार मन पर आकर आवेश उत्पन्न करता है और उसका धन जब प्राण पर भी लगता है, तो ललाट आदि शरीर के अवयवों से प्रस्वेद चू पड़ता है। इसी दृष्टान्त से विद्वान् मम्मन्न सकते हैं कि वेदों की सघर्ष-रूप क्रिया से भी एक स्वेद उत्पन्न हो गया। एक नई वस्तु होने के कारण 'सु' विशेषण लगाकर 'वेद' नाम ही इसको दिया गया। किन्तु भाषा-नियम के अनुसार 'सुवेद' शब्द क्रमशः 'स्वेद' के रूप में चला आया। यही चतुर्थ वेद 'अथर्ववेद' नाम का है। अथर्ववेद के गोपय-ब्राह्मण में यह सब प्रक्रिया स्पष्टतया आम्नात हुई है।

पहले केवल ब्रह्म (वेद) ही था। उसने विचार किया कि कोई नई वस्तु उत्पन्न की जाय, जिससे मैं एकाकी न रहूँ। इस इच्छा से उसने तप और श्रम किया, (स्मरण रहे कि ब्राह्मणों में जहाँ किसी नवीन वस्तु के उत्पादन का प्रसंग आता है, वहाँ सर्वत्र 'स ऐक्षत', 'स तपोऽतप्यत', 'सोऽश्राम्यत', ये तीनों वाक्य प्रायः अवश्य लिखे जाते हैं। इन वाक्यों से इच्छा, तप और श्रम नाम की तीन वृत्तियाँ बताई जाती हैं। कहा जा चुका है कि मन, प्राण और वाक् नाम के तीन तत्त्व सब में अनुप्रविष्ट हैं। उनमें मन की वृत्ति का नाम 'इच्छा', प्राण की वृत्ति का नाम 'तप', और वाक् की वृत्ति का नाम 'श्रम' है। इन तीनों वृत्तियों को दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि किसी भी नई वस्तु का उद्भव आत्मा से ही होता है और आत्मा के सब अंग अपनी-अपनी वृत्ति धारण कर नई वस्तु के प्रादुर्भाव में लगते हैं। वही क्रम यहाँ भी बताया गया है।) इस तप और श्रम से उसके ललाट में स्वेद हुआ। यही प्राण से आप् की उत्पत्ति का प्रकार है। इसके अनेक धर्मों और कई नामों का भी ब्राह्मण-श्रुति में वर्णन है। अथर्ववेद का दूसरा नाम भृग्वङ्गिरोवेद या अथर्वाङ्गिरस भी

१ ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत्। स्वयं तु एकमेव। तदैक्षत, महद्वै यक्षम्, तदैकमेवास्मि। हन्ता ह मदेव मन्मात्र द्वितीय देव निर्मम इति। तदभ्यश्राम्यत् अभ्यतपत् समतपत्। तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य स्नेहो यदादर्थमजायत तेनानन्दत्। तमब्रवीत् महद्वै यक्ष सुवेदमविदामह इति। तद्यदब्रवीत् महद्वै यक्ष सुवेदमविदामह इति तस्मात् सुवेदोऽभवत्। त वा एत सुवेद सन्त स्वेद इत्याचक्षते परोक्षेण। परोक्ष प्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विप।

स भूयोऽश्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत्। तस्य श्रांत्स्य तप्तस्य सन्तप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्तेभ्य पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दत्। तान्निरनन्दत्। तदब्रवीत् आभिर्वा अहमिद सर्व धारयिष्यामि यदिद किञ्च इति। तस्माद्द्वारा अभवस्तद्धाराणा धारात्वम्। यच्चासु धियते। तस्माज्जातया अभवस्तज्जायाना जायात्वम्। यच्चासु पुरुषो जायते। यच्च पुत्र पुन्नाम नरकमेकशततार तस्मात्त्रिति पुत्रस्तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्। तस्मादापो अभवस्तदपागपत्वम्।

प्राप्त होता है। उसका आशय है कि इस स्वेद-रूप चतुर्थ वेद में भृगु और अगिरा नाम के दो ऋषि प्राण हैं। प्राण मूलतः ऋषि-रूप ही होता है। आगे पितृदेव आदि का प्रादुर्भाव होता है, यह उन प्रसंगों में स्पष्ट करेंगे। भृगु और अगिरा मूलभूत ऋषि प्राण हैं, जो 'अप्' तत्त्व में व्याप्त रहते हैं। एक मूल प्राण तत्त्व से उत्पन्न होने पर भी इनमें थोड़ी विलक्षणता आती है। भृगु सञ्चल्य या माधुर्य की प्रधानता रखता है और अगिरा धार-रस या रुध्रता की। सञ्चल्य या मधुरता का विकास ही आगे सोम-तत्त्व में होता है और धार या रुध्रता का विकास अग्नि-तत्त्व में। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये भृगु और अगिरा सोम और अग्नि की पूर्वावस्थाएँ हैं। इनका परिचय श्रुति ने बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि—

अर्चिपि भृगुः संवभूव अङ्गारेष्वङ्गिराः ।

अर्थात्, ईन्धन को जलाने पर जो अग्नि की ज्वाला निकलती है, उसमें भृगु है। और ज्वाला हट जाने पर जो जाज्वल्यमान अगार बच जाते हैं, उनमें अगिरा है। आशय स्पष्ट है कि सोम तत्त्व के कारण ही ज्वाला होती है। लोक में भी जब राल को ऊपर उछालते हैं, तब ज्वाला प्रतीत होने लगती है। वह सोम की प्रधानता का ही परिणाम है। कर्पूर आदि जिन वस्तुओं में सोम की बहुलता है, उनमें ज्वाला बहुत शीघ्र उठ जाती है। इससे ज्वाला में भृगु वताने से उसका सोम तत्त्व से सम्यन्ध सिद्ध हुआ और अगार धारताप्रधान तत्त्व रहते हैं, उनमें अगिरा की स्थिति बतलाई गई। अस्तु, आगे उत्पन्न होनेवाली अवस्थाओं को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि अगिरा अग्नि है और भृगु सोम। इनमें भृगु की क्रमशः स्थूलता होने पर तीन अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम सबसे सूक्ष्म सोम, उसके आगे उससे किञ्चित् स्थूल दूसरी अवस्था वायु और तीसरी घनावस्था 'अप्' या जल। इनमें वायु क्रियाशील है, वही सवत्रो चलाता है। उस वायु की प्रेरणा से अगिरा-रूप अग्नि में भृगु-रूप सोम की पूर्ण आहुति हो जाती है। इसी से शुक्र की उत्पत्ति होती है। इसका संकेत यजु संहिता के अन्तिम अध्याय-रूप ईशावास्योपनिषद् में किया गया है—

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत् ।
तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥

इस मन्त्र के पूर्वार्ध में उस 'यज्जू' नामक अग्नि का संकेत है, जिसका विवरण पहले वेद-शब्दार्थ-निरूपण में किया जा चुका है। यत् और जू नाम से गतिशील और स्थितिशील दो तत्त्वों का सम्मिश्रण इसमें है। यही यजु अग्नि यहाँ अगिरा रूप से परिणत हुआ है। इसलिए कार्यकारण का अभेद मानकर उसी यजु अग्नि में यहाँ हवन बताया गया है। मन्त्र का अर्थ है कि 'जो विलकुल नहीं चलता और मन से भी अधिक वेग रखता है?' यह संकेत किसी स्थिति गतिशील तत्त्व का है। देवता भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनसे भी पहले पहुँच जाता है। वह टहरा

आप्नोति इ वै मर्वान् कामान् यान् कामयते इति ।—गोपथ-ब्राह्मण, पूर्वभाग, प्रपाठक १, ब्राह्मण १-२ ।

हुआ भी अन्य दोड़नेवालों से आगे रहता है, इसीमें मातरिवा नाम का वायु अणु तत्त्व को (यहाँ अन्तिम अणु का नाम देकर सम्पूर्ण भृगु-तत्त्व का संकेत कर दिया गया है) इसमें डाल देता है, अर्थात् उसका हवन कर देता है । कहा जा चुका है कि गतिशील होने के कारण वायु को ही यहाँ भृगु के अगिरा में हवन करने का कर्त्ता माना गया है । इसके अग्रिम मन्त्र में—

तदेजति तत्रैजति ।

इत्यादि मन्त्र में वही स्थिति गतिशीलता का विवरण किया है और उसके आगे के मन्त्र में इसकी आत्मरूपता का पुनः स्मरण कराया गया है । पुनः उसके आगे के मन्त्र में शुक्र का निरूपण स्फुट रूप से है—

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात्
च्छाश्वतीभ्यः समाम्यः ॥

अर्थात्, मातरिवा वायु अगिरा में भृगु का आवाहन कर उससे उत्पन्न होनेवाले शुक्र को चारों ओर से घेर लेता है । उस शुक्र का स्वरूप इस मन्त्र में बताया गया है कि वह अकाय है, अर्थात् चयन होकर स्थूलरूपता को अभी प्राप्त नहीं हुआ है— और 'व्रण', अर्थात् मध्यविच्छेद और 'स्नायु', अर्थात् ग्रन्थिरूपता से भी रहित है । शुद्ध एक तत्त्व रूप है और 'पाप', अर्थात् किसी दोष से अनुविद्ध नहीं है । उत्तमार्थ में वायु के विशेषण दिये गये हैं कि वह 'कवि', अर्थात् सर्वकार्यकुशल है, 'मनीषी', अर्थात् मन का भाग भी उसमें सम्मिलित है, सबको व्याप्त करके रहने का उसका स्वभाव है और वह 'स्वयं भू' अर्थात् मूलतत्त्व का ही एक रूपान्तर है । वही आगे बहुत काल तक स्थिर रहनेवाले तत्वों को उत्पन्न करता रहता है । ब्राह्मणों में भी इस शुक्र की उत्पत्ति का अनेक स्थानों पर विवरणपूर्ण संकेत मिलता है । आगे अक्षर पुरुष क्षर कलाओं के परिणाम-रूप इस शुक्र से सम्पूर्ण जगत् की रचना करता है । इस शुक्र में भी अवान्तर तीन भेद हैं, जिनके नाम हैं—वाक्, अणु और अग्नि । स्मरण रहे कि वैदिक विज्ञान के प्रकट करने में यह भी एक बहुत बड़ी कठिनता है कि यहाँ एक ही शब्द भिन्न-भिन्न तत्वों में प्रयुक्त हो जाता है । जैसे इस 'वाक्' शब्द को ही लीजिए । अव्यय पुरुष कलाओं में भी सबकी मूलभूत एक वाक् कही गई है । क्षर पुरुष की कलाओं में तीसरी कला 'वाक्' है । और, यहाँ शुक्र-रूप भी एक 'वाक्' है । अवश्य ही इन सबका परस्पर सम्बन्ध बताने के लिए ही श्रुति एक शब्द से इनका निर्देश करती है । अव्यय पुरुष की कलारूपा वाक् ही स्थूलता प्राप्त कर क्षर पुरुष की कला-रूप में और शुक्र-रूप में विकसित होती है । इस सम्बन्ध को सदा ध्यान में रखा जाय, इस विचार से श्रुति एक ही शब्द का इन अर्थों में प्रयोग करती है । किन्तु किञ्चित् अवधान दृष्ट जाने से अन्वेषक को इनमें बहुत धोखा हो सकता है । कही-कही विशेषणों द्वारा इनके पार्थक्य की सूचना दे दी जाती है । जैसे—'आम्भृणी वाक्', 'वेकुरा वाक्' इत्यादि विशेषण वाक् की परस्पर व्यावृत्ति के लिए लगाये जाते हैं । परन्तु, वे विशेषण सर्वत्र

प्रयुक्त नहीं होते और अवधान न रहने से भ्रम होना बहुत सम्भव रहता है। इमी प्रकार, 'अग्नि' शब्द भी कई अर्थों में प्रयुक्त है। स्वयं भूमण्डल में प्रादुर्भूत यज्ञ नाम की एक अग्नि है, जो सबकी मूलभूत है। अक्षर पुरुष की कलाओं में भी एक अग्नि नाम आया है। क्षर पुरुष की कलाओं में 'अन्नाद' नाम से इसी अग्नि को बताया गया है। और, यहाँ शुक्र-रूप भी एक अग्नि है। इन सबके अतिरिक्त ताप और ढाह की शक्ति रखनेवाली एक प्रसिद्ध अग्नि है, जिसका सभी को अग्नि शब्द से परिचय है। इसकी भी भिन्नता बतलाने के लिए 'ब्रह्माग्नि', 'देवाग्नि', 'भूताग्नि' या 'वासवाग्नि' इत्यादि विशेषणों का उल्लेख है, किन्तु वही कठिनता है कि विशेषण सर्वत्र प्रयुक्त नहीं होते और अन्वेषक को भ्रम हो जाने का भय बना रहता है। इसके प्रतीकार के लिए वैज्ञानिक प्रणाली की उत्तम व्याख्या की बड़ी आवश्यकता है। अस्तु, यह सब तो प्रासंगिक बात है। प्रचलित प्रकरण यह है कि अक्षर पुरुष कर्त्ता या निमित्त कारण है और क्षर पुरुष की कलाएँ शुक्र का उत्पादन कर जगत् का उपादान कारण बनती हैं। मूल कलाएँ, जो प्राण, अप्, वाक्, अन्नाद और अन्न नाम से पहले बतलाई जा चुकी हैं, वे एक दूसरी में मिलकर परस्पर सघटित तप धारण करती हैं, जिसे 'पुरजन' रूप कहते हैं। वेदान्त-दर्शन में जिस प्रकार पौंचो भूतों का पचीकरण विस्तार बताया जाता है कि समस्त भूत परस्पर मिलकर पचीकृत भूत-रूप में आते हैं, तब उनसे जगत् का निर्माण होता है। पचीकृत रूप में आधा भाग अपना-अपना रहता है और आधे में शेष चारों भूतों के अन्न सम्मिलित होते हैं। यही प्रक्रिया इन क्षर पुरुष की कलाओं में भी जान लेनी चाहिए। वेदान्त-दर्शन में इस प्रक्रिया का नाम 'पचीकरण' प्रसिद्ध है और वैदिक विज्ञान में इसे 'सर्वदुत यज्ञ' के नाम से कहा जाता है। इसे 'सर्वदुत यज्ञ' से ही आगे सबकी उत्पत्ति बताई जाती है, जैसा कि—'तस्माद्यज्ञात्सर्वदुत ऋच सामानि जजिरे' इत्यादि प्रमाण पूर्व उद्धृत हो चुके हैं। यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि शुक्र के जो तीन भेद हम कह चुके हैं, इनको ही 'ब्रह्मवीर्य', 'अन्नवीर्य' और 'विड्वीर्य' नाम से भी कहा जाता है। 'वाक्' ब्रह्मवीर्य है, ब्रह्मवीर्य की प्रधानता रखनेवाले 'ब्राह्मण' का वाक् ही मुख्य शस्त्र है—'वाग्वज्र विससर्ज ह' (भागवत, स्कन्ध १)। अग्नि अन्नवीर्य है, उसमें तीक्ष्णता बहुत रहती है और शान्त रहनेवाला 'आप्' तत्त्व 'विड्वीर्य' या 'वैश्वीर्य' कहलाता है। उसमें उग्रता नहीं, वह शमप्रधान है। इस प्रकार, भारतीय सस्कृति की वर्ण-व्यवस्था का मूल वैदिक विज्ञान सृष्टि के आरम्भ में ही मान लेता है। इनका विवरण बृहदारण्यक उपनिषद् में (अतपथ-ब्राह्मण के चौदहवें काण्ड में अ० ३, ब्रा० ४, क० ११) है। वहाँ इन वीर्यों के उत्पादक देवताओं का भी निर्देश है और उन देवताओं के अनुप्रवेश से मनुष्यों में वर्ण-विभाग होता है, यह भी स्पष्ट किया है। साथ ही यह भी बताया है कि एक-एक वर्ण ससार के व्यवहार का निर्माण करने में समर्थ नहीं होता। सब परस्पर मिलकर ही जगच्चक्र को चला सकते हैं। आगे आधिदैविक कलाओं की सहायता से मुख्य कलाओं द्वारा क्षर पुरुष की अधिभौतिक कलाएँ उत्पन्न होती हैं।

१ ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव, तदेक सन्नव्यभवत् तच्छ्रेयो रूपमत्यञ्जत क्षत्र यान्येतानि

आधिभौतिक कलाएँ

जिस पर हम निवास करते हैं, वह एक पृथ्वी-मण्डल है, जिसको 'भूः' कहा जाता है। यह पूर्ण रूप से सूर्य मण्डल से सम्बद्ध है और उसीके आकर्षण में रहती और चलती है। सूर्य-मण्डल स्वर्ग या 'स्व.' कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में जो अवकाश है, उसे अन्तरिक्ष या 'भुवः' कहते हैं। उस प्रकार भू, भुवः, स्वः ये तीन मिलकर एक त्रिलोकी बनती है। इस त्रिलोकी को श्रुतियों में 'रोदसी' इस द्विवचनान्त शब्द से उल्लिखित किया है। इसमें दो मण्डल हैं—पृथ्वी और सूर्य, इसलिए द्विवचनान्त शब्द का प्रयोग है। अब आगे जिस प्रकार यह पृथ्वी सूर्य से सम्बद्ध है, उसी प्रकार सूर्य मण्डल भी एक-दूसरे प्रधान मण्डल में बँधा हुआ है। उस मण्डल का नाम परमेष्ठिमण्डल और उस लोक का नाम 'जन-लोक' या 'जन.' है। इन दोनों के मध्य का अन्तरिक्ष 'मह.' नाम से कहा जाता है। इस प्रकार 'स्व.', 'मह.', 'जन.' इन तीनों की दूसरी त्रिलोकी हुई। इस त्रिलोकी को 'क्रन्दसी' इस द्विवचनान्त शब्द से श्रुतियों में कहा गया है। सूर्य और परमेष्ठी दो मण्डल रहने के कारण यहाँ भी द्विवचनान्त शब्द है। वह परमेष्ठी-मण्डल भी किसी उच्च मण्डल से पूर्णतया सम्बद्ध है। उस मण्डल का नाम 'स्वयम्भू' मण्डल है, और उस लोक को 'सत्य' लोक या 'मत्यम्' नाम से कहा जाता है। परमेष्ठी और स्वयम्भू के मध्य का अन्तरिक्ष 'तप.' नाम से श्रुतियों में कहा गया है। इस प्रकार, 'जन.', 'तप.', 'सत्यम्' की एक तीसरी त्रिलोकी हुई, जिसका व्यवहार 'सयती' इस द्विवचनान्त शब्द से श्रुतियों में है। इस प्रकार, ये सात लोक बनते हैं। दो लोकों का दो बार नाम आ जाने से तीन त्रिलोकी की गणना बताई गई है। इन सातों का स्मरण वेदानुयायी द्विज प्रतिदिन अपने सन्ध्योपासन में सात व्याहृतियों के रूप में करते हैं— भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्। इनमें चार मण्डल और तीन मध्य के अन्तरिक्ष हैं, जैसा कह चुके हैं। किन्तु इस पृथ्वी और सूर्य के मध्य के अन्तरिक्ष में एक मण्डल है, जिसे 'सोम-मण्डल' या 'चन्द्र-मण्डल' नाम से कहा जाता है, उससे इस पृथ्वी का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसीके सम्बन्ध से पृथ्वी पर ऋतु आदि का परिवर्तन होता है। इसलिए इस पृथ्वी के निवासी हम लोग उसे भी मण्डल के रूप में ही गिनते हैं। इस प्रकार, सात में पाँच मण्डल और 'मह.', 'तप.' नाम के दो अन्तरिक्ष रह जाते हैं। यद्यपि उन अन्तरिक्षों में भी वरुण, बृहस्पति आदि बहुत बड़े-बड़े मण्डल हैं, किन्तु उनसे पृथ्वी का साक्षात् सम्बन्ध नहीं। सूर्य-मण्डल द्वारा ही उनसे सम्बन्ध है। इसलिए उन्हें मण्डलों की गणना में नहीं लिया जाता। तीनों त्रिलोकियों की तीन पृथ्वी

देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुण सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति तस्मात् क्षत्रात् पर नास्ति तस्माद् ब्राह्मण क्षत्रियमथस्तादुपास्ते राजसूये एव तद्यज्ञो सैषा क्षत्रस्य योनिर्यद् ब्रह्म तस्माद्यद्यपि राजा परमता गच्छति ब्रह्मोवात्तत उव निश्रयति स्वा योनि य उ एव हिनस्ति त्वा स योनि गच्छति, स पापीयान् भवति, यथा श्रेयास हिंसित्वा ॥ ११ ॥ स नैव व्यभवत् स विश्वमसृजत् वाज्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्य विश्वेदेवा मरुत इति । स नैव अभवत् स शौर्दं वर्णमसृजत्, पूषणमिय वैपूषेय हीद सर्वं पुष्यति यदिद किञ्च स नैव व्यभवत् तच्छ्रेयो रूपमत्यसृजद्भर्मम् ।

और तीन द्युलोको का वर्णन ऋग्वेद-सहिता के अनेक मन्त्रों^१ में आया है। उन मन्त्रों में सूर्य को सम्पूर्ण भूमि और समस्त स्वर्गों का धारण करनेवाला बताया गया है।

ये सातों लोक परस्पर अधरोत्तर हैं, अर्थात् पृथ्वी से यदि गणना करने लगे, तो पूर्व-पूर्व लोक से उत्तरोत्तर का लोक बड़ा होता जायगा। 'दहर' (अवर) शब्द का अर्थ छोटा और 'उत्तर' शब्द का अर्थ बड़ा है। मण्डलों में भी केवल चन्द्र और पृथ्वी के सम्बन्ध में भेद पड़ता है, किन्तु आगे के सारे मण्डल पूर्व-पूर्व से उत्तरोत्तर के बड़े हैं और उत्तरोत्तर मण्डल की व्याप्ति में, अर्थात् उसके साम-मण्डल में पूर्व-पूर्व मण्डल की व्याप्ति का समावेश होता जाता है। जैसा कि स्वयम्भू मण्डल सबसे बड़ा है। उसकी व्याप्ति में उसके लोक में उसके साम में हमारा एक ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण रूप से आ जाता है। उसके बाहर हमारे ब्रह्माण्ड का कोई अंग नहीं जा सकता। उससे अल्प व्याप्ति रखनेवाला दूसरा परमेष्ठिमण्डल है। उसकी व्याप्ति में पाँच लोक (भू, भुव, स्व, मह, जन) आ जाते हैं। इसके अनन्तर तीसरा सूर्य-मण्डल है, उसकी व्याप्ति में (भू, भुव., स्व) तीन लोक हैं। चौथा चन्द्र-मण्डल है, जिसका अधिष्ठान अन्तरिक्ष या भुव. है, उस लोक में हमारी पृथ्वी अन्तर्गत हो जाती है। इन्हीं पाँच मण्डलों का एक ब्रह्माण्ड बनता है। अनन्त आकाश में ऐसे अनन्त ब्रह्माण्ड हो सकते हैं। उनका आभासमात्र हमारे श्रुति, पुराणादि में दिया जाता है, किन्तु उनका कोई निरूपण नहीं किया जाता, क्योंकि उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। हमारा ब्रह्माण्ड पाँच मण्डलों में ही परिपूर्ण है।

यत्रपि सभी लोको में पाँचों अव्यय-कलाएँ, पाँचों अक्षर कलाएँ और पाँचों क्षर-कलाएँ व्याप्त हैं। इसलिए सभी षोडशी प्रजापति के रूप में और तीनों ही शुक्रों के संयोग से सब मण्डल बनते हैं, किन्तु फिर भी एक-एक मण्डल में एक-एक अक्षर-कला, एक-एक क्षर-कला और एक-एक शुक्र की प्रधानता है। स्वयम्भू-मण्डल में ब्रह्मा अक्षर पुरुष, प्राण अक्षर पुरुष और वाक् शुक्रप्रधान हैं। दूसरे परमेष्ठिमण्डल में विष्णु अक्षर पुरुष, आप् अक्षर पुरुष और अप् शुक्र की ही प्रधानता रहती है। तीसरे सूर्य-मण्डल में इन्द्र अक्षर पुरुष, वाक् अक्षर पुरुष और अग्नि शुक्रप्रधान है। अग्नि शुक्रप्रधान होने के कारण ही वह मण्डल अत्यन्त तेजस्वी और अत्यन्त प्रदीप्त है। यहाँ से आगे शुक्रों का क्रम बदल जाता है। पहिला क्रम था—वाक्, अप्, अग्नि। अब बदलकर क्रम चलता है—अग्नि, अप्, वाक् और सूर्य-मण्डल से ही पुनः आरम्भ होता है। अतः, अग्नि-शुक्र से तो सूर्यमण्डल बन ही गया। अब आगे चन्द्र-मण्डल में सोम अक्षर पुरुष, अन्न अक्षर पुरुष और अप् शुक्रप्रधान रहते हैं। अन्न की प्रधानता रहने के कारण ही 'सोमो राजा अन्नम्, सोम राजान देवा भक्षयन्ति' इत्यादि आशय के वाक्य श्रुतियों में बार-बार आते हैं। आगे पृथ्वी-मण्डल में अग्नि नाम का अक्षर पुरुष, अन्नाद नाम का अक्षर पुरुष और वाक् नाम का शुक्र प्रधान बनता है। यह स्मरण रहे कि

१ तिस्रो मातृसूनु पितृनु विभ्रदेक ऊर्ध्वस्तत्थौ नेममवग्लापयन्ति। मन्त्रयन्ते द्विवो अनुभ्य पृष्ठे विश्वविद वाचमविश्वमिन्वान्। (ऋक्, १।१६।१०)

तिस्रो भूमी धारयन् त्रीरुतघन् त्रीणित्रना विदये अन्तरेषाम्। ऋतेनादित्या महि वो महित्व तदयमन् वरुण मित्र चारु। (ऋक्० २।१७।८)

अन्तरिक्ष की व्याप्ति अधिक होने के कारण हमने चन्द्र-मण्डल को चतुर्थ मण्डल में गिन दिया है, किन्तु वास्तविक क्रम में चन्द्रमा की गणना पृथ्वी के अनन्तर पाँचवें मण्डल के रूप में उचित है, क्योंकि चन्द्र-मण्डल की व्याप्ति पृथ्वी की व्याप्ति के अन्तर्गत रहती है। और ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम यह पाँच कलाओं का क्रम भी चन्द्रमा को पाँचवाँ मण्डल मानने पर ही ठीक बैठता है। एव धर की पाँच कलाओं का क्रम भी प्राण, आप्, वाक्, अन्न और अन्न नाम से उसी क्रम में उपयुक्त होगा। अन्त, क्रम तो विवक्षाधीन हुआ करता है। किसी क्रम से समझ लीजिए, जिम-जिम तत्व की जहाँ-जहाँ प्रधानता है, वह स्पष्ट कर दिया गया। पाँचों भूतों का क्रम भी पाँचों मण्डलों के क्रम के अनुसार ही हमारे शास्त्रों में नियत है। स्वयम्भू-मण्डल का व्याप्ति-प्रदेश आकाश कहलाता है। स्वयम्भू-मण्डल में वाक् शुरु होने के कारण आकाश का गुण शब्द माना गया है। वेद भी वाक् के ही रूप हैं। इसलिए ब्रह्मा नाम के स्वयम्भू-मण्डल को 'ब्रह्मा वेदमय' कहा जाता है। यहाँ में ऋग्यजु.साम नाम के तीनों वेद सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में विस्तृत होते हैं। वेद-शब्दार्थ-निरूपण प्रकरण में कह चुके हैं कि ये अनादि वेद या ब्रह्म निःशेषित वेद कहे जाते हैं। आगे ब्रह्माण्ड में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए, उन सबमें ऋग्यजु.साम अवश्य रहते हैं। यदि ये वेद न रहे, तो उस वस्तु का ज्ञान ही हमें न हो सके। यह सब पहले स्पष्ट कर चुके हैं। दूसरे परमेष्ठिमण्डल की व्याप्ति जहाँ तक है, वह पंचभूत-क्रम में वायु कहा जाता है। इसीलिए वायु आकाशस्थित है, यह हमारे शास्त्रों में अनेकत्र आता है।^१ और आकाश से ही वायु की उत्पत्ति मानी जाती है।^२ कहा जा चुका है कि सोम, वायु और आप् ये तीनों एक ही तत्व की सूक्ष्मतम, सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाएँ हैं। इसलिए परमेष्ठिमण्डल को सोममय मण्डल या आपोमय मण्डल भी कहते हैं। यहाँ से तीन प्राण भृगु, अगिरा और अत्रि सर्वत्र ब्रह्माण्ड में फैलते हैं। भृगु से सोम, वायु और आप् तीनों का ग्रहण होता है और अगिरा से अग्नि, यम और आदित्य तीनों लिये जाते हैं। इसी मण्डल का सोम-तत्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में भरा हुआ है, उससे कोई भी स्थान खाली नहीं। यह हम 'त्वमाततन्वोर्वन्तरिक्षम्' इस मन्त्रांग की व्याख्या में पहले स्पष्ट कर चुके हैं। सूर्य-किरणों से आकृष्ट होकर यह सोम निरन्तर सूर्य-मण्डल में गिरता रहता है। इसी के कारण सूर्य प्रज्वलित रहता है। सोम प्रकाशमय या चमकदार नहीं है। जहाँ तक सूर्य-किरणों का सम्बन्ध है, वही तक उसमें चमक आती है, आगे वह नहीं चमकता। श्याम स्तर सा प्रतीत होता है। हमलोग जब ऊपर की ओर दृष्टि फेकते हैं, तब एक श्याम धरातल-सा प्रतीत होता है। उसका कारण यही है कि जैसे एक घने वन में कोई दीपक या विद्युत् यन्त्र जला दिया जाय, तो जितनी दूरतक उसके प्रकाश की व्याप्ति होगी, उससे बाहर घना अन्धकार रहेगा। हम अपनी दृष्टि उस ओर फेके, तो वह दृष्टि यही दृश्य देखेगी कि अनन्त अन्धकार के बीच में थोड़ा सा प्रकाश व्याप्त है। प्रकाश के चारों ओर के अन्धकार का भी हमारी दृष्टि में भान होगा।

१ यथाकाशगतो नित्य वायु सर्वत्रगो महान् ।—गीता

२. तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश आकाशाद्वायु ।—तैत्तिरीयोपनिषद्

जो परिस्थिति घने वन में उस टिमटिमाते दीपक की है, वही परिस्थिति अनन्त आकाश में हमारे इस सूर्य-मण्डल की है। वह चाहे करोड़ों कोसों तक अपना प्रकाश फैकता हो, किन्तु है आखिर वह भी सीमाबद्ध। उस प्रकाश के बाहर तो चारों ओर श्याम ही श्याम भरा है। हमारी दृष्टि प्रकाश मण्डल को चीरती हुई उस चारों तरफ भरे हुए श्याम स्तर का भी स्पर्श कर लेती है। वही श्याम धरातल के रूप में हमें दिखाई देता है। वायु का रूप श्याम दिखाई देता है। यह वैज्ञानिकों की कल्पना निःसार है। विना घनाभाव के वायु में रूप-प्रतीति नहीं हो सकती। अस्तु, तीसरा मण्डल यह सूर्य-मण्डल ही हुआ। पञ्चभूत-क्रम में इसकी व्याप्ति को तेज नाम दिया जाता है। शास्त्रोक्त तेज के सब लक्षण इसमें घटित हैं। यह सूर्य-मण्डल ही हमारी त्रिलोकी का सर्वस्व है। हमारे वेद-ग्रन्थों में 'इन्द्र' नाम से, 'आदित्य' नाम से, बारह आदित्यों के भिन्न-भिन्न नामों से या 'सूर्य' नाम से सबसे अधिक इसी का वर्णन है। इस त्रिलोकी का अधिष्ठाता ईश्वर-रूप सूर्य को ही माना जाता है। इस मण्डल से तीन तत्त्व समस्त ब्रह्माण्ड में फैलते हैं—ज्योति, गौ, आयु। ज्योति शब्द से प्रकाश और रूप दोनों लिये जाते हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रकाश का केन्द्र यही सूर्य-मण्डल है और रूप भी सब में यहीं से उत्पन्न होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी सब रूप सूर्य-किरणों में ही मानता है। सब रूप का उद्भव सूर्य-किरणों को कहने में वैदिक विज्ञान भी सहमत है। श्रुतियों में बार-बार आया है कि—

इन्द्रो रूपाणि कनिक्रदचरत् ।

अर्थात्, सूर्य-मण्डलस्थित इन्द्रप्राण समस्त रूपों का निर्माण करता हुआ विचरण कर रहा है। 'रूप रूप भवता बोभवीति' इत्यादि मन्त्र भी इसका सञ्चेत करते हैं। किन्तु आधुनिक विज्ञान का जो यह मन्तव्य है कि सूर्य-किरणों में ही रूप है और पदार्थों में रूप है ही नहीं, इसको वैदिक विज्ञान स्वीकार नहीं करता। सूर्य-किरणों अवश्य ही रूपों की निर्मात्री हैं, यह ठीक है। किन्तु, उनके निर्मित रूप पार्थिव या जलीय समस्त तत्वों में व्याप्त हैं। जैसा कि वेदार्थ-प्रकरण में स्पष्ट हो चुका है। दर्शन-शास्त्रों में भी रूप को तेज का गुण माना है, किन्तु पचीकरण-प्रक्रिया के अनुसार वह रूप, जल तथा पृथ्वी में भी आ जाता है। अस्तु, सूर्य-मण्डल से दूसरा तत्त्व प्रवाहित होता है—'आयु'। जब चेतनात्मक प्रत्येक वस्तु में वह आत्मा-रूप से स्थित है और वह कितने काल तक स्थित रहेगा, इन सबका नियमन सूर्य-मण्डल से ही होता है, इसलिए श्रुति इसे सम्पूर्ण जगत् का प्राण कहती है—'प्राण. जानामुदयत्येव सूर्यः'। सध्म प्रपञ्च के नेता देवगण भी सूर्य-मण्डल में ही संरुक्त रहते हैं, इसीलिए सूर्य को देवताओं की सेना वताया गया है—'चित्र देवानामुदगादनीकम् ।' तीसरा तत्त्व सूर्य-मण्डल से निकलता है—'गौ'। इस गो-तत्त्व के कारण ही सूर्य-किरणों का नाम ही गौ पड गया है। यह गौ ही समस्त रसों की जननी है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भिन्न प्रकार के जो रस हैं, उनका उद्भव भी सूर्य-किरणों से ही होता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी हमको होता है कि भिन्न-भिन्न धान्यों में या घास आदि में सूर्य-किरणों के परिपाक से ही भिन्न-भिन्न रस

उत्पन्न होते हैं। धान के पत्तों में कोई रस नहीं मिलता। परन्तु चावल में ही रस प्राप्त होता है। उन चावलों को किसने पकाया? सूर्य-किरणों ने। तब रस किसने दिया? उन्हीं सूर्य-किरणों ने। दुग्ध, दधि आदि में जो रसों का अनुभव आपको होता है, वह भी तो घास आदि के द्वारा सूर्य-किरणों का ही परिणाम है और वे ही गौ नाम की सूर्य-किरणें हमारे गौ नाम के प्राणी में प्रधान रूप में अवस्थित रहती हैं। इसी की वैज्ञानिक परीक्षा कर ऋषियों में उस पशु का भी नाम गौ रखा है। इसके शरीर में व्याप्त वे ही किरणें दुग्धादि में रस को अभिव्यक्त करती हैं और उम रस के द्वारा हमें जीवन देती हैं। इसीलिए हम जननी रूप से उम पशु का आदर करते हैं।

इस प्रकार, सूर्य-मण्डल से सम्पूर्ण प्रजाओं को प्राण-तत्त्व मिलते हैं, यह वैदिक विज्ञान का जागरित सिद्धान्त है।

भूत क्रम में चौथा मण्डल चन्द्रमा को मानना चाहिए। इसकी गणना चतुर्थ या पचम मण्डल के रूप में दोनों प्रकार से की जाती है। इसकी व्याप्ति अन्तरिक्ष में है और वही सूक्ष्म जल का स्थान माना गया है। वैदिक विज्ञान में समुद्र दो प्रकार के हैं। एक पृथ्वी पर प्रान्त भागों में जो बहुत बड़े जलाशय हैं, उन्हें समुद्र कहा जाता है और दूसरा अन्तरिक्ष का भी समुद्र नाम से वेदों में व्यवहार उपलब्ध है—

स उत्तरस्माद्धरं समुद्रम् । (ऋ० सं०)

ऋग्वेद-सहिता के इस मन्त्रांश में दोनों समुद्रों का स्पष्ट संकेत है। यहाँ उत्तर समुद्र शब्द से अन्तरिक्ष लिया गया है और अधर समुद्र पद से पार्थिव समुद्र। उत्तर का अर्थ यहाँ होगा ऊपर या ऊँचा तथा अधर का अर्थ होगा नीचा। जल-तत्त्व सोम की ही स्थूल अवस्था है। अतः, चन्द्रमा को सोम या सोममय पिण्ड नाम से भी कहते हैं।^१ इस भूमि में ऋतु-परिवर्तनादि में इस चन्द्रमा की बहुत बड़ी सहायता है। यज्ञ-प्रक्रिया में चन्द्रमा का अत्यन्त उपयोग है। यह भी स्मरण रहे कि वैदिक परिभाषा में चन्द्र शब्द से दोनों मण्डलों का व्यवहार है। पूर्वोक्त परमेष्ठिमण्डल भी सोमप्रधान होने के कारण चन्द्र कहलाता है और यह चन्द्रमा भी। यही कारण है कि ऋही-कही श्रुतियों में और विशेषतया आगम-शास्त्र तथा पुराणों में चन्द्रमा को सूर्य-मण्डल से ऊपर बताया गया है।^२ यहाँ परमेष्ठिमण्डल से अभिप्राय है, यह समझ लेना चाहिए। पचम मण्डल पृथ्वी प्रसिद्ध ही है। इसे श्रुतियों में कहा गया है 'अग्निर्गर्भा', अर्थात् पृथ्वी के गर्भ में अग्नि नाम का प्राण व्याप्त है। वह अग्नि अक्षर पुरुष की कला-रूप अग्नि है। क्षर पुरुष की अवस्था में उसी का नाम अन्नाद पड जाता है। वह पृथ्वी में व्याप्त है। चन्द्रमा के सोम-रूप अन्न का यह पृथ्वी भक्षण किया करती है, जैसे परमेष्ठी-मण्डल के सोम से सूर्य का जीवन चलता है, उसी प्रकार चन्द्र-मण्डल से निकले हुए सोम से पृथ्वी की ओषधि, वनस्पति आदि सबका जीवन रहता है और पृथ्वी में

१ चन्द्र मण्डल में सोम नाम की अक्षर पुरुष कला, अन्न नाम की क्षर पुरुष-कला और अप् नाम का शुक्र प्रधान रूपेण व्यवस्थित है।

२ आदित्याच्चन्द्रमसम्—छान्दोग्योपनिषत्, खण्ड, १० प्रपा० ५।

परिव्याप्त अग्नि भी इसी चन्द्रमण्डल के सोम का भक्षण कर जीवित रहती है। इस अभिप्राय से पृथ्वी-स्थित प्राण को अन्नाद और चन्द्र-मण्डल के प्राण को अन्न कहा जाता है। जिस प्रकार ऊपर के लोको से पृथ्वी को भिन्न-भिन्न तत्त्वों की उपलब्धि होती है, वैसे पृथ्वी भी अपने प्राणभूत अग्नि के द्वारा अपने तत्त्वों को ऊर्ध्वलोको में प्रेषित करती है। इनके नाम हैं—वाक्, गौ, यौ। पिण्ड बनाने के लिए ठोसपन सब जगह पृथ्वी से ही पहुँचता है। गौ नाम का सूर्य-प्राण भी है, उससे मिलकर यह पृथ्वीप्राण गौ आस्वाद-योग्य रस बनाता है। इसी प्रकार, घुलोक-पर्यन्त इसका रूप जाता है। यह पृथ्वी पचम और अन्तिम भूत है। इस प्रकार, पाँचों मण्डलों की व्याप्ति को ही वैदिक परिभाषा में 'पचभूत' सज्ञा दी गई है।

पञ्चभूत-सिद्धान्त

साइन्स वैदिक पञ्चमहाभूत-सिद्धान्त पर सदा से आक्रमण करता रहा है। पाश्चात्य साइंटिस्ट विद्वानों का कथन है कि भारतीय ज्ञानियों में जिनको पच महाभूत कहा गया है, वे कोई मौलिक तत्त्व नहीं, केवल योगज या अवस्थाविशेषमात्र हैं। मौलिक तत्त्व तो इनके उत्पादक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि हैं, जिनकी संख्या ६५, ९३ या इससे भी अधिक है। जिसको भारतीय पृथ्वी-तत्त्व कहते हैं। वह १०० पदार्थों की समष्टिमात्र है। इसी प्रकार, जल भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नियत मात्रा के संयोग से उत्पन्न एक योगज वस्तु है। तीसरा महाभूत जो तेज कहा जाता है, वह तेज नाम यदि उष्णता का हो, तो कहना होगा कि उष्णता एक योगज अवस्थामात्र है, वह कोई मौलिक तत्त्व नहीं। यदि प्रकाश या ज्वाला को तेज माना जाता है, तो वह अगार नाम के कार्बन-तत्त्व से भूमि के वायु में स्थित ऑक्सीजन का संयोग होने पर बनता है। इसी प्रकार, चौथा महाभूत जो वायु नाम से प्रसिद्ध है, वह भी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से उत्पन्न है। इसी तरह आकाश नाम का पचम महाभूत तो कोई वस्तु है ही नहीं। वह तो सारी वस्तुओं के रहने के लिए जो एक अवकाश चाहिए, उसी का नाम है। इस प्रकार पचमहाभूत-सिद्धान्त का आमूल खण्डन कर भारतीय दर्शन और विज्ञान की जड़ ही उखाड़ने का प्रयत्न है। किन्तु आश्चर्य है कि इस प्रकार के आक्षेप करनेवाले विद्वानों ने वैदिक विज्ञान की गम्भीरता में प्रवेश करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। इन पाँचों को मौलिक तत्त्व भारतीय ज्ञानियों में कहीं नहीं माना गया है, जिसकी कि वे आलोचना करते हैं। केवल वैज्ञानिक दर्शन में परमाणुवाद का आश्रयण कर, परमाणु-रूप में वायु आदि चारों को नित्य मान लिया गया है और आकाश को स्वरूप ही नित्य मान लिया गया है। किन्तु वह तो शिक्षा की एक श्रेणी है। दर्शन-मार्ग में जो प्रविष्ट हो, उसको सीधा सूक्ष्म तत्त्व में पहुँचाकर हताश नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि सीधा सूक्ष्म तत्त्व का वह ग्रहण न कर सकेगा और इससे हताश होकर इस मार्ग से ही मुँह मोड़ लेगा। इस प्रक्रिया को भारतीयों ने उचित नहीं समझा। उन्होंने क्रमशः सूक्ष्म तत्त्व का दिग्दर्शन कराया। उसी में एक श्रेणी यह भी आती है कि परमाणुओं से ही सम्पूर्ण जगत् का निर्माण हुआ है। यह Atoms

theory के नाम से पाश्चात्य देश में बहुत समय तक चलती गयी है। आगे की श्रेणियों में जाकर इसका निराकरण हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ न्याय के अनन्तर साख्य-शास्त्र की श्रेणी आ जाती है तथा पाश्चात्यां में Atoms theory को काटकर Evolution theory प्रतिष्ठित हुई है। साख्य-ज्ञान ने परिणामवाद स्वीकार करते हुए परमाणुओं की नित्यता का सर्वथा अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने भूतो में प्रत्येक की पाँच-पाँच अवस्थाएँ स्वीकार कर ली हैं। जिनके नाम योग-दर्शन के व्यास-भाग्य में स्पष्ट मिलते हैं—गुण, अणु, रेणु, स्कन्ध और सत्त्व। महा-भूतो की पहली शुद्ध अवस्था गुण है, जिनको तन्मात्रा शब्द से साख्य और योग-दर्शनो में कहा गया है। वे तन्मात्राएँ भी पाँच हैं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। ये महाभूतो के शुद्ध रूप हैं। यहाँ भी यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जो शब्द, स्पर्श, रूप आदि हमें प्रतीत होते हैं, वे शब्द-तन्मात्रा, स्पर्श-तन्मात्रा आदि नहीं हैं। वे तो महाभूत-निर्माण के अनन्तर इन्द्रिय-सयोग से प्रतीत होते हैं। जैसा कि श्रीभगवद्गीता में कहा गया है—

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय जीतोष्णसुखदुःखदाः ।

ये च सस्पर्शा भोगा दुःखयोनय एव ते ॥

—इत्यादि इन वाक्यों का अभिप्राय है कि जिन शब्द, स्पर्शादि का हमारी इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, वे तो इन्द्रिय और विषयों के सम्बन्ध से प्रकट होते हैं। वे स्पर्शज या सयोगज हैं। तन्मात्राओं का तो इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, यह साख्य और योग-दर्शनो में ही स्पष्ट कर दिया गया है। उन तन्मात्राओं को ही साख्य की परिभाषा में गुण कहते हैं। वे भूतो के अमिश्रित शुद्ध रूप हैं। यह स्वीकार कर लेने पर केवल नाममात्र का विवाद रह जाता है। हम जिसको रस-तन्मात्रा कहते हैं, उसे साइट्रिस्ट अपनी भाषा में Hydrozen कह लेते हैं, जिसको हम रूप-तन्मात्रा कहते हैं, उसे वे अपनी भाषा में Oxygen कह लेते हैं, इन तन्मात्राओं के स्वरूप की न कभी परीक्षा हुई और न उसके सत्य असत्य का निर्णय हुआ। आगे चलकर ये तन्मात्राएँ सब आपस में मिलती हैं, जिसे पचीकरण कहा जाता है। उस सम्मिश्रण से भूतो के अणुओं की उत्पत्ति होती है। अणुओं के परस्पर सम्बन्ध से फिर रेणु बनता है और उसके भी सम्बन्ध से स्कन्ध। फिर, शरीर आदि रूप में उनका परिणाम होने पर सत्त्व बनते हैं। आगम-शास्त्र में इन्हीं का नाम कला-तत्त्व और भुवन है। कलाएँ विशुद्ध तत्त्व हैं, उनके सयोग से उत्पन्न होनेवाले अणु तत्त्व कहलाते हैं और उनके भी परस्पर सयोग से बननेवाले रेणु या त्रसरेणु भुवन कहे जाते हैं। उनसे फिर आगे के स्कन्ध आदि बनते हैं। यह नाम रखने की अपने-अपने शास्त्र की परिभाषामात्र है। इससे जातव्य अज्ञ में कोई भेद नहीं पड़ता।

सारांश यह कि जिनको पंचभूत समझकर साइंस ने योगज सिद्ध किया, उन्हें तो हमारे शास्त्र भी योगज ही मानते हैं। उनको मौलिक तत्त्व मानने की भूल हमारे

शास्त्रों में नहीं की गई। इन्द्रियों से गृहीत होनेवाले पृथ्वी, जल, तेज आदि पचीकृत रूप हैं। इनमें सब तन्मात्राओं के अंग मिले हुए हैं, इसलिए इनकी योगजता स्पष्ट ही है। फिर, किस वात का खण्डन साइटिस्ट विद्वानों द्वारा हुआ और किम विज्ञान की जड़ उखाड़ी गई।

यह हुई दर्शन-शास्त्रों की बात। हमारा प्रकृत विषय तो वैदिक विज्ञान है। वैदिक विज्ञान में तो मौलिक तत्त्व केवल रस और बल हैं। आगे के सब योगज हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के हेतु हमने आरम्भ से सृष्टि प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया है। जिस मौलिक तत्त्व की खोज वैदिक विज्ञान ने की है, उसका तो स्वप्न भी पाञ्चात्य विज्ञान को कितने समय वाद होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। पञ्च महाभूत-सिद्धान्त के आधार तो हमारे ये ही हैं कि हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच हैं—श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना और घ्राण। इनसे गृहीत होनेवाले विषय भी पाँच हैं—गन्ध, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच हैं, जो इन भूतों पर कार्य करती हैं—वाक्, पाद, पाणि, पायु, उपस्थ। जगत् का चक्र चलानेवाले मण्डल भी पाँच हैं, जिनका दिग्दर्शन इसी प्रकरण में कराया जा चुका है। तब इनकी व्याप्ति के लोक भी पाँच हैं, जिनको पञ्च महाभूत के नाम से कहा जाता है। प्रत्येक भूत की अनेक अवस्थाओं का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है, जिसका दिग्दर्शन संक्षेप में स्थान-स्थान पर किया गया है। जितना विश्लेषण वैदिक विज्ञान ने किया है, उतना तो अभी पाञ्चात्य साइंस कर भी न सका। जैसा कि श्रुति और पुराणों में वायु को मरुत् नाम से ४९ प्रकार का बताया गया है। इनके सम्बन्ध से अग्नि के भी ४९ भेद किये गये हैं। इन ४९ अग्नि और ४९ वायु के पृथक्-पृथक् नाम और कार्य भी पुराणों में वर्णित हैं। यह प्रत्येक तत्त्व के अवस्था-भेद का विश्लेषण ही है। इन अवस्थाओं में आदि की अवस्था, मध्य की अवस्था और वर्तमान में प्राप्त होनेवाली अवस्थाएँ सभी अन्तर्गत हो जाती हैं। अग्नि कितने प्रकार की होती है, यह तो हम अनेक बार स्पष्ट करते आये हैं। आरम्भ से ही हमने बतलाया है कि मुख्य रूप से अग्नि घ्राण-तत्त्व का नाम है, जिसमें रूप, रस, गन्धादि कुछ नहीं होते। रूप, रसादि आगे चलकर इसकी अवस्थाएँ बनती हैं। फिर, वर्तमान साइंस यदि ताप को एक अवस्थाविशेष कहता है, तो नई बात कोई नहीं है। हाँ, किसकी अवस्था वह है, इसका स्पष्ट पता भी वैदिक विज्ञान देता है। अवस्था किसी तत्त्व की होती है। इसलिए केवल अवस्था कहकर तत्त्व का खण्डन कर देना भारी भूल है।

जल की तो ४ अवस्थाएँ स्पष्ट अक्षरों में वेदों में वर्णित हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि आत्मा-रूप मूल तत्त्व ने जिस जल को (अप तत्त्व को) उत्पन्न किया, वह चार अवस्थाओं में चार नामों से चार लोकों में व्याप्त है। उनके नाम हैं—अम्भ, मरीचि, भर् और आप्।^१ अम्भ इनमें वह है, जो सूर्य-मण्डल से (द्युलोक से)

१ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् । स इमान् लोकान् उज्ज्व भग्मोमरीचिर्भर आप , अदोऽन्ध परेण दिव धौ प्रतिष्ठा अन्तरिक्ष मरीचय पृथिवी भर । या अथस्तात् ता आप । सोऽद्भ्य पुरुष समुद्धृत्यामूर्धयत् । (ऐत०, १।१।१)

भी ऊर्ध्व-प्रदेश में महः, जनः आदि लोको में व्याप्त ? । अन्तरिक्ष में जो जल व्याप्त है, वह मरीचि रूप है । एव पृथ्वी के उत्पादन में जो जल अग्रसर होता है (जैसा कि आगे स्पष्ट होगा), वह भर् है और पृथ्वी पर प्रवाहित होनेवाला या पृथ्वी का खोदने पर निकलनेवाला 'आप.' नाम से ही प्रसिद्ध है । इनमें सर्वप्रथम जो अम्भ नाम कहा गया है, वह मौलिक जल-तत्त्व है, वही पचीकृत होकर अन्य तत्त्वों के सम्मिश्रण से स्थूल अवस्था में आकर जल-रूप में परिणत हुआ, जिसे हम देखते हैं, या जिसे पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं तथा अन्य काम लेते हैं । इस स्थूल जल का सम्मिश्रित रूप होना अनेक मन्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है—'अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तविश्वानि भेषजा अग्नि च विश्वशुभ्रवम्', अर्थात् जल के भीतर विराजमान जो सोम तत्त्व है, वह हमें बताता है कि जल के भीतर समस्त ओषधियाँ हैं, क्योंकि सोम में ही सूक्ष्म रूप से सारी औषधियाँ रहती हैं । इससे सोम के होने पर उनका होना भी सिद्ध हो जाता है और विश्व को शान्ति देनेवाला अग्नि-तत्त्व भी उसमें है, यह भी सोम बतला देता है, क्योंकि अग्नि के बिना सोम की सत्ता सम्भव नहीं । सोम के सम्बन्ध से अग्नि शान्ति-रूप बन जाती है । इस प्रकार, जब जल के भीतर दो तत्त्वों को वेदिक विज्ञान ने भी स्पष्टतया स्वीकार किया, तब नाममात्र के भेद से वैज्ञानिकों के खण्डन का कोलाहल क्या विशेषता रखता है !

गंगा-तत्त्व

इस प्रकार, जल की अनेक अवस्थाएँ मन्त्र ब्राह्मणों में विस्तार से वर्णित हैं । कर्म-काण्ड के सुप्रसिद्ध एक मन्त्र को ही लीजिए—

ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवु—
 र्या अन्तरिक्षा उत पार्थिवीर्याः ।
 हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः
 शिवाः शंस्योनाः सुध्वा भवन्तु ॥

अर्थात्, जो दिव्य जल अपने सारभूत रस से सम्मिलित है और जो अन्तरिक्ष का और भूमि का जल है, हिरण्य-सुवर्ण के समान वर्णवाला, यज्ञ के उपयुक्त वह जल हमारे लिए कल्याण और सुख का देनेवाला यज्ञ का सम्यक् प्रकार साधन हो ।

इस मन्त्र में तीन प्रकार के जल का वर्णन हुआ है । एक दिव्य, अर्थात् द्युलोक (सूर्य-लोक) का, दूसरा अन्तरिक्ष का और तीसरा भूमि का । अथर्ववेद^१ के राज्याभिषेक-प्रकरण के एक मन्त्र में भी इन तीन ही प्रकार के जलों का उल्लेख है और ऋग्वेद^२ के एक मन्त्र में पार्थिव (भूमि-सम्बन्धी) जल के तीन विभाग और किये हैं । एक जल नदी आदि में बहनेवाला, दूसरा गढ़ा खोदने से निकलनेवाला और तीसरा अपने-आप

१. या आपो दिव्या पयसा मदन्त्यन्तरिक्ष उत वा पृथिव्याम् । तासा त्वा सर्वासामपामन्निषिन्वामि वर्चसा ।—अथर्वश्रुति, ४।२।८।५ ।

२. या आपो दिव्या उत या स्रवन्ति खनिन्तिमा उत या स्वय जा । समुद्रार्था या शुचय पावकास्ता आपो देवीरिह भावयन्तु ।—ऋक ७।४९। २ ।

भूमि से निकलनेवाला, जैसा कि पर्वत आदि में कई जगह देखा जाता है। ये भूमिस्थ जल के ही अवान्तर विभाग हैं। अस्तु, अब विचारणीय विषय यह है कि दिव्य और आन्तरिक जल कौन से हैं। नि.सन्देह स्थूल दृष्टि में इनका पता लगना कठिन है, किन्तु विचारपूर्वक वेद, पुराणों का मनन करने पर इनका स्पष्टीकरण दुर्लभ नहीं।

ब्राह्मण, उपनिषद्, मनुस्मृति, पुराण आदि में सर्वत्र सृष्टि के आरम्भ में अप् की उत्पत्ति कही गई है। अप् नाम यद्यपि जल का ही प्रसिद्ध है, किन्तु इस स्थूल जल से वहाँ तात्पर्य नहीं, रस-रूप द्रव, पदार्थ वहाँ अप् या अम्भ शब्द का अर्थ है। स्थूल-भूत होने पर वही जल बन जाता है। वहाँ अप् या अम्भ. दिव्य जल कहने योग्य है। यद्यपि दोनों एक ही तत्त्व से प्रादुर्भूत हैं, किन्तु अवस्थाओं में एक दूसरे से विरोध हो हो जाता है।

वह ब्रह्माण्ड में सर्वत्र व्यापक है—‘सर्वमापोमय जगत्’। वेद मन्त्रों में कहा है— कि चन्द्रमा अप् के भीतर होकर दौड़ता है। सूर्य के समीप और सूर्य के साथ अप् वर्तमान है। सूर्य और अग्नि अप् में ही पैदा होते हैं, इत्यादि। भगवान् सूर्य जब उदयाचल पर आते हैं, तब उनकी किरणों के सर्घर्ष से वह अप् अपना स्थान छोड़कर दूर हटता जाता है। रस-रूप होने के कारण तेज के साथ इस अप् का स्वाभाविक विरोध है। अतएव, जहाँ तक सूर्य की किरणों प्रखरता से फैलती है, वहाँ से उतने प्रदेश के अप् को दूर हटाती जाती है। श्रुव-प्रदेश में जहाँ सूर्य-किरण अति मन्द हो जाती है, वहाँ वह अप् इकट्ठा हो जाता है। बहुत इकट्ठा हो जाने के कारण वहाँ वह घनीभूत होकर स्थूल जल के रूप में आ जाता है और गुस्त्व के कारण वायु में नहीं ठहर सकता, अतः सुमेरु के शिखर पर गिर पड़ता है। उसे ही कहते हैं—गगा।

पुराण, इतिहासों में सर्वत्र श्रुव के ऊपर से सुमेरु पर गगा के जल का गिरना वर्णित है। श्रुव-स्थान ही हमारे इस ब्रह्माण्ड की परिधि है। यह कहा जा चुका है कि ब्रह्माण्ड वेद में एक पारिभाषिक शब्द है। आकाश अनन्त है, उसका जितना भाग एक सूर्य से प्रकाशित हो, उसे एक ब्रह्माण्ड कहेंगे। अनन्त आकाश में सख्यातीत सूर्य और उतने ही ब्रह्माण्ड हैं। पृथोक्त अप् तत्त्व फैला हुआ है। हमारे ब्रह्माण्ड की परिधि से दूसरे ब्रह्माण्डों की परिधि भी मिल जाती है। अर्थात्, ऐसा भी आकाश का प्रदेश है, जहाँ एक सूर्य का प्रकाश समाप्त होकर दूसरे सूर्य के प्रकाश का प्रारम्भ होता है। यही कारण है कि दूसरे ब्रह्माण्डों का अप् तत्त्व भी जो कि दूसरे सूर्यों की किरणों के सर्घर्ष से परिधि तक घनीभूत हो गया है, हमारे ब्रह्माण्ड के अप् के साथ मिलकर वह गगा-रूप में आ जाता है। अतएव, पुराणों में गगा नदी को अपर ब्रह्माण्ड की जल-धारा भी कहते हैं। यह भी पुराणों में उपवर्णित है, कि वामनावतार में चरण-प्रहार होने पर नखाग्र से ब्रह्माण्ड का जो ऊपरी गोल टूटा, वहाँ से यह जल-धारा भीतर प्रविष्ट होती है। इस घटना का अभिप्राय स्पष्ट रूप में यह है कि आधिदैविक भाव में प्रातःकाल का सूर्य ही वामन

१ चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपणो धावते दिवि।

२ असूर्यां उपसूर्ये याभिर्वा सूर्ये सह तानो हिन्वन्त्वध्वरन्। (ऋग्वेद, १।०३।१७)

३. हिरण्यवर्णां शुचय पावका या सुजात सविता या स्वाति। (अथ०, १।६।३३।१)

कहा जाता है, उसके नक्ष, अर्थात् क्रिणों के अग्रभाग ने जहाँ विवर बनाया है, वहाँ से यह जल-धारा गिरती है। सप्तर्षि-प्रदेश ही 'विष्णुपद' भी कहा जाता है, अतः उग प्रदेश-स्थित गंगा को विष्णुपदी कहते हैं। और, अष्टमूर्ति भगवान् अक्रम का केश-कलाप यह आकाश है, जिससे 'व्योमकेश' नाम शंकर का प्रसिद्ध है, उग आकाश में व्यापक रहने के कारण गंगा हर-जटाजट्याग्निनी चरलाती है। दैवानिक लोग जानते हैं कि तत्त्वों का परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ करता। संकटा हजारों वर्षों में एक तत्त्व प्रवृत्ति के नियमानुसार दूसरे रूप में जाता है। अतएव, अप् भी अपनी मध्य अवस्था में हजारों वर्ष रहकर जल के रूप में आया करता है। अतः, पुराणों में हजारों वर्षों तक इसका विष्णु पद, शिव जटा आदि में रहना लिखा है। पूर्वोक्त मन्त्र अर्थों के पोषक पुराण वचन निम्नलिखित हैं—

वामपादाम्बुजाङ्गुष्ठनखस्रोतविनिर्गताम् ।

विष्णोः विभर्त्ति यां भक्त्या शिरसाहर्निशं ध्रुवः ॥ १०९ ॥

ततः सप्तर्षयो यस्याः प्राणायामपरायणाः ।

तिष्ठन्ति वीचिमालाभिः सह्यमानजटाजले ॥ ११० ॥

(विष्णु पु०, अ० २, अध्याय ८)

तस्य शैलस्य शिखरात् क्षीरधारा नरेश्वर ।

विश्वरूपाऽपरिमिता भीमनिर्घातनिःस्वना ।

पुण्यापुण्यतमैर्जुष्टा गङ्गा भागीरथी शुभा ।

प्लवन्तीव प्रवेगेन हृदे चन्द्रमसः शुभे ।

तथा ह्युत्पादितः पुण्यः स हृदः सागरोपमः ।

तां धारयामास तदा दुर्धरा पर्वतैरपि ।

शतं वर्षसहस्राणां शिरसैव महेश्वरः ॥

(महा० भा०, भीम०, जम्बूखण्ड-निर्माण, अ० ६)

तत्र भगवतः साक्षाद्यन्नलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठ-
नखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्डकटाहविवरेणान्तःप्रविष्टा या वाह्यजलधारा तच्चरण-
पङ्कजावनेजनारुणकिञ्चलकोपरञ्जिताखिलजगदधमला पदोपस्पर्शनामला-
साक्षाद्भगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचोऽभिधीयमानातिमहता कालेन युग-
सहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार । यत्तद् विष्णुपदमाहुः । यत्र
वीरव्रत औत्तानपादिः शिरसा विभर्त्ति । ततो ब्रह्मसदने
निपतति । तत्र चतुर्धा भिद्यमाना सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रा
तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनाद्बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटा-
द्धैमकूटानि अतिरमसतररंहसा लुण्ठयन्ती भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि
जलधिमभिप्रविशति । यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदेऽश्वमेध-
राजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति ।

(श्रीभागवत, स्क० ५, अ० १७)

पूर्वोक्त वैदिक मन्त्रों से इन पौराणिक वर्णनों का सम्बन्ध लगाने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारे पूर्वज महर्षियों की खोज कितनी गहरी थी। वे गगाजल के असाधारण गुण देखते हुए भी वर्ष का जल या हिमालय की ओपधियों का धालन (धोवन) कहकर सन्तोष नहीं कर लेते थे। हमारे पूर्वजों ने इस गगाजल की असलियत खोज निकाली थी और इसे अलौकिक दिव्य जल माना था। तभी पूर्वोक्त श्रीभागवत के वचन में इसमें स्नान करनेवाले को पद-पद में अश्वमेध, राजस्य आदि का फल बताया गया है। और सभी शालों ने इस श्रीजल के द्वारा सब पापों का क्षय माना है। और, शास्त्र ही क्यों, वेद-मन्त्र में भी मन, वाणी शरीर के पापों का क्षय करने की इस दिव्य जल से स्पष्ट प्रार्थना है—

इदमापः प्रवहत यत्किञ्च दुरितं मयि ।

यद्वाहमभि दुद्रोह यद्वा शेष उतानृतम् ॥

(ऋ० १।२३।२२)

साक्षात् ब्रह्म का प्रथम विवर्त ब्रह्म-द्रव वह दिव्य जल क्या नहीं कर सकता ? वाल्मीकि के गगा-स्तोत्र में एक ही श्लोक के द्वारा पूर्वोक्त गगा का तत्त्व स्फुट किया गया है—

ब्रह्माण्डं खण्डयन्ती हरशिरसि जटावलिमुल्लासयन्ती

स्वर्लोकं कादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैलात्स्खलन्ती ।

क्षोणीपृष्ठे लुठन्ति दुरितचयचमू निर्भरं भर्त्सयन्ती

पाथोधि पूरयन्ती सुरनगरसरित् पावनी नः पुनातु ॥

ब्रह्माण्ड को तोड़कर आती हुई, महादेव के जटाजूट को सुशोभित करती हुई, स्वर्गलोक से गिरती हुई, मुमेरु पर्वत के समीप पापानो मे टकराती हुई, पृथ्वी पर बहती हुई, पापों की प्रबल सेना को नितान्त त्रास देती हुई, समुद्र को पूर्ण करती हुई, यह दिव्य नदी हम सबको पवित्र करे ।

यह दिव्य जल का सक्षेपत वर्णन हुआ। अब आन्तरिक्ष जल के सम्बन्ध में भी परिचय देना आवश्यक है। कह चुके हैं कि सूर्य की किरणों में भी एक प्रकार का अप-तत्त्व व्याप्त है, जो ऐतरेय ब्राह्मण में, 'मारीचि' नाम से कहा गया है। पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मण-श्रुति में जो जल की दूसरी अवस्था मरीचि नाम से बताया गई और जिसे पूर्ण आन्तरिक्ष में व्यापक कहा है, वही आन्तरिक्ष अप है। आकाश के किसी प्रदेश-विशेष में सूर्य की किरणों की परस्पर रगड़ से जो प्रादुर्भूत हो जाया करती है, वह है—यमुना। अतएव, यमुना को सूर्यपुत्री कहते हैं। सूर्य-किरणों से वह उत्पन्न होती है।

भौम जल की अपेक्षा आन्तरिक्ष यमुना-जल अति श्रेष्ठ है, अतएव वेद सब नदियों में गगा और यमुना का ही पहले कीर्त्तन करता है—

इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि

स्तोमं सचता परुष्या असिन्न्या मरुवृधे

वितस्तथार्जाकीये शृणुत्वा सुषोमया ।

इसमें उक्त अन्य समस्त नदियों पार्थिव जल के अन्तर्गत है। और, गंगा तथा यमुना दिव्य और आन्तरिक जल हैं। यह सारा वर्णन प्रमगागत हुआ। मुख्य विषय यह था कि दृश्य जल को वेदिक विज्ञान भी योगिक ही कहते हैं और उसमें रम या सोम नाम से एक तत्त्व मानते हैं, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक अपनी भाषा में Hydrogen कह लेते हैं। 'यो वः शिवतमो रसः' इत्यादि शतशः मन्त्रों में जल के भीतर रस का वर्णन है और दार्शनिक प्रक्रिया में कहा जा चुका है कि रस तन्मात्र ही हाइड्रोजन है एवं अग्नि-तत्त्व जो दूसरा दृश्य जल में वृत्ताया जाता है, वही वैज्ञानिकों की भाषा में Oxygen हो सकता है। इसलिए यह सब केवल शब्दमात्र का भेद या विवाद रह जाता है।

पृथ्वी-तत्त्व

अब पृथ्वी-तत्त्व के विषय में विचार किया जाय। पृथ्वी की उत्पत्ति शतपथ आदि ब्राह्मणों में इस प्रकार बताई गई है कि जल के ऊपर वायु भ्रमण करता रहता है। जब किसी अवसर में जल के स्तर को ऊँचा उठाकर वायु उसके भीतर प्रविष्ट हो जाता है, तब बुद्बुद बन जाया करता है। वायु जब निकल गया, तब बुद्बुद समाप्त हुआ तथा जल में जल मिल गया। ऐसी घटनाएँ जलाशयों में सँकड़ते चार हुआ करती हैं। किन्तु जब कभी ऐसा अवसर आता है कि जल का स्तर घनीभूत हो जाय और वह वायु को निकलने न दे, तब वायु की रुद्धता और जल की स्निग्धता इन दोनों विरुद्ध धर्मों का परस्पर सघर्ष होने से दोनों तत्त्व तिरोहित हो जाते हैं और एक तीसरी वस्तु बन जाती है, जिसको फेन कहते हैं। इसको युद्ध-धर्म से सृष्टि होना कहा जाता है। दो धर्मों के परस्पर सम्बन्ध से तीसरी वस्तु का उत्पन्न होना मैथुन धर्म की सृष्टि है। जैसा कि अकुरादि के विषय में कहा जा चुका है। किन्तु परस्पर सघर्ष से दोनों तत्त्व मरकर या तिरोहित होकर जहाँ नई वस्तु उत्पन्न करे, उसे युद्ध-धर्म की सृष्टि कहते हैं। यह फेन-रूप दूसरी अवस्था हुई। इस पर सूर्य-रश्मियों का प्रतपन होता रहता है और वायु में सक्रान्त चिक्कण-तत्त्व भी उसमें प्रविष्ट होता रहता है। इस प्रकार की आवागमन-रूप यज्ञ-प्रक्रिया से तीसरी अवस्था 'मृत्स्ना' नाम की बन जाती है, जिसे लौकिक भाषा में 'पॉक' कहा करते हैं। इस पर पुनः वायु और सूर्य-किरणों के सघर्ष से क्रम से चौथी अवस्था बन जाती है, जिसे सिकता (नदियों के किनारे की मृत्तिका) कहा जाता है। यही सिकता सूर्य-किरणों की प्रखरता का अधिक प्रवेश होने पर शर्करा (कठोर मृत्तिका) बनती है और आगे वही पत्थर के रूप में परिणत हो जाती है। पत्थर से लोहा बनता है और आगे भिन्न-भिन्न धातु बनते हुए, अन्त में सुवर्ण तैयार हो जाता है, जो सब धातुओं से गुरुभूत है। धातु सूर्य-किरणों के अधिक प्रवेश से बनते हैं, अतः इन्हे 'तैजस' कहा जाता है। सुवर्ण को तो अग्नि का रेत (वीर्य) ही कहते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने पृथ्वी में जो अन्यान्य तत्त्व बताये हैं, वह इन्हीं की अवस्थाविशेष हैं। आठ अवस्थाओं के सघात को ही पृथ्वी ब्राह्मणों में कहा गया है।^१ जल से उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी को वहाँ पुष्करपर्ण कहा है।

१ सोऽकामयत । भूय एव स्यात्प्रजायेतेति, सोऽश्राम्यत् स तपोऽतप्यत्, स श्रान्तस्तेपान फेन-

ये आठो प्रकार के तत्त्व जल समुद्र मे यत्र-तत्र प्लावित रहते हैं। जब ईश्वरेच्छा से एक विशेष प्रकार की वायु चलती है, जो चारो दिशाओ मे अपना वेग रखती हो, उससे ये सत्र तत्त्व एकत्रित हो जाते हैं। उसी वायु के दबाव से घनीभूत होकर वे तत्त्व विगीर्ण नहीं होने पाते। उसी वायु का नाम श्रुतियों मे 'वराह' रखा गया है। वराह शब्द 'वृ' और 'अह' दो धातुओ से बनाया गया है। वह चारो ओर की वायु सब ओर से पृथ्वी-पिण्ड को आवृत कर लेती है, अर्थात् घेर लेती है और सघात-रूप बना देती है, इसलिए उसका नाम वराह रखा गया है।^१ पौराणिक कथाएँ इसी वैज्ञानिक अग का रोचक वर्णन करती है कि वराह ने जल के भीतर घुसकर पृथ्वी को निकाला और यह पृथ्वी-पिण्ड वराह की दंष्ट्रा पर ठहरा हुआ है इत्यादि।

आकाश-तत्त्व

आकाश को निरा शून्य भी वैदिक विज्ञान नहीं मानता। वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण स्थानो मे सोम-तत्त्व और इन्द्र-तत्त्व भरे हुए हैं। उनसे विरहित कोई स्थान नहीं है। इन्द्र का ही एक परिणाम (वाक्) तत्त्व कहा जाता है। वह भी सर्वत्र व्यापक है। जिसके कई प्रमाण वेद-शब्दार्थ-निरूपण मे आ चुके हैं। दार्शनिक प्रक्रिया में भी शब्द-तन्मात्रा से आकाश-महाभूत का प्रादुर्भाव माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे पाश्चात्य विद्वान् दो प्रकार की वायु मानते हैं—एक Air, जो सब जगह जमी है, दूसरी Wind, जो एक प्रकार की लहर है और गरीर पर धक्का देती है। इसी प्रकार, वैदिक विज्ञान के अनुयायी भारतीय दार्शनिको ने शब्द भी दो प्रकार का माना है। एक शब्द वह, जो सर्वत्र व्यापक है, उससे रहित कोई प्रदेश नहीं, वह विशु और नित्य माना जाता है। किन्तु उसी मे जब सयोग, विभाग आदि के द्वारा एक लहर उठती है, तब वह हमारी श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत हो जाता है। निष्कर्षत व्यापक शब्द घन आकाश है और उसकी लहर शब्द-रूप उसका गुण है। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिक शब्द को वायु का गुण कहते थे, किन्तु जब से रेडियो का आविष्कार हुआ और इंग्लैण्ड तथा अमेरिका का शब्द कुछ क्षणो मे ही यहाँ सुनाई देने लगा, तब से वायु का गुण मानने का सिद्धान्त परिवर्तित हो गया, क्योंकि वैज्ञानिको ने परीक्षा करके देख लिया कि वायु मे इतनी तीव्र गति नहीं है कि क्षणमात्र मे ही हजारो मील पहुँच जाय। अबतक भी पश्चात्य वैज्ञानिको मे मतभेद ही चल रहा है। कुछ विद्वान् 'ईथर' नाम का एक तत्त्व मानते हैं और शब्द को उसी का गुण कहते हैं। दूसरे विद्वान् ईथर का खण्डन करते हैं और शब्द को 'स्पेस' का ही गुण मान लेते हैं। हमारा तो विश्वास है कि समय के अनुसार ईथर का सिद्धान्त ही स्थिर होगा, क्योंकि वही हमारा

मसृजत। सोऽवेदन्यद्वा एतद्रूपम्। भूयो वै भवति श्राम्याण्येवेति। न श्रान्तस्तेपानो मृद शुष्का-
पमूष सिकतं शर्करामश्मानमयो हिरण्यमोषधिवनस्पत्यसृजत त्तेनेमा पृथिवीं प्राच्छादयत्।

—शतपथ, काण्ड ६, अध्याय १, ब्राह्मण १, कण्टिका १३।

१. इत्यत्र आसीदद्वितीयतो वो इयमग्ने पृथिव्यान प्रादेशमात्री। तानेमूष इति वराह उज्ज्वान।
इत्यादि।

—शतपथ, १४।१।२।११।

वैदिक विज्ञान का आकाश-तत्त्व है और शब्द उसी का गुण है। सभ्य दे, ईश्वर शब्द का सम्बन्ध इन्द्र शब्द से सिद्ध हो जाय और ऐन्द्री वाक् कहकर शब्द का इन्द्र से सम्बन्ध बतानेवाली श्रुति का आदर आधुनिक वैज्ञानिकों को भी करना पड़े। अस्तु; यह समय की बात है। समय ही इसका निर्णय करेगा। अभी तक हमारे वक्तव्य का साराश यही है कि भारतीयों का वेदों के आधार पर स्थित पञ्चमहाभूत-सिद्धान्त बहुत गम्भीर है और वह बातों में उड़ाया नहीं जा सकता।

इस प्रकार, धर पुरुष की पाँचों कलाओं का आविर्देविक तथा आविभातिक रूप में विवरण किया गया। आधिभौतिक रूप के ये पाँचों मण्डल एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और परस्पर एक-दूसरे के उपकारक हैं, जो पार्थिव पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं, उनमें पाँचा मण्डलों का अंग सम्मिलित है। दृष्टान्त के लिए एक जलाने की लकड़ी को ही देखिए। उसका ऊपर का भाग तो पृथ्वी से बना हुआ है ही। इसमें यदि हम अग्नि लगा दें, तो अग्नि का कार्य है कि वह भिन्न-भिन्न तत्वों के पारम्परिक सम्बन्ध विघटित कर दे। तब पहले ही पृथ्वी का अंग, ठोसपन और कठिनता तो अलग होकर जाती रहेगी। आगे चन्द्र-मण्डल से आया हुआ सोम भाग द्रुत होकर टपक जायगा और सूर्य-मण्डल से किरणों के द्वारा जो रूप उसमें प्राप्त हुए हैं, वे भी बन्धन से विमुक्त होकर सूर्य-मण्डल में परावर्तित हो जायेंगे। अब तो कोयलो में श्याम (काला) रूप दिखाई देगा, वह परमेष्ठिमण्डल का सोम है, जो घनता में आकर श्यामरूप दिखाई दे रहा है, और अग्नि का प्रयोग कर यदि उसे भी निकाल दिया जाय, तो स्वच्छवर्ण का भस्म शेष रहेगा, जो स्वयम्भू-मण्डल की स्वच्छता को अभिव्यक्त करेगा। इसी प्रकार, प्रत्येक पदार्थ में सबके अंश देखे जा सकते हैं।

पोडशी प्रजापति

तीनों पुरुषों की उक्त सोलह कलाओं को मिलाकर एक पोडशी प्रजापति का स्वरूप बनता है। वह प्रजापति दो प्रकार का है—एक अनिरुक्त प्रजापति, दूसरा सर्व प्रजापति।

अनिरुक्त प्रजापति का वर्णन निम्नलिखित मन्त्रों में स्पष्ट है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते।
तस्य योनिं परिद्रयन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥

(शुक्लयजुःसहिता, ३१।१९)

इस मन्त्र का तीन प्रकार से अर्थ हो सकता है। भाष्यकारों ने इसका अर्थ यों किया है कि—

(प्रजापतिः) सम्पूर्ण प्रजाओं का स्वामी परमात्मा, (अजायमानः) नित्य होने के कारण वस्तुतः उत्पन्न न होता हुआ भी (गर्भे अन्तः चरति) जरायुज, अण्डज आदि चारों प्रकार के भूतों के गर्भ में जीव-रूप से प्रविष्ट होकर विचरता है, और (बहुधा विजायते) अनेक प्रकार से सन्तान उत्पन्न करता है, वा उत्पन्न होता है। अर्थात्, स्वयं परमात्मा नित्य, निर्विकार है, वह उत्पन्न नहीं होता। किन्तु, स्वप्रेरित माया

द्वारों स्वयं ही कार्य-कारणात्मक जगत्-रूप बनता है। इससे वही गर्भ में प्रविष्ट होनेवाला, गर्भों को उत्पन्न करनेवाला वा नाना रूप से उत्पन्न होनेवाला है। (वीरा) विद्वान् पुरुष, (तस्य) उस परमात्मा के (योनि) स्थान, अर्थात् स्वरूप को (परिपश्यन्ति) स्वात्मा-भेद रूप से सर्वत्र देखते हैं। (विश्वा भुवनानि) सम्पूर्ण लोक (तस्मिन् ह तस्थुः) उसी परमात्मा के आधार पर रहते हैं। जैसे, घट मृत्तिका के आधार पर अथवा पट तन्तुओं के आधार पर है। इसी प्रकार, कार्य-कारणात्मक सम्पूर्ण जगत् परमकारण-रूप परमात्मा के आधार पर अवस्थित है। इस अर्थ से ईश्वर की जगत्-कारणता और जगत् का ईश्वर से अभेद सिद्ध होता है। दूसरा अर्थ है कि—

प्रजाओं का स्वामी परमात्मा स्वरूप से नित्य होने के कारण उत्पन्न न होता हुआ भी जगत् के उपकार और भक्तों पर अनुग्रह के कारण (गर्भे अन्त चरति) गर्भ में प्रवेश करता है, और (बहुधा विजायते) मत्स्य, कर्म, वराह, मनुष्य आदि नाना प्रकार की योनियों में जन्म ग्रहण करता है, अर्थात् अनेक अवतार लेता है। विद्वान् लोग (तस्य योनि) उसकी उत्पत्ति के स्थान को (कहाँ किस कारण अवतार हुआ, इस रहस्य को) (परिपश्यन्ति) जानते हैं और उसी अवतारधारी परमात्मा के आश्रय से (विश्वा भुवनानि तस्थुः) सम्पूर्ण लोक स्थिर रहते हैं। अर्थात्, लोक-मर्यादा की स्थिरता ही परमात्मा के अवतार का मुख्य हेतु होता है।

इस दूसरे अर्थ में अवतार-विज्ञान स्पष्ट होता है। सनातन-धर्म के उपदेष्टाओं में यह अर्थ सुप्रसिद्ध है—

(प्रजापति) तैंतीस देवताओं में व्याप्त रहनेवाला प्रजापति नाम का देवता (गर्भे अन्त चरति) प्रत्येक पदार्थ के ठीक मध्य (केन्द्र) में विचरता है। वह स्वयम् (अजायमान) शक्ति रूप से नित्य है, और (बहुधा विजायते) अनेक रूप से वस्तुओं का विस्तार करता रहता है। (धीरा) वैश्वान् विद्वान् ही (तस्य योनिम्) उस प्रजापति के ठीक स्थान को (परिपश्यन्ति) पहचान सकते हैं, (विश्वा भुवनानि) सम्पूर्ण भुवन के पदार्थ (तस्मिन् ह तस्थुः) उसी प्रजापति के आधार पर ब्रह्म रहते हैं।

यह प्रकृत मन्त्र का वैज्ञानिक अर्थ है। इससे केन्द्र-शक्ति का विज्ञान प्रकट होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में एक शक्ति मानी जाती है, जिसके आकर्षण पर सब पदार्थ स्थिर रहते हैं। उस शक्ति का आधार वेदोक्त आधि-दैविक विज्ञान में प्रजापति देवता माना गया है। इस प्रजापति का वर्णन 'अनिरुक्तो वै प्रजापति' आदि वाक्यों से अन्यत्रान्यत्र भी श्रुतियों में बहुत है। यह केन्द्र-शक्ति निरवयव है, उसके भाग नहीं, अतएव उसे अनिरुक्त कहा करते हैं। वह प्रजापति देवता सब पदार्थों के केन्द्र में निवास करता है और केन्द्र से ही विविध प्रकार की किरणें हर एक पदार्थ में से निकलती हैं। वृक्ष, प्राणी आदि पदार्थ केन्द्र-शक्ति के आश्रय से ही बटते हैं, अतः प्रजापति देवता ही विविध रूप से उत्पन्न हो रहा है। यद्यपि गोल पदार्थ के केन्द्र का परिज्ञान साधारणतः हो जाता है, किन्तु दूसरे प्रकार से लम्बे, चिपटे आदि पदार्थों के केन्द्र का विज्ञान सरल नहीं, उसके लिए बड़े गम्भीर गणित की आवश्यकता है। अतएव श्रुति ने कहा कि प्रजापति के स्थान को विद्वान् ही जान सकते हैं।

किन्तु इसमें सदेह नहीं कि प्रजापति के आधार से ही सब लोक टहरे हुए ह। यदि किसी बहुत भारी पदार्थ के भी ठीक केन्द्र-स्थान का पता हम लगा सकें, तो उम स्थान पर एक अगुलीमात्र लगाकर भी अनायास उसका धारण कर सकते ह। केन्द्र-स्थान पर हाथ की अगुली का कोई भार नहीं प्रतीत होता। केन्द्र के आधार पर भारी मे-भारी वस्तु भी अनायास टहर जाती है—यह आशय भी उन वाक्या में अभिव्यक्त हो जाता है। जिस प्रकार एक व्यष्टि (भिन्न-भिन्न पदार्थ) में प्रजापति ह, इसी प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का भी प्रजापति है, जो कि हिरण्यगर्भ, सज्ञात्मा आदि नामों से शास्त्रा में वर्णित है। वह ब्रह्माण्ड के केन्द्र में रहता है।

उक्त मन्त्र में केन्द्रस्थ शक्ति-रूप अनिरुक्त मूल प्रजापति का वर्णन हुआ। प्रजा-सहित सर्व प्रजापति का वर्णन इस मन्त्र में है—

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जानानि परिता वभूव ।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥

इसका अर्थ है कि 'हे प्रजापति ! तुमसे अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो उन सब उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को अभिव्याप्त कर उनके चारों ओर रहता हो। (आप ही सब उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को घेरकर उनकी चारों ओर मर्यादाबद्ध रहते हैं) हम-लोग जिस कामना से आपके लिए आहुति देते हैं (यज्ञ करते हैं), वे हमारी कामनाएँ पूर्ण हो। (सर्व प्रजापति ही सब यज्ञों का भोक्ता है, उसका ही स्वरूप सघटन यज्ञ से होता है, इसलिए यज्ञ की सफलता उसी से माँगी जाती है। हम सब सम्पत्तियों के स्वामी बने।) वही सर्व प्रजापति सम्पत्ति-रूप या सम्पत्ति का अविष्टाता है। पिण्ड-रूप से उसे सम्पत्ति कह सकते हैं, और तत्त्वपदार्थ के अभिमानी चैतन्य के रूप में सम्पत्ति का अधिष्ठाता। स्तुति के मन्त्रों में अभिमानी चैतन्य की ओर ही लक्ष्य रहता है, इसलिए उससे ही सम्पत्ति-प्राप्ति की प्रार्थना की गई है।

यह शक्ति प्रत्येक पदार्थ में व्यापक रूप से रहती है, या यों कहे कि मन, प्राण, और वाक्-रूप यह प्रजापति ही सत्ता-रूप से सब पदार्थों में अनुप्रविष्ट है, यहीं पदार्थों की सत्ता है। वैदिक विज्ञान कहता है कि केन्द्र-शक्ति और यह प्रत्येक पदार्थ में ध्यात रहनेवाली शक्ति एक ही है। केन्द्र-शक्ति का विश्वास-रूप ही यह व्यापक शक्ति है, अतएव दोनों का एक प्रजापति शब्द से ही व्यवहार वेद में किया गया है। प्रजापति का वर्णन वेद में बहुत है। जिस-जिस पिण्ड आदि के जो देवता अधिष्ठाता हैं—वे सब भी उस वस्तु के लिए प्रजापति-रूप से वर्णित होते हैं।

प्रजापति दोनों ही कहलाते हैं—एक, ईश्वर-प्रजापति और दूसरा, जीव-प्रजापति। ईश्वर-प्रजापति आधिदैविक है और अधिभूत उसकी प्रजा है, एव जीव-प्रजापति आध्यात्मिक है। शरीर आदि उसकी प्रजा है। दोनों ही अपनी-अपनी प्रजाओं के स्वामी हैं। एक समष्टि-रूप है, दूसरा व्यष्टि-रूप।

ईश्वर और जीव

अबतक जिन सोलह कलाओ का हमने वर्णन किया है, वह ममष्टि-रूप ईश्वर-कलाओ का वर्णन है। उनके अगो से जीव की कलाएँ बनती हैं, जो व्यष्टि कही जाती है। उपनिषदों की मीमांसा-रूप ब्रह्मसूत्रों में ईश्वर और जीव का तीन प्रकार का सम्बन्ध बताया गया है—

१. ईश्वर का अग जीव है। २ ईश्वर विम्वस्थानीय है और जीव उसका प्रतिविम्ब है। जैसे, सूर्य का प्रतिविम्ब जल या दर्पण हुआ करता है और वह भी अपना केन्द्र बनाकर अपनी चमक फैलाया करता है। ३ जीव ईश्वर से पृथक् कोई वस्तु नहीं, ईश्वर ही छोटी उपाधि के धरे में आकर परिच्छिन्न हो गया है।

यह स्मरण रखना चाहिए कि दृष्टान्त के पूरे धर्म दार्ष्टान्त में कहीं नहीं मिलते हैं। दृष्टान्त किसी बात को केवल समझाने के लिए होता है। उनकी विलक्षणता को विभिन्न युक्तियों से शास्त्रकार मन-स्थित कर दिया करते हैं। जैसे, प्रथम अग्नाग्निभाव को ही लीजिए। सप्तर में अग या अवयव से अग्नी या अवयवी बना करता है। न्याय-दर्शन भी इसी प्रक्रिया को स्वीकार करता है कि अवयव से अवयवी की निष्पत्ति होती है। छोटे-छोटे धागों को मिलाकर एक बड़ा कपड़ा बन जाता है। एक-एक वृक्ष को मिलाकर बड़ा वन बन जाता है अथवा एक-एक पुरुष को मिलाकर समाज या राष्ट्र या बड़ी सेना बन जाती है। इस प्रकार, अग से अग्नी की सर्वत्र निष्पत्ति होती है। पहले अग, उसके उपरान्त अग्नी। किन्तु यहाँ बात विलकुल उल्टी है। यहाँ पहले ईश्वर है और उसके अनन्तर प्रादुर्भूत होते हैं उसके अग जीव। इसका भी दृष्टान्त उपनिषदों में इस प्रकार दिया गया है कि जिस प्रकार अग्नि का एक बहुत बड़ा ढेर जल रहा है। उसमें से उछट-उछटकर एक-एक स्फुलिंग अलग जा गिरते हैं और वे भी अपना केन्द्र बनाकर छोटे-छोटे आपतन में जलने लगते हैं। यही स्थिति ईश्वर और जीव की है। जलती हुई अग्नि के ढेर के स्थान में ईश्वर को समझ लीजिए आर उछटती हुई चिनगारियों के स्थान में जीवों को। किन्तु फिर भी, दृष्टान्त में दत्तनी विषमता अवश्य रहेगी कि चिनगारियों उछटते-उछटते अग्नि का ढेर न्यून होता जाता है, अधिक समय तक ऐसी चिनगारियाँ उछटते रहने से वह ढेर समाप्त भी हो सकता है। किन्तु, ईश्वर में जीवों के पृथक्-पृथक् हो जाने पर भी कोई न्यूनता नहीं आती। इसी बात को श्रुति ने स्पष्ट किया है कि—

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाऽवशिष्यते ॥

अर्थात्, ईश्वर का स्वरूप भी पूर्ण है, और उससे निकले हुए जीव भी अपने स्वरूप में पूर्ण हैं। पूर्ण से ही पूर्ण की निष्पत्ति होती है, किन्तु पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही जोप रहता है। यह आध्यात्मिक विषय है। लौकिक दृष्टि से ठीक

१ तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकाद्विस्फुलिङ्गा सहस्रशः प्रभवन्ते मरुपाः । तथाऽक्षरा द्विविधा सोम्यभावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति । —मुण्डकोपनिषद्, मुण्डक २, सू० १, मन्त्र १ ।

समझ मे नहीं आ सकता । इतना ही समझा जा सकता है कि अनन्त मे यदि अनन्त घटाते चले जायें, तो भी वह अनन्त ही रहता है । अन्तवान् पदार्थ घटकर छोटा होता है । अनन्त मे कभी न्यूनता नहीं आती है । अन्तु,

दूसरे प्रतिविम्बवाद के दृष्टान्त जल, दर्पण आदि को गये है । किन्तु उनमें भी यह विपमता है कि एक तो प्रतिविम्ब रूपवान्, पदार्थ का ही होता है । ईश्वर जो सर्वथा नीरूप, निराकार है, उसका प्रतिविम्ब कैसे सिद्ध हो । इसका उत्तर भी उस प्रकार दिया जाता है कि रात्रि के समय हम किसी स्वच्छ मरोवर मे आकाश स्थित तारा मण्डल का प्रतिविम्ब जव देख, तब जलाशय मे भिन्न-भिन्न तारे भी दिखाई दगे और उनके मध्य का अन्तर या अवकाश भी दिखाई देगा । उससे सिद्ध हुआ कि मय्य के अवकाश या आकाश का भी प्रतिविम्बन हुआ है । आकाश तो नीरूप है, उसका प्रतिविम्बन कैसे हुआ । इसी प्रकार ईश्वर का भी प्रतिविम्बन समझ लिया जाय । किन्तु फिर भी इतनी विपमता रहेगी कि दृष्टान्त मे स्वतन्त्र आकाश का प्रतिविम्ब नहीं, ताराओ के साथ उनके मय्य का अवकाश भी प्रतिविम्बित हो गया है । किन्तु यहाँ तो साथवाली कोई वस्तु नहीं । स्वतन्त्र ईश्वर का ही प्रतिविम्ब मानना पड़ेगा । इसलिए यह कहना ही होगा कि दृष्टान्त केवल समझ लेने के लिए होता है । दृष्टान्त के सारे वर्म दार्ष्टान्त मे नहीं आ सकते । प्रतिविम्बवाद का आशय केवल इतना ही है कि मुख्य शक्ति विम्ब मे ही होती है । प्रतिविम्ब मे तो केवल उसका आभास होता है । इसी प्रकार सर्वशक्तिमान् परमात्मा ही है, जीवों मे तो उसकी शक्तियों का आभास मात्र है ।

तीसरे अवच्छेदवाद को भी यह, वृक्ष और आकाश के दृष्टान्त से समझाया जाता है कि जैसे आकाश स्वरूपत अनन्त है । परन्तु एक घर बनाकर उसके बीच में घेरा डाल देने से उतनी दूर मे आया हुआ आकाश महाकाश से अलग-सा हो गया । और घर बनानेवाले का काम उससे निकलने लगा । इसी प्रकार, उपाधि के घेरे मे आकर ईश्वर का ही जीव-भाव हो जाता है । किन्तु इस दृष्टान्त मे भी इतनी विपमता रहती है कि घर के घेरे मे आ जाने पर भी आकाश निर्लिप्त है । उसमे किसी रूप, रस, गन्ध आदि का अनुभव नहीं होता । किन्तु जीव मे सुख, दुःखादि का अनुभव होता है, जो ईश्वर मे नहीं था, इसलिए दृष्टान्त का पूरा समन्वय यहाँ भी नहीं बैठता । क्या किया जाय । अलौकिक ईश्वर का लोक मे पूरा दृष्टान्त मिल नहीं सकता । किसी प्रकार दृष्टान्तों से उतने अग को समझकर बात को चित्त मे बैठा लेना है । समझना इतना ही है कि ईश्वर समष्टि-रूप है और जीव व्यष्टि-रूप । यह भी स्मरण रहे कि जीव नाम से हम यहाँ प्रत्येक जड-चेतन पदार्थ को कह रहे हैं । जड-चेतन का मौलिक भेद वैदिक विज्ञान मे नहीं माना जाता, यह स्पष्ट किया जा चुका है । ये तो अवस्थामात्र है । इससे प्रत्येक पदार्थ व्यष्टि और ईश्वर समष्टि है, यही हमारा आशय है । स्थूल प्रपच या धर पुरुष की अवस्था मे ईश्वर को विराट् कहा जाता है और जीव को विश्व । महाविराट् और क्षुद्रविराट् नाम से भी इन्हे कहा जाता है । प्रत्येक छोटा या बडा पदार्थ एक-एक क्षुद्रविराट् है और ईश्वर महाविराट् एव सूक्ष्म प्रपच या अक्षर पुरुष की स्थिति मे

ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहा जाता है और जीव को तैजस' एव उससे भी उच्च केवल कारण-रूप प्रपञ्च की या अव्यय पुरुष की स्थिति में ईश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है और जीव को प्राज्ञ ।^१

इस प्रकार के समष्टि-रूप ईश्वर में किसी निरीश्वरवादी को भी सन्देह का स्थान नहीं रह सकता, क्योंकि समष्टि-रूप मण्डल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और व्यष्टियों से उनका सम्बन्ध भी तर्क से स्पष्ट हो जाता है। सम्पूर्ण विश्व को एक मूर्त्ति के रूप में कल्पना कर भिन्न-भिन्न मण्डलों को उसके भिन्न-भिन्न शरीरावयव मानना जो विराट्-पुरुष के वर्णन में भागवत और उपनिषदों में भी आता है, उस विराट्-स्वरूप ईश्वर में सन्देह का कोई स्थान नहीं। केवल उस समष्टि की चेतनता पर निरीश्वरवादी सन्देह उठा सकते हैं। उसका उत्तर वैदिक विज्ञान की दृष्टि से कई बार हो चुका है कि वेद की दृष्टि में जडता अवस्था चैतन्य एक अवस्थामात्र है, उसमें कोई मौलिक भेद नहीं। जड का चेतन में और चेतन का जड-रूप में बराबर परिणाम देखा जाता है, जैसा स्पष्ट किया जा चुका है।

इसलिए, जैसे हमारे शरीर का अभिमानी एक जीव है, वैसे ही सपूर्ण विश्व को अपना शरीर माननेवाला एक अभिमानी आत्मा ईश्वर है, और अनन्त ब्रह्माण्डों को अपना शरीर माननेवाला एक अपरिच्छिन्न परमेश्वर है, इसमें तर्क, वितर्कादि का कोई विपरीत स्थान नहीं।

दूसरी युक्ति वैदिक विज्ञान यह भी देता है कि जीवात्मा के पास उसकी इन्द्रियों मन आदि जितनी व्यष्टि-सामग्री है, उस सबकी समष्टि का प्रत्यक्ष और तर्क से हमें पूरा पता लगता है। जैसा हम अभी वर पुरुष की आध्यात्मिक कलाओं के निरूपण में स्पष्ट करनेवाले हैं। तब फिर जीव में जो चैतन्य है, जिसका प्रतिक्षण अनुभव होता है, उसकी भी तो समष्टि चाहिए। यदि उसकी समष्टि नहीं है, तो यह व्यष्टि कहाँ से आ गई। उसकी जो समष्टि है वही—

‘सत्यम्, ज्ञानम्, आनन्दम् ब्रह्म’ है। वही ईश्वर या परमेश्वर नाम से कहा जाता है। अतः, उसमें भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

ज्ञान की नित्यता

वैदिक विज्ञान में सबके मूल तत्त्व परब्रह्म को ज्ञान-रूप कहा जाता है। इसका आशय है कि ज्ञान एक व्यापक और नित्य तत्त्व है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। यद्यपि हमारे अनुभव में ऐसा आता है कि ज्ञान परिवर्तनशील और क्षणिक है। कभी किसी वस्तु का ज्ञान होता है, तो दूसरे क्षण में दूसरे ही वस्तु का। वे क्षण क्षण में परिवर्तित होनेवाले ज्ञान भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, किन्तु गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय, तो प्रतीत होगा कि हम जिसे ज्ञान कहते हैं, उसमें दो अंग हैं—एक प्रकाश और एक प्रकाश्य।

१ हिरण्यगर्भ समवर्त्ततात् भूतस्य जात पतिरेक आसीत्, नदाधार पृथिवीं यामुत्ते मा करम् देवाय हविषा विधेम।

२ य सर्वज्ञ सर्ववित् यत्स्य ज्ञानमव तप।

प्रकाश्य वस्तुएँ बदलती रहती हैं, किन्तु उनके प्रकाशाद्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी बात को गान्धीय शब्दों में यों कहते हैं कि विषय का परिवर्तन होता है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान नाम यथार्थ में प्रकाशाद्य का है। प्रकाश्य उगके साथ बँधे हुए आ जाते हैं। वह प्रकाश नित्य और विद्युत् है। हम लोग जो जानने के लिए बल करते हैं और फिर किसी वस्तु को जान पाते हैं, वह प्रयत्न केवल अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। प्रकरण के आरम्भ में हमने बताया है कि रज और वल दो मूल तत्त्व हैं। उनमें रज ज्ञान-रूप है और वल उसका आवरण करनेवाला होने के कारण उसका विरोधी, अतएव अज्ञान शब्द से कहा जाता है। उस अज्ञान को मिटाने के लिए ही हमारा सब प्रयास होता है। अज्ञान-रूप आवरण के हट जाने पर ज्ञान का तो स्वयं प्रकाश हो जाता है। जैसे, सूर्य और हमारी दृष्टि के बीच में बादल एक आवरण होकर आ जाता है। बादल के हटते ही सूर्य अपने-आप चमक उठता है। उसे चमक कहीं से उधार नहीं लानी पड़ती। यही स्थिति ज्ञान की है। व्यापक और नित्य ज्ञान पर जो एक स्वाभाविक आवरण है, उसे हटा देने पर ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री नहीं चाहिए। ज्ञान ही सबका जनक है, उसका जनक कोई दूसरा नहीं हो सकता।

हमारे यहाँ का चार्वाक-दर्शन और आधुनिक साइंस यह नहीं मानते। वर्तमान युग में उनके बहुत अनुयायी हैं, वे भी नित्य ज्ञान की सत्ता स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि नित्य ज्ञान-रूप ईश्वर या जीव कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं। ज्ञान तो केवल सयोगजन्य है। जैसे, वृक्ष की छाल, गुट आदि वस्तुओं में, भिन्न-भिन्न रहने पर, किसी मादक शक्ति का अनुभव नहीं होता, किन्तु उन वस्तुओं के सयोग से जो मद्य बनाया जाता है, उसमें मादक शक्ति आ जाती है। या यों समझिए कि गाड़ी के भिन्न-भिन्न अवयव पहिये आदि में किसी वस्तु या मनुष्य को उठा ले जाने की शक्ति नहीं है, किन्तु उन सबको जोड़कर जो गाड़ी बनाई जाती है, वह बहुत से सामान और बहुत-से मनुष्यों को दूर तक ले जा सकती है। यह नई शक्ति परस्पर सयोग से ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ज्ञान भी एक सयोजक पदार्थ है। जड़-चेतन की एकता बताने के लिए यहाँ जो दृष्टान्त दिये गये हैं कि गोमय में चैतन्य नहीं होता, किन्तु उसके सड़ जाने पर एक चेतन विच्छू, उसमें उत्पन्न हो जाता है, अचेतन फलों में भी सड़ने पर कीड़े-ही कीड़े हो जाते हैं। इन दृष्टान्तों से भी हमारा ही मत सिद्ध होता है कि ज्ञान केवल सयोगजन्य है, वह स्थिर रहनेवाली वस्तु नहीं। उक्त दृष्टान्त के अनुसार ही माता और पिता के रज और शुक्र मिलकर कुछ काल तक गर्भाशय की ग्रन्थि में निरुद्ध होने के कारण सड़ जाते हैं, तो उनमें भी फलों की तरह कृमि पैदा हो जाते हैं। और, उनमें एक दूसरे को खाने लगता है। खाते-खाते जो एक बड़ा कृमि तैयार हो जाता है—वह मनुष्य, पशु आदि के रूप में दिखाई देता और सब काम करने लगता है। इसमें कोई अतिरिक्त आत्मा मानने की या ज्ञान को नित्य मानने की आवश्यकता नहीं। जब एक-एक आत्मा ही सिद्ध नहीं होता, तब सर्वव्यापक ईश्वर के सिद्ध होने की तो कथा ही क्या? इसलिए वैदिक सिद्धान्त में आत्मा या ईश्वर को मानना युक्ति-प्रमाण से विरुद्ध है।

वैदिक विज्ञान, इसका उत्तर देता है कि ज्ञान से अर्थ उत्पन्न होते हैं, इसके दृष्टान्त बहुत-से मिल रहे हैं —

(१) हमारे सामने कई वस्तुएँ रखी हो, उनमें एक-दो आदि गिनती करके उन्हें चार-पाँच या दस हम कह दिया करते हैं—यह सख्या कहाँ से आई ? वस्तु के साथ यदि सख्या पैदा हुई होती, तो वह वस्तु जहाँ भी रहती, वहाँ चार-पाँच या दस कहलाती, किन्तु ऐसा तो नहीं है, जहाँ औरों के साथ वह मिले, वहाँ चार-पाँच या दस कहलायेगी । एक एक वस्तु को पृथक्-पृथक् देखने पर कोई सख्या का भाव उदित नहीं होता, इससे मानना पडेगा कि यह चार, पाँच या दस सख्या हमारे ज्ञान ने ही बनाई है । हम औरों के साथ मिलाकर उस वस्तु को देखते हैं, इसलिए वह हमारा देखना ही उन सख्याओं को पैदा कर देता है ।

(२) दो ढण्डे हमारे सामने रखे हो, उनमें हम एक को लम्बा और दूसरे को छोटा कह दिया करते हैं, किन्तु वही लम्बा ढण्डा किसी दूसरे अधिक लम्बे ढण्डे के पास रखा जाय, तो वह छोटा कह दिया जाता है और जिसे पहले छोटा कहा था, वह यदि उससे भी अधिक छोटे के पास रखा जाय, तो उसे लम्बा कह दिया जायेगा । तब सोचिए कि यह लम्बाई, छोटापन या मोटापन केवल हमारे ज्ञान की करनूत है । हमारा ज्ञान ही औरों के साथ तुलना कर उन्हें छोटा या बड़ा बता देता है । वस्तु में छोटापन या बड़ापन कोई विशेष धर्म नहीं, इसलिए छोटापन, बड़ापन, मोटापन आदि परिमाण का भी जनक हमारा ज्ञान ही है ।

(३) जब हम किसी कारीगर से कोई विशेष प्रकार की कुर्सी, मेज आदि बनाने को कहते हैं, तब पहले वह हमारी बताई हुई वस्तु को अपने ज्ञान में लेता है, यदि वैसी वस्तु उसने न देखी वा न जानी हो, तो इनकार कर देता है कि मैं नहीं समझा, नहीं बना सकूँगा । इससे भी यही सिद्ध होता है कि कारीगर के ज्ञान में जो गुण वा आकार पहले से रहते हैं, उन्हें ही वह बाहर वस्तु के रूप में प्रकाशित कर देता है, जो वस्तुओं ज्ञान में नहीं, वह बाहर भी प्रकाशित नहीं की जा सकती, तब बाह्य वस्तुओं का जनक ज्ञान ही तो हुआ ।

(४) जहाँ कोई विज्ञानवेत्ता किसी नये तत्त्व या कई वस्तुओं का आविष्कार करता है, वहाँ भी उसे उस वस्तु के गुण-धर्मों को पहले अपने मन में लाना ही पडता है । फोटोग्राफ, फोनोग्राफ या रेडियो के यन्त्र का आविष्कार करनेवाला, यदि पहले अपनी बुद्धि में इन वस्तुओं का आकार-प्रकार न जमा ले, तो कुछ-का-कुछ बना डालेगा और आविष्कार में उसे सफलता नहीं मिलेगी । पहले बुद्धि में ठीक जमाकर जो वस्तु बनायेगा, वह ठीक उतरेगी, इसलिए नये आविष्कारों का जनक भी ज्ञान ही सिद्ध होता है ।

(५) विलकुल एकान्त में जहाँ सामने कुछ भी न हो, वहाँ बैठकर भी मनुष्य कल्पना के महल वा हवाई किले बनाया करता है, जिसे सस्कृत भाषा में 'मनोराज्य' और आजकल की बोलचाल की भाषा में 'खाली पोलाव' कहा करते हैं । वे सब वस्तुएँ ज्ञान की ही उपज हैं । ज्ञान ही उन्हें बनाकर उनके विचार का आनन्द रूपा करता है, इससे भी ज्ञान की विषयजनकता सिद्ध होती है ।

(६) स्वप्न में तो जो कुछ हम देखते या सुनते हैं, वह मग तो हमारे ज्ञान का ही बनाया हुआ है । वास्तव में तो वहाँ कुछ भी नहीं ।

हम प्रकार, ज्ञान से वस्तुओं का पटा होना बहुत में दृष्टान्त से मित्र होता है । किन्तु ज्ञान किसी दूसरे में पैदा होता हो, इसका कोई दृष्टान्त नहीं है । विच्छृ वा कृमि आदि के जो दृष्टान्त पहले दिये गये हैं, उनमें भी विच्छृ वा कृमि का शरीर ही तो गोमय वा फलों से बना है । ज्ञान तो गोमय वा फलों में नहीं बनाया । वहाँ वदिक विज्ञान के अनुसार यही प्रक्रिया है कि फल आदि में जो सोमरस है, वही जत्र इन्द्रियों के रूप में परिणत हो जाता है, तब उन इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर ज्ञान का आवरण हट जाता है धार स्वतः प्रकाश ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसलिए ज्ञान के उत्पन्न होने का कोई दृष्टान्त सिद्ध नहीं होता । कदाचित् यह हट क्रिया जाय कि आप ज्ञान की अभिव्यक्ति, अर्थात् प्रकट होना कहते हैं, हम उस स्थान पर उत्पत्ति ही मानते हैं, तो उत्पत्तिवाद को छोड़कर अभिव्यक्तिवाद मानने में भी तो आपके पास कोई दृढ प्रमाण नहीं है, फिर उत्पत्तिवाद ही क्यों न मान लिया जाय । तो हम कहेंगे कि, अच्छा, युक्ति से विचार कीजिए, कि ज्ञान की उत्पत्ति मानना ठीक है या अभिव्यक्ति । उत्पत्तिवाद में यह प्रश्न होगा कि मग में कई पदार्थों के संयोग से जो मादक शक्ति पैदा हुई, वह तो मग के प्रत्येक अंग में पैदा हुई । मग के एक विन्दु में भी मादकता-शक्ति है और बहुत टेर मग में भी । यह दूसरी बात है कि अधिक परिमाण होने पर शक्ति अपना प्रभाव अधिक दिखाती है, अल्प परिमाण में अल्प ही दिखाती है, किन्तु अल्प या अधिक मात्रा में मादकता-शक्ति प्रत्येक अवयव में है, यह तो अनुभवसिद्ध है । इसी प्रकार, यदि शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य-शक्ति उत्पन्न हुई है, तो कहना होगा कि शरीर सैकड़ों चेतन पदार्थों का एक समूह है । उसका हाथ भी चेतन है, पैर भी चेतन है, धड भी चेतन है इत्यादि । ससार में देखा जाता है कि बहुत-से चेतन सदा अनुकूल ही रहे, ऐसा नहीं होता । दस बीस मनुष्य किसी काम में लगे, तो उनमें कभी कभी मतभेद होकर फूट भी पड जायेगी और वे परस्पर विरुद्ध होकर कभी काम बिगाड भी देते हैं, यह भी देखा जाता है । तब चेतन-रूप शरीर के सब अवयव सदा अनुकूल ही रहे, कभी उनमें झगडा न हो, यह कैसे सम्भव होगा, किन्तु देखते इसके विपरीत है कि शरीर के सब अवयव सदा ही परस्पर अनुकूल ही रहते हैं । आँख की देखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों में उसे पहुँचा देने के सदा पैर तैयार रहते हैं । पैरों में कोई काँटा या आघात न लगे, इसलिए उन्हें मार्ग बताने को आँख सदा तैयार रहती है । पेट में भोजन पहुँचाने को हाथ सदा काम करते रहते हैं और हाथों में काम करने की शक्ति हृदय द्वारा पहुँचती रहती है । इन घटनाओं से तो यही सिद्ध होता है कि शरीर के प्रत्येक अवयव स्वतन्त्र चेतन नहीं हैं, किन्तु कोई एक चेतन है, उसे प्रसन्न करने को सब अवयव एक दूसरे की सहायता से सदा काम में लगे रहते हैं, तब तो शरीर के अवयवों वा शरीर में चैतन्य सिद्ध नहीं हुआ, किन्तु इन दृश्य अवयवों के अतिरिक्त चैतन्य कोई पृथक् है, यही सिद्ध हुआ । उसे ही हम आत्मा कहते हैं । कदाचित् यह कहा जाय कि अतिरिक्त कुछ नहीं, शरीर में ही चैतन्य-

शक्ति है, वह सयोग से ही उत्पन्न हुई है, किन्तु वह एक ही सब शरीर में व्याप्त है, पृथक्-पृथक् अवयवों में पृथक्-पृथक् चेतनता नहीं। तब प्रश्न यह होगा कि यदि सब शरीर में व्याप्त एक ही चैतन्य-शक्ति उत्पन्न हुई, तो फिर अगों में प्रतिनियत शक्ति क्यों है, अर्थात् आँख देख ही सकती है, सुन नहीं सकती। कान सुन ही सकते हैं, हाथ उठा ही सकते हैं, पैर चल ही सकते हैं, ऐसा नियम किम आधार पर हुआ। सब शरीर में व्याप्त एक ही चैतन्य-शक्ति उत्पन्न हुई, तो उस शक्ति के अनुसार सभी अवयवों को सभी काम करने चाहिए थे। यदि अवयवों में पृथक्-पृथक् कार्य करने की पृथक्-पृथक् शक्तियाँ भी उत्पन्न हुईं, यह भी मान लिया जाय, तो फिर जो अवयव नष्ट हो गया, उसके कार्यों का आगे स्मरण नहीं होना चाहिए। तब अन्धों को पूर्वदृष्ट रूपों का स्मरण नहीं बन सकेगा और वधिर को पूर्वश्रुत शब्दों की याद नहीं हो सकेगी, क्योंकि जहाँ-जहाँ जिस-जिस कार्य को करने की शक्ति थी, वहीं वह कार्य होता था और वही उसका स्फकार भी उत्पन्न होता होगा। उस अवयव के नाम के साथ ही वे स्फकार भी नष्ट हो गये, तब फिर स्मरण कैसा? इसके अतिरिक्त शरीर-विज्ञानवेत्ता डॉक्टर लोग यह मान चुके हैं कि कुछ नियत काल में शरीर के सब अवयव बदल जाते हैं। बहुत समय बाद पुराना रुधिर, मास, अस्थि आदि कुछ नहीं रहता, तब पूर्व अवयवों के द्वारा देखे-सुने गये रूप, शब्दादि का स्मरण किस आधार पर बनेगा। इसलिए मास, रुधिर, हड्डी आदि के बने हुए इस शरीर के अतिरिक्त चेतन आत्मा कोई दूसरा ही है, जो बदलता नहीं, नित्य है, यही मानने पर सब बातों की उपपत्ति हो सकती है कि उसी की प्रेरणा से और उसी की प्रसन्नता के लिए सभी अवयव अपना-अपना काम कर रहे हैं और इन सभी का स्फकार उसी नित्य चेतन पर होता है। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से सगति बैठ नहीं सकती।

आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मस्तिष्क में हजारों जुड़े-जुड़े कण हैं, इन्द्रियों और विषयों का परस्पर सम्बन्ध होने पर उनमें से कोई एक कण प्रज्वलित हो उठता है, उसे ही एक ज्ञान कहते हैं। ऐसे सैकड़ों, हजारों ज्ञान हमें अपनी आयु में होते रहते हैं। उन सब का अधिष्ठाता कोई एक नहीं, जिसे आत्मा कहा जाय। मस्तिष्क में सहस्रदल कमल तो हमारे यहाँ भी माना जाता है। हम उन्हें पृथक्-पृथक् दल कहते हैं। वे कण कह लेते हैं, इसमें तो विवाद का कोई स्थान नहीं। किन्तु, सब का अधिष्ठाता एक आत्मा माने बिना सगति नहीं बैठ सकती। प्रत्येक कण के अभिज्वलन से भिन्न-भिन्न ज्ञान उत्पन्न होते गये और नष्ट होते गये, तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता, यह मानना पड़ेगा। तब एक ज्ञान की दूसरे ज्ञान के साथ तुलना करनेवाला कौन है? हमें अनुभव होता है कि 'पहले हम ऐसा समझते थे, किन्तु आज समझ गये हैं कि हमारी वह समझ गलत थी, आज हमने ठीक समझा है।' इस प्रकार, पहले और इस समय के ज्ञानों की तुलना करनेवाला कौन है? 'तुलना करनेवाला भी एक स्वतन्त्र ज्ञान है', ऐसा यदि कहे, तो प्रश्न होगा कि यह नया ज्ञान उन पुराने ज्ञानों के सम्बन्ध में कुछ जानता ही नहीं, तब तुलना कैसे करता है? समार में जैसा कार्य-कारण भाव देखते हैं, उसी के अनुसार कल्पना की जाय, तब तो वह कल्पना ठीक

कहल्य सकती है और जैसा कर्दा देखा ही नहीं, वैसी कल्पना करने का कोई मूल्य नहीं होता। मत्र का अनुभव है कि हम अपने जानों की तुलना कर सकते हैं, दूसरे के जानों की नहीं कर सकते, तब यही कल्पना उचित हो सकती है कि 'हम' नाम का कोई एक स्वतन्त्र आत्मा है, उसी में सभी जान पंदा होते हैं और उसी में अपना-अपना संस्कार छोट जाते हैं। उन संस्कारों के आधार पर वह उन जानों की तुलना कर लिया करता है। दूसरे आत्मा का जान हम में संस्कार नहीं छोट सकते, इसलिए उनकी तुलना भी नहीं कर सकते। इन सब बातों पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर वैदिक-विज्ञान-मम्मत एक नित्य जान-रूप आत्मा अवश्य ही मान लेना पडता है।

जत्र हम देखते हैं कि एक ही श्रेणी में एक ही गुरु के पास नियत समय तक पढने-वाले और समान परिश्रम करनेवाले छात्रों में भी एक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, और दूसरा तृतीय होता है या अनुत्तीर्ण ही हो जाता है, तो इसका कोई कारण भी तो बताना पडेगा। आप कहें कि जिसकी बुद्धि तीव्र थी, वह प्रथम श्रेणी में हो गया, मन्द बुद्धिवाला रह गया, तो यह बुद्धि की तीव्रता और मन्दता क्या हुई, वह भी तो प्रश्न होगा। खान पान, रहन-सहन के सम्बन्ध से हुई, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत अच्छे खान-पान रहन सहनवाले कई छात्र मन्दबुद्धि देखे जाते हैं और जिनको साधारण भोजन भी कठिनता से मिलता है, वे तीव्रबुद्धि देखे जाते हैं। जिनके पिता-माता बहुत बुद्धिमान थे, वे कई एक अल्पबुद्धि होते हैं और अल्पबुद्धि माता-पिताओं की सन्तान तीव्रबुद्धि देखे जाते हैं। इसलिए, माता-पिता के अनुसार बुद्धि तीव्र और मन्द होने की कल्पना भी नहीं हो सकती। आकस्मिक या 'वाइ चान्स' कह देना तो उचित न्याय नहीं। ससार में आकस्मिक या 'वाइ चान्स' कुछ है ही नहीं। जिसका कार्य-कारण हम न समझें, उसे ही हम आकस्मिक या 'वाइ चान्स' कह दिया करते हैं। सब बातों में उचित उपपत्ति ढूँढना चाहिए और वह यही हो सकती है कि जान रूप आत्मा नित्य है और वह कर्मानुसार भिन्न-भिन्न शरीरों में आता रहता है और पूर्व-जन्म के संस्कार उसके साथ रहते हैं और उन्हीं के अनुसार बुद्धि की तीव्रता या मन्दता हुआ करती है। हमारा यह अभिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के खान-पान, रहन-सहन का कोई प्रभाव ही नहीं पडता। उसका भी प्रभाव अवश्य पडता है। अल्प बुद्धि-वाले भी अपने आचारों से बुद्धि बढा सकते हैं, किन्तु हमारा कहना इतना ही है कि विना नित्य जान-रूप आत्मा के स्वीकार किये, केवल रहन-सहन आचार से काम नहीं चल सकता। इसलिए जब व्यष्टि-रूप एक-एक नित्य आत्मा प्रति शरीर में मान लिया गया, तो उन सबका समष्टि-रूप एक महान् आत्मा भी मान लेना आवश्यक होगा। जहाँ से इन सब का उद्भव होता है और अन्त में उसी में लय होता है। वही परमात्मा परब्रह्म या परमेश्वर नाम से वैदिक सिद्धान्त में माना गया है।

आध्यात्मिक क्षर कलाएँ (व्यावहारिक जीवात्मा)

महाचैतन्य की व्यष्टि रूप एक-एक जीवात्मा के साथ पूर्वोक्त क्षर पुरुष की कलाओं का भी एक-एक अंश रहता है। वे आध्यात्मिक कलाएँ कही जाती हैं। जैसे,

हमारा आत्मा एक महान् आत्मा का अंश है, वैसे ही वे हमारी आध्यात्मिक कलाएँ भी आधिदैविक और आधिभौतिक कलाओं के अंश हैं। इन अंशों के सम्बन्ध से एक ही मुख्य जीवात्मा के व्यावहारिक रूप अनेक आत्मा प्रादुर्भूत हो जाते हैं। क्षर पुरुष की आध्यात्मिक कलाओं के नाम त्रीजचिति, देवचिति, भूतचिति, प्रजा ओर वित्त हैं। और, इन कलाओं के सम्बन्ध से जो व्यावहारिक आत्माओं के भिन्न-भिन्न रूप बनते हैं, उनके नाम हैं—शान्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा और प्राणात्मा। ये पाँचों जीव के तत्र का परिचालन करते हैं। इन्द्रियों को शक्ति देकर उनका परिचालन करनेवाला प्राण है। उस प्राण से परिच्छिन्न चैतन्य को प्राणात्मा कहते हैं। इसी प्रकार, मन से परिच्छिन्न चैतन्य या मन सहित चैतन्य को प्रज्ञानात्मा और बुद्धि-गर्भित या बुद्धि-सहित चैतन्य को विज्ञानात्मा। उससे भी पर उसके नियामक महत्त्व से परिच्छिन्न चैतन्य को महान् आत्मा और इन सब में अनुप्रविष्ट होकर इनको एक सूत्र में बाँधनेवाले अन्तर्यामी-रूप चैतन्य को शान्तात्मा कहा जाता है, इनका क्रम से निरूपण कठोपनिषद् में स्पष्ट है—

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।

मनसस्तु परा बुद्धिर्वुद्धेरात्मा महान् परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः।

पुरुषात् परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

[इन्द्रियों पर, अर्थात् उच्छिष्ट है, उनसे पर मन है, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से पर महान् आत्मा, महान् आत्मा से पर अव्यक्त आत्मा और अव्यक्त आत्मा से पर पुरुष कहा जाता है। पुरुष से पर और कोई दूसरा नहीं। वहाँ प्रकर्ष की समाप्ति हो जाती है, वही परमगति है।]

यहाँ इन्द्रियों को शरीरात्मा की अपेक्षा 'पर' कहा गया है, जिसका निरूपण आगे किया जायगा और शान्तात्मा को अव्यक्त नाम से कहा गया है। आगे—

यच्छेत् वाङ्मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेच्छान्तात्मनि ॥

इस श्रुति में शान्तात्मा का नाम स्पष्ट है। इनमें इन्द्रिय, मन और बुद्धि तो प्रसिद्ध ही हैं। महान् आत्मा का आजकल के प्रसिद्ध दर्शन-शास्त्रों में यद्यपि विवरण नहीं हुआ है, किन्तु भगवद्गीता में उसे स्पष्ट किया गया है—

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्।

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्तयः सम्भवन्ति याः।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद. पिता ॥

(अध्याय १४, श्लो० ३-४)

इन पद्यों का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी के शरीर का जो आकार बनता है, उस आकार का सम्पादक महान् आत्मा है और महान् आत्मा में बीज-रूप से अनुप्रविष्ट होनेवाला रस तो अव्यय पुरुष है ही। इस आकार बनानेवाली चैतन्य सत्ता को

‘आकृति महान्’ कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की जो एक प्रकृति, अर्थात् स्वभाव (आदत्त) बनती है, उसका सम्पादक भी यही महान् आत्मा है, जो ‘प्रकृति महान्’ शब्द से व्यवहृत हुआ है। और, सब आयतनों में अह-भाव का प्रसार करनेवाला ‘अहकृति महान्’ कहलाता है। आगे का अव्यक्तात्मा, शान्तात्मा मूल-रूप है, जो आत्मा के सब आयतनों को ग्रथित करता है। सत्तात्मा भी उसे कहते हैं। ये पाँच प्रकार के आत्मा वा पुरुषपदवाच्य मुख्य आत्मा के आयतन देव-परिस्थिति के अन्तर्गत हैं।

भूतो से उत्पन्न होनेवाला भूतात्मा या शरीरात्मा कहलाता है। यद्यपि शरीर पञ्चमहाभूतो के अंश से ही बना है, यह सभी जानते हैं। किन्तु, महाभूतो के अंशों से बननेवाले घट, पट, ईंट, पत्थर आदि की अपेक्षा शरीर में विलक्षणता अवश्य देखी जाती है। इसके अवयवों का एक उचित सन्निवेश और घटना-वदना-रूप विलक्षणता प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसी प्रकार, खाये हुए अन्न का रस, खिर, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र के रूप में क्रम से परिवर्तन होते रहना भी इस शरीर की ही विलक्षणता है। इसलिए मानना पड़ता है कि शरीराकार से परिणत होनेवाले भूतो में भी चैतन्य-शक्ति अनुस्यूत होकर काम करती रहती है। उसे भूतात्मा या शरीरात्मा के नाम से कहना उचित होगा। यही शरीरात्मा शुभ वा अशुभ कर्म करता है और जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति नाम की तीन अवस्थाएँ इसी की होती हैं। सधेप में मनुस्मृति के १२वें अध्याय में इन आत्माओं का निर्देश किया गया है—

योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते ।
 यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥
 जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ।
 येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥
 तावुभौ भूतसम्पृक्तौ महान् क्षेत्रज्ञ एव च ।
 उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥

अर्थात् जो शरीर से काम करानेवाला है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, इसी का नाम हमने पहले विज्ञानात्मा दिया है, जो काम करनेवाला है, वह भूतात्मा कहा जाता है। इन दोनों का अन्तरात्मा जीवात्मा है, जिससे सुख और दुःख का ज्ञान हुआ करता है। महान् और क्षेत्रज्ञ ये दोनों भूतात्मा से सदा मिलते रहते हैं। चाहे किसी भूत शरीर में, अशतः किसी भी योनि में आत्मा रहे, ये उसके साथ ही व्याप्त होकर रहा करते हैं।

यहाँ भूतात्मा विज्ञानात्मा दो का उल्लेख प्रथम श्लोक में है और महान् आत्मा भी अन्तिम श्लोक में कहा गया है। सब में चैतन्य देनेवाला जीवात्मा बताया है। प्रज्ञान और प्राण को पृथक् न कहकर भूतात्मा में ही समाविष्ट कर दिया है और शान्तात्मा को भी महान् आत्मा से पृथक् नहीं कहा, यह सक्षित प्रक्रिया है। अस्तु, कर्म करनेवाला भूतात्मा और भोक्ता, विज्ञानात्मा या जीवात्मा है, यह मनुस्मृति के वचनों से सिद्ध हो जाता है। व्याकरण-महाभाष्य में भी ऐसा प्रसङ्ग आया है कि भूतात्मा के किये हुए कर्मों का फल जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अन्य के लिए कर्म का फल अन्य कैसे भोग सकता है, यह शका यहाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि,

भूतात्मा मे भी चैतन्य मुख्य जीवात्मा से ही प्राप्त है। इसलिए कर्तृत्व जीवात्मा पर भी चला ही जाता है।

भूतो का परिणाम जिस प्रकार शरीर है, उसी प्रकार भूतो मे अनुस्यूत प्राणशक्ति-रूप अग्नि का अग्न यह भूतात्मा है। इसके पुन अवान्तर तीन भेद हो जाते है। वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ। इनमे वैश्वानर का कार्य है, शरीर के अवयवो का यथास्थान रगठन ओर उनका रक्षण। यह वैश्वानर आत्मा जड, चेतन सव प्रकार के पार्थिव पदार्थों मे व्याप्त है, अतएव अवयवो का सगठन सर्वत्र लोष्ठ, प्रस्तरादि मे भी साधारण रूप से दिखाई देता है। दूसरे, तैजस आत्मा का कार्य है, शरीर को क्रम से बढाना, यह वृक्ष-पर्यन्त प्राणियो में रहता है। जहाँ जहाँ क्रमिक वृद्धि दिखाई दे, वहाँ इसकी सत्ता का अनुमान हो जाता है। तीसरा, प्राज्ञ आत्मा वह है, जो ज्ञान, इच्छा सुप्त, दुःखादिक का आश्रय बनता है। इनके आयतन क्रम से अग्नि, वायु और सूर्य के अग्न हे, यह श्रुति मे माना गया है। अब प्राज्ञ आत्मा पुन. कार्यभेद से तीन प्रकार का माना जाता है। कर्मात्मा, चिदाभास और चिदात्मा। शुभ या अशुभ कर्मों मे शरीर को प्रवृत्त करनेवाला चैतन्याग्न कर्मात्मा कहा जायगा। कर्मजनित सत्कार भी इसी कर्मात्मा मे रहते हैं, जिन्हे मीमासा मे अपूर्व पद से कहा जाता है। न्याय मे धर्म-अधर्म पद से और लौकिक भाषा मे पुण्य-पाप जिन्हे कहते है। किन्तु पहले कह चुके है कि यह कर्मात्मा भूतात्मा की ही एक अवस्था है, और भूतात्मा भूतो मे अनुस्यूत अग्नि का परिणाम है। तब ऐसी स्थिति मे प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि इसमे चैतन्य कहाँ से आया ? क्योंकि, इसने उत्पादक भूत वा भूतों मे अनुस्यूत अग्नि तो जड है। उसका परिणाम चेतन किस प्रकार हो सकता है। इसका उत्तर वेदानुगामी हमारे दर्शन-शास्त्र यह देते है कि अत्यन्त स्वच्छता के कारण इसमे चिदात्मा का चैतन्य प्रतिविम्बित हो जाता है, जिसके कारण यह भी उसी प्रकार चेतन के समान कार्य करने लगता है। जिस प्रकार सूर्य प्रतिविम्ब से आक्रान्त सरोवर आदि का जल अपनी चमक दूर तक फैकने लगता है। उस चिदात्मा के प्रतिविम्ब को चिदाभास नाम से वेदान्तादि दर्शनो ने बताया है, और व्यवहारिक जीव इसी को माना है, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि आदि मे चैतन्य का संचार ही चिदाभास है। इस चिदाभास का मुख्य उत्पादक विम्ब, जो चिदात्मा नामसे प्रसिद्ध है, ईश्वर का अग्न है। यह पहले कहा जा चुका है। इसे दर्शनो मे प्रत्यगात्मा कहा जाता है। ईश्वर सव भूतो के हृदय मे विराजमान है। यन्त्रा-रुट प्राणियो की तरह अपनी माया से सबको घुमाता है। इस भगवद्गीता की उक्ति मे भी यही चिदात्मा दिवक्षित है। उपनिषद् मे अन्तर्यामी रूप से सवमे व्याप्त रहकर सबका नियमन करनेवाला इसे ही बताया गया है। यह भी तीन रूपो मे, मनुष्य आदि प्राणियो मे व्यस्थित है। जो रूप, विभूति, श्री और ऊर्ज्ज के नाम से कहे जाते हैं। ईश्वर द्वारा उत्पादित और प्राणियो मे व्याप्त तीन प्रकार के बल हे। ब्रह्मबल, क्षत्रबल, और विड्वल। उनमे ब्रह्मबल का नाम विभूति, क्षत्रबल का ऊर्ज्ज और विड्वल का नाम श्री है। इन बलो की विभेप अधिक्ता जहाँ देखी जाती है, उमे ही ईश्वरावतार माना जाता है।

यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशसम्भवम् ॥

इस भगवद्गीता के पत्र में उक्त तीन बलों के कारण ही ईश्वरगण या ईश्वरगवतार मानना बताया गया है। अन्तु; इस अप्रस्तुत विषय का विग्नार करना हम यहाँ नहीं चाहते। उक्त प्रकरण का सारांश यह है कि शरीरात्मा, वेदानर, तज्ज, कर्मात्मा, चिदाभास, विभूति, ऊर्ज और श्री नाम से भूतात्मा के आठ भेदों का निरपण हमने यहाँ किया है। जिनका रवेत मन्न ब्राह्मणात्मक वेदों में स्थान-स्थान पर मिलता है। इनके अतिरिक्त भूतात्मा का सहचारी एक और हमात्मा श्रुतियों में बताया गया है।

स्वप्नेन शारीरमसि प्रहृत्यासुप्तः सुप्तानभिचाकशीति ।
शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पौरुष एक हंसः ॥
प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं वहिःकुलायादमृतश्चरित्वा ।
स ईयते अमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पौरुष एक हंस ॥

तात्पर्य यह है कि पचीकृत वायु के आधार पर सूर्यमण्डल से प्राप्त ज्योति के द्वारा विज्ञान-सम्पन्न और चक्र-ज्योति के द्वारा प्रज्ञान सम्पन्न होकर यह हसात्मा भूतात्मा के साथ शरीर में रहता है, किन्तु शरीर के अवयव मांस, रविर, अस्थि, मज्जा आदि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं और वर्मजनित सरकार भी इस पर नहीं जाते। जाग्रत्, स्वप्न सुषुप्ति—ये अवस्थाएँ इसकी नहीं होती। जब भूतात्मा सुषुप्ति-दशा में रहता है, तब भी यह जागता रहता है और सुप्त पुरुषों के शरीर की चौकसी करता है। यह देखा जाता है कि कोई सर्प, वृश्चिक आदि जन्तु आनमण करने लगते हैं, तो सोया हुआ मनुष्य एकदम जग पडता है अथवा उठने के समय का अवधान करके यदि कोई मनुष्य सोवे, तो नियत समय के आस पास उसे अवश्य चेत हो जाता है। ये सब कार्य इसी हसात्मा के हैं। सूर्य के प्रकाश से चैतन्य लेने के कारण उक्त श्रुतियों में इसे हिरण्मय कहा गया है—यह शरीर से बाहर निकलकर चन्द्र-मण्डल-पर्यन्त भ्रमण की शक्ति रखता है। यही बात उक्त श्रुतियों में बताई गई है कि यह अपने कुलाय (घोसले), अर्थात् शरीर से बाहर विचर कर फिर अपने कुलाय में आ जाता है और उसकी रक्षा करता रहता है। बाहर विचरता हुआ भी अपने इष्ट कर्तव्यों का पालन करता है। यह उक्त श्रुति में कहा है कि शुक्र का ग्रहण करके यह फिर अपने स्थान में आ जाता है। अपना कार्य सम्पादन ही शुक्र-ग्रहण है। बहुत लोगों का विचार है कि आजकल टेबिल आदि में जो आत्माओं के आवाहन की प्रक्रिया भारत में और अन्य देशों में भी चल रही है, उसमें यह हसात्मा ही आता है और अपने स्मरण के अनुसार सन्देश देता है। शरीर के नष्ट हो जाने के अनन्तर भी यह वायु-रूप शरीर में विचरता रहता है और रूपग्रहण का सामर्थ्य भी इसमें होता है। इसके कई एक निदर्शन पुराणादि में प्राप्त हैं। अस्तु, पूर्वोक्त भूतात्मा के आठ भेदों के साथ इसकी भी गणना कर लेने पर नो भेद भूत-परिस्थिति के हो जाते हैं। पाँच देव-परिस्थिति पहले कह चुके हैं और ब्रह्म-परिस्थिति के पूर्वोक्त परात्पर,

अव्यय, अधर और धर इन चारों भेदों को, जो कि सर्वत्र व्याप्त हैं, इसके साथ जोड़ लेने पर जीवात्मा के अठारह आयतन बन जाते हैं। इस प्रकार, आयतन-भेद से ईश्वर और जीव दोनों के अठारह-अठारह भेद का श्रुतियों में विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार से उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे श्रुतियों का सावधान मनन करनेवाले विद्वान् ठीक स्थान में ले सकते हैं। धर पुरुष की जो पाँच आध्यात्मिक कलाएँ अभी पूर्व बताई गई हैं, उनमें शान्तात्मा का आयतन बीज-चित् से बना है। महान् आत्मा, विज्ञान आत्मा, प्रज्ञान आत्मा और प्राण आत्मा देव-चित् के आधार पर अवस्थित रहते हैं। भूतात्मा भूत चित् से सम्बद्ध है। प्रजा और चित्त ये दोनों भूतात्मा के परिग्रह हैं, जो नरीर से बाहर रहते हैं। प्रजा नाम सन्तति का है, और चित्त सम्पत्ति को कहते हैं। वहाँ तक हमारे आत्मा की व्याप्ति है। अतएव प्रजा और सम्पत्ति की प्राप्ति पर भूतात्मा में विकास और इनकी क्षति पर सकोच होता है, जिसे सुख और दुःख कहते हैं।

इस प्रकार, पुरुषत्रय का सक्षित निरूपण किया गया। यह भी कहा गया कि धर पुरुष का विकास ही यह सम्पूर्ण प्रपञ्च है। वह विकास किस प्रकार होता है, इसका भी दिग्दर्शन आवश्यक है।

सूक्ष्म प्रपञ्च की उत्पत्ति

धर पुरुष की सबसे प्रथम कला 'प्राण' नाम की बताई गई है। वह अति सूक्ष्म कला है—और अन्य कलाओं की जननी है।

सूक्ष्म कला से सूक्ष्म जगत् बनता है और स्थूल कलाओं से स्थूल। सूक्ष्म जगत् के मुख्य तत्त्व ऋषि, पितृ, देव, असुर और गन्धर्व हैं। 'प्राण' से ही सूक्ष्म जगत् के ऋषि आदि की उत्पत्ति होती है। स्मरण रहे कि ऋषि, पितृ, देव आदि शब्द श्रुति में कई अर्थों में व्यवहृत होते हैं। जगत् के मूल तत्त्व भी ऋषि, पितृ, देव आदि कहलाते हैं, जैसा कि भगवान् मनु ने मनुस्मृति के तृतीय पाद में बताया है—

ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देवदानवाः ।
देवेभ्यश्च जगत् सर्वं चरस्थाण्वनुपूर्वशः ॥

ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए, पितरों से देवता और असुर, देवता और असुरों से स्थावर-जगमात्मक सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है। यह मनु का कथन श्रुति-मूलक है। शतपथ-ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड के आरम्भ में ही कहा गया है कि यह सम्पूर्ण जगत् पहले असत् था, अर्थात् इस रूप में नहीं था। जिज्ञासा होगी कि फिर किस रूप में था ? तो इसका उत्तर—

ऋषयो चावते अये असदासीत् ।

अर्थात्, इस जगत् की पूर्वावस्था में ऋषि थे, उन्हें ही असत् नाम से यहाँ कहा गया है। पुनः जिज्ञासा होती है कि वे ऋषि क्या थे ? जो कि सम्पूर्ण जगत् के प्रारम्भ में थे। क्योंकि मनुष्य-रूप ऋषि तो प्रारम्भ में कैसे हो सकते हैं। तब इस जिज्ञासा का उत्तर वहीं दिया गया है कि 'प्राणा वा ऋषयः' अर्थात् वे ऋषि प्राण-स्वरूप थे। आगे उनके कई विभाग इस प्रकरण में लिखे गये हैं।

और उनसे देवताओं की उत्पत्ति का भी मन्त्र है। अस्तु, यहाँ ऋषियों की प्राणरूपता स्पष्ट बताई गई है और उनको ही जगत् के मूलतत्त्व माना है। 'ऋतव. पितर.' इत्यादि श्रुति में ऋतुओं के उत्पादक प्राणतत्त्वों को पितृ कहा गया है, और देवों की प्राणरूपता भी शतपथ ब्राह्मण में, चांदह्व काण्ड में, जनक के यज्ञ के प्रवर्णन में, याज्ञवल्क्य और शाकल्य के शास्त्रों में स्पष्ट हो जाती है। शाकल्य ने जब प्रश्न किया कि देवता कितने हैं? तब याज्ञवल्क्य ने अनेक प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर दिया—एक, दैत, तीन, छह, तैत्तिरीय और तैत्तिरीय सहस्र, तैत्तिरीय लक्ष आदि देवताओं की संख्या बतलाई। पुनः उसका स्पष्टीकरण पृच्छने पर याज्ञवल्क्य ने विवरण किया कि एक देवता, जो प्राण स्वरूप है, उगी का आगे विन्तार होता है। प्राण से ही रयि (मैत्र) उत्पन्न होती है। इसलिए रयि को प्राण का अर्धभाग मान लें, तो दैत देव हो जाते हैं। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सूर्य ये तीन देव हैं। इनके अविष्टाता अग्नि, वायु, और सूर्य को इनके साथ पृथक् गिन दिया जाय, तो लोक और लोकाविष्टाता मिलाकर छह देव हो जाते हैं। इनमें अग्नि के आठ भेद हैं, जिन्हें आठ वसु कहा जाता है। वायु के ग्यारह भेद हैं, जो ग्यारह रुद्र कहे जाते हैं। आदित्य के १२ भेद हैं, जो द्वादश आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सब ३१ हुए, और इनके साथ प्रजापति और इन्द्र नाम की केन्द्र-शक्ति मिला दिये जायें, तो ३३ देव हो जाते हैं (कहीं प्रजापति और वषट्कार बतलाये गये हैं, वह नाम-भेदमात्र है), इनमें एक एक के अनन्त कार्य हैं। उस कार्यरूप उपाधि के भेद से इनकी पृथक् गणना की जाय, तो ३३ हजार ३३ लाख वा ३३ कोटि कुछ भी कह सकते हैं। इस प्रकार से देवों की प्राणरूपता और सर्वजगत् की उत्पादकता स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार असुर, गन्धर्व की प्राणरूपता भी भिन्न-भिन्न प्रकारों से सिद्ध होती है। अब, इन तत्त्वों की जिन प्राणियों में प्रवानता है, वे लोकान्तरो के (पृथ्वी से ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों के) प्राणी भी इन्हीं नामों से कहे जाते हैं, और तारामण्डलों में जहाँ जहाँ ये तत्त्व प्रधान रूप से मिलते हैं। उन ताराओं को भी ऋषिदेव आदि नामों से और उनके अवान्तर भृगु, वसिष्ठ, इन्द्र, वरुण आदि नामों से भी कहा जाता है, एव इन तत्त्वों के आविष्कारक मन्त्रद्रष्टा मनुष्यविशेष भी ऋषि और देव कहे जाते हैं। इस प्रकार, इनकी अनेकरूपता श्रुतियों से और स्मृति-पुराणों से सिद्ध है। मुख्य ऋषि, पितृ, देव आदि प्राण-रूप ही हैं। उनके सम्बन्ध से ही इन नामों का अन्यत्र भी व्यवहार हुआ है। इनमें ऋषि ७, पितृ ६, देव ३३, असुर ९९ और गन्धर्व २७ हैं। ये पूर्ण प्रजापति के रूप हैं। अतएव इनका आयतन पूर्णवृत्त-मण्डल (गोलाकार)-रूप होता है। अक्षर पुरुष के निरूपण में बताया गई

१ अथ हैन विदग्ध शाकल्य पप्रच्छ कति देवा याज्ञवल्क्येति । स हैतयैव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्च त्रीच शता, त्रयश्च त्रीच सहस्रे त्योमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञवल्क्य, त्रयस्त्रिंशदित्योमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञवल्क्य, षडित्योमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञवल्क्य, त्रय इत्योमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञवल्क्य, द्वावित्योमिति होवाच, एक इत्योमिति होवाच, अर्द्ध इत्योमिति होवाच इत्यादि ।

—बृहदारण्यक-उपनिषद्, अध्याय ५, ब्राह्मण ९, कण्डिका १ ।

प्रक्रिया के अनुसार जग इन्द्र अधर पुरुष के द्वारा चारों ओर प्राण प्रसारित किये जाते हैं, तब एक तरफ जानेवाले प्राणों का समूह, एक मनु नाम का प्राण पृथक् बन जाता है। वह वृत्ताकार नहीं होता। एक तरफ जानेवाला अर्धवृत्ताकार प्रलम्ब रूप में बनता है, इसे अर्द्धेन्दु कहते हैं। उसके भी दो भेद होते हैं। एक आग्नेय प्राण और दूसरे सौम्य प्राण। आग्नेय प्राण पुरुष कहे जाते हैं, और सौम्य प्राण स्त्री। इन्हीं की प्रधानता से प्राणियों में पुरुष और स्त्री ये दो भेद हो जाते हैं। इसी आशय को श्रुति ने बताया है—“प्रजापति ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त किया। वे दोनों पति पत्नी-रूप हुए। इसीलिए पुरुष और स्त्री एक चने की दो दाल की तरह आधे-आधे हैं। इनमें प्रत्येक पृथक् सृष्टि करने में असमर्थ है। विवाह द्वारा जब दोनों संयोजित किये जाते हैं, तब उस पुरुष के अर्ध भाग को स्त्री पूर्ण कर देती है, और वे दोनों मिलकर यज्ञ के अधिकारी और सृष्टि में समर्थ हो जाते हैं।”^१ इसीलिए प्राणियों की सृष्टि मैथुनी सृष्टि कहलाती है। मिथुन नाम दो का है। दो के योग से जो सृष्टि हो, वह मैथुनी सृष्टि हुई।

इस मनु-प्राण के भी पाँच भेद हैं। पुरुष (मनुष्य), अश्व, गो, अज और अवि, जैसा कि धर पुरुष विराट्की सृष्टि बताते हुए पुरुषसूक्त में आग्नात है—

तस्मादश्वो अजायन्त ये के चोभयादतः ।
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्स्माज्जाताऽजावयः ॥

इसका पूर्वोक्त ही आशय है कि विराट् से अश्व, दोनों तरफ दौतवाले (मनुष्यादि), गो, अज और अवि उत्पन्न हुए। आजकल के कई विद्वान् इससे यह कल्पना करते हैं कि वेदिक काल में आर्यों को चार ही पशुओं (अश्व, गो, बकरा और भेड़) का परिचय था। अन्य पशुओं को वे नहीं जानते थे। अतएव मन्त्र में चार का ही नाम लिया है। किन्तु वैदिक परिभाषा को जो समझते हैं, उनकी दृष्टि में यह कल्पना निरी उपहासास्पद है। वेद ने तो प्राणों के विस्तार के प्रसंग में पाँच नाम लिये हैं, जिसका यह आशय है कि मनु-प्राण पाँच प्रकार का ही होता है। उनके ही परस्पर-सम्बन्ध और तारतम्य से अनन्त प्राणी बन जाते हैं। इसीलिए इनके ही सम्बन्ध से रासभ आदि का नाम भी गतपथ आदि ब्राह्मणों में स्पष्ट लिया गया है। मन्त्र-सहिताओं में भी ग्राम और आरण्यक पशुओं के नाम बहुधा प्राप्त होते हैं—

महिपासो मायिनश्चित्रभान्तवो गिरयो न स्वतवसो रघुष्यदः ।
मृगा इव हस्तिनः खादथा वना यदारुणीषु तविपीरयुग्ध्वम् ॥

(ऋ० १।६।७)

इस एक मन्त्र में महिप, मृग हस्ती आदि कई पशुओं के नाम आये हैं।

१ स वे नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते। स द्वितीयमैच्छत्। स हेतावानास यथा स्त्रीपुमानौ नपरिष्वक्तौ। स इममेवात्मानं द्वेषाऽपातयत्तत पतिश्च पत्नी चाऽभवता, तस्मादिदमर्ध-पृगलमिव ख इति ह रमाह याज्ञवल्क्यः, तस्मादयमाकाशं स्त्रियां पूर्वते।

—बृहदारण्यकोपनिषद्, अध्याय ३, ब्राह्मण ४, कण्टिका ३।

प्रहित्वा प्रपन्नजिगं न यामन्ति स्तोमेभिः ऋणव ऋणवो यथा
मृध उग्रो न पीपरो मृधः । (ऋ० १।१३।८।२)

उदानट् ककुहो दिवमुग्रान् चतुर्गुजो ददत् ।

श्रवसा याहं जनम् । (ऋ० ८।६।४९)

इत्यादि में उग्र का नाम बहुधा आया है ।

‘या व्याघ्रं विष्ट्रकिकोभौ वृकं च रक्षिते । श्येमं पतत्रिणं सिंहम् ।
(यजुः, १९।१०)

इसमें व्याघ्र, वृक, सिंह आदि के भी नाम स्पष्ट हैं ।

इससे यह सिद्ध नहीं होता कि चार या पाँच पशुओं का परिचय ऋषियों को था । वेद की परिभाषा न जानने के कारण ही वेद के सम्बन्ध में ऐसी उटपटाँग कल्पनाएँ बहुत चल रही हैं । अस्तु, अपने प्रयोग पर आइए । अब हम ऋषि, पितृ और देव का सक्षिप्त विवरण उदाहरण रूप से कर देते हैं ।

ऋषि

कहा जा चुका है कि धर पुरुष की जो प्रथम कला प्राण नाम से कही गई है, उसका प्रथम रूप ऋषि ही है । इसमें शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण भी पूर्ण उद्धृत कर चुके हैं । इन ऋषियों के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड के आरम्भ में ही बताया गया है कि ये सात रूप में विभक्त होकर रहते हैं । इनमें दो-दो मिलकर चार मन्व मे रहा करते हैं और दो उनके पक्ष-रूप में बाहर निकले रहते हैं ।^१ मन्व मे भी इन सातों की स्थिति का संकेत है । यही पक्षियों में पक्ष पैदा कर देते हैं, इसलिए सामान्यतः इन दो को पक्ष ही कहा जाता है और एक पुच्छ-रूप से अकेला नीचे को लटक जाता है और इन सातों का सार भाग श्री-रूप से ऊपर निकलकर शिर के रूप में बन जाता है । वह सबकी श्री है, इसीलिए उसका नाम शिर हुआ है । इसका निदर्शन अपने-अपने शरीर में देखिए । मनुष्य के शरीर में चार पृथक् पृथक् विभाग हैं, जो चार गुहा नाम से कहे जाते हैं । सबसे ऊपर शिरोगुहा, दूसरी उरोगुहा, तीसरी उदर-गुहा और चौथी पाद गुहा । इन चारों गुहाओं में उक्त प्रकार से सात-सात प्राणों की स्थिति है और उनकी श्री के रूप में एक ऊपर निकला हुआ है । शिरोगुहा में दो आँख, दो नासिका के छिद्र, ये चार आत्मा-स्थान में हैं । दो कान पक्षरूप से बाहर निकले हुए हैं और एक मुख पुच्छ के स्थान में नीचे चला गया है । इन सातों की श्री से सबका सार भाग ब्रह्मरन्ध्र है, जिसका सूर्य-प्राण से

१ स योऽय मध्ये प्राण , एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणैन्ध, यदैन्ध, तस्मादिन्ध, इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्ष, परोक्ष कामा हि देवास्त इद्धा सप्त नाना पुरुषानसृजन्त । तेऽब्रुवन् न वा इत्थ सन्त शक्ष्याम प्रजनयितुमिमान्त्सप्त पुरुषानेक पुरुष करवामेति, त एतान्त्सप्त पुरुषानेक पुरुषमकरोत् ।

—शतपथ, काण्ड ६, अध्याय १, ब्राह्मण १ ।

२ साकञ्जाना सप्तथमाहुरेकग षडिद् यमा ऋषयो देवजा इति ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रक्षन्ति विकृतानि रूपश ॥

—ऋग्वेद-संहिता (१।१६।१५)

निरन्तर आवागमन सम्बन्ध है और जिस पर वज्रा-रूप दिखा हम लोग रखा करते हैं। वही इन सातो का सार है और सबको बल देता है। ये शरीर के जो अवयव यहाँ बताने गये, वे उन आठ प्राणों के आयतन, अर्थात् स्थान हैं। इनमें बैठकर काम करनेवाली शक्तियाँ प्राण के भेद हैं। इसी प्रकार, आगे की गुहाओं में भी स्थानों का निर्देश किया जायगा। उनमें उनमें रहनेवाली प्राण-शक्तियाँ समझ लेना उचित होगा। दूसरी, उरोगुहा में दो फुफ्फुस (फेफटे), दो स्तन ये चार आत्मस्थानीय हैं। पक्ष-रूप दो हाथ बाहर निकले हुए हैं। पुच्छ-रूप हृदय नीचे की ओर लटक गया है और सातो की श्री कण्ठ-रूप हैं। वहाँ भी एक प्राण प्रतिष्ठित रहता है, वही मुख्य है। उस पर आघात लगते ही मनुष्य की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। यहाँ पुच्छ कहने से उस प्राण की अवज्ञा न समझी जाय। श्रुति ने पुच्छ को प्रतिष्ठा-रूप कहा है। उसके ही आधार से स्थिति होती है। बिना उसपर अवलम्ब देने, कोई प्राणी बैठ नहीं सकता। तीसरी, उदर-गुहा में दो झोम, दो यज्ञतु और प्लीहा आत्मस्थानीय हैं, दो पार्श्व पक्ष रूप से कुछ बाहर की ओर निकले हैं। सातवीं नाभि पुच्छ-रूप से नीचे को लटकी है। इन सातो की श्री हृदय ही है, जो कि पृथ्वी-गुहा के पुच्छ के साथ मिला गया है। चौथी, पाद-गुहा में मूत्रेन्द्रिय एवं दो अङ्कुर ये चार आत्मस्थानीय हैं, पक्ष के स्थान में दो पैर बाहर निकल गये हैं और पुच्छ रूप में सातवीं प्रतिष्ठा-रूप मलत्यागेन्द्रिय है। सातो की श्री के रूप में मस्तकस्थानीय वही नाभि है, जो पूर्व गुहा के पुच्छ के साथ सम्मिलित हो गई है। यह पुरुष शरीर की स्थिति एक दृष्टान्त-रूप है। इसी प्रकार, ऋषि-प्राणों की समस्त पदार्थों में स्थिति है और इसका ज्ञान प्राप्त कर लेनेवाले उन सारे पदार्थों से आध्यात्मिक भाग में बहुत कुछ सहायता ले सकते हैं। ये ही क्रम से देवता-रूप में परिणत हो जाते हैं, जैसा कि आत्मस्थानीय प्राणों को इन्द्र कहा जाता है, अर्थात् वे इन्द्र देवता के अविर्भावक हैं और पुच्छस्थानीय प्राणों को वाक् या अग्नि कहते हैं, वही अग्नि देवता की अविर्भावक हैं।

यह प्राण-रूप ऋषियों का विवरण हुआ। तारा मण्डल में अब के चारों ओर घूमनेवाले जो सप्तपि नाम के सात बड़े-बड़े तारे दिखाई देते हैं, उनकी भी स्थिति इसी प्रकार है। उनमें चार एक चतुष्कोण बनाकर आत्मा-रूप से अवस्थित हैं। दो पक्ष-रूप से अलग बाहर निकले हैं और एक पुच्छ रूप में नीचे को झुका है। पूर्वोक्त ऋषि-प्राणों की इन ताराओं में बहुलता है, यही परीक्षा करके इन्हें सप्तपि नाम दिया गया है। इनके नाम पूर्व दिशा से आरम्भ कर क्रमशः १ मरीचि, २ वसिष्ठ, ३ अङ्गिरा (ये ३ त्रिकोण में) ४ अत्रि, ५ पुलस्त्य, ६ पुलह, ७ ब्रतु (चतुष्कोण में), ये सातों में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं नामों के मनुष्यविशेष भी ऋषि कहलाये हैं, जो इन तारों के आधिष्ठाक थे। इनके अतिरिक्त आकाश-मण्डल के मध्य में विपुवत् वृत्त के समीप भी मत्स्य, वसिष्ठ और अगस्त्य नाम के तारे ऋषि कहलाते हैं। अगस्त्य दक्षिण में अधिष्ठित माने जाते हैं, वसिष्ठ उत्तर में और मत्स्य मध्य में। यही अगस्त्य ऋषि समुद्र का पान करनेवाले पुराणों में बताने गये हैं। इस कथा का आशय यही है कि वर्षाकाल का अन्त समीप होने पर इस अगस्त्य तारा का दर्शन होता है और उदित होते ही

दूसरे के जनक और कहीं उससे उत्पन्न हुआ करते हैं। क्रमिक धारा में एक में दूसरे की उत्पत्ति होती रहती है। इगम सन्देह नहीं। तत्त्वों में ऐसी बात प्रत्यक्ष भी देखी जाती है। अग्नि में जल उत्पन्न होता है—प्रचण्ड ग्रीष्म में अग्नि की अधिकता होने पर वह जल-रूप में परिणत हो नीचे गिर जाता है, जिसे वर्षा कहते हैं। और वही जल फिर वाष्प रूप होकर उठ जाता है, तो अग्नि जल का उत्पादक भी हुआ और उससे उत्पन्न होनेवाला भी। इसी प्रकार, कहीं वायु में जल बनता है, कहीं जल फिर वायु-रूप हो जाता है। इस प्रकार, भौतिक तत्त्वों में परस्पर जन्य-जनक-भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार, प्राण रूप देव, पितृ आदि में परस्पर जन्य-जनक-भाव हुआ करता है। पितृ-प्राण से जब देव प्राण बन गये, तब वे पितृ-प्राण देव-प्राण में ही अनुप्रविष्ट हो गये। इसलिए, भगवान् याज्ञवल्क्य ने देवों को ही पितर कहा, तो इसमें कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि देव-प्राण में अनुप्रविष्ट होने के कारण पितृ-प्राण इस समय देव ही कहे जा सकते हैं। आगे यदि कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से पितृ-प्राणों को पृथक् निकालना चाहे, तो वह देव-प्राणों में से ही निकालेगा। जैसे, जल आदि तत्त्व विद्युत् से ही बने हैं, किन्तु जब हमें विद्युत् की आवश्यकता होती है, तब जल में से ही निकालते हैं। इसलिए अब उसे जल से उत्पन्न भी कह सकते हैं। यों, तत्त्वों में परस्पर जन्य-जनक-भाव होता रहता है, इसमें सन्देह का कोई स्थान नहीं।

कई विद्वान् पूर्वोक्त शका का समाधान इस प्रकार भी करते हैं कि प्राण-रूप पितृ और देवों में मनु का क्रम समझना चाहिए। अर्थात्, पितृ प्राण से ही देव-प्राण उत्पन्न होता है और श्राद्ध-कर्म की प्रक्रिया में देवता ही पितृ रूप हैं, क्योंकि वे ही अपने अन्तर्गत प्रेत पितरों का पालन क्रिया करते हैं और मनुष्य-रूप पितरों में जो अधिक विद्वान् हो, वे ही अपने से बड़ों के भी पितर कहलाते हैं। इस प्रकार, विषय-भेद से परस्पर विरोध नहीं है। अस्तु,

प्रेत-पितृ-निरूपण (मृत्यु के अनन्तर की दशा)

मृत्यु के अनन्तर इस लोक से पितृलोक में मनुष्य किस प्रकार जाते हैं—फिर वहाँ से कैसे लौटते हैं, इस आवागमन-प्रक्रिया का पूर्ण विवरण सामवेद के ताण्ड्यमहा-ब्राह्मण के छान्दोग्य-उपनिषद्-भाग में स्पष्ट (पंचम प्रपाठक, तृतीय खण्ड से दशम खण्ड तक) किया गया है, वहाँ मृत्यु के अनन्तर तीन प्रकार की गति बतलाई गई है— अर्चिमार्ग, धूम-मार्ग और दोनों से अतिरिक्त तीसरा उत्पत्ति-विनाश-मार्ग। पूर्व के दो मार्गों को ही देवयान और पितृयान-मार्ग कहा जाता है। आत्मनिरूपण में हमने स्पष्ट किया है कि शरीर से निकलकर जानेवाली देवचिति-रूप क्षर पुरुष की कला है, जिसमें प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा और महान् आत्मा सम्मिलित रहते हैं। दार्शनिक भाषा में इस देव-चिति का सूक्ष्म शरीर नाम से निर्देश किया जाता है। मुख्य नित्य विशु आत्मा जिसे कहते हैं, वह तो व्यापक है। वह कही जा-आ नहीं सकता और स्थूल शरीर की यही प्रत्यक्ष तीन गतियाँ देखी जाती हैं, जिन्हें कृमि-क्रीड और भस्म नाम से वैराग्य-शास्त्रवाले कहा करते हैं—अर्थात् यदि अग्नि में स्थूल शरीर जला दिया गया, तो

भस्म-रूप हो जाता है। यदि कोई मासाग्नी जन्तु उसे खा गया, तो विष्टा-रूप होकर उसके उदर से निकलेगा। और, यदि कोई स्थूल शरीर पड़ा ही रह गया, या भूमि में गाड़ दिया गया, तो वह कृमि (कीड़े) के रूप में परिणत हो जाता है, अर्थात् उसमें हजारों कीड़े-ही-कीड़े पड़ जाते हैं। अस्तु, कहना यही है कि न स्थूल शरीर कही जाता-आता है और न मुख्य विभु आत्मा, क्योंकि व्यापक में गति हो ही नहीं सकती। तब शरीर से निकलकर लोकान्तर वा जन्मान्तर में जानेवाला सूक्ष्म शरीर ही है, जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि यह १७ तत्त्व सम्मिलित हैं। इन्हीं में रहनेवाले चैतन्य का प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा आदि नामों से हमने पूर्व में निरूपण किया है। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया से विचारना चाहिए कि यह सूक्ष्म शरीर कहाँ जायगा ? वैज्ञानिकों की प्रक्रिया कई बार हम बता आये हैं कि विज्ञान में सजातीय आकर्षण-सिद्धान्त मुख्य माना जाता है। प्रत्येक वस्तु अपने सजातीय धन की ओर स्वभावतः जाती है। पृथ्वि समष्टि की ओर जाया करती है। जैसे, मिट्टी का टेल टेल पृथ्वी की ओर आता है। उक्त १७ तत्त्वों में मन प्रधान है, और वह चन्द्रमा का अंग है, इसलिए चन्द्रमा के आकर्षण में बंधकर वह चन्द्रलोक में ही पहुँचेगा, वही दिव्य पितरों का निवास है, वही मुख्य पितृलोक है, इसलिए स्वभावतः मृत पुरुषों की पितृलोक-गति सिद्ध हुई। किन्तु, यदि मन की प्रधानता न रहे और सूक्ष्म शरीर का कोई और ही भाग प्रधान बन जाय, तो फिर उसके अनुसार गति होगी। मन के अनुसार चन्द्रलोक-गति नहीं बनेगी। मन की प्रधानता दो प्रकार से दबती है। जो तपस्वी, योगी या प्रबल उपासक होते हैं, वे विज्ञानात्मा या बुद्धि-शक्ति को प्रबलकर मन को दबा देते हैं। विज्ञानात्मा या बुद्धि-तत्त्व सूर्य का अंग है, इसलिए वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार बुद्धि-प्रधान होने के कारण उनपर सूर्य का आकर्षण हो जाता है और वे सूर्य-मण्डल की ओर चल पड़ते हैं। सूर्य-मण्डल देवप्राणों की समष्टि है, और स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए इस मार्ग को देवयान-मार्ग या अर्चिमार्ग भी कहा गया है। तीसरी गति जघन्य है। पृथ्वी के पदार्थ धन, पशु, गृह आदि में ही जिसका मन अधिक फँस गया, वहाँ पृथ्वी का आवरण मन पर चढ़ जाता है और जैसे तुम्हें मे तैरने की शक्ति होने पर भी यदि उसे मिट्टी से खूब लपेट दिया जाय, तो जल के ऊपर आने की शक्ति उसकी दब जाती है। वह जल में डूब जाता है। इसी प्रकार, पार्थिव वस्तुओं की वासना प्रबल होने पर मन की शक्ति दब जाती है, और चन्द्रलोक-गति उसकी नहीं बनती। भूमि के पदार्थों की वासना प्रबल होने के कारण भूमि का ही आकर्षण उस सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है, और वह भूमि में बार-बार उत्पन्न होनेवाले और दिन में सैकड़ों बार मर जानेवाले कीट पतंगों के प्रवाह में पड़ जाता है, इसे ही श्रुति में 'जायस्व म्रियस्व' कहकर तीसरी गति बताई गई है। जिसका अर्थ है कि बार-बार पैदा होना और मरते जाना। श्रुति और शास्त्रों ने इस गति को बहुत ही बुरी गति माना है। इससे उधार पाना बहुत ही कठिन है। यहाँ जीव अपने-आप कुछ कर नहीं सकता। चौरासी के चक्र में पड़ा रहता है, प्रकृति-माता की ही जब कभी कृपा हो, तब वह त्रम से निकलता-निकलता कालान्तर में मनुष्य-योनि तक आ पाता है। इसीलिए, भारतीय सत्कृति में

सब लोग कहा करते हैं कि मृत्यु के समय भूमि के पदार्थों में मोह करानेवाली बातें उस मुमूर्षु के समीप नहीं करनी चाहिए। उसे मोह में छुटाने के लिए जहाँ तक वने, भगवान् का स्मरण ही कराना चाहिए।

इसी विषय को वैदिक परिभाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्या और कर्म ये दोनों आत्मा के साथ रहते हैं—“त विद्याकर्माणी समन्वारभेते पूर्वप्रजा च”, (श्रुति)। अर्थात्, विद्या और कर्म एव पूर्व सरकार आत्मा के साथ चलते हैं। बुद्धि के दो भेद शास्त्रों में माने गये हैं। सत्त्वप्रधान, और तमःप्रधान। सत्त्वप्रधान बुद्धि के चार रूप होते हैं। ज्ञान (विद्या) वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म एव तमःप्रधान बुद्धि के भी इनके विपरीत चार रूप होते हैं। अविद्या (अज्ञान), अवैराग्य (राग और द्वेष), अनैश्वर्य (अस्मिता) और अधर्म (अभिनिवेश), इनमें सामान्य रूप से सात्त्विक रूपों को विद्या और तामस रूपों को अविद्या कहा जाता है। अविद्या का ही कर्म नाम से भी श्रुतियों में व्यवहार है, क्योंकि आत्मा को कर्म में प्रवृत्त करने के कारण वे अविद्या के ही चार रूप होते हैं, वे कर्म के कारण होने से कर्म शब्द से कहे जाते हैं। विद्या और कर्म इन दोनों धर्मों का इस गति से अविक सन्बन्ध है। विशेषतः, इस आत्मा में जितना कर्म का कपाय बढ़ता जाता है, उतना ही आत्मा कपाय के परतत्र होकर उसीके अनुसार न्यूनाधिक ऊपर-नीचे गति पाता है। किन्तु विद्या या ज्ञान की वृद्धि से वह कपाय निवृत्त होकर आत्मा को विशुद्ध बनाता है, तो उस समय आत्मा का निज-स्वरूप जो विद्या है, वह प्रबल हो जाती है, जिससे आत्मा व्यापक बन जाती है और आत्मा का गति-क्रम भी जाता रहता है। तात्पर्य यह है कि जबतक आत्मा में विद्या और कर्म इन दोनों का न्यूनाधिकता से समुच्चय रहता है, तबतक आत्मा की गति होती है, जिसमें विद्या की अधिकता से ब्रह्मगति या स्वर्ग-गति और कर्म की अधिकता से पितृगति या नरक-गति होती है। इन दोनों दशाओं में आत्मा विद्या और कर्म से युक्त रहता है। किन्तु यदि इस प्राणी के बहुत छोटे निकृष्ट कर्मों की इतनी प्रबलता हो जाय कि जिसे आत्मा की विद्या का अत्यन्त न्यून आभास होता हो अथवा सर्वथा नष्ट हो गया हो, तो इन दोनों दशाओं में आत्मा अत्यन्त दुर्बल और कर्म के कपाय का भार अत्यन्त प्रबल हो जाने से भी आत्मा की ऊर्ध्वगति वा अवोगति दोनों बन्द हो जाती है। इन दोनों में विद्या का आभास रहने की दशा में नीचे के वे क्षुद्र जीव उत्पन्न होते हैं, जिनमें अस्थि नहीं होती। जैसे दश (डास), मशक (मच्छर), यूक (जू), लिख (लीख), मत्कुण (उटकण, खटमल) आदि और दूसरे, जिनमें विद्या का कुछ भी आभास ही है, कर्म के दबाव से सर्वथा विद्या का आवरण रहता है, वह सूनी हुई आत्मा ओपधी या वनस्पति-रूप में चली जाती है। जिनका पौधा फल देकर नष्ट हो जाता हो, वे चावल, गेहूँ, जव आदि ओषधि कहलाते हैं और जिनका वृक्ष तो चिरस्थायी रहे, किन्तु फल नष्ट हो जाते हो, वे (आम, अमरूठ, केला आदि) वनस्पति कहलाते हैं। ये भी जीव की योनियाँ हैं, किन्तु इनमें चैतन्य अत्यन्त ही दबा हुआ है। इन दोनों प्रकार के जीवों की अगति होती है। अर्थात्, ये जीव इस पृथ्वी में जनमते-मरते योनि बदलते रहते हैं। किन्तु पृथ्वी को छोड़कर ऊपर को सबसे समीप चन्द्रमा में भी नहीं जाते और न कहीं नीचे के लोको में जाते हैं।

यदि ये अगतिवाले जीव भी दैवयोग से ऐसा सुयोग प्राप्त करे कि धीरे-धीरे ऊँचे वृक्ष, गूलर इत्यादि उत्पन्न होकर कुछ कुछ अंगों में कृमि, कीट बन जायें और फिर उसी सुयोग कर्म में अस्थिवाले जीव की दशा में आ जायें, तो फिर गति के मार्ग में ऊपर या नीचे जाने योग्य हो जाते हैं। किन्तु जबतक वृक्ष की या अनस्थि की दशा रहते हैं, तबतक उनकी गति को अगति ही कहते हैं।

विद्या और कर्म में इतना विरोध है कि विद्या आत्मा का स्वरूप है। यद्यपि यहाँ विद्या शब्द से बुद्धि की सात्त्विक वृत्तियाँ ली जाती हैं—यह वह लुके है, किन्तु सत्त्व के अति निर्मल होने के कारण उनमें चिदात्मा का पूर्ण प्रकाश रहता है। अतः, उन्हें आत्मा का स्वरूप ही कह सकते हैं। तामस रूपों में मलिन होने के कारण आत्मा का प्रतिबिम्ब नहीं होता, इसलिए वे आत्मविरोधी धर्म पर सम्बन्ध से आये हुए आगन्तुक कहे जाते हैं। विद्या की विरोधी जो अविद्या अनिवर्चनीय रूप से आत्मा में अकस्मात् उत्पन्न होती है और जो आत्मा से भिन्न भिन्न है, उसी के द्वारा आत्मा में क्लेश, कर्म, विपाक आशय उत्पन्न हो जाते हैं। ये ही सब उस अविद्या का मुख्य स्वरूप हैं। इसीलिए विद्या इनका विरोध करती है। जितनी ही विद्या बढ़ती है, उतना ही कर्म का बल घटता रहता है। यदि विद्या का प्रभाव आत्यन्तिक पराकाशा को पहुँच जाय, तो सब कर्म निःशेष विलुप्त हो जाते हैं और आत्मा विशुद्ध हो जाता है। किन्तु इसके विपरीत कर्म कितना भी बट जाय विद्या का नाश नहीं होता, केवल कर्मजन्य कषाय में उसका आवरण होता है। आवरण की मात्रा बटते बटते सम्भव है कि विद्या पूर्ण आवृत होकर विलुप्तप्राय हो जाय, ऐसी अवस्था में यद्यपि उसमें किसी प्रकार का ज्ञान अणुमात्र भी नहीं होता, तथापि वह दूसरे के ज्ञान का प्रमेय अवश्य रहता है। ज्ञान का विषय होकर विद्या से विषय-सम्बन्ध अवश्य रहता है, किन्तु उसमें स्वयं बुद्धि न होने से विद्या का लोप कह सकते हैं। इस प्रकार, इस आत्मा की तीन अवस्थाएँ सिद्ध होती हैं। एक वह, जिसमें कर्म ही कर्म है, कर्म के आवरण से विद्या लुप्तवत् हो गई है। दूसरी अवस्था वह है, जिसमें विद्या और कर्म दोनों तारतम्य से विद्यमान दीखते हैं। तीसरी अवस्था वह है, जिसमें कर्म सर्वथा लुप्त होने से आत्मा विशुद्ध विद्यारूप रह जाता है। इन तीनों में दूसरी जो मध्यम अवस्था है, जिसमें विद्या और कर्म इन दोनों का समुच्चय है, केवल उसी अवस्था में आत्मा की गति होती है। इस मध्यम अवस्था को छोड़कर शेष दोनों में आत्मा गति-शून्य हो जाता है। कर्म की अधिकता में कषाय के भार से आत्मा इतना भारी हो जाता है कि उसमें स्तम्भन (टहराव) होने से गति लक्षित हो जाती है, उसको भी उपर्युक्त रीति से अगति ही कहते हैं। किन्तु जब कर्म का सर्वथा लोप होकर आत्मा विशुद्ध हो जाता है, तब उस व्यापक आत्मा को सीमावद्ध परिच्छिन्न बनानेवाला कोई नहीं रहता, इसलिए कर्म-आवरण के क्षय होने से जीवात्मा अपने स्वरूप से व्यापक हो जाता है। जैसे, आकाश जो एक घड़े में घिरा हुआ है, वह घड़ा फूटने पर महाकाश में ही मिल जाया करता है। तब व्यापक की गति होना असम्भव है, इसलिए उसकी गति नहीं होती। इसी अभिप्राय से उस निष्कर्म आत्मा के लिए वेद कहता है—

न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ।

अर्थात्, उस आत्मा का उत्क्रमण नहीं होता, यहाँ ही वह आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। इस प्रकार, स्वर्ग वा नरक किसी भी लोक में ऊपर या नीचे कहीं न जाकर परिच्छिन्न क्षुद्र यह जो जीवात्मा अपने ही स्थान में सर्वजगत् व्यापकता को पा जाता है, उसको समवलय गति कहते हैं। (सम = अच्छी तरह, अव = वहाँ का वहाँ, लय = लीन होना) इसी का नाम परम-मुक्ति वा विदेह मुक्ति है। यह दो प्रकार की अगति का विवरण हुआ। अव फिर गति की ओर आए। कह चुके हैं कि विद्या की प्रधानता में सर्वाभिमुख गति होती है और विद्या के अविद्या द्वारा द्वा द्वये जाने पर चन्द्राभिमुख गति। अर्चिर्मार्ग को शुक्ल-मार्ग और धूम-मार्ग को कृष्ण-मार्ग कहा जाता है। यही अर्चिर्मार्ग और धूम-मार्ग है।

आत्मा, मन, प्राण, वाक् इन तीनों से त्रिधातु है। इनमें मन ज्योति-स्वरूप है, किन्तु शेष अज्योति है। यह सम्पूर्ण जगत् ज्ञान, क्रिया, अर्थात् इन तीनों स्वरूपों में बँटा हुआ है, और ये तीनों ही मन, प्राण, वाक् से उत्पन्न होते हैं, इनमें ज्ञान का भाग प्रकाश-स्वरूप होने से शुक्ल कहा जाता है, और अर्थ अज्योति होने से कृष्ण कहलाता है। किन्तु प्राण दो प्रकार का है—जो मन के भावों को पुष्ट करता है, वह 'अच्छ' है, वाक् की पुष्ट करनेवाला 'अनच्छ' है। इसी कारण प्राणजन्म धर्म भी दो प्रकार के हुए। ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले अथवा ज्ञान के सहकारी कर्मों को पुण्य कहते हैं, और आत्मविरोधी धर्मों को उत्पन्न करनेवाले अथवा ज्ञान का नाश करनेवाले कर्मों को पाप कहते हैं। पुण्य शुक्ल और पाप कृष्ण है। काम और शुक और भूतों के पाँच गुण ये तीनों ही वाक् के विकार हैं, इसलिए पाप होने पर भी ज्ञान के सम्बन्ध होने, न होने से इनमें भी तारतम्य है। अर्थात्, काम 'अच्छ' है, भूत गुण 'अनच्छ' है, किन्तु पुण्य-कर्मों का शुक 'अच्छ' और पाप-कर्मों का शुक 'अनच्छ' है।

प्रत्येक जीवात्मा अपने इन्द्रिय और शरीर के कारण कुछ-न-कुछ कर्म सदा करता ही रहता है। प्रत्येक कर्म करने के पश्चात् उस कर्म से उस आत्मा पर कुछ-न-कुछ प्रभाव पहुँचता है और उसी प्रभाव को सस्कार कहते हैं। यह सस्कार यदि देव-प्राणों का संग्रह करनेवाला है, तो उस कर्म को पुण्य-कर्म कहेंगे। किन्तु यदि वह सस्कार आसुर प्राण से बना हुआ है, तो उससे आत्मा कृष्ण हो जाता है, इसलिए उस कर्म को पाप कहते हैं। पुण्य के बल से आत्मा हल्का होता है और वह देवता की ओर जाना चाहता है। किन्तु पाप-कर्म से आत्मा भारी होता है, और वह ऊपर न जाकर पृथ्वी की ओर नीचे ही गिरना चाहता है, इसीलिए पाप को पातक, अर्थात् गिरानेवाला कहते हैं। यदि आत्मा में पुण्य-कर्मों का सस्कार है, तो वह शुक्ल-मार्ग से जायगा और पाप कर्मों के सस्कारवाला आत्मा कृष्ण मार्ग से जायगा।

इन कर्मों में ज्ञानपूर्वक यज्ञ, तप, दान, योग, उपासना आदि—ये ही पाँच कर्म ऐसे हैं, जिनमें आत्मा शुक्ल मार्ग से चलकर देवलोक में जाता है। किन्तु इष्ट (स्मार्त्तयज्ञ) आप्त (वापी-कृपादि बनाना), दत्त (भूखों को अन्नादि बँटना) ये तीनों

कर्म भी उत्तम कर्म माने जाते हैं, किन्तु इनसे कृष्ण मार्ग में प्रवृत्त आत्मा नरक जाने की अपेक्षा पितृलोक में जाता है। इन दोनों प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म है, उनको पाप कहते हैं। इनके करने से आत्मा में आसुर प्राण का मस्कार होकर भारीपन आ जाता है। वह ऊपर सूर्य की ओर न जाकर पृथ्वी से नीचे गिरता है और यही अधोगति कहलाती है। यह मुख्य कृष्ण मार्ग है। इस प्रकार, कर्म से शुक्ल मार्ग और कृष्ण-मार्ग का भेद जानना चाहिए। पातकों में भी अतिपातक, महापातक आदि प्रबल पातक-कर्मों से नरक-गति होती है। इसी प्रकार, शुक्ल-मार्ग में भी दो गतियाँ हैं—एक, ब्रह्मलोक-पर्यन्त गति और दूसरी, देवलोक-गति। ब्रह्मलोक-गति सर्वोत्तम गति होती है। वहाँ पहुँचकर फिर पृथ्वी-लोक में कोई जीवात्मा नहीं आ सकता, क्योंकि वह पृथ्वी के आकर्षण से बाहर निकल गया। अब पृथ्वी से उसका फिर सम्बन्ध नहीं जुड़ सकता। किन्तु जो ब्रह्मलोक तक नहीं पहुँचते, उसमें नीचे देवलोक में रह जाते हैं। वे पुण्यश्रीण होने पर फिर भी पृथ्वी-मण्डल पर आ सकते हैं। ब्रह्मलोक की गति उग्र तप, योग या प्रबल उपासना द्वारा ही प्राप्त होती है। इसे वेदान्तादि ज्ञानियों में क्रम मुक्ति नाम से भी कहा जाता है।

इस प्रकार, सब मिलाकर आत्मा का आठ प्रकार का परिणाम सिद्ध हुआ। चार गति और चार अगति। गति में प्रथमतः शुक्ल-मार्ग या देवयान और कृष्ण-मार्ग या पितृयान, ये दो भेद होते हैं। शुक्ल-मार्ग में ब्रह्मलोक-गति और देवलोक-गति ये दो अवान्तर भेद हैं। कृष्णमार्ग में भी पितृलोक-गति और नरक-गति ये दो अवान्तर भेद हैं। अगति भी प्रथमतः दो प्रकार की है—जघन्यरूप 'जायस्व म्रियस्व', गति और कैवल्य या मुक्ति। इनमें प्रथम जघन्य गति दो प्रकार की है—अस्थिरहित कीट, वृश्चादि रूप में जन्म और अस्थिवाले पशु आदि में जन्म। मुक्ति में भी प्रकार-भेद है—क्षीणोदक और भूमोदक। कुटुम्ब, शरीर, मन, प्राण इन्द्रिय आदि सबको आत्मा की व्याप्ति से निकालकर निर्गुण निराकार-रूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो मुक्ति होती है, वह क्षीणोदक-रूप मुक्ति है। और, कुटुम्ब में, ग्राम में, नगर में, देश में वा सम्पूर्ण भू-मण्डल में आत्मबुद्धि का आत्मा के विस्तार से जो मुक्ति प्राप्त की जाती है, वह भूमोदक नाम की मुक्ति है। जैमा गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है—

सियाराममय सब जग जानी, करौ प्रनाम जोरि जुग पानी।

सम्पूर्ण जगत् में ईश्वर भावना या आत्मा की भावना करना भूमोदक हुआ। मुक्ति के कैवल्य रूप में कोई भेद नहीं, किन्तु साधना में भेद होने के कारण भेद-व्यवहार किया जाता है।

इन आगे के आठ परिणामों के पूर्व वर्तमान शरीर से जीवात्मा या सधम शरीर का उत्क्रमण कैसे होता है, उसका भी सविस्तार विवरण आगे किया जा रहा है।

उत्क्रमण या शरीर-त्याग

सूर्य का रस-रूप विज्ञानात्मा यद्यपि असग है, तथापि उसका मृत्युभाग जो आसक्तिमान् है, उसमें प्राज्ञ आत्मा परिष्वक्त (पकड़ा हुआ), अर्थात् आलिङ्गित

रहता है, उसीके कारण यह विज्ञान आत्मा भी शरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर बनता है और शरीर में रहने के कारण कितने ही पाप्मा (मलिन), अर्थात् ज्ञान-विरोधी जड-धर्म, अर्थात् जिमके मगर्म से ज्ञान कल्पित होकर मलिन हो जाय, ऐसे धर्मों से ससृष्ट हो जाता है। जबतक प्राणी का जीवन रहे, तबतक यह (मिला हुआ) विज्ञान आत्मा इसी प्रकार कल्पित होकर अल्पज रहता है। किन्तु मृत्यु के समय जिस प्रकार फल अपने बन्धनों से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार यह विज्ञान आत्मा भी जो प्रत्येक अंगो से बंधा हुआ था, सबसे बन्धन तोटकर सञ्चित होकर प्राण आत्मा सहित सब इन्द्रियों को साथ लिये हुए केवल एक हृदय के अग्रभाग में आ ठहरता है। उस समय शरीर के किसी अंग में यदि स्पर्श करे, तो बोध नहीं होता, न बोलता है, न देखता है, न सुनता है, किन्तु केवल उसका हृदय छूने से धडकने का आभास होता है। अर्थात्, उस समय सब प्राणों को साथ लिये हुए विज्ञानमय मुख्य प्राण केवल हृदय में अपना व्यापार करता है। मुमर्षु (मरनेवाला) के मरण से कुछ पूर्व तक हृदयमात्र में अन्तर्बोध रहता है। उसी ज्ञान-प्रकाश के साथ सब इन्द्रियाँ प्राणों को लिये हुए मुख्य प्राण ब्रह्मरन्ध्र के छिद्र से निकलती है। यदि उस विज्ञान से मिले हुए प्रजात्मा में पापस्त्री दुर्वासनाएँ भरी हों, तो उसी दुर्वासना की मात्रा के अनुसार भारी होकर वह विज्ञानमय प्राण नीचे की ओर झुक जाता है। इसलिए, ब्रह्मरन्ध्र के द्वार से न निकलकर कदाचित् चक्षु से वा और किसी शरीर के भाग से निकलता हुआ देखा गया है। मृत्यु के समय जिस अंग से आत्मा निकलता है, उस अंग में कुछ-न-कुछ विकार अवश्य हो जाता है। जो आत्मा निकल जाता है, उसमें सब ज्ञानेन्द्रिय, सब कर्मेन्द्रिय, मुख्य प्राण, विज्ञान आत्मा और प्रज्ञान आत्मा और भूतों का अनुग्रह इतने साथ होकर सम्मिलित रूप में उत्क्रमण करते हैं। स्वप्न-काल में जिस प्रकार का वा जितना बोध प्राणी का रहता है, उसी प्रकार का उतना ही बोध उत्क्रमण के पीछे भी रहता है। यह इतनी आत्मा की मात्रा सूर्य, चन्द्रमा और चिदात्मा के रसों से बनी हुई होती है, वह अत्यन्त मगल और अत्यन्त पवित्र है। जबतक वह आत्मा शरीर में रहता है, तबतक शरीर के अपवित्र भागों को भी पवित्र रखता है। नख, केश, मांस, शोणित आदि सब शुद्ध रूप में जात होते हैं। किन्तु ये सब जीवित शरीर से भी अलग करने पर अपवित्र हो जाते हैं, और शरीर से आत्मा के उत्क्रमण होने से मृत्यु होने पर इस शरीर के सभी अंग-प्रत्यंग उसी समय सड़ने लगते हैं। थोड़े ही समय में अत्यन्त दुर्गन्ध निकलकर बाहर के वायु तक को गन्दा कर देती है। यह सड़ना या दुर्गन्ध होने की क्रिया जीवित दगा में भी अवश्य ही जारी रहती होगी। किन्तु इसी पवित्र आत्मा के कारण ये सब दोष दूर होकर यह शरीर अत्यन्त सुन्दर निर्मल और पवित्र बना रहता है। इसी शरीर की पवित्रता से उस आत्मा की पवित्रता सिद्ध होती है।

इस प्रकार, शरीर को छोड़कर निकला हुआ व्यावहारिक आत्माओं का समूह जिन शुक्ल-कृष्ण नाम के दो माया से जाता है, उनमें शुक्ल-मार्ग का वर्णन छान्दोग्य में इस प्रकार किया गया है कि पहले वह अर्चि, अर्थात् प्रकाश में जाता है। उसके अनन्तर

अह, अर्थात् दिन-भाग में और दिन-भाग से शुद्धपक्ष के भाग में फिर उत्तरायण के छह मासों में, उनके अनन्तर सवत्सराग्नि में, सवत्सराग्नि से सूर्य-मण्डल में सूर्य-मण्डल से चन्द्रमा में और चन्द्रमा से विद्युत् में जाता है। वहाँ विद्युत् में मानस-पुरुष आकर इस मार्ग के प्राणियों को ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है।^१

ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। यह सर्वोत्तम गति वा ऋम-मुक्ति है। वहाँ जो दिन, मास, पक्ष आदि नाम आये हैं, वे कालविशेष के वाचक नहीं, किन्तु आति-वाहिक, अर्थात् मृतात्मा को ले जानेवाले देवताओं के नाम हैं। यह वेदान्त-सूत्रों में निर्णय किया गया है। इन प्राण-रूप देवताओं का स्वरूप जानना आवश्यक होगा।

संवत्सराग्नि

वेदों में सवत्सर नाम चार-चार आता है। वहाँ वह सवत्सर शब्द केवल कालवाचक नहीं होता। किन्तु, सूर्य-मण्डल से जो अग्नि पृथ्वी पर निरन्तर आता रहता है, उसी को वैश्वानर और सवत्सराग्नि शब्दों से कहा गया है। एक वर्ष में जितनी मात्रा सौर-अग्नि की आई, वह एक सवत्सराग्नि हुआ। आगे दूसरे वर्ष में उसकी दूसरी मात्रा आयगी। हमारे शरीर में जो वैश्वानराग्नि काम करती है, वह उसी सौर अग्नि का एक अणु है, यह वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त है। यज्ञ के द्वारा यजमान के शरीर में स्थित वैश्वानराग्नि को संस्कृत कर सूर्य-मण्डल की पृथ्वी-व्याप्त सवत्सराग्नि के साथ मिला देना ही यज्ञ का उद्देश्य होता है, जिससे कि वह उस अग्नि के उद्भव स्थान सूर्य-मण्डल वा स्वर्ग लोक में जा सके। सवत्सर को यदि सबसे छोटे रूप में देखना चाहे, तो सवत्सर का वह सबसे छोटा विभाग वैदिक परिभाषा और लौकिक व्यवहार में भी अहोरात्र कहलाता है। पूरे सवत्सर में ३६० अहोरात्र होते हैं। इनमें भी दो दो अणु होंगे—एक अह, दूसरा रात्रि। एक दिन में सूर्य जितना प्रकाश देता है, वह एक अह का शुद्ध चक्र हो गया। उसके अनन्तर प्रकाश नहीं आता, तम आता है, वह कृष्णवर्ण का रात्रि-चक्र हो गया। यो एक एक के क्रम से ३६० शुद्ध-चक्र और ३६० कृष्ण-चक्र हुए। सब मिलाकर ७२० का पूरा सवत्सर हो गया। इनमें शुद्ध-चक्रों में सूर्य-मण्डल से आई हुई प्राण-रूप अग्नि व्याप्त है। वही गति-प्रक्रिया में अह शब्द से लिया गया है और कृष्ण-चक्रों में व्याप्त प्राण रात्रि शब्द से। यद्यपि यह प्रश्न होगा कि रात्रि-चक्रों में तो सौर प्राण नहीं है, फिर रात्रि शब्द किस प्राण का ग्रहण करेगा? किन्तु, यह प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि प्रकाश की तरह छायाश में भी उसका विरोधी पार्थिव प्राण रहता है, जिसे पितृप्राण वा असुर-प्राण कहते हैं। वही गति-प्रक्रिया में रात्रि शब्द

१ तद्य इत्थं विदुषो वे मेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तदधिषममिसम्भवन्ति। अचिषोऽहा, अह आपूर्यमाणपक्षम्, आपूर्यमाणपक्षात् यान् षडुदङ्ङेति मासास्तान्, मासेभ्य नवत्सरन्, सवत्सरादादित्यम्, आदित्याच्चन्द्रमनम्, चन्द्रमसो विद्युत्, तत्पुन्यो मानव, स पतान् मदा गमयति, अय देवयान पन्था इति।

से लिया जाता है। काले और ध्वेत अंशों के उम्र एकोत्तर क्रम पर भ्रमण-वादियों की ओर से एक शका उठाई जाती है कि सवत्सर का सत्रम छोटा जो विभाग अहोरात्र के नाम से वैदिक परिभाषा तथा अन्य शास्त्रों में व्यवहृत हुआ है, वह सूर्य के कारण नहीं है, वह होता है पृथ्वी के कारण। तात्पर्य यह है कि उम्र अहोरात्र की निर्मित पृथ्वी के परिभ्रमण का ही परिणाम है, न कि सूर्य के प्रभाव का। आकाश के जिस विभाग में पृथ्वी का यह गोला स्थित है, वहाँ निश्चित ही पृथ्वी का सूर्योन्मुख आधा विभाग शुक्र या सुफेद और पीछे का विभाग कृष्ण या काला रहेगा। अर्थात्, उस विभाग में काली छाया रहेगी। पृथ्वी-पिण्ड वर्ष-भर में आकाश के चारों किमी भी प्रदेश में रहे, वहाँ उसके सूर्य के सम्मुखवाले विभाग में सफेद और पीछेवाले विभाग में काली छाया रहेगी। इस प्रकार, पृथ्वी जिस स्थान पर स्थित है, उसके स्थान पर पृथ्वी के एक पृष्ठ पर एक ही काली छाया रहेगी। उसके पहले जो काले विभाग रहेंगे, वे सब सूर्य के सामने होते ही खत्म हो जायेंगे, अतः सवत्सर के पूर्ण क्रम में जो एकांतर से काला और सफेद का विभाग दिखाया गया है, वह ठीक नहीं उतरता। इस प्रश्न का समाधान यह है कि सवत्सर के अहोरात्रात्मक ये ७२० विभाग दर्शक यज्ञकर्त्ता मानवों की दृष्टि से है। हमारे अनुभव में प्रति २४ घंटे में यह बात आती है कि जब हम सूर्य के सामने रहते हैं, तब प्रकाश का अनुभव करते हैं। पृथ्वी जितना सूर्याभिमुख दिशा की ओर अग्रसर होती है, उतने की उज्ज्वल वा ध्वेत-कल्पना की जाती है। इस प्रकार, दर्शक के दूसरी दिशा में होने पर वह पृथ्वी जितने आकाश-प्रदेश में अग्रसर होती है, उतने प्रदेश को हम काला कहते हैं। पृथ्वी का गतिक्रम २४ घण्टे में गणना करके जो निकलता है, वही एक अंश कहलाता है। तब एक अंश की गतिवाले आकाश में उज्ज्वल और तम या शुक्र कृष्ण दो भाग हमारी दृष्टि से माने जा सकते हैं। प्रत्येक अंश के शुक्र-कृष्ण-भेद से दो भाग होने पर तीन सौ सात अंशवाले सवत्सर के ७२० भाग हो जाते हैं। इन्हीं अंशों को अहोरात्र-विभाग कहते हैं। यह प्रथम प्रकार अहोरात्र क्रम दिखाया गया।

२—सवत्सर के स्वरूपों में पहला विभाग ऊपर दिखाया गया—अहोरात्र विभाग। दूसरा विभाग महीने का होगा। इसकी उपपत्ति चन्द्रमा से सम्बन्ध रखती है। चन्द्रमा आकाश में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब वह चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में पहुँचकर अदृश्य हो जाता है, उसके दूसरे दिन पृथ्वी और चन्द्रमा दोनों के गतिक्रम से जब पृथ्वी के दूसरे छोर पर चन्द्रमा आ जाता है और सूर्य तथा चन्द्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, तब इतने समय में १५ दिन हो जाते हैं। इस प्रकार, समय के इस अन्तराल में पृथ्वी का गतिक्रम जब पूर्वाभिमुख होता है, तब शुक्लपक्ष होता है। यह शुक्लपक्ष उतने आकाश की सजा है। इसी प्रकार, चन्द्रमा गतिक्रम से १५ दिन में सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, इस समय में पृथ्वी जितना पूर्व की ओर आगे बढ़ती है, उसे कृष्णपक्ष की सजा दी जाती है। इस प्रकार, शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष के क्रम से पन्द्रह पन्द्रह दिन का एक-एक भाग बनता है, तब एक वर्ष में २४ भाग बन जाते हैं। इनमें बारह शुक्र और बारह ही कृष्णपक्ष एक के बाद एक के

क्रम से रहते हैं। सूर्य और चन्द्रमा के योग होने से पृथ्वी आकाश के जिस विन्दु पर होती है, वहाँ से आरम्भ करके फिर सूर्य और चन्द्र के दूसरे योग तक पृथ्वी जहाँ चली जाती है, उस विन्दु तक सवत्सर का बारहवाँ भाग होता है। इसको मास अथवा महीना कहा जाता है। इनमें परिव्याप्त सूर्य प्राण और पृथ्वी-प्राण गति-क्रम में शुक्रपक्ष और कृष्णपक्ष नाम से कहे गये हैं। उस एक मास में शुक्र और कृष्ण दो-दो भाग होने से सवत्सर के २४ विभाग बन जाते हैं। यही सवत्सर का दूसरा विभाग है।

३—ऋतु-क्रम से सवत्सर का तीसरा विभाग होता है। तीन ऋतुएँ प्रधानतया होती हैं—ग्रीष्म, वर्षा और शीत। प्रत्येक ऋतु चार चार महीनों की होती है। इसलिए, ऋतु-क्रम से सवत्सर के तीन भाग हो जाते हैं।

४—अयन के क्रम से सवत्सर का चतुर्थ भाग हो जाता है। प्रत्येक सवत्सर में ६ महीनों तक सूर्य विषुवद् वृत्त से उत्तर की ओर रहता है। इसमें ऐसी प्रतीति होती है कि पृथ्वी नीचे की ओर है और सूर्य ऊपर को। परन्तु दूसरे ६ महीनों में सूर्य विषुवद् वृत्त से दक्षिण की ओर रहता है। सूर्य या पृथ्वी की इसी गति के कारण पूरे सवत्सर के दक्षिणायन उत्तरायण भेद से दो विभाग हो जाते हैं। सूर्य की उत्तरायण-गति को शुक्र तथा दक्षिणायन-गति को कृष्ण कहा जाता है। इनमें परिव्याप्त प्राण अयन शब्द से गति-प्रक्रिया में कहे गये हैं।

५—सवत्सर का जो पाँचवाँ विभाग है, वह पूर्ण है, अर्थात् एक है।

सवत्सर के इन पाँच प्रकार के विभागों में भिन्न-भिन्न रूपों की पाँच प्रकार की अग्नि है। भिन्न-भिन्न अग्नियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से ही आहुतियों देकर सोम यज्ञ सम्पन्न किये जाते हैं। यह सोम याग चार प्रकार का होता है—एकाह, अहीन, रात्रि-सत्र और अपन सत्र। एकाह वह है, जो यज्ञ एक ही अहोरात्र में पूर्ण हो जाता है। दस अहो-रात्रों में पूर्ण होनेवाले यज्ञ को अहीन कहा जाता है, दशाह भी उसका एक नाम है। अतः अहोरात्रों में पूर्ण होनेवाले यज्ञ को रात्रि-सत्र की सजा दी जाती है तथा एक सहस्र अहोरात्र में पूर्णता को प्राप्त करनेवाला सत्र अयन-सत्र नाम से सम्बोधित है। इन सारे यज्ञों का तात्पर्य सवत्सर के छोटे और बड़े भागों के सत्कार या उनकी शुद्धि है। इन यज्ञों से किसी-न-किसी प्रकार सवत्सर का ही सत्कार होता है। सवत्सर के सत्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए ही छोटे-छोटे यज्ञ किये जाते हैं—इनको १. अभिहोत्र, २ दर्गपूर्णमास, ३ चातुर्मास्य और ४ पशुबन्ध कहते हैं। इनमें अभिहोत्र नाम के यज्ञ से सवत्सर के अहोरात्र-विभाग का सत्कार होता है, दर्गपूर्णमास से पक्ष या मासों का सत्कार संपन्न होता है, चातुर्मास्य से ऋतु-विभाग का तथा पशुबन्ध से अयन का सत्कार होता है। तदनन्तर फिर सोम-यागानुष्ठान से पूर्ण सवत्सर का सत्कार होता है। ये ही यज्ञ हैं। इनके अतिरिक्त जितने प्रकार के अन्य यज्ञ शास्त्रों में आते हैं, वे सत्र इन्हीं यज्ञों के रूपान्तर हैं। यज्ञों से स्वर्ग-कामना की सिद्धिवाली जो बात है, उसका तात्पर्य यह है कि इन यज्ञों के अनुष्ठान से सूर्य सवत्सर के अनुसार यजमान के गरीरस्थ वैश्वानराग्नि भी सत्कारयुक्त हो जाती है और गरीर छोड़ने के बाद वह

वैश्वानर सूर्य सवत्सर में सम्मिलित हो जाता है। उगी सम्मिलन में स्वर्गमुख सम्भव है। यह सवत्सराग्नि का विवरण हुआ।

इस सवत्सराग्नि के शुद्ध भाग में ही जिनकी क्रमिक गति होती है, उनका विवरण पूर्वोक्त उपनिषद् में किया गया। यहाँ सूर्य मण्डल में ऊपर जो चन्द्रमा बताया है, वह परमेष्ठी मण्डल है। सोमप्रधान होने का कारण उसे भी चन्द्रमा कहा जाता है। उसके आगे विद्युत् की प्राप्ति कही गई है। विद्युत् तप. वा तपोलोक नाम से जो छठों लोक हमने मात लोको के प्रकरण में (पर पुरुष की आधिभातिक कलाओं में) बताया है, वह यहाँ विद्युत् नाम से कहा गया है। क्योंकि, उगी लोक में सबसे प्रथम विद्युत् का प्रादुर्भाव होता है। यह साम्य विद्युत् है, जिसका निष्पन्न आगे देव प्रकरण में किया जायगा। मानस-पुरुष स्वयम्भू मण्डल का अधिष्ठाता है।

पितृलोक-गति

अथ कृष्ण-मार्ग की गति का विवरण छान्दोग्य-उपनिषद् में इस प्रकार है कि जो विद्यारहित इष्टापूर्त्तादि उत्तम कर्मों का ही अनुष्ठान अपने जन्म में करते रहते हैं, वे आत्मा शरीर से निकलकर प्रथमतः धूम में जाते हैं। इसका आशय कुछ विद्वान् यो लगाते हैं कि मृत शरीर का जब दाह किया जाता है, तब शरीर को छोड़कर भी उस पर मडराता हुआ जो सूक्ष्म शरीर अग्नि की ज्वाला में होकर निकलता है, वह तो शुद्ध-मार्ग का पथिक हुआ और जो बुँआ में होकर निकलता है, वह कृष्ण मार्ग का पथिक बनता है। जघन्य तृतीय गति में जानेवाला दोनों ही से नहीं निकलता, किन्तु भस्म में अनुप्रविष्ट रहकर पृथ्वी में ही रह जाता है। इससे यह भी श्रुति का आशय सिद्ध होता है कि शुद्ध-कृष्ण-गति उन्हीं की बनती है, जिनका शरीर जलाया जाता है। कुछ विद्वान् अग्नि और धूम का अर्थ केवल प्रकाश और तम ही करते हैं। उनकी व्याख्या के अनुसार अग्नि में दाह न होने पर भी कर्मानुसार वे गतियाँ हो जाती हैं। अस्तु, कृष्ण-मार्ग वा धूम-मार्ग का क्रम इस प्रकार है कि धूम से रात्रि में, रात्रि से कृष्ण-पक्ष में, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन के मासों में गति होती है। सवत्सराग्नि में अभिव्याप्त रूप से ये आत्मा नहीं जा सकते, कृष्ण-भाग में ही रहते हैं। दक्षिणायन के मासों से पितृलोक में, पितृलोको से चन्द्र-मण्डल के समीपवर्ती लोको में चले जाते हैं। वहाँ से आकाश में होकर चन्द्र-मण्डल में पहुँच जाते हैं, चन्द्र-मण्डल में पहुँच वहाँ के सोम के साथ मिल जाते हैं और अपने पुण्य के अनुसार वहाँ भोगकर फिर पृथ्वी पर लौट आते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अपने किये कर्मों का भोग जब चन्द्र-मण्डल में समाप्त हो गया, तब फिर भूमि में कौन-से कर्मों के भोग के लिए जन्म लेगा। वैदिक सिद्धान्त में विना कर्मफल के तो कोई जन्म

१ अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्त्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति। धूमाद्वाग्निम्, रात्रेरपरपक्षम्, अपरपक्षात् यान् पङ् दक्षिण इति मामास्तान्, नेते सवत्सरमभिव्याप्तुवन्ति मासेभ्य पितृलोकम्, पितृलोकादाकाशम्, आकाशाच्चन्द्रमसम्, एष सोमो राजा।

होता ही नहीं। कर्माधीन ही सब जन्म हैं, तब कर्मफल भोगने के अनन्तर फिर जन्म कैसे ? हमना उत्तर जानना म दिया गया है कि कर्म विभिन्न प्रकार के होते हैं। जितने कर्म ऐसे होते हैं, जिनका फल परलोक में ही भोगना होता है, आर मोर्त कर्म ऐसे भी हैं, जिनका फल इसी भूलोक में भोगना आवश्यक होता है। मन का कर्म में जैसा अभिनिवेश हो और कर्म जितना और जित प्रकार का हुआ हो, उसकी परिस्थिति के अनुसार ही उसका भोग भी परलोक में वा उम लोक में हुआ करता है। तब परलोक के भोग जो कर्म हैं, उनका भोग पितृलोक वा देवलोक में हो जाता है। किन्तु जिनका फल इसी लोक में भोगना हो, वे कर्म तो वचें ही रहते हैं। सचित, प्रारब्ध और क्रियमाण आदि भेदों से भी कर्मों के बहुत प्रकार हैं। अनादि काल से जो कर्म अभी तक भोग देने का अवसर ही न पा सके वे सचित कर्म कहलाते हैं। एक शरीर से भोगने के लिए जो कर्म नियत होते हैं वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं अर्थात् वे फल देने का प्रारम्भ कर चुके और फिर उम शरीर में जो कर्म होंगे, वे क्रियमाण हैं, वे भी आगे सचित और प्रारब्ध कर्मों में मिलते जायगे। इस प्रकार, कर्म की गति बड़ी गहन है—‘गहना कर्मणो गति ।’ अस्तु,

इस मार्ग में भी पूर्ववत् रात्रि, कृष्णपक्ष आदि नाम कालविशेष के नहीं, किन्तु आतिवाहिक देवताओं के ही हैं। सवलगराग्नि के जो अवयव बताये जा चुके हैं, वे ही प्राण-रूप देवता हैं। जो इन मृतात्माओं को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने का कारण आकर्षण है—यह हम प्रारम्भ में ही बता चुके हैं। मुख्य पितृलोक चन्द्रलोक है, किन्तु उसके आस पास के प्रदेश भी पितृलोक कहे जाते हैं, जैसे शुद्ध-मार्ग में तारतम्य बताया गया है कि जिनके कर्म जितने प्रबल हों, उतनी ही उच्च गति उनकी होती है। इसी प्रकार, इस मार्ग में भी तारतम्य है कि जितने उच्च कर्म हों, उतनी ही उच्च गति मिलती है। सामान्य कर्मोंवाले पूर्ण उच्चता नहीं पा सकते। चन्द्र-मण्डल के इर्द-गिर्द ही रह जाते हैं, इसलिए इर्द-गिर्द के साथ भी पितृलोक कहलाते हैं। जिनके पुण्य की अपेक्षा पाप-कर्म अधिक हैं, वे तो पितृलोक को भी प्राप्त नहीं कर सकते। दक्षिणायन मार्ग से ही अग्नि-मण्डल के मण्डल की ओर झुक जाते हैं। अग्नि-मण्डल के आस पास के लोक नरक कहलाते हैं। उसी मार्ग में वैतरणी नदी भी है। वहाँ जाकर पापियों को अपने पापों का फल भोगना पड़ता है।

आकाश के कौन-कौन-से प्रदेश देवयान और कौन कौन-से पितृयान कहलाते हैं, इनका भी विवरण शास्त्रों में स्पष्ट मिलता है।

आकाश-प्रदेश का विवरण

इस पृथ्वी के पूर्वापर-वृत्त के द्वारा पाँच भाग किये जाते हैं। सम्पूर्ण खगोल के मध्य का पूर्वापर वृत्त विषुवत्-वृत्त कहलाता है। विषुवत् वृत्त के दोनो ओर चौबीस-चौबीस अंश पर दक्षिण और उत्तर में जो वर्क और मकर वृत्त हैं। उन दोनो के बीच में उष्ण कटिबन्ध है, उसमें ग्रहों का संचार होने के कारण सूर्य की किरणों का दबाव अधिक रहता है, इसलिए उस मार्ग में होकर आत्मा को जाने में बाधा होती है, इसा

प्रकार दोनो ध्रुवों से चौबीस-चौबीस अग्र तक शीत-कटिवन्ध है, वहाँ तक वक्र मार्ग होने के कारण आत्मा नहीं पहुँच सकता। अगत्या उष्ण-कटिवन्ध और शीत-कटिवन्ध के बीच में, अर्थात् मध्य-कटिवन्ध में होकर ही आत्मा जा सकता है। वे मध्य-कटिवन्ध दो हैं—उत्तर और दक्षिण। शुक्र-मार्ग का आत्मा उत्तर-मार्ग से जाता है, और कृष्ण-मार्ग का आत्मा दक्षिण मार्ग से। यही विष्णु का नियम है। इन दोनो मार्गों का निर्देश पुराणों में इस प्रकार है—

नागवीथ्युत्तर यच्च सप्तर्षिभ्यश्च दक्षिणम् ।
 उत्तरः सवितुः पन्था देवयान इति स्मृतः ॥१॥
 उत्तरं यद्गस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणम् ।
 पितृयानः स वै पन्था वैश्वानर पथाद् वहिः ॥२॥

अर्थात्, नागवीथी से उत्तर और सप्तर्षि से दक्षिण सूर्य का जो उत्तर की तरफ मार्ग है, उसे देवयान कहते हैं। अगस्त्य के तारे से जो उत्तर और अजवीथी दक्षिण है, वह वैश्वानर-मार्ग से बाहर पितृयान का मार्ग है।

विपुवत्-वृत्त के दोनो तरफ चौबीस-चौबीस अग्र तक जितना प्रकाश-मण्डल है, उन्हीं में सब नक्षत्र-मण्डल वा ग्रह-मण्डल विद्यमान हैं। नक्षत्र २७ हैं—उनमें नौ-नौ नक्षत्र के हिसाब से ४८ अग्र का पूर्वोक्त आकाश-मण्डल तीन भागों में बँटा जाता है। उत्तरवाले तृतीयाग्र को 'ऐरावत-मार्ग' और मध्यवाले तृतीयाग्र को 'जरद्व-मार्ग' और दक्षिण तृतीयाग्र को 'वैश्वानर-मार्ग' कहते हैं। इन तीनों मार्गों में से हर एक तीन-तीन भाग में बँटा हुआ है। उन भागों को 'वीथी' (गली) कहते हैं। इस प्रकार तीन मार्ग और नौ वीथियाँ हैं। जिनमें 'ऐरावत-मार्ग' में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से 'नाग-वीथी' 'गज-वीथी' और 'ऐरावत-वीथी' हैं और मध्य के 'जरद्व-मार्ग' में 'ऋषभ-वीथी' 'गो-वीथी' और 'जरद्व-वीथी' हैं एवं वैश्वानर-मार्ग में 'अज-वीथी' है।

इस प्रकार, सबसे उत्तर नाग-वीथी है, जिसके उत्तर देवयान है और मध्याकाश में सबसे दक्षिण वैश्वानर-मार्गवाली अज-वीथी है, उससे भी दक्षिण पितृयान है।

इसका स्पष्टीकरण यो है कि आकाश में सूर्य जहाँ स्थिर है, वहाँ से वह चारों ओर किरणों को फेंकता हुआ प्रकाश का एक महाविशाल मण्डल बनाता है। पुराणों में इसीको ब्रह्माण्ड कहते हैं। इस ब्रह्माण्ड का सिर सूर्य है, किन्तु यह प्रकाश-मण्डल चारों ओर जहाँ समाप्त होता है, उस सीमा को लोकालोक (प्रकाश-अप्रकाश) कहते हैं। यही लोक-अलोक ब्रह्माण्ड का 'पॉव' है। सूर्य से लोकालोक तक जो आकाश है, उसीके भीतर कहीं यह हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के कारण उस आकाश के दो भाग होते हैं। एक पृथ्वी से सूर्य तक, जो कि सिर की ओर होने के कारण ऊँचा कहलाता है, और दूसरा पृथ्वी से लोकालोक तक, जिसे पॉव की ओर होने के कारण नीचा कहते हैं। ऊँचा आकाश उत्तर मार्ग है, वही देवयान है और नीचा आकाश दक्षिण-मार्ग है, वही पितृयान है। इस पृथ्वी से जब कोई आत्मा उत्क्रमण करेगा, तब उसके लिए आकाश के दो ही मार्ग हो सकते हैं—उत्तर, अर्थात् सूर्य की ओर अथवा

दक्षिण, अर्थात् लोकालोक की ओर। सूर्य की ओर जाने को उत्तम मार्ग और ऊर्ध्व-गति कहते हैं, मन्तु उसके विरुद्ध जाने को अधम मार्ग या अधोगति कहते हैं। इसीलिए, वेद में लिखा है—

द्वे सती अष्टृणवं, पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम् ।
ताभ्यामिदं विश्वमेजत् समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥

अर्थात्, जो सूर्य पिता आर पृथ्वी माता के बीच में जहाँ जो कुछ है, वह सारा विश्व पृथ्वी को छोड़कर यदि जाय, तो उसके लिये मने दो ही मार्ग सुने हैं। एक पितरो का और दूसरा देवो का, अर्थात् पितृयान और देवयान ये दो ही मार्ग मरणधर्मा जीवो के लिए निश्चित हैं।

इस प्रकार, लोकान्तर गति का स्पष्ट विवरण वैदिक विज्ञान में प्राप्त होता है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता।

लोकान्तर जानेवाला शरीर

अब प्रश्न यह है कि सूक्ष्म शरीर वा प्राणात्मा, विज्ञानात्मा आदि केंबल शक्तिविशेष हैं। वे बिना भूतो के कैसे रह सकते हैं, और कैसे लोकान्तर वा स्थानान्तर में जा सकते हैं? इसका उत्तर श्रुति के आधार पर विचार कर वेदान्त-दर्शन के ब्रह्मसूत्रों में इस प्रकार किया गया है कि जिन पदार्थों का परस्पर साथ रहता है, वे यदि अलग भी किये जायें, तो एक का अनुग्रह-रूप कुछ अग दूसरे के साथ देर तक बना रहता है। जैसे, एक लोटे में यदि हम घी भर दें, तो घी के निकाल लेने पर भी लोटे में चिकनाई बहुत देर तक बनी रहेगी। वह घृत का अनुग्रह वा अग है और पुष्पो के पास होकर निकलनेवाला वायु पुष्पो के कुछ अग को अपने साथ ले जाया करता है। जिसके कारण हमें वायु में सुगन्ध प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार, चिरकाल तक जिस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर ने वास किया है, उसके कुछ अग को वह साथ लेकर ही निकलता है। उसी सूक्ष्म अग का नाम श्रुतियों ने अनुग्रह वा श्रद्धा^१ रखा है। इसको श्रुति-स्मृतियों में अगुष्ट-परिमित बताया है, अर्थात् इस सम्पूर्ण शरीर के फैले हुए अनुग्रह को यदि इकट्ठा किया जाय, जिस शरीर से यह निकला है, उसके हाथ के अँगूठे के बराबर इसका परिमाण होगा। इसका स्पष्टीकरण यो है कि पहले आत्म-निरूपण-प्रकरण में भूतात्मा के जो तीन भेद बताये जा चुके हैं, वैश्वानर तैजस और प्राज्ञ, उनमें वैश्वानर प्राण और प्राज्ञ ये दोनों साथ ही शरीर में प्रवेश करते हैं, साथ ही रहते हैं और साथ ही शरीर से बाहर जाते हैं, ऐसा ही कौषीतक उपनिषद् में निरूपण किया गया है। उसमें प्राज्ञ से चेतना बनी रहती है, और वैश्वानर-अग्नि के सम्बन्ध से पाँचो भूतो का अनुग्रह साथ रहता है। क्योंकि, वैश्वानर का भूतो से ही विशेष सम्बन्ध है। इसी अनुग्रह के साथ आकाश में जाते समय वायु के द्वारा पाँचो भूतो के कुछ-कुछ अग अपने-आप उस अनुग्रह में आ लगते हैं, सम्बद्ध हो जाते हैं।

१ तदन्तरप्रतिपत्तौ रहति सन्परिष्वक्त प्रश्ननिरूपणान्याम् ।

२ तस्मिन्नेतस्मिन्मन्वो देवा श्रद्धाञ्जुहति । —छान्दोग्य-उपनिषद्, प्रपाठ ५, खण्ड ४ ।

जिस प्रकार वायु द्वारा आकर वस्तु पर या घर में गर्द जम जाती है, उसी प्रकार पच-भूतो का एक स्तर जम जाने से वही उस वेध्वानर या प्रजात्मा का शरीर बन जाता है। इस शरीर को यातना-शरीर वा भोग-शरीर कहते हैं। जबतक दूमरे लोक में वहाँ के तत्वों को लेकर आत्मा नया शरीर ग्रहण न करे, तबतक यह भोग-शरीर नहीं मिटता, किन्तु नरक-लोक में जाने पर यह नया शरीर नहीं छूटता, अभी भोग-शरीर में नरक का भोग पाता है, उसीलिए इस भोग-शरीर को विशेष रूप से यातना-शरीर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र आदि लोकों से प्रत्यावर्तन के समय जब यह आत्मा पृथ्वी की ओर आता है, तब फिर वायु द्वारा पूर्ववत् नया भोग-शरीर उत्पन्न हो जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह वायु पृथ्वी से ऊपर बहुत ही थोड़ी दूर है, चन्द्रमा में वायु सर्वथा नहीं है, परन्तु यह मत विशेष आदरणीय नहीं है। वैदिक सिद्धान्त है कि आकाश का तिलमात्र प्रदेश भी कहीं वायु से शून्य नहीं है। पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य आदि घन-पिण्डों के चारों ओर वह वायु-स्तर कुछ स्थूल हो जाता है, किन्तु जो स्थानों में अति सूक्ष्म रूप से स्तब्ध रहता है। इसी कारण, आधुनिक यन्त्रों में वायु का सञ्चार स्पष्ट रूप से नहीं मालूम होता है, यह सम्भव है। पर्वतों के उच्च शिखर पर जाने से श्वास में बाधा पड़ती है, वह ऑक्सीजन की कमी के कारण है, न कि सर्वथा वायु के अभाव से। चन्द्रमा में भी वायु है और वहाँ भी जीव है। विष्णुपुराण में लिखा है—

अङ्गुलस्याष्टभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिसत्तम ।

न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्धनिबन्धनाः ॥ १ ॥

स्थूलैः सूक्ष्मैस्तथा सूक्ष्मैः सूक्ष्मैः सूक्ष्मतरैरपि ।

स्थूलैः स्थूलतरैश्चैतत् सर्वं प्राणिभिरावृतम् ॥ २ ॥

इस सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी से चन्द्रमा तक जाने में अथवा चन्द्रमा से पृथ्वी तक आने में पचभूत के संयोग से एक कल्पित शरीर हो जाता है। किन्तु उस शरीर में विशेषता यह है कि पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात् यह भौतिक शरीर जिस प्रकार जीवन-काल में बढ़ता-घटता रहता है, उस प्रकार यह भौतिक शरीर नहीं बटता है। पापाण-खण्ड की तरह १३ मास तक समान भाव से रहता है, अर्थात् इसमें बाल्य, युवा आदि अवस्था का परिवर्तन नहीं होता। जिन अवस्था का आत्मा प्रेत होता है, उसी अवस्था में रहता है, इसका कारण यह है कि इस भूतात्मा में जिस प्रकार वैश्वानर और प्राज्ञ आत्मा बने रहते हैं, उस प्रकार तैजस आत्मा नहीं रहता। तैजस आत्मा सूर्य, चन्द्र और विद्युत् से बना हुआ है। तैजस आत्मा में सूर्य चन्द्र का भाग अलग होकर केवल विद्युत् का भाग ही साथ रहता है। किन्तु बढ़ने घटने की शक्ति वृक्ष या प्राणियों का ऊपर की ओर उठान या शरीर का फैलाव इस विद्युत् में सूर्य-चन्द्र के रस के याज्ञिक संयोग से होता है। प्रेतात्मा में सूर्य चन्द्र के रस नष्ट होने से उसके ऊपर जाने की शक्ति जाती रहती है। इसलिए यह यातना शरीर ज्यों का-त्यों समान भाव से बना रहता है। इस सम्बन्ध में यातना-शरीर की उत्पत्ति या परिवर्तन का क्रम मनुस्मृति के १२वें अध्याय में १६ से २२ श्लोक तक

विवाद रूप से निरूपण किया है। यह मार्ग के शरीर की स्थिति हुई। लोकान्तरो में उनके अनुकूल ही शरीर बनता है। जप्तक पितृलोक आर देवलोक में रहे, तप्तक वह शरीर रहता है। कर्म ही उन लोकों की स्थिति के कारण है। जैसे, पृथ्वी पर आने के बाद भौतिक अनुग्रह ही पृथ्वी से पंच भूतों को ग्रहण करके नया शरीर बनाता है और इस प्रकार शरीर सयुक्त होने को ही पृथ्वी पर जन्म कहते हैं। किन्तु पृथ्वी से दूसरे लोकों में जाने के समय पृथ्वी का भौतिक शरीर पृथ्वी पर ही रह जाता है। केवल अनुग्रह लेकर चन्द्रमा में जाता है, वहाँ भी चन्द्रमा का रस सोम-भाग इससे सम्मिलित होकर एक सौमिक शरीर बनाता है। उसी शरीर से चन्द्रमा में कुछ समय तक जीवन-निर्वाह करता है, वह शरीर भी चन्द्रमा से अन्यत्र नहीं जा सकता। इसी कारण, चन्द्र-लोक से दूसरे लोक में जाते समय उस शरीर को छोड़कर केवल अनुग्रह को लेकर सूर्य या पृथ्वी में जाता है। सूर्य में भी वहाँ के अनुग्रह के कारण सूर्य का रस मिश्रित होकर सौर शरीर बनाता है, और उसी शरीर से कुछ समय तक सूर्य में स्थिति रहती है। किन्तु सूर्य से दूसरे लोक में जाते समय उस शरीर को वही छोड़कर केवल वहाँ के अनुग्रह को लेकर जाता है और यही कर्म बन्धन चक्र में परिभ्रमण का क्रम है, भिन्न-भिन्न तीन शरीर इन तीनों लोकों में जीवन के लिए स्थिति के कारण हैं।

पृथ्वी पर लौटने का मार्ग

चन्द्रलोक से लौटकर वह सूक्ष्म शरीर फिर किस मार्ग से पृथ्वी पर आता है और कैसे जन्म लेता है, यह मार्ग भी छान्दोग्य-उपनिषद् के पूर्वोक्त प्रकरण में बताया गया है कि चन्द्रलोक में अपने उत्तम कर्मों का फल भोग कर फिर जीवात्मा उसी मार्ग से लौटता है। वह चन्द्र-मण्डल से आकाश में, आकाश से वायु में, वायु से विरल वाष्प-रूप में और फिर वाष्पघन-रूप में होकर मेघ-मण्डल में आ जाता है और मेघ के जल के साथ भूमि पर गिरकर अन्न, फल, घास आदि के रूप में प्रविष्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया भी विज्ञानमिद्ध है। मेघ-मण्डल सोम से ही बनता है, इसलिए उसके उत्पादन में सोम घन चन्द्रमा का बहुत अंश लगता है। तब चन्द्र-मण्डल में रहनेवाला मन प्रवान सूक्ष्म शरीर उस सोम के साथ मेघ मण्डल में चला आये, यह युक्तिसिद्ध ही है और मेघ के जल के द्वारा जो अन्न, तृण वा फल उत्पन्न होते हैं, उनमें उसका प्रवेश भी युक्तिसिद्ध है। अब आगे फिर कर्म की महिमा चलती है। अपने कमानुसार जिस योनि में जिस व्यक्ति के यहाँ उसे जन्म लेना है, वही व्यक्ति उस अन्न, फल वा तृण को खाएगा। यदि मनुष्य-योनि में जाना है, तो अन्न में प्रविष्ट होकर वह सूक्ष्म शरीर मनुष्य-रूप पिता के स्थूल शरीर में पहुँच जायगा, यदि पशु-योनि में

१ तरिमन् यावत्सन्पातमुषित्वा अयैनमध्वान पुनर्निवर्त्तन्ते, यथेतन्, आकाशम्, आकाशाद्वापुन्, वायुर्भूत्वा धूमो भवति। धूमो भूत्वाऽन्नं भवति। अन्नं भूत्वा मेधो भवति। मेधो भूत्वा वर्षति त इह व्रीहिर्यवा, ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते। अतो वै खलु दुनिष्प्रपतरन्, यो यो ह्यन्नमस्ति, यो रेत सिञ्चति तद् भूय एव भवति। तद्य इह रमणीयचरणा इत्यादि।

—छान्दोग्य, प्रपा० ५, सू १०, कण्डिका ५ ६, ७।

जाना है, तो तृण आदि के द्वारा उसी पशु के स्थूल शरीर में पहुँच जायगा, जिसके यहाँ कर्मानुसार जन्म लेना है। इसी प्रकार फलादि के रूप में पक्षी-शरीर में भी जा सकता है। वर्षा से ही सब वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, और वर्षा के जल के साथ आये हुए सूक्ष्म शरीर का उन अन्नादि के द्वारा मनुष्यादि के शरीर में प्रविष्ट हो जाना स्वाभाविक है। इसी आशय से श्रुति कहती है कि—

पुरुषेवायमादितो गर्भो भवति ।

(ऐतरेयोपनिषद्)

अर्थात्, पहले पुरुष गर्भ धारण करता है। जब से सूक्ष्म शरीर का पुरुष के स्थूल शरीर में प्रवेश हो गया, तभी से पुरुष को गर्भ धारण हो गया। अब आयुर्वेद की प्रक्रिया के अनुसार उस अन्नादि से क्रमशः सात धातु बनेंगे। अन्न से रस, रस से रुधिर, रुधिर से मास, मास से मेदा, मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा (तौत = अस्थि का बन्धन करनेवाला कठिन भाग) और मज्जा से भी आगे शुक्र। अन्न-परिपाक से शुक्र बनने तक वह पिता के शरीर में घूमता रहता है। फिर, पिता के द्वारा माता के गर्भाशय में पहुँच जाता है और वहाँ कलिल, बुद्बुद आदि के क्रम से स्थूल शरीर धारण कर लेता है। जहाँ जन्म लेना है, वही पहुँचा देना कर्म की विचित्र महिमा है। शास्त्र में इसका दृष्टान्त दिया जाता है कि जिस प्रकार एक बत्स हजारों गौओं में भी अपनी माता को ढूँढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने उपयुक्त स्थान को ढूँढकर वहाँ सूक्ष्म शरीर को पहुँचा देता है। इस प्रक्रिया को उपनिषदों में पंचाग्नि-विद्या नाम से उपदेश किया गया है। सोम-रूप सूक्ष्म शरीर जिन-जिन स्थानों में जाता है, उनको ही अग्नि नाम से और इस सूक्ष्म शरीर की गति को आहुति नाम से उपनिषदे कहती है। इसके अनुसार पहली अग्नि चन्द्रमा है, जिसमें श्रद्धा-रूप भूतानुशय के साथ सूक्ष्म शरीर की आहुति हुई। दूसरी अग्नि मेघ-मण्डल, तीसरी पृथ्वी, चौथी पुरुष का शरीर और पाँचवी माता का गर्भाशय है। वहाँ आकर पुनः पुरुषाकार बन जाता है। यही श्रुति ने कहा कि पाँचवी आहुति में पुनः पुरुषरूपता हो जाती है।

श्राद्ध की उपपत्ति

भारतीय सस्कृति में जो श्राद्ध-प्रक्रिया चलती है, उसका मुख्य रूप से वैज्ञानिक सम्बन्ध इस चन्द्रलोक-गति के साथ ही है। क्योंकि, श्राद्ध के भोक्ता पितर हैं और वे चन्द्र-मण्डल में ही रहते हैं। उक्त प्रक्रिया में जो श्रद्धा-रूप भूतों का अनुशय हम बता आये है, उसके पोषण के लिए ही यह श्राद्ध कर्म किया जाता है। मृत्यु के अनन्तर दाह होकर सबसे पहले दस दिनों में दशगात्र-पिण्ड दिये जाते हैं। गात्र-पिण्ड शब्द का अर्थ है, गात्र = अर्थात् शरीर के बनानेवाले पिण्ड। कह चुके हैं कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का अगुष्ठमात्र भाग अनुशय-रूप से लेकर चला है। यज्ञ-प्रक्रिया में यह भी बताया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु में निर्गमन के द्वारा क्षीणता होती है। उसकी पूर्ति का भी आयोजन होना चाहिए। अपने शरीर को ही देखिए, मध्याह्न में पेट भरकर भोजन कर लिया, किन्तु रात्रि को फिर भूख लग जाती है

और फिर भोजन की आवश्यकता आ पड़ती है। इगका कारण यही तो है कि प्रकृति के नियमानुसार जो अन्न हमने खाया था, वह रूपान्तर में चला गया और शरीर में पुनर्क्षीणता आ गई। इसी प्रकार, एक वृक्ष में प्रातःकाल न्यून जल दे दिया, किन्तु सायंकाल फिर जल-सेचन की आवश्यकता हो जाती है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति के नियमानुसार आवागमन-प्रक्रिया से क्षीणता प्रत्येक पदार्थ में आती रहती है। हम समर्थ हैं। हमारे हाथ पैर काम देते हैं, इसलिए अपनी क्षीणता की पूर्ति अपने उद्योग से आहार द्वारा कर लेते हैं। किन्तु मृतात्मा जो लोकान्तर में जा रहे हैं, उनमें, बाह्य शरीर में जो प्रकृति-नियमानुसार क्षीणता आयगी, उसकी पूर्ति करने की शक्ति नहीं। कदाचित् कहा जाय कि प्रकृति-नियमानुसार ही क्षीणता की पूर्ति भी होती रहेगी, जैसा पूर्व बताया जा चुका है कि प्राकृत वायु-मण्डल उनसे चिपककर उनमें भूतो का सम्म्लेप कराता रहता है। ठीक है, किन्तु इसमें बड़ी हानि यह है कि यदि वायुमण्डल की मात्रा ही उनमें बढ़ जायगी और सूर्य-चन्द्र के अग्रे वृद्धि वा मन वायु से आक्रान्त होकर दब जायेंगे, तो सूर्य-चन्द्र का आकर्षण उन पर न रहने से उनकी सूर्याभिमुख वा चन्द्राभिमुख गति रुक जायेगी। विज्ञान के नियमानुसार सजातीय पर ही आकर्षण होता है। मन और वृद्धि चन्द्रमा और सूर्य के अग्रे हैं, अतः इन पर चन्द्रमा और सूर्य का आकर्षण हो सकता है। वायु पर उनका कोई आकर्षण नहीं हो सकता। यदि सूर्याभिमुख वा चन्द्राभिमुख उन आत्माओं की गति रुक गई, तो वे उन लोको में न जाकर वायु में ही इतस्ततः भ्रमण करते रहेंगे। वायवीय शरीर प्रेत-पिशाचादि का होता है, अतः वे भी प्रेत-पिशाच-योनि में ही माने जायेंगे। इसी कारण, सनातन धर्म के अनुयायियों में प्रसिद्धि है कि अमुक व्यक्ति का श्राद्ध नहीं हुआ, वह तो वायु में उड़ता-फिरता है। इसी आपत्ति से, पिता-माता के सूक्ष्म शरीरों को बचाने के लिए वेद भगवान् पुत्रों को सम्बोधित करता है कि स्मरण करो, जिस समय तुम शरीर-विरहित थे, उस समय पिता-माता ने ही अपने अंगों से तुम्हारा शरीर बनाया था। आज वे पिता-माता शरीर-रहित होते जा रहे हैं, तो इस समय तुम्हारा काम है कि उनका शरीर बनाओ। इसी वेद की आज्ञा के अनुसार चावल आदि के पिण्डों में से सोम भाग पहुँचाकर श्रद्धा-रूप अनुगय भाग की पुष्टि करना ही मात्र पिण्डों का उद्देश्य है, जिससे उनका सोम भाग परिपूर्ण होता रहे, और चन्द्र-मण्डल का आकर्षण उन पर पड़ता रहे। इसका सकैत वेद-मन्त्र में भी स्पष्ट है—

यद् वो अग्निरजहादेकमङ्गं पितृभ्यो गमयन् जातवेदाः ।
तद् व एतत् पुनराप्यययामि साङ्गा पितरः स्वर्गे मादयध्वम् ॥

‘हे पितृलोक के पथिको! अग्नि ने तुम्हारा एक शरीर जलाकर तुमसे छीन लिया है और सूक्ष्म शरीर से तुम्हें पितृलोक में भेजा है। उस तुम्हारे छीने हुए शरीर को मैं पुनः पुष्ट कर देता हूँ। तुम साङ्ग बनकर स्वर्ग में आनन्द करो।’ यह पिण्ड देनेवाला पुत्र कहता है।

तपस्वी, सन्यासी आदि जो देवयान से जा रहे ह, उन्हें गोम द्वारा इस शरीर-पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं अग्नि रप ह। उन पर सूर्य के आकर्षण को कोई भूत रोक नहीं सकता। इसलिए सन्यासियों के गात्र-पिण्ड नहीं किये जाते। भू-वायु का प्रभाव जहाँ तक है, वहाँ तक वायु का प्रभाव वचाने को गोम की पुष्टि अत्यावश्यक होती है, इसलिए दम दिन तक प्रतिदिन पिण्ड टिया जाता है। आगे जब वे भू-वायु के दबाव से निकलकर पितृलोक के पथ पर लग गये, तब प्रतिदिन आवश्यकता नहीं, प्रतिमास श्राद्ध किया जाता है। प्रतिदिन भी कुछ अन्न और जल-घट के दान का विधान है, जिसे यदि कुछ न्यूनता हो, तो पुष्टि होती रहे।

यह भी विचारने की बात है कि श्राद्ध में उन्हीं वस्तुओं को प्रशस्त माना गया है, जिनमें सोम की प्रधानता है। चावल आदि ओषधियों में सोम अविक है और गोदुग्ध में बहुत ही अधिक है। इसलिए इन वस्तुओं को श्राद्ध में अति प्रशस्त माना जाता है, क्योंकि शरीर-पोषण के लिए सोम के ही पहुँचाने की आवश्यकता है और सोमप्रधान अन्न दुग्धादि से ही सोम जा सकता है। यदि यह प्रश्न हो कि हमारे दिये अन्न आदि में सोम की प्रधानता रहे, किन्तु उनके उस सोमाग को ऊपर पहुँचानेवाला कौन होगा, तो इसका उत्तर है कि जिन चन्द्र-सूर्य की किरणों की सहायता से मृत व्यक्ति के शरीरों का आकर्षण हुआ था। वे ही किरणें इन पदार्थों से भी सोम अन्न को ले जायेगी और उन शरीरों से मिला देगी। सूर्य या चन्द्र की किरणों के साथ यहाँ के पदार्थों का सम्बन्ध जोड़नेवाली अग्नि है। उसका भी सम्बन्ध श्राद्ध-प्रक्रिया में रहता है। अन्ततः एक प्रज्वलित दीपक तो श्राद्ध में अत्यावश्यक माना जाता है। वह दीपकादि की अग्नि अन्न के अन्न का सम्बन्ध किरणों से जोड़ देती है। इस पर कई सज्जन ऐसा कुतर्क उठाते हैं कि यदि हमारे दिये हुए पिण्ड आदि का कुछ अन्न किरणों के आकर्षण से ऊपर चला गया, तो उनमें न्यूनता प्रतीत होनी चाहिए। यदि सूक्ष्मता के कारण उस न्यूनता का आँख से ग्रहण न भी हो सके, तो यन्न से तोलकर देखिए, परिणाम में तो कुछ न्यूनता होनी चाहिए। किन्तु पिण्ड तो जिस आकार का और जितनी तोल का रखा जाता है, वैसा ही बना रहता है, कोई न्यूनता उसमें नहीं आती। तब कैसे मान लिया जाय कि इसमें से अन्न सूर्य-चन्द्र की किरण ले गये? इसका उत्तर वेदानुयायी विद्वान् यह देते हैं कि भ्रमर वा मधुमक्खी पुष्प आदि पर बैठकर उसका रस ले लेते हैं, यह तो सभी को मानना पड़ेगा। क्योंकि, वे उसे इकट्ठा कर एक मधु का छत्ता तक बना देते हैं, जिसमें से बहुत-सा मधु प्राप्त कर लिया जाता है। तब भ्रमरादि के बैठने से पहले और उसके पीछे क्या पुष्प आदि में आपको कुछ न्यूनता प्रतीत होती है? वा किसी यन्न से तोलकर भी आप उस न्यूनता के परिमाण का पता लगा सकते हैं? इस पर यही कहना पड़ेगा कि युक्ति द्वारा न्यूनता होना तो सिद्ध है, किन्तु अति सूक्ष्म न्यूनता को तोलने का अभी तक कोई यन्न निकला नहीं। वस, जब आप भ्रमर, मधुमक्खी आदि के द्वारा की गई पुष्प, रस आदि की न्यूनता को भी तोलने में असमर्थ है, तो सूर्य-चन्द्र की किरणों द्वारा होनेवाली उस अति सूक्ष्म न्यूनता को तोलने का कैसे साहस कर सकते हैं। पुराने चार्वाक आदि नास्तिकों ने श्राद्ध पर जो यह प्रश्न उठाया था कि—

मृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चेत् तृप्तिकारणम् ।
प्रस्थितानां हि जन्तूनां वृथा पाथेयकल्पनम् ॥

इसका आशय है कि मृत पुरुषों की तृप्ति यदि श्राद्ध में दिये अन्न के द्वारा हो जाती है, तो जो मनुष्य विदेश जाते हों, वे अपने साथ भोजनादि ले जाने का कष्ट न करें, पर वे लोगों को यह जाया करें कि हमारा श्राद्ध कर देना। यदि विदेश में जानेवालों को श्राद्ध का अन्न नहीं पहुँच सकता, तो लोकान्तर्गत मृतात्माओं को पहुँचेगा, यह केवल आदर्शमात्र है। यह उनका उत्कर्ष भी व्यर्थ है। क्योंकि, सूर्य-चन्द्रादि की किरणों द्वारा अति सूक्ष्म अन्नादि का अणु सूक्ष्म शरीरों को पहुँचा दिया जाता है। वे इतने-से ही तृप्त हो जाते हैं। किन्तु विदेश जानेवालों को तो स्थूल शरीर को तृप्त करने के लिए प्रचुर स्थूल अन्न की आवश्यकता है। वह किरणों द्वारा कैसे पहुँचाया जा सकता है।

पुनः प्रश्न उठता है कि पितृलोक के मार्ग में शतश-सहस्रश सूक्ष्म शरीर जा रहे होंगे, और पितृलोक में भी हजारों निवास कर रहे होंगे, तब एक व्यक्ति का दिया हुआ अन्न पानादि उसके पिता-माता को ही प्राप्त हो, यह नियम किस आधार पर होगा। इसका वैज्ञानिक उत्तर है कि पिता-माता का सूत्र पुत्र आदि के साथ बँधा हुआ है। वह सूत्र ही उस अन्न-पानादि को इसके माता-पिता के पास ही पहुँचा देता है। इसका विवरण इस प्रकार है कि प्रत्येक मनुष्य का, सन्तानोत्पादन की शक्ति रखनेवाला जो शुक्र है, उसमें चौरासी अणु होते हैं। जिन्हें वैदिक विज्ञान में 'सह.' नाम से कहा जाता है। इनमें छप्पन अणु पूर्व पुरुषों से प्राप्त हुए हैं और २८ अणु इसके अपने अन्नपानादि द्वारा उपाजित हैं। ५६ अणु जो पूर्व पुरुषों के व्रतये गये, उनमें से २१ इसके पिता के, १५ पितामह के, १० प्रपितामह के, ६ चतुर्थ पुरुष के, ३ पंचम पुरुष के और १ छठे पूर्व पुरुष का है। इन चौरासी अणुओं में से वह भी सन्तानोत्पादन के लिए ५६ अणु का शुक्र-निर्वाप करेगा। जिनमें २१ अणु इसके अपने उपाजित २८ में से जायेंगे और ३५ पूर्व पुरुषों के ५६ में से जायेंगे। उनमें भी १५ इस पिता के अपने पिता के होंगे। १० पितामह के, ६ प्रपितामह के, ३ चतुर्थ पुरुष के और एक अपने से पूर्व के पंचम पुरुष का होगा। अपने से पूर्व के षष्ठ पुरुष का जो एकमात्र अणु इस व्यक्ति में था, वह सूक्ष्म होने के कारण इसकी सन्तान में नहीं जायगा। यही क्रम आगे पौत्रादि में भी चलेगा, अर्थात् इस व्यक्ति के पौत्र में इसके १५ अणु, प्रपौत्र में १० अणु, चतुर्थ सन्तति में ६ अणु, पंचम सन्तान में ३ अणु और षष्ठ सन्तान में एक अणु पहुँचेगा। इसी सूत्र के कारण शास्त्रों में एक व्यक्ति को मध्य में रखकर उसका ६ पूर्व पुरुषों से और ६ आगे की सन्तति से सापिण्ड्य माना जाता है। अपने-आप १ और आगे के ६ सन्तान यो सात पुरुष तक सापिण्ड्य चलता है— 'सापिण्ड्य साप्तपौरुषम्'। अपने से अष्टम पुरुष में जाकर सापिण्ड्य निवृत्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ इसका कोई अणु नहीं पहुँचता। इनमें भी १० या इससे अधिक अणु जिसमें गये हैं या जिन पूर्व पुरुषों के अपने-आप में हैं, वे ऊपर और नीचे के तीन-

तीन पुरुष मुख्य सपिण्ड हैं, अर्थात् १० तक्र अश्र का घनीभूत होने के कारण पिण्ड नाम पड जाता है। इसलिए श्राद्ध में पिण्ड तीन ही पुरुषों को दिया जाता है। आगे के ६, ३ और १ अश्रवाले केवल लेपभाक्, अर्थात् लेपमात्र से तृप्त होनेवाले कहे जाते हैं—

लेपमाजश्चतुर्थ्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः ।

सप्तमः पिण्डदश तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम् ॥

इसका अर्थ ऊपर किया जा चुका है। वही सापिण्ड्य-सूत्र का वर्णन है। भारतीय संस्कृति में विवाह, श्राद्ध और अशौच के विचार में इमी सापिण्ड्य को देखना पडता है। जिस कन्या के साथ सात पुरुष तक अपना सम्बन्ध मिलता हो, उसके साथ विवाह करना भारतीय संस्कृति में निषिद्ध माना गया है, क्योंकि एक ही पुरुष के अश्र का सम्बन्ध वर-कन्या दोनों में रहने के कारण—ये दोनों भ्राता और भगिनी कहलाने के अधिकारी हैं। विवाह सम्बन्ध इनका नहीं हो सकता। इसी प्रकार सात पुरुषों तक जिनका परस्पर सम्बन्ध है, उनके यहाँ मृत्यु वा बालक के जन्म होने पर सात पुरुषों के वश के सब अशुचि हो जाते हैं। सूत्र-सम्बन्ध से एक का अशौच, अर्थात् अपवित्रता सबसे पहुँच जाती है और पिण्डदान भी इसी सापिण्ड्य के अनुसार होता है। यह विवाहादि का वर्णन प्रसगागत किया गया, प्रकृत विषय में यही वक्तव्य है कि पिता-माता आदि तीन पुरुषों के साथ अपना सम्बन्ध सूत्र घनिष्ठ रूप से बँधा हुआ है और सामान्य सम्बन्ध सूत्र सात पुरुषों तक है, वही सम्बन्ध-सूत्र हमारे दिये अन्नपानादि को हमारे ही पूर्व पुरुषों में पहुँचाता है। और, सम्बन्ध-सूत्र के आधार पर श्राद्ध प्रक्रिया की सपिण्डन-विधि भी चलती है। अर्थात्, मासिक श्राद्धों का भोग करता हुआ सूक्ष्म शरीर-रूप प्रेतात्मा एक वर्ष में चन्द्र-मण्डल तक पहुँच जाता है। तब वहाँ जो इसके पूर्व पुरुष पहले से विद्यमान हैं, उनके साथ इसका सम्बन्ध जोडकर इसे भी पितृ-श्रेणी में मिला देने का नाम सपिण्डीकरण है। जिस सप्तम पुरुष का अब कोई अश्र पृथ्वी में नहीं रहा, वह इस लोक से मुक्ति पा जाता है। कर्मानुसार ऊपर चला जाता है या पृथ्वी पर लौट आता है। यह चक्र बराबर चलता रहता है। यह भी स्मरण रहे कि श्राद्ध-प्रक्रिया में सौर तिथि वा दूसरे समाजों की तारीख नहीं ली जाती, किन्तु चन्द्र-तिथि ही ली गई है। अर्थात्, श्रावण शुक्ल पंचमी को जिसका देहावसान हुआ, उसका श्राद्ध एक वर्ष तक प्रतिमास की शुक्ल पंचमी को और आगे प्रति वर्ष श्रावण शुक्ल पंचमी को ही होगा। यदि देहान्त के दिन मान लें कि १७ जुलाई थी या कर्क-सक्रान्ति का १० दिवस था, तो आगे श्राद्ध में कर्क के दस अश्र वा १७ जुलाई से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। क्योंकि, चन्द्रमा और पृथ्वी का जैसा सम्बन्ध इस वर्ष की श्रावण शुक्ल पंचमी को है, वैसा सम्बन्ध फिर अगली श्रावण शुक्ल पंचमी को ही होगा और इसीलिए चन्द्र-मण्डल का मृत सूक्ष्म शरीर को ले जाते समय जैसा आकर्षण था, वैसा आकर्षण श्राद्धान्न के सोम-रस पर उसी दिन पड सकेगा, जिससे वह श्राद्धान्न का सोम चन्द्र-मण्डल में पहुँचकर श्राद्धकर्त्ता के पितरों का तृप्तिकारक होगा। इस अन्न-जल का पितरों से सम्बन्ध कराने का

वर्णन अनेक वेद के मन्त्रों में हैं ।^१ और, ब्राह्मण-भाग में भी दिव्य पितर आर प्रेत पितरों के अन्नादि-प्राप्ति का स्थान स्थान में उल्लेख है ।

अमावस्या भी श्राद्ध का एक विशेष दिन माना गया है । इसका कारण है कि अमावस्या पितरों का मध्याह्न है और मध्याह्न ही भोजन का समय होता है । इसलिए भोजन के समय पर भोजन पहुँचाना उचित है ।

हम लोगों का एक मास पितृलोक का एक अहोरात्र कहा जाता है । दिन और रात्रि की परिभाषा यही है कि जिसको जितने काल तक सूर्य का दृशन होता रहे, उतने काल तक उसने लिए दिन है और जितने काल तक सूर्य का दर्शन न हो, वही उसके लिए रात्रि है । हम लोगों के दिन-रात इसी आधार पर होते हैं—यह सभी जानते हैं । चन्द्र मण्डल के ऊपरी भाग में (हमारी दृष्टि के विपरीत भाग में) रहनेवाले पितरों को १५ दिन बराबर सूर्य-दर्शन होता रहता है, और १५ दिन नहीं होता । सूर्य का भ्रमण माननेवाले वक्रता के कारण इसका उपपादन कर देते हैं कि अर्द्धाकाश दृश्याकाश है, उस भाग में जबतक सूर्य और चन्द्रमा दोनों रहे, तबतक चन्द्र-मण्डल-स्थित प्राणियों को सूर्य का दर्शन होता रहता है और दूसरे गोलार्द्ध में चले जाने पर वक्रता के कारण वे सूर्य को नहीं देख सकते । कृष्णपक्ष की अष्टमी से शुद्धपक्ष की अष्टमी तक उन्हें सूर्य-दर्शन होता है, क्योंकि उतने समय सूर्य और चन्द्रमा एक गोलार्द्ध में रहते हैं । शुद्धपक्ष की अष्टमी से कृष्णपक्ष की अष्टमी तक भिन्न गोलार्द्ध में रहने के कारण चन्द्र-मण्डल-स्थित प्राणी सूर्य को नहीं देख सकते, अतः उनकी यह रात्रि है । अमावस्या के दिन सूर्य और चन्द्रमा का एक साथ उदय होता है । चन्द्रमा के ठीक मस्तक पर उस दिन सूर्य है । इसलिए, चन्द्र-मण्डल के ऊर्ध्व भाग में रहनेवालों के लिए वह मध्याह्न है और चन्द्रमा का हमारी ओर का भाग सूर्य का प्रकाश न पडने से उस दिन अप्रकाशित रहता है, इसलिए अमावस्या को हम चन्द्रमा नहीं देख सकते ।

भूमि का भ्रमण माननेवाले इस बात को यों कहेंगे कि भूमि सूर्य के चारों ओर घूमती है और चन्द्रमा भूमि के चारों ओर । जबतक चन्द्रमा भूमि और सूर्य के मध्य भाग में कहीं रहता है, तबतक उसमें रहनेवाले प्राणियों को सूर्य-दर्शन होता है । और चन्द्रमा के अगो पर सूर्य का प्रकाश पडने के कारण हम भी चन्द्रमा को देखा करते हैं । किन्तु जब चन्द्रमा घूमता हुआ सूर्य की विपरीत दशा में आ जाता है, अर्थात् सूर्य और चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चन्द्रमण्डल-स्थित प्राणियों को सूर्य का दर्शन नहीं होता । अमावस्या को चन्द्रमा ठीक सूर्य के सामने रहता है, इसलिए वह

१ स्वधा पितृभ्य पृथिवीषद्भ्य । स्वधापितृभ्य अन्तरिक्ष सद्भ्य ।

स्वधा पितृभ्य दिविषद्भ्य । —अथ० का० १८, अनु० ४, म० ७८-८० ।

ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञिया ।

तेभ्यो घृतस्य कुल्यैतु मधुधारा न्युन्दती । —अथ० का० १८, अनु० २, म० ३४ ।

ये निघाता ये परोक्षे ये दग्धा ये चोद्धिता ।

सर्वास्तानग्न आवह पितृन् हविषे अत्तवे । —अथ० का० १८, अनु० २, म० ३४ ।

आयन्तु न पितर सोऽन्यासोऽग्निध्वान्ता पथिभिर्देवयानै—

अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् । (यजु० १९।५८)

पितरो का मन्वाहृ है और हमारी ओर के चन्द्रमा के भाग पर ग्रह-किरण न पडने से वह अप्रकाशित रहता है, इसलिए हमे अमावस्या को चन्द्र दर्शन नहीं होता। अन्तु, किसी प्रकार मान लीजिए, अमावस्या को पितरो का मन्वाहृ होना दोनों ही मतों में सिद्ध है। इसीलिए उस दिन श्राद्ध आवश्यक माना गया है। अन्यान्य श्राद्ध के विशेष दिनों की भी उपपत्ति इसी प्रकार विचार करने में हो सकती है। आश्विन मास के कन्यागत श्राद्धों की उपपत्ति पहले बता चुके हैं।

दिन-रात्रि का विवरण

यहाँ प्रसगागत अन्यान्य अहोरात्रों की सगति भी समझ लेनी चाहिए। देवताओं का अहोरात्र हमारे एक वर्ष का माना जाता है। देवताओं का निवास सुमेरु पर (ब्रुव तारा के ठीक नीचे) माना गया है। वहाँ के प्राणी ज्वतक सूर्य उत्तर गोल में रहे, तबतक उसे देख सकते हैं। दक्षिण गोल में सूर्य के चले जाने पर उन्हें सूर्य दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि, अपनी स्थिति से पूर्व और पश्चिम नब्बे-नब्बे अंग का दृश्य होता है। ग्रह मेघ से तुला राशि तक ६ मास उत्तर गोल में रहता है, और तुला से मीन तक ६ मास दक्षिण गोल में, अतः देवताओं का मेघ से कन्या के अन्त तक दिन और तुला से मीन तक रात्रि होती है। मकर-सक्रान्ति के दिन, जो देवताओं का दिनोदय माना जाता है, अर्द्धरात्रि से दिन मान लेने का संकेत है। मकर-सक्रान्ति के दिन सूर्य उत्तर की ओर झुक जाता है, इसलिए उस दिन देवताओं का दिनोदय कह देते हैं, किन्तु वास्तविक दिनोदय मेघ-सक्रान्ति को होता है। इसी प्रकार, पितरो का भी दिन कृष्णपक्ष को बताते हैं, किन्तु उनका वास्तविक दिनोदय कृष्णपक्ष की अष्टमी को है। पूर्णिमा को तो उनकी अर्द्ध रात्रि है। जिस प्रकार अन्य प्राणियों के लिए दिन और रात्रि का विभाग शास्त्रों में किया गया है, उसी प्रकार ब्रह्मा के भी दिन और रात्रि का विभाग है। ब्रह्मा की स्थिति स्वयं भूलोक में बता चुके हैं, जिस लोक के पेट में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है, तब सूर्य कहीं भी रहे, ब्रह्मा के लिए तो अदृश्य हो नहीं सकता। उनके लिए तो उसी दिन अदृश्य होगा, जिस दिन सूर्य न रहेगा। वस इस आधार पर एक सूर्य की स्थिति का काल ही ब्रह्मा का एक दिन है। जिसका परिणाम हमारी एक हजार चतुर्युगी है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग, यह एक चतुर्युगी तैत्तिरिक्स लाख बीस हजार मानुष वर्षों में पूरी होती है। ऐसी एक हजार चतुर्युगी सूर्य की आयु का ब्रह्मा का एक दिन है, यह हमारे शास्त्र बताते हैं। इतने ही काल तक ब्रह्मा की रात्रि रहती है, अर्थात् सूर्य नहीं रहता, फिर दूसरा सूर्य बन जाने पर उनका दिनोदय हो जाता है। ऐसे तीन सौ साठ दिन-रात्रि व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक वर्ष, ऐसे सौ वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। इसे ही परार्ध सख्या कहते हैं। यह भारतीय शास्त्रों की गणना है। अस्तु, यह प्रसगागत विषय कहा गया है। प्रस्तुत विषय पितृश्राद्ध का है।

अन्यान्य देवलोकदि जातियों में भी (मुक्ति को छोड़कर) श्राद्ध का फल प्राप्त होना शास्त्रों में माना गया है। सूक्ष्म जगत् के परिचालक देवताओं की व्यवस्था के अनुसार हमारा दिये हुए अन्नपानादि, जिस योनि में हमारे पिता-माता हो, उसी योनि के

खाद्य-रूप में परिणत होकर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ऐमा वैदिक विज्ञान मानता है, किन्तु श्राद्ध का मुख्य वैज्ञानिक सम्बन्ध पितरो से ही है और वे चन्द्र-मण्डल में स्थित हैं, इसलिए उनके सम्बन्ध में उपपत्ति का विशेष विवरण किया गया। दिव्य पितरो के लिए भी श्रांत यागों में पिण्डादि दिये जाते हैं। वे सोमाकर्षण-क्रम से ही उन्हें प्राप्त होते हैं। यह पितरो का सधित वर्णन हुआ।

मन्त्र-भाग में गति-विवरण

परलोक गति का जो विवरण इस प्रकरण में दिया गया है, वह विषय उपनिषदों में विस्तार से निरूपित है। इसे पञ्चाग्नि-विद्या कहा जाता है। जैविलि धत्रिय से गौतम गोत्र के उद्दालङ्ग ऋषि ने यह विद्या प्राप्त की थी—यह छान्दोग्य बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में आख्यात है। वही यह भी कहा गया है कि यह विद्या पहले धत्रियों के पास ही थी। उपनिषद् के उपाख्यान का वक्ता कहता है कि इसके पहले यह विद्या ब्राह्मण के पास नहीं गई। इसी आधार पर कई पाश्चात्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि आत्मगति-विद्या या पञ्चाग्नि-विद्या का प्रचलन इस देश में धत्रियों से ही आरम्भ हुआ। किन्तु अन्वेषण से विदित हो जाता है कि इस विद्या के सिद्धान्त मन्त्र-भाग में भी स्पष्ट पाये जाते हैं और वे मन्त्र प्रायः ब्राह्मण-ऋषियों के ही दृष्ट हैं। इसके प्रमाण-स्वरूप हम यहाँ ब्राह्मण-ऋषियों के द्वारा दृष्ट कतिपय मन्त्र उपस्थित करते हैं। ऋग्वेद के १०वें मण्डल के १७वें सूक्त का तृतीय मन्त्र है—

पूपात्वेतश्चावयतु प्रविद्वाननष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः ।
सत्त्वैतेभ्यः परिद्वत् पितृभ्यो अग्निदेवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥

इस मन्त्र के ऋषि देवश्रवा हैं। इसमें मृत पुरुषों को उद्देश्य करके कहा जाता है कि सारे पशुओं तथा भुवन का रक्षक पूपा देवता (पृथ्वी का अधिष्ठाता देवता) तुमको इस लोक से प्रच्युत करे और अग्निदेव तुमको शोभन ज्ञान-सम्पन्न देवताओं अथवा पितरो में पहुँचावे।

इससे देवयान और पितृयान दोनों प्रकार के मार्गों का निर्देश हो जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद (मण्डल १०, सूक्त ८८, मन्त्र १५) में देवयान तथा पितृयान का स्पष्ट निर्देश है—

द्वे सृती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम् ।
ताभ्यामिदं विश्वमेजत् समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥

अर्थात्, हमने मनुष्यों के दो मार्ग ज्ञात किये हैं, एक देवताओं का, दूसरा पितरो का। इस सम्पूर्ण विश्व के प्राणी जब यहाँ से चलते हैं, तब उन्हीं मार्गों में होकर माता और पिता, अर्थात् पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में अन्तरिक्ष से जाते हैं।

अथर्व० का० १८, अन्वाय १ का मन्त्र है—

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभिर्यत्रानः पूर्वे पितरः परेभ्युः ।
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्याति वरुणं च देवम् ॥

अर्थात्, जिस मार्ग से हमारे पिता, पितामह आदि गये, उगी मार्ग में तुम भी जाओ। यम तथा वरुण राजा का दर्शन करो। इन मन्त्रों से पितृलोक गति का विवरण स्पष्ट प्राप्त होता है।

अथर्व १८।१ का एक और मन्त्र है। यह मन्त्र ऋग्वेद के १०वें मण्डल के १४वें सूक्त में भी है।

**संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टापूत्तं परमे व्योमन् ।
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥**

अर्थात्, हे मृत पुरुष ! तुमने समस्त पापों को छोड़कर इष्टापूर्त आदि कर्मा का अनुष्ठान किया है, उनके कारण अस्त होने के, अर्थात् मरने के अनन्तर यम और उनके शासित पितरों के साथ तुम्हारा समागम हो और वहाँ के कर्मभोग के अनन्तर फिर तुम तेजस्वी शरीर प्राप्त करो।

ऋग्वेद १०।१६।५ का मन्त्र है कि—

**अवसृजत्पुनरग्रे पितृभ्यो यस्त आदुतश्चरति स्वधाभिः ।
आयुर्वसान उपवेतु शेषः संगच्छतां तन्वा जातवेदाः ॥**

अर्थात्, हे अग्ने ! इस मृत पुरुष को, जिसने कि स्ववामन्त्रोच्चारणपूर्वक आदर-सहित तुम्हारी परिचर्या की है, पहले ले जाकर तुम पितरों से मिलाओ और फिर यह शेष कर्मों के साथ इस लोक में सुन्दर शरीर में जन्म धारण करे तथा अपनी आयु का उपभोग करे। इन मन्त्रों में पितृलोक से पुनरावृत्ति होकर पृथ्वी में शरीर ग्रहण का भी स्पष्ट वर्णन है।

अथर्ववेद के काण्ड १८, अध्याय २, मन्त्र ७ में भी मरते हुए पुरुष को उद्देश्य कर कहा गया है कि—

**सूर्यं चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवी च धर्मभिः ।
आपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोपधीषु प्रतितिष्ठाशरीरैः ॥**

अर्थात्, तुम अपनी नेत्रेन्द्रिय के द्वारा सूर्यलोक में जाओ, अपने धर्माचरण द्वारा स्वर्ग-लोक या पृथ्वी की गति प्राप्त करो। तदनन्तर पुन शरीर की प्राप्ति के लिए (मेघ-स्थित) जल को प्राप्त करो। आगे सूक्ष्म शरीर द्वारा चावल, गेहूँ आदि ओषधियों में स्थित रहो।

इस मन्त्र के पूर्वार्ध में भिन्न भिन्न लोको की गति बताई गई है, जैसी पचान्नि-विद्या के द्वारा कही गई है। उत्तरार्ध में परलोक से लौटते समय जल और ओषधियों में आने का वर्णन किया है—

**द्यौर्नः पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्नो माता पृथिवी महीयम् ।
उत्तानयोश्चभ्योर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात् ॥**

(ऋग्वेद, १।१६।३३) . (अथ० का० ९, अनु० ५, सू० १०।१२)

इस मन्त्र में कहा गया है कि द्यु, अर्थात् स्वर्गलोकस्थ सूर्यमण्डल हमारा, उत्पन्न करनेवाला पिता है। उससे सम्बद्ध तथा अन्तरिक्ष में विन्मृत चिरण हमारे बान्धव है।

यह पृथ्वी हमारी माता है। ऊर्ध्वमुख इन दोनों लोको के मध्य में हमारा स्थान है, और वही पिता सूर्य ने गर्भाधान किया है। इस मन्त्र से पुनरावर्तन का क्रम स्पष्ट होता है—

पुंसि वै रेतो भवति तत्स्त्रियामनुपिच्यते ।

तद्धे पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत् ॥

(अथ० ६।१।११२)

अर्थात्, पहले सूक्ष्म शरीर पुन्य में प्रविष्ट होकर वीर्य-रूप बनता है। वही स्त्री के गर्भाशय में निपिक्त होकर पुत्र की उत्पत्ति का कारण बनता है। इस मन्त्र में पुरुष और स्त्री में होनेवाली दोनों आहुतियों का वर्णन है।

इस प्रकार, पचाग्नि-विद्या के सिद्धान्त मन्त्र-भाग में भी प्राप्त हो जाते हैं। और, हम मन्त्रों के द्रष्टा ब्राह्मण ही हैं—इससे ब्राह्मण लोग आत्मविद्या वा आत्मगति-विद्या से वचित थे, यह तो सिद्ध नहीं होता। उपनिषद् में जो कहा गया है कि यह विद्या इसके पूर्व ब्राह्मणों में नहीं थी, यह किसी कालविशेष का ही वर्णन हो सकता है। संभव है, कोई समय ऐसा आया हो कि ब्राह्मण इस विद्या के सिद्धान्तों को भूल गये हो, और उस समय जैविलि क्षत्रिय से ही यह विद्या गौतम द्वारा ब्राह्मणों में आई हो। किन्तु बहुत पूर्वकाल में तो ब्राह्मणों द्वारा ही इस विद्या का भी आविष्कार हुआ था, अथवा यह भी संभव है कि मन्त्रों में प्रकीर्ण रूप से प्राप्त इन सिद्धान्तों का सङ्कलन कर क्षत्रियों ने उन्हें एक विद्या का रूप दिया हो—और पचाग्नि-विद्या इसका नाम क्षत्रियों ने ही रखा हो। विद्या-रूप में सङ्कलित सिद्धान्तों को उद्दालक गौतम ने जैविलि क्षत्रिय से प्राप्त किया हो। इसी प्रकार, अन्यान्य एक-दो विद्याओं में भी ब्राह्मणों का क्षत्रियों से सीखना उपनिषदों में कहा गया है, किन्तु उनके भी मूल सिद्धान्त ब्राह्मण-दृष्ट मन्त्रों में प्राप्त हो जाते हैं। आत्म-विद्या वा ईश्वर-विद्या तो मन्त्र-भाग में पूर्ण विस्तार से है, अत आत्मविद्या से ही ब्राह्मणों को वचित कहना तो निरी मनगटन्त कल्पना है। वस्तुतः, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का सदा सहयोग ही वेदों से सिद्ध होता है, परस्पर विद्याओं का आदान-प्रदान भी इनमें सदा से चलता रहा। किन्तु, विद्या के सम्बन्ध में क्षत्रिय सदा ही ब्राह्मणों का आदर करते रहे, वह उक्त प्रकरणों से ही सिद्ध हो जाता है। वहाँ भी जैविलि आदि ने स्पष्ट कहा है कि 'ब्राह्मण क्षत्रिय का शिष्य बने—यह विपरीत बात है। हम जो जानते हैं, वह निवेदन-रूप में आपके सामने उपस्थित कर दोगे—' इत्यादि। यह प्रसङ्गागत विषय था। आगे क्रम-प्राप्त देव-निरूपण किया जाता है।

देव-निरूपण

पितृ-प्राण से देव-प्राण का उद्भव होता है। ऋषि और पितृ शब्दों की तरह देव शब्द भी अनेक स्थानों में क्रमशः व्यवहार में आ गया है। मुख्य देव प्राण-रूप हैं, जिसमें शतपथ-ब्राह्मण के चौदहवें काण्ड का प्रमाण हम पूर्व उद्धृत कर चुके हैं। वे प्राण जिन प्राणियों में प्रधान रूप से रहते हैं, वे सूर्य-मण्डल और उसके समीपवर्ती लोकों के

प्राणी भी देव कहलाते हैं। देव-प्राणों की जिनमें विशेषता है, वे तारा-मण्डल भी देव और उनके विशेष वाचक इन्द्र, वरुण आदि शब्दों से कहे जाते हैं। एव इन विद्याओं के पूर्णतया जाननेवाले विद्वानों को भी मनुष्य देव शब्द से ब्राह्मणों में कहा गया है। इनके अतिरिक्त पूर्व युगों में इस हमारी पृथ्वी में ही त्रिलोकी की कल्पना हुई थी। पृथ्वी पर ही स्वर्ग, भूमि और पाताल आदि के प्रदेश बनाये गये थे। अर्धणावत पर्वत से उत्तर के सुमेरु तक का प्रदेश स्वर्ग माना जाता था और उस प्रदेश के निवासी प्राणी देव शब्द और उसके विशेष वाचक इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि आदि नामों से व्यवहृत होते थे। इनके विरोधी असुर, राक्षसादि शब्दों से कहे जाते थे। इनके सम्राज्य का विस्तृत वर्णन वेदों में है और भारतीय राजा दशरथ, दुष्यन्त, अर्जुन आदि स्वर्ग-लोक में जाकर जिन देवों के सहायक बने, या जिनके पास अव्ययन किया और जिनसे सत्कार पाया, वे देव इसी उत्तर खण्ड के निवासी थे। किन्तु यह सब विषय ऐतिहासिक है, अतः इस वैज्ञानिक निबन्ध में अप्रस्तुत समझकर हम उसका यहाँ विवरण नहीं करेंगे। उस ऐतिहासिक विषय के लिए एक स्वतंत्र महानिबन्ध की आवश्यकता है। सूर्य-मण्डल के समीपवर्ती देव-लोक के प्राणियों को अष्ट-सिद्धि जन्म से ही प्राप्त है, अतः वे भी यथेच्छ मनुष्याकार धारण कर पृथ्वी-लोक में आते हैं, जिनका विवरण भी श्रुति, पुराणादि में प्राप्त होता है और साख्य-दर्शन में भी उनका विवरण है। किन्तु वह भी एक प्रकार का ऐतिहासिक विषय है। वैज्ञानिक विषय में हमें प्रधानतया प्राण-रूप देवताओं का ही विवरण करना है।

प्राण-रूप देवता निरुक्तकार के मतानुसार मुख्यतः तीन हैं—पृथ्वी का देवता अग्नि, अन्तरिक्ष का वायु और स्वर्ग वा द्युलोक का आदित्य। सूर्य-मण्डल के अधिष्ठाता देवता का इन्द्र शब्द से भी व्यवहार बहुधा देखा गया है। अन्य समस्त देवता इनके ही अवान्तर विशेष हैं। इन देवताओं की स्तुति वेद-मन्त्रों में बहुत अधिक प्राप्त है और स्तुति में विशेषणों के द्वारा इन देवताओं का विज्ञान भी संकेत-रूप में प्रकाशित किया गया है। इनके कतिपय उदारण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रथमतः अग्नि-देवता का प्रधान मन्त्र, जो ऋग्वेद-सहिता के आरम्भ में ही आता है, उसी का विवरण देखिए।

अग्निदेव

कहा जा चुका है कि वेद विज्ञान की उच्च पुस्तक है। उसमें बड़े संक्षेप में संकेत-मात्र से बड़े-बड़े विज्ञान बताये गये हैं। देवताओं की स्तुति का भाग ही वेद-सहिताओं में (खास कर ऋग्वेद में) प्रधान है और देवताओं के विशेषणों पर गम्भीर दृष्टि डालने से पता चलता है कि थोड़े अक्षरों में बहुत-सी बातें कही गई हैं। गागर में सागर भरा गया है।

मन्त्र का पाठ यो है—

ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥

यह अग्निदेव की स्तुति है। अग्नि के कई विशेषण इस मन्त्र में हैं। उनमें से

पहला विशेषण है, 'पुरोहितम्'। इसका मन्दाय है आगे रखा हुआ। पहले कई बार कहा जा चुका है कि 'अग्नि' यह नाम अनेक देवताओं के लिए व्यवहार में आया है। पृथ्वी की अग्नि, अन्तरिक्ष की विद्युद्रूप अग्नि और नुलोक की सूर्य रूप अग्नि तीनों अग्नि ही हैं। उनमें से ऋग्वेद इस पार्थिव अग्नि को मुख्य आधार मानकर, इसके सम्बन्ध में सब देवताओं का विज्ञान प्रकट करता है, यजुर्वेद मध्यम अग्नि, वायु वा विद्युत् को मुख्य आधार रखता है और सामवेद सूर्य-रूप अग्नि के सम्बन्ध से सब विज्ञान प्रकट करता है। इसका संकेत तीनों वेदों के आरम्भ में है। ऋग्वेद का भी प्रारम्भ अग्नि पद से है—'अग्निमीळे पुरोहितम्' और सामवेद का भी आरम्भ अग्नि पद से है—'अन्न आवाहि वीतने'। किन्तु सामवेद में कहा जाता है कि हे अग्ने! तुम हमारी रक्षा के लिए आओ। इससे ही मित्र हो गया कि वह आनेवाले अग्नि से सम्बन्ध रखता है। सूर्याग्नि बाहर से हमारे पास आता है। किन्तु ऋग्वेद प्रारम्भ में ही कहता है कि 'अग्निमीळे पुरोहितम्', अर्थात् मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, जो हमारे आगे विद्यमान है। इमने यह स्पष्ट हो गया कि एक अग्नि सदा हमारे पास है, और एक ऊपर में आनेवाली है। इन दोनों में भी आपस में जन्य जनक-भाव है, एक दूसरे से पैदा होता है, अतएव मूल में दोनों एक ही हैं। यह दूसरी ऋचाओं में प्रकट किया गया है। किन्तु कार्य दोनों का भिन्न-भिन्न है, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध भेद के ही आधार पर दोनों को पृथक्-पृथक् रखा है। अस्तु,

फिर उसी 'पुरोहितम् विशेषण पर विचार कीजिए। 'अग्नि पुर - अग्ने, हित-स्थापित है', अत जो कुछ हमारे सामने है, वह सब अग्नि है। इस पुरोहित विशेषण के साथ भगवान् यास्क की उस उक्ति को मिलाएँ 'यत्किञ्चिद्वाग्निविषयकम्, अग्निर्कर्मैव तत्' (निरु०, अ० ७), अर्थात् जो कुछ दृष्टि में आता है, वह सब अग्निर्कर्म है। जितने पार्थिव पदार्थ हैं, उन सबमें अग्नि व्यापक है, वा यो कहे कि वे सब अग्नि ही हैं। अग्नि ही भिन्न-भिन्न पदार्थों के रूप में हमारे सामने रखी हुई है। यही मौलिक तत्त्व रूप अग्नि है, उष्णता या दाह इसी की एक अवस्था है। वही अग्नि-प्राण जब एक गति-विशेष धारण करता है, तब उष्णता प्रकट हो जाती है और जिसमें वह प्रकट होता है, वह सम्पूर्ण वस्तु मौलिक अग्नि के रूप में चली जाती है। यो 'पुरोहितम्' यह चार अक्षर का विशेषण अग्नि-तत्त्व की व्यापकता का विज्ञान हमें स्पष्ट बता देता है। इस विज्ञान को दूसरे मन्त्रों में इतना स्पष्ट पाते हैं कि इस पर सन्देह करने का कोई अवसर नहीं रहता। यजुर्वेद (अ० १२।३७) में अग्नि की स्तुति का एक मन्त्र है—

गर्भो अस्योपधीना गर्भो वनस्पतीनाम् ।

गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अयामसि ॥

अर्थात्, हे अग्ने, तुम ओषधियों के गर्भ में हो, वनस्पतियों के गर्भ में हो, सब भूतों के गर्भ में हो और जल के भी गर्भ में हो। कितने स्पष्ट अक्षर हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा और भी विस्तार से कहती है—

प्राणी भी देव कहलाते हैं। देव-प्राणों की जिनमें विशेषता है, वे तारा-मण्डल भी देव और उनके विशेष वाचक इन्द्र, वरुण आदि शब्दों में कहे जाते हैं। एव उन विद्याओं के पूर्णतया जाननेवाले विद्वानों को भी मनुष्य देव शब्द में प्राणों में कहा गया है। इनके अतिरिक्त पूर्व युगों में इस हमारी पृथ्वी में ही त्रिलोकी की कल्पना हुई थी। पृथ्वी पर ही स्वर्ग, भूमि और पाताल आदि के प्रदेश बनाये गये थे। शर्यणावत पर्वत में उत्तर के मुमेरु तक का प्रदेश स्वर्ग माना जाता था और उस प्रदेश के निवासी प्राणी देव शब्द और उसके विशेष वाचक इन्द्र, वरुण, यम, बुध, अग्नि आदि नामों से व्यहृत होते थे। इनके विरोधी असुर, राक्षस आदि शब्दों से कहे जाते थे। इनके संग्रामों का विस्तृत वर्णन वेदों में है और भारतीय राजा दशरथ, द्रुपन्त, अर्जुन आदि स्वर्ग-लोक में जाकर जिन देवों के सहायक बने, या जिनके पास अव्ययन क्रिया और जिनसे सत्कार पाया, वे देव इसी उत्तर खण्ड के निवासी थे। किन्तु यह सब विषय ऐतिहासिक हैं, अतः इस वैज्ञानिक निबन्ध में अप्रामाण्य समझकर हम उसका यहाँ विवरण नहीं करेंगे। उस ऐतिहासिक विषय के लिए एक स्वतंत्र महानिबन्ध की आवश्यकता है। सूर्य-मण्डल के समीपवर्ती देव-लोक के प्राणियों को अष्ट-सिद्धि जन्म से ही प्राप्त है, अतः वे भी यथेच्छ मनुष्याकार धारण कर पृथ्वी-लोक में आते हैं, जिनका विवरण भी श्रुति, पुराणादि में प्राप्त होता है और साख्य-दर्शन में भी उनका विवरण है। किन्तु वह भी एक प्रकार का ऐतिहासिक विषय है। वैज्ञानिक विषय में हमें प्रधानतया प्राण-रूप देवताओं का ही विवरण करना है।

प्राण-रूप देवता निरुक्तकार के मतानुसार मुख्यतः तीन हैं—पृथ्वी का देवता अग्नि, अन्तरिक्ष का वायु और स्वर्ग वा तुलोक का आदित्य। सूर्य-मण्डल के अधिष्ठाता देवता का इन्द्र शब्द से भी व्यवहार बहुधा देखा गया है। अन्य समस्त देवता इनके ही अवान्तर विशेष हैं। इन देवताओं की स्तुति वेद मन्त्रों में बहुत अधिक प्राप्त है और स्तुति में विशेषणों के द्वारा इन देवताओं का विज्ञान भी सकैत-रूप में प्रकाशित किया गया है। इनके कतिपय उदारण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रथमतः अग्नि-देवता का प्रधान मन्त्र, जो ऋग्वेद-सहिता के आरम्भ में ही आता है, उसी का विवरण देखिए।

अग्निदेव

कहा जा चुका है कि वेद विज्ञान की उच्च पुस्तक है। उसमें बड़े संक्षेप में सकैत-मात्र से बड़े बड़े विज्ञान बताये गये हैं। देवताओं की स्तुति का भाग ही वेद-सहिताओं में (खास कर ऋग्वेद में) प्रधान है और देवताओं के विशेषणों पर गम्भीर दृष्टि डालने से पता चलता है कि थोड़े अक्षरों में बहुत-सी बातें कही गई हैं। गागर में सागर भरा गया है।

मन्त्र का पाठ यों है—

ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥

यह अग्निदेव की स्तुति है। अग्नि के कई विशेषण इस मन्त्र में हैं। उनमें से

पहला विघोषण है, 'पुरोहितम्'। इसका शब्दार्थ है आगे रखा हुआ। पहले कई बार कहा जा चुका है कि 'अग्नि' यह नाम अनेक देवताओं के लिए व्यवहार में आया है। पृथ्वी की अग्नि, अन्तरिक्ष की विद्युद्रूप अग्नि और तुलोक की सूर्य रूप अग्नि तीनों अग्नि ही हैं। उनमें से ऋग्वेद इस पार्थिव अग्नि को मुख्य आधार मानकर, इमके सम्बन्ध में सब देवताओं का विज्ञान प्रकट करता है, यजुर्वेद मन्वस अग्नि, वायु वा विद्युत् को मुख्य आधार रखता है और सामवेद सूर्य-रूप अग्नि के सम्बन्ध से सब विज्ञान प्रकट करता है। इसका संकेत तीनों वेदों के आरम्भ में है। ऋग्वेद का भी प्रारम्भ अग्नि पद से है—'अग्निमीळे पुरोहितम्' और सामवेद का भी आरम्भ अग्नि पद से है—'अन्न आयाहि वीतये'। किन्तु सामवेद में कहा जाता है कि हे अग्ने! तुम हमारी रक्षा के लिए आओ। इससे ही सिद्ध हो गया कि वह आनेवाले अग्नि से सम्बन्ध रखता है। सूर्याग्नि बाहर से हमारे पास आता है। किन्तु ऋग्वेद प्रारम्भ में ही कहता है कि 'अग्निमीळे पुरोहितम्', अर्थात् मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, जो हमारे आगे विद्यमान है। इममें यह स्पष्ट हो गया कि एक अग्नि सदा हमारे पास है, और एक ऊपर में आनेवाली है। इन दोनों में भी आपस में जन्य-जनक-भाव है, एक दूसरे से पैदा होता है, अतएव मूल में दोनों एक ही हैं। यह दूसरी ऋचाओं में प्रकट किया गया है। किन्तु कार्य दोनों का भिन्न-भिन्न है, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध भेद के ही आधार पर दोनों को पृथक्-पृथक् रखा है। अस्तु,

फिर उसी 'पुरोहितम्' विघोषण पर विचार कीजिए। 'अग्नि पुर - अग्ने, हित-स्थापित है', अत जो कुछ हमारे सामने है, वह सब अग्नि है। इस पुरोहित विघोषण के साथ भगवान् यास्क की उस उक्ति को मिलाएँ 'यत्किञ्चिद्दार्ष्टिंविषयकम्, अन्निकमैव तत्' (निरु०, अ० ७), अर्थात् जो कुछ दृष्टि में आता है, वह सब अन्निकर्म है। जितने पार्थिव पदार्थ हैं, उन सबमें अग्नि व्यापक है, वा यो कहे कि वे सब अग्नि ही हैं। अग्नि ही भिन्न-भिन्न पदार्थ के रूप में हमारे सामने रखी हुई है। यही मौलिक तत्त्व रूप अग्नि है, उष्णता या दाह इसी की एक अवस्था है। वही अग्नि-प्राण जब एक गति-विघोष धारण करता है, तब उष्णता प्रकट हो जाती है और जिममें वह प्रकट होता है, वह सम्पूर्ण वस्तु मौलिक अग्नि के रूप में चली जाती है। यो 'पुरोहितम्' वह चार अक्षर का विघोषण अग्नि-तत्त्व की व्यापकता का विज्ञान हमें स्पष्ट बता देता है। इस विज्ञान को दूसरे मन्त्रों में इतना स्पष्ट पाते हैं कि इस पर सन्देह करने का कोई अवसर नहीं रहता। यजुर्वेद (अ० १२।३७) में अग्नि की स्तुति का एक मन्त्र है—

गर्भो अस्योपधीनां गर्भो वनस्पतीनाम् ।

गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अयामसि ॥

अर्थात्, हे अग्ने, तुम ओपधियों के गर्भ में हो, वनस्पतियों के गर्भ में हो, सब भूतों के गर्भ में हो और जल के भी गर्भ में हो। कितने स्पष्ट अक्षर हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा और भी विस्तार से कहती है—

ऊष्मा का आरम्भ हो जाता है। अनुभव में और वेदिक-ग्रन्थ में उन सब बातों की पुष्टि हो सकती है। अस्तु, इस ऋताग्नि के सम्बन्ध में ही पृथ्वी मन्त्र बड़ी उत्तम गीति में लग जाता है।

सारांश यह कि सूर्य मण्डल और पृथ्वी के परिवर्तनशील सम्बन्ध के अनुसार भिन्न भिन्न स्थिति से, सूर्य-मण्डल में उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होनेवाले और सब पदार्थों का धारण करनेवाले सब में शक्ति प्रदान करनेवाले प्राण-रूप अग्नि का ही नाम ऋताग्नि या सवत्सराग्नि है। एक वर्षतक एक सवत्सराग्नि की स्थिति है, और इस बीच में वह क्रमशः परिवर्तित होता रहता है। इसी के सम्बन्ध से भिन्न-भिन्न समय (मौसम) का नाम ऋतु पड़ता है। माय ही यह भी कहा जा चुका है कि मकर-मकरान्ति से कर्क मकरान्ति तक इस अग्नि का उन्नति-काल है, और कर्क से मकर तक क्रमशः हास काल। इस सम्बन्ध में इतना आर-पान में रखना होगा कि जब सौर अग्नि का उन्नति-काल होता है, तब पार्थिव अग्नि का हास-काल होता है, और जब सौर अग्नि का हास-काल होता है, तब पार्थिव अग्नि का उन्नति-काल होता है। यह विज्ञान, आयुर्वेद आदि प्रायः सभी शास्त्रों का सिद्धान्त है, और अनुभव-सिद्ध भी है, क्योंकि ग्रीष्म-काल में पृथ्वी के भीतरी भाग में ठण्ड और शीत-काल में गर्मी रहती है। सौर अग्नि को उन्नति-काल में ऋतु शब्द से, और क्षय-काल (हास-काल) में सत्य शब्द से कहते हैं। अथवा, जो कहे कि सौर अग्नि को ऋतु शब्द से और पार्थिव अग्नि को सत्य शब्द से कहा जाता है, क्योंकि सौर अग्नि की हास-दशा में पार्थिव अग्नि ही उन्नति पर रहती है। उस समय वही सब पदार्थों का प्राण है। अस्तु, किसी भी प्रकार से हो, अग्नि की ये दोनों अवस्थाएँ ऋतु और सत्य शब्द से कही गई हैं। ऋतु और सत्य अग्निविशेष के ही नाम हैं। यह तैत्तिरीय शाखा में स्पष्ट रूप से निरूपित हुआ है। वस्तुतः, वैदिक परिभाषा में 'ऋतु' उसे कहते हैं, जो प्रकीर्ण भाव में रहे, अर्थात् केन्द्र बनाकर न रहे और सत्य उसे कहते हैं, जो केन्द्रबद्ध हो। जल केन्द्र बनाकर नहीं रहता, प्रकीर्ण भाव में रहता है, इसलिए वह 'ऋतु' है, और पृथ्वी वा पार्थिव पदार्थ सदा केन्द्र बनाकर ही रहते हैं इसलिए वे 'सत्य' शब्द से कहे जाते हैं। पहले जिन पाँच मण्डलों का हम वर्णन कर आये हैं, उनमें एक एक ऋतु और एक-एक सत्य का क्रम है। स्वयम्भू-मण्डल सत्य है और परमेष्ठी सोमप्रधान होने के कारण ऋतु है। फिर, सूर्य मण्डल सत्य और अन्तरिक्ष का वायु ऋतु है। आगे पृथ्वी सत्य है। इन दोनों शब्दों से इनका बहुधा वर्णन श्रुति में हुआ है। अस्तु, सूर्य-मण्डल से आई हुई अग्नि प्रकीर्ण भाव में ही रहती है, केन्द्र नहीं बनाती, इसलिए वह ऋतु है और पार्थिव अग्नि पृथ्वी-केन्द्र में है, इसलिए वह सत्य है।

यह भी स्पष्ट है कि अग्नि की उन्नति के समय को दिन और हास (अवनति—क्षय) समय को रात्रि कहते हैं। ये दिन और रात्रि शब्द भी तीन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। एक, हम लोगों के दिन और रात प्रसिद्ध ही है। दूसरा, शुक्लपक्ष को दिन और कृष्णपक्ष को रात्रि कहते हैं। यह दिन-रात्रि-विभाग चन्द्रमा या चन्द्रमा से सम्बन्ध रखनेवाले पितरो के सम्बन्ध से है। तीसरा उत्तरायण को दिन और

दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है। यह विभाग भगवान् सूर्य या सूर्य से सवद्ध देवताओं में होता है। प्रकृत मन्त्र की व्याख्या में सौर अग्नि का सम्बन्ध होने के कारण एक वर्ष के दो विभाग-रूप उत्तरायण और दक्षिणायन को ही मुख्यतया दिन और रात्रि समझना विशेष उपयुक्त होगा। वैदिक भाषा में दिन का नाम 'सवद्ध' और रात्रि का नाम 'सगरा' है।

वेद के कोप-निघण्टु में अन्तरिक्ष (आकाश) का नाम समुद्र और सागर भी आया है। किन्तु वैज्ञानिक सूक्ष्म विचार के अनुसार इनमें इतना अन्तर अवश्य है कि अन्तरिक्ष का वह गोलार्द्ध, जिसमें सूर्य-मण्डल की स्थिति हो, समुद्र शब्द से कहा जाना चाहिए, और सूर्यमण्डल-रहित गोलार्द्ध सागर या अर्णव शब्द से। फलतः, जब मकर-वृत्त पर सूर्य हो, तब मकर से कर्क तक का प्रदेश समुद्र कहलायगा, और कर्क से मकर के पूर्व तक का सागर या अर्णव कहा जायगा। यह विभाग भी उक्त सौर अग्नि के सम्बन्ध से ही होता है। जिस अन्तरिक्ष-विभाग में ऋताग्नि पूर्ण व्याप्त है, वह समुद्र और जिसमें उसका हास है, वह सागर या अर्णव है। इस प्रकार अग्नि, अग्नि-सम्बन्धी काल और उस अग्नि की व्याप्ति का प्रदेश इन तीनों का विवरण उक्त अधमर्पण सूक्त के मन्त्रों में किया गया है।

अब 'ऋत च' इत्यादि पूर्वलिखित मन्त्रों का अक्षरार्थ स्पष्ट और सरल ही है कि (अभीष्ट) प्रदीप्त, अर्थात् सूर्य-समाक्रान्त (तपस अधि) अर्थात् माघ मास से आरम्भ कर ऋत और सत्य नाम की अग्नि उत्पन्न होती है। (अभीष्ट) प्रदीप्त विशेषण देने से तात्पर्य यही है कि यथार्थ में सूर्य से ही अग्नि की उत्पत्ति है, माघ मास-रूप काल तो निमित्तमात्र है। (तत) उसी अग्नि के कारण रात्रि उत्पन्न होती है, अर्थात् दिन और रात्रि का विभाग होता है, जैसा कि पहले कहा गया। अथवा (तत) उस अग्नि की उत्पत्ति के अनन्तर रात्रि (अजायत) समाप्त हो जाती है, अर्थात् दिन आरम्भ होता है। 'अजायत' भूतकाल का प्रयोग है—इससे उत्पन्न हो चुका—अर्थात् अब नहीं है—इससे समाप्ति व्यञ्जित होती है। अस्तु, और (तत) उसी अग्नि के कारण समुद्र और अर्णव ये दोनों अन्तरिक्ष के प्रदेश विभक्त होते हैं। इस प्रकार अग्नि, काल और प्रदेश के दोनों विभागों की पूर्णता के अनन्तर (समुद्रादर्णवादधि) अर्णव और समुद्र की स्थिति पूर्ण होने पर (सवत्सरो अजायत) वर्ष पूर्ण हो जाता है। यो ही इस चेष्टा-युक्त सप्ताह का वशी—स्वामी ईश्वर दिन और रात्रि को उत्पन्न करता हुआ उनके कारण-भूत सूर्य और चन्द्रमा को (यथापूर्वमकल्पयत्) फिर पहले के समान चला देता है। जिससे फिर उसी क्रम से दिन और रात्रि का क्रम चलने लगता है। अर्थात्, फिर वही अग्नि की उत्पत्ति स्थिति आदि होने लगती है। दिव्, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग आदि सब उसी के शासन में कल्पित हैं।

यह सौर अग्नि, ऋताग्नि या सवत्सराग्नि ही हम लोगों का परम आराध्य है। यही सत्रका प्राणप्रद है। यह पवित्रों का भी पवित्र है। इसी के सम्बन्ध से सबसे पवित्रता आती है। यह सब पदार्थों के मूल का शोधक है। अतएव इस अग्नि का प्रतिपादक अधमर्पण सूक्त परम पवित्र और सर्वपाप-नाशक माना गया है। अधमर्पण सूक्त के

जप की स्मृतियों में बहुत अधिक प्रशंसा है। किन्तु, 'यदेव विन्याया करोति, तदेव वीर्य-वत्तर भवति' ज्ञानपूर्वक कर्माचरण से ही यथार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। अतः, यदि इसके तत्त्वज्ञान और मननपूर्वक हम लोग इसका जप करें, तो अवश्य ही परमात्मा की कृपा से परम पवित्रता का लाभ कर सकते हैं।

यह ऋतु-विज्ञान के प्रसंग से अघर्मर्षण सूक्त की व्याख्या हो गई। आगे उगी 'ऋत्विजम्' विशेषण पर ध्यान आकृष्ट कीजिए।

यह सिद्ध हुआ कि सूर्याग्नि ऋतुओं का कारण है। किन्तु सूर्याग्नि एकाकी एकरूप रहती हुई भिन्न-भिन्न ऋतुओं को बना नहीं सकती, जबतक कि उसमें किसी दूसरे पदार्थ का योग न हो। दूसरा पदार्थ है सोम, वह चन्द्रमा से प्राप्त होता है, इसीलिए ऋतु का उत्पादक चन्द्रमा बताया जाता है।

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परियातो अध्वरम् ।

विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्टे ऋतू रन्यो विदधजायते पुनः ॥

(ऋ० १०।८५।१८)

ये दोनो अपनी शक्तियों से बालकों की तरह खेलते हुए आगे-पीछे विचरते हैं और यज्ञ में आते हैं। इनमें एक, अर्थात् सूर्य सब लोको को प्रकाशित करता है और एक, अर्थात् चन्द्रमा ऋतुओं को उत्पन्न करता हुआ फिर-फिर पैदा होता है। इससे आगे भी 'नवो नवो भवति जायमानः' आदि चन्द्रमा के वर्णन हैं। अस्तु,

चन्द्रमा के सोम की न्यूनाधिकता से सूर्याग्नि द्वारा ऋतुएँ बनती हैं, यह सिद्ध हुआ, किन्तु इन दोनो का पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी में जो फल, पुष्प, औषधि आदि इनके कारण उत्पन्न होते हैं, वे बिना इस पार्थिव अग्नि के सम्बन्ध के नहीं हो सकते, इसलिए यह अग्नि भी 'ऋत्विज्' है। ऋतु से मिला हुआ है, अथवा ऋतुजन्य फलो का देनेवाला है। सूर्याग्नि और चन्द्रमा का सोम इस पर प्रभाव डालते हैं और यह उनके योग से सब पार्थिव भोगों का उत्पादक होता है। यह विज्ञान 'ऋत्विजम्' विशेषण ने बतलाया।

आगे चौथा विशेषण है—'होतारम्'। इस पर अब अधिक विस्तार नहीं करूँगा। इसका सीधा अर्थ यही है कि 'होम का साधन'—अग्नि में ही हम हवन कर सकते हैं। इसके बिना हवन नहीं बनता अथवा यह देवताओं को बुलानेवाला है। होता शब्द 'ह्वाता' से बनता है, यह ब्राह्मणों में स्पष्ट है। अस्तु,

पाँचवाँ विशेषण है—'रत्नधातमम्'। यह स्पष्ट विज्ञान का प्रकाशक है। इसका अर्थ है 'रत्नों का धारण या पोषण करनेवाला' अथवा 'देनेवाला'। जितने सुवर्ण, मणि आदि पदार्थ पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, उनका मूल कारण पार्थिव अग्नि है। यह अर्थ इस विशेषण में साफ झलक रहा है। इसी विज्ञान के आधार पर हमारा न्याय-शास्त्र भी सुवर्ण, मणि आदि पदार्थों को तैजस कहता है।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो सुवर्ण की उत्पत्ति के वैज्ञानिक प्रकार का भी लौकिक भाषा में स्पष्टीकरण किया गया है—

आपो वरुणस्य पत्न्य आसन् , ता अग्नि अभ्यध्यायन् ।
ताः समभवन् तस्य रेतः परापतत् , तद्धिरण्यमभवत् ॥

(तै० ब्रा० १।१।३)

रस भाग में अग्नि के वीर्य का सम्बन्ध होने से सुवर्ण की उत्पत्ति होती है, यह इसका अर्थ है, इसीसे संस्कृत में अग्नि का नाम है—हिरण्यरेता । किन्तु इन वातों का स्पष्ट अनुभव प्रयोग परीक्षा-प्रकार (१२ × /० एलिमेण्ट) के बिना नहीं हो सकता । जो इस अग्नि की प्रथम ऋचा ने कितने विज्ञान के सूत्र हमें सिखाये, यह आप अनुभव कर सकते हैं और इसीसे वैदिक विज्ञान की गम्भीरता जान सकते हैं ।

वायुदेव

इसी प्रकार अब वायुदेवता का यजुर्वेद का प्रारम्भिक मन्त्र देखिये—

इपे त्वोर्जे त्वा वायवःस्थ देवो वः सविता ।

प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याययध्वम् ॥—इत्यादि ।

पुराने भाष्यों में यज्ञ के कर्त्तव्य-सम्बन्ध में ही इस मन्त्र को लगाया है । किन्तु गतपथ-ब्राह्मण के आधार पर इसका वैज्ञानिक भाव यह होता है कि इप नाम अन्न का और अर्क नाम बल का है । वृष्टि के द्वारा वायु अन्न का कारण होता है और सब प्राणियों को बल भी वायु से मिलता है । साथ ही वायु में जो त्रिया है, उसका कारण सूर्य है । सूर्य-किरणों की प्रेरणा से वायु में गति होती है । यह विज्ञान 'दिवो वः सविता प्रार्थयतु' (हि वायु ! सूर्यदेव तुम्हें गतिशील करें), इन पदों से स्पष्ट किया गया है । इसकी व्याख्या में गतपथ-ब्राह्मण लिखता है—'सविता वै देवाना प्रसविता', सूर्य ही सब देवताओं को प्रेरणा देनेवाला है और ऐतरेय में तो बहुत ही स्पष्ट अधरो में बताया गया है कि 'सवितृप्रसृतो ह्येव एतत्त्वत्ते' (ऐ० ३।१), अर्थात् सूर्य द्वारा चालित यह वायु चलकर मत्र जगत् को पवित्र कर रहा है । आगे 'श्रेष्ठतमाय कर्मणे' की व्याख्या में गतपथ में कहा है कि 'यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म', अर्थात् यज्ञ के लिए वायु के परिपुष्ट रूप में चलने की आवश्यकता है । पूर्वोक्त प्रकृति का यज्ञ वायु के चलने से ही होता है । और, जगत् का आप्यायन करना वायु का काम है । जो वायु वृष्टि का, बल का, और जगत् के आप्यायन, पोषण का कारण है, सूर्य-किरणों से इसमें गति होती है । इसके द्वारा आदान-प्रदान-रूप जगत् का यज्ञ सम्पन्न होता है—इत्यादि कई विज्ञानों की शिक्षा इस वायुदेवता के मन्त्र में मिल जाती है ।

सूर्य-विज्ञान

सूर्य का विज्ञान वेद-मन्त्रों में बहुत आया है । वेद सूर्य को ही सब चराचर जगत् का उत्पादक कहता है—'नून जना सूर्येण प्रसृतः' और इसको ही 'प्राण प्रजानाम्' कहा जाता है । बतला चुके हैं कि सूर्य को इन्द्र शब्द से भी वेदों में कहा गया है । उस इन्द्र नाम से ही सूर्य की स्तुति का मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं—

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरणं सगरस्य वृध्नात् ।

यहाँ इन्द्र शब्द सूर्य का बोधक है। इन्द्र शब्द अन्तरिक्ष के देवता विद्युत् के लिए भी प्रयुक्त है और द्युलोक के देवता सूर्य के लिए भी। इन्द्र शब्द का दोनों ही प्रकार का अर्थ सायण-भाष्य में भी प्राप्त होता है। इन्द्र १४ भेद में श्रुति में वर्णित है। उन भेदों का समग्र 'ब्रह्म विज्ञान' के इस पत्र में किया गया है—

इन्द्राहि वाक्प्राणधियो चलं गति-
विद्युत् - प्रकाशेश्वरता - पराक्रमाः ।
शुक्लादिवर्णा रविचन्द्रपूरुषा-
वृत्साह आत्मेति मताश्चतुर्दश ॥

१ वाक्, २ प्राण, ३ मन, ४ बल, ५ गति, ६ विद्युत्, ७ प्रकाश, ८ ऐश्वर्य, ९ पराक्रम, १० रूप, ११ सूर्य, १२ चन्द्रमा, १३ उत्साह और १४ आत्मा, इन १४ के लिए इन्द्र शब्द श्रुति में भिन्न-भिन्न स्थानों पर आता है। इन्द्र का विज्ञान श्रुति में सबसे गम्भीर है। अस्तु, दो विशेषण इन्द्र के आते हैं, एक सहस्वान् और एक मरुत्वान्। मरुत्वान् इन्द्र अन्तरिक्षस्य वायु वा विद्युत् स्वरूप है और सहस्वान् इन्द्र सूर्य-रूप है। यहाँ भी यह सूक्ष्म विभाग है कि सूर्य-मण्डल को द्युलोक कहा जाता है और उसमें प्रतिष्ठित प्राणशक्ति देवता को इन्द्र कहा जाता है। श्रुति में अति स्पष्ट इसका उल्लेख है—'यथाग्निगर्भा पृथिवी तथा चौरिन्द्रेण गर्भिणी', जैसे पृथिवी के गर्भ में अग्नि है, वैसे द्युलोक (सूर्य-मण्डल) के गर्भ में इन्द्र है। अस्तु, तात्पर्य यह कि पूर्वोक्त मन्त्र में इन्द्र पद का अर्थ सूर्य है। तब मन्त्र का स्पष्टार्थ यह हुआ कि 'यह महान् स्तुति-रूप वाणी इन्द्र के लिए प्रयुक्त है।' इन्द्र अन्तरिक्ष के मध्य से जल को प्रेरित करता है और अपनी शक्तियों से पृथ्वीलोक और द्युलोक दोनों को रोके हुए है, जैसे कि अक्ष रथ के चक्रों को रोके रहता है। विचारिए कि इससे अधिक आकर्षण का स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? फिर भी, यहाँ केवल इन्द्र शब्द आने से यदि यह सन्देह रहे कि यहाँ इन्द्र सूर्य का नाम है या वायु का, तो इसी सूक्त का, इससे दो मन्त्र पूर्व का मन्त्र देखिए, जिसमें सूर्य शब्द स्पष्ट है—

स सूर्यः पर्युरुवरांस्येन्द्रो ववृत्याद्रथेव चक्रा ।

अतिष्ठन्तमपश्यन् सर्गं कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ॥

(ऋ० १०।८४।२)

यहाँ श्रीमाधवाचार्य 'वरासि' का अर्थ तेज बतलाते हैं। उनके मतानुसार मन्त्र का अर्थ है कि वह सूर्य-रूप इन्द्र बहुत-से तेजों को इस प्रकार धुमाता है, जिस प्रकार सारथी रथ के चक्रों को धुमाता है और यह अपने प्रकाश से कृष्ण वर्ण के अन्धकार पर इस प्रकार आघात करता है, जैसे तेज चलनेवाले घोड़े पर चाबुक का आघात किया जाता है। किन्तु सत्यव्रत सामश्रमी महाशय यहाँ 'वरासि' का अर्थ नक्षत्र आदि का मण्डल बताते हैं, जो कि यहाँ सुसगत है, और तब मन्त्र का अर्थ स्पष्ट रूप से यह हो जाता है कि सूर्य-रूप इन्द्र सब महान् मण्डलों को रथ-चक्र की तरह धुमाता है।

इससे आकर्षण का विज्ञान अधिक स्पष्ट हो जाता है और श्रीमाधवाचार्य के अर्थ के अनुसार भी तेजोमण्डल का घुमाना और इन्द्र शब्द का अर्थ सूर्य होना अभिव्यक्त ही है। और भी सन्देह हो, तो सूर्य सत्रके मध्य में और सत्रका आकर्षक है, इस विज्ञान को और मन्त्रों में भी स्पष्ट देखिए—

वैश्वानर नाभिरसिद्धितीनाम् विश्वस्य नाभि चरतो ध्रुवस्य ।

(ऋ० १०।५।३)

दिवो धर्त्ता भुवनस्य प्रजापतिः । (४।५३।२)

यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः । (१।१६।४२)

—इत्यादि बहुत से मन्त्रों में सूर्य भगवान् का नाभिस्थान पर, अर्थात् मध्य में रहना और सब लोको का धारण करना स्पष्ट रूप से कहा गया है।

और भी देखिए—

तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विश्वदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेममवग्लापयन्ति ।

मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमयिष्वमिन्वाम् ॥

(ऋ० १।१६।४१०)

मातृ शब्द पृथिवी और पितृ शब्द बु का वाचक है, जो वेद में बहुधा प्रयुक्त होता है। इस मन्त्र का अर्थ यह है कि एक ही सूर्य तीन पृथिवी और तीन बुल्लोको को धारण करता हुआ ऊपर स्थित है। इसको कोई भी ग्लानि को प्राप्त नहीं करा सकते, अर्थात् दवा नहीं सकते। उस बुल्लोक के पृष्ठ पर सभी देवता ससार के जानने योग्य सर्वत्र व्याप्त न होनेवाली वाक् को परस्पर बोलते हैं।

तिस्रो भूमिर्धारयन् त्रीरुत द्यूनत्रीणि व्रता विदथे अन्तरेषाम् ।

ऋतेनादित्या महि वो महित्व तदर्यमन् ! वरुण ! मित्र ! चारु ॥

(२।२७।८)

इसका अर्थ यह है कि आदित्य तीन भूमि और तीन बुल्लोको का धारण करते हैं, इन आदित्यो के अन्तर्गमन में वा यज्ञ में तीन प्रकार के व्रत, अर्थात् कर्म हैं। हे अर्यमा, वरुण, मित्र नामक आदित्य-देवताओ ! ऋत से तुम्हारा सुन्दर अतिविशिष्ट महत्त्व है।

इस प्रकार, कई एक मन्त्रों में तीन भूमि, तीन बुल्लोको का धारण सूर्य के द्वारा बताया गया है। सत्यव्रत सामश्रमी महाशय का विचार है कि ये छहो ग्रह यहाँ सूर्य के आकर्षण में स्थित बताये गये हैं। पृथिवी और सूर्य के मध्य में रहनेवाले चन्द्रमा, बुध और शुक्र तीन भूमियों के नाम से कहे गये हैं और सूर्य से ऊपर के मंगल, बृहस्पति और शनि बु के नाम से कहे गये हैं। यो इन सब ग्रहों का धारणाकर्षण सूर्य के द्वारा सिद्ध हो जाता है।

श्रीगुरुजी तीन भूमि, तीन बुल्लोक की यह व्याख्या उपयुक्त नहीं मानते, क्योंकि यो विचार करने पर ग्रह-नक्षत्र आदि भूमि बहुत हैं। तीन-तीन का परिच्छेद ठीक नहीं बैठता। यहाँ तीन भूमि और तीन बुल्लोक का अभिप्राय दूसरा है।

छान्दोग्योपनिषद् में बताया हुआ तेज, अप्, अन्न के त्रिवृत्करण के अनुसार प्रत्येक मण्डल में तेज, अप्, अन्न तीनों की स्थिति है, और प्रत्येक मण्डल में पृथिवी, चन्द्रमा और सूर्य यह त्रिलोकी नियत रहती हैं। इस त्रिलोकी में भी प्रत्येक में तेज, अप्, अन्न तीनों का भाग है। उनमें से अन्न का भाग पृथिवी, अप् का भाग अन्तरिक्ष, और तेज का भाग द्यु कहलाता है। तब तीनों मण्डलों में मिलकर तीन भूमि और तीन द्यु हो जाते हैं। ये तीनों भूत और रवि वृ और इनका धारण करनेवाला प्राण रूप आदित्य-देवता है, जो 'तथा त्रोरिन्द्रेण गर्भिणी' में बताया गया है।

अथवा, दूसरा अभिप्राय यह है कि छान्दोग्योपनिषद् में सत् से जो तेज, अप्, अन्न की सृष्टि बतलाई गई है, उनमें प्रत्येक फिर तीन तीन प्रकार का होता है। तेज के भी तीन भेद हैं—तेज, अप्, अन्न। अप् के भी तीन भेद हैं—तेज, अप्, अन्न और अन्न के भी तीन भेद हैं, तेज, अप्, अन्न। इनमें प्रथम वर्ग की अन्न-अवस्था और द्वितीय वर्ग की तेज-अवस्था एकरूप होती है, अर्थात् तेज वर्ग का अन्न और अप् के वर्ग का तेज एक ही है। यों ही अप् के वर्ग का अन्न और अन्न के वर्ग का तेज एक ही है, तब नौ में से दो घट जाने पर सात रह जाते हैं। ये ही सात व्याहृति या सात लोक प्रसिद्ध हैं—भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्। वहाँ भू पृथिवी है। भुवः जल है या जल प्रधान अन्तरिक्ष है। स्वः तेज वा तेज-प्रधान युलोक है। महः वायु वा केवल वायुप्रधान लोक है। जनः आकाश या वायुमण्डल-बहिर्भूत शुद्ध आकाशलोक है। तपः क्रिया वा सकल क्रिया के मूल कारणभूत प्राण-प्रजापति का लोक है। सत्यम् सत् की पहली व्याकृत अवस्था मन वा मनोमय परमेष्ठी का लोक है। अब इनमें भूः भुवः स्वः ये तीनों पृथिवी कहलाते हैं। स्वः महः जनः ये तीनों अन्तरिक्ष कहलाते हैं और जनः तपः सत्यम् ये तीनों द्यु हैं, जिनका धारण पूर्वोक्त मन्त्रों में सूर्य द्वारा बताया गया है। अब चाहे ससार में सैकड़ों-हजारों मण्डल या गोल बन जायें, अनन्त पृथिवी-गोल हों, किन्तु तत्त्व-विचार से सात व्याहृतियों से बाहर कोई नहीं हो सकता। अतएव यह व्यापक अर्थ है। श्रीमाधवाचार्य ने भी 'तिस्रो भूमी-से व्याहृतियाँ ही ली हैं। अस्तु, चाहे कोई भी अर्थ स्वीकार कीजिए, किन्तु सूर्य का धारणाकर्षण-विज्ञान इन मन्त्रों में अवश्य ही मानना पड़ेगा। नौ भूमि या सैकड़ों-हजारों भूमियों का इन्द्र या सूर्य के अधिकार में बद्ध रहना भी मन्त्रों में बताया गया है, और सूर्य का चक्र की तरह सबको घुमाना और स्वयं भी अपनी धुरी पर घूमना पूर्वोक्त मन्त्रों में और 'विवर्त्तते अहनी चक्रियेव' इत्यादि बहुत-से मन्त्रों में स्फुट रूप से कहा गया है।

भूमि के भ्रमण का भी सकेत मन्त्रों में कई जगह प्राप्त होता है। केवल इतना ही नहीं, भूमि अपनी धुरी पर बयो घूमती है। इसका कारण एक मन्त्र में विलक्षण ढंग से प्रकट किया गया है—

यज्ञ इन्द्रमवर्द्धयद् । यद् भूमि व्यवर्त्तयत् ।
कुर्वाण ओपशं दिवि ।

मन्त्र का सीधा अर्थ यह है कि यज्ञ इन्द्र को बढ़ाता है, इन्द्र द्युलोक में ओपज, अर्थात् शृग बनाता हुआ पृथिवी को विवर्तित करता है, अर्थात् घुमाता है। किरण जिन समय किसी मूर्त्त पदार्थ पर आघात करके लौटती है, तब उसका गमन-मार्ग आगमन-मार्ग से कुछ अन्तर पर होता है, उसे ही वैज्ञानिक भाषा में शृग या ओपज कहते हैं। तब किरणों के आघात से पृथिवी का घूमना इस मन्त्र से प्राप्त होता है। अवश्य ही यह उन्मत्त-प्रलाप नहीं है, किन्तु इसके स्पष्टीकरण के लिए गहरी परीक्षा की आवश्यकता है। सम्भव है कि किसी समय परीक्षा से यह विज्ञान स्फुट हो जाय और कोई बड़ी गम्भीर बात इसमें से प्रकट हो पड़े।

और भी सूर्य का, और सूर्य के रथ और अश्वों का भी वर्णन देखिए—

सप्त पुञ्जन्ति रथमेक चक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः ।

(ऋ०, म० १, अनु० २२, सू० ८, म० २)

एक पहिये के सूर्य के रथ में सात घोड़े जुड़े हुए हैं। वस्तुतः (घोड़े सात नहीं) एक ही सात नाम का या सात जगह नमन करनेवाला घोड़ा इस रथ को चलाता है। इस रथ-चक्र की तीन नाभि है, यह चक्र (पहिया) गिथिल नहीं, अत्यन्त दृढ़ है, और कभी जीर्ण नहीं होता, इसी के आधार पर सारे लोक स्थित है। यह हुआ सीधा शब्दार्थ। अब इसके विज्ञान पर दृष्टि डाली जाय।

निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि देवताओं के रथ, अश्व, आयुध आदि उन देवताओं से अत्यन्त भिन्न नहीं होते, किन्तु परम ऐश्वर्यशाली होने के कारण उनका स्वरूप ही रथ, अश्व, आयुध आदि रूपों से वर्णन किया जाता है। अर्थात्, आवश्यकता होने पर वे अपने स्वरूप से ही रथ, अश्व आदि प्रकट कर लेते हैं, मनुष्यों की तरह काष्ठ आदि के रथादि बनाने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती। अतएव श्रुति रथ, अश्व, आयुध आदि रूप से देवताओं की ही स्तुति करती है। अस्तु, इसके अनुसार यहाँ रथ शब्द का सूर्य के ही वर्णन में तात्पर्य है। रथ शब्द की सिद्धि करते हुए निरुक्तकार ने कहा है कि यह स्थिर का विपरीत है, अर्थात् स्थिर शब्द ही वर्ण-विपर्यय होकर रथ शब्द के रूप में आ गया है। अतः, सूर्य की स्थिरता का भी प्रमाण कई विद्वान् इससे निकालते हैं।

रथ और रथी में भेद की ही यदि अपेक्षा हो, तो सार जगन्मण्डल—सूर्यकिरणा-क्रान्त ब्रह्माण्ड—सूर्य का रथ मानना चाहिए। पुराण में सूर्य की गति के प्रदेश क्रान्तिवृत्त को सूर्य-रथ बताया गया है।

त्र्यशीतिमण्डलशतं काष्ठयोरन्तरं द्वयोः ।

आरोहणावरोहाभ्या भानोरब्देन या गतिः ॥

स रथोऽधिष्ठितो देवैरादित्यैर्ऋषिभिस्तथा ।—इत्यादि ।

(वि० पु०, अ० २, अध्या० १०)

सबत्सर इस रथ का चक्र (पहिया) माना गया है। वस्तुतः, सबत्सर-रूप

काल ही इस सप्त जगत् को फिरा रहा है, काल के ही कारण जगत् घूम रहा है। परिणाम होना—एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाना ही जगत् का जगत्पन है, उसका कारण काल ही है। सुतरा, सौर जगत् का पहिया सवत्सर-रूप काल हुआ। इस सवत्सर रूप चक्र का मन्त्र के उत्तरार्थ में वर्णन हुआ है। तीन श्रुती नाभि है, एक सवत्सर में तीन बार जगत् की स्थिति विलकुल पलट जाती है, वे ही तीन ऋतुएँ (शीत, उष्ण, वर्षा,) यहाँ चक्र की नाभि गतलाई गई हैं। पाँच या छह ऋतुओं का जो विभाग है, उसके अनुसार अन्यत्र पाँच या छह अरा बताये जाते हैं—

त्रिनाभिमति पञ्चारे पण्णेमिन्यक्षयात्मके ।

संवत्सरभये कृत्स्नं कालचक्रं प्रतिष्ठितम् ॥

(वि० पु०, अ० २, अ० ८)

अथवा तीन—भूत, वर्त्तमान, भविष्यत्—भेद से भिन्न काल इस चक्र की नाभि है। जो व्याख्याता चक्र पद से भी सौर जगत् (ब्रह्माण्ड) का ही ग्रहण करते हैं, उनके मत से भूमि, अन्तरिक्ष, दिव् नाम के तीनों लोको की तीन नाभि है।

और, इस चक्र का विशेषण दिया गया है—‘अनर्चम्’ इसकी व्याख्या करते हुए निरुक्तकार कहते हैं कि ‘अप्रत्यूतमन्यस्मिन्’, अर्थात् यह सूर्य-मण्डल किसी दूसरे आधार पर नहीं। और, यह ‘अज्जर’ है, अर्थात् जीर्ण नहीं होता और इसी के आधार पर सम्पूर्ण लोक स्थित है। इस व्याख्या के अनुसार सूर्य मण्डल के आकर्षण से सब लोग बँधे हुए हैं, एव सूर्य अपने ही आधार पर है, वह किसी दूसरे के आकर्षण पर बद्ध नहीं। यह आधुनिक विज्ञान स्फुट हो जाता है। सवत्सर-रूप काल को चक्र मानने के पक्ष में भी इन तीनों विशेषणों की सगति स्पष्ट है। काल के ही आधार पर सब है, काल किसी के आधार पर नहीं, और काल कभी जीर्ण भी नहीं होता।

भेद माननेवाले वायु को सूर्य-अश्व कहते हैं, अर्थात् वायुमण्डल के आधार से सूर्य चारों तरफ घूमता है। वह वायु वस्तुतः एक है, किन्तु स्थान-भेद से उसकी आवह-प्रवह आदि ७ सजाएँ हो गई हैं। अतएव, कहा गया कि ‘एक ही सात नाम का या सात स्थानों में नमन करनेवाला अश्व वहन करता है’। किन्तु निरुक्तकार के मतानुसार अशन, अर्थात् सब स्थानों में व्याप्त होने के कारण सूर्य ही अश्व है। किन्तु सूर्य-मण्डल हमसे बहुत दूर है, उसे हमारे समीप सूर्य की किरणें पहुँचाती हैं। सूर्य अश्व है, तो किरण बल्गा (लगाम) है, जहाँ किरण ले जाती है, वही सूर्य को भी जाना पड़ता है। (लगाम और किरण दोनों का नाम सस्कृत में रश्मि है, यह भी ध्यान देने की बात है।) इससे सूर्य के वहन करनेवाली किरणें ही सूर्याश्व हुईं। कई भावों से मन्त्रों का विचार होता है। कहीं सूर्य अश्व तो रश्मि बल्गा, कहीं सूर्य अश्वारोह, तो किरण अश्व आदि। वह किरण भी वस्तुतः एक अर्थात् एक जाति की है, किन्तु सात भी किरणें कही जा सकती हैं। सात कहने के भी अनेक कारण हैं। किरणों के सात रूप होने के कारण भी उन्हें सात कह सकते हैं। अथवा सप्तरूप में वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर ये छह ऋतुएँ होती हैं और सातवीं एक साधारण ऋतु। इन सातों का

कारण सूर्य की किरणे ही है। सूर्य-किरणों के ही तारतम्य से सब परिवर्तन होते हैं। इसलिए, सात प्रकार का परिवर्तन करानेवाली सूर्य-किरणों की अवस्था भी सात हुई। अथवा भूमि, चन्द्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और अग्नि इन सातों ग्रहों और लोको में, या भू-भुव-स्व-सातो भवनो में प्रकाश पहुँचानेवाले और इन सभी लोको से रस आदि लेनेवाली सूर्य-किरणें ही हैं। अतः, सात स्थानों के सम्बन्ध से इन्हें सात कहा जाता है, यह बात 'सप्तनामा' पद से और भी स्फुट होती है। सूर्य की किरणें सात स्थानों में नत होती हैं, प्रकारान्तर में यह 'सप्तनामा' पद सूर्य का विशेषण है, अर्थात् सात रश्मि सूर्य से रस प्राप्त करती रहती हैं। सातों लोको से इसका आहरण सूर्य रश्मि द्वारा होता है, अथवा सातों ऋषि सूर्य की स्तुति करते हैं। यहाँ भी ऋषि से तारा-रूप ग्रह भी लिये जा सकते हैं और वसिष्ठ आदि ऋषि भी। इस प्रकार, मन्त्रार्थ का अधिकतर विस्तार हो जाता है।

अब पाठक देखेंगे कि पुराणों में और बृद्ध पुरुषों के मुख से जिन बातों को सुनकर आजकल के विद्वान्मानी सज्जनों का हास्य नहीं रुकता, वे ही बातें साक्षात् वेद में भी आ गईं, और उनका तात्पर्य भी ऐसा निकल पड़ा कि बात की बात में बहुत-सी विद्या का ज्ञान हो जाय। क्या अब भी ये हँसी उड़ाने की ही बातें हैं? क्या पुराणों में भी इनका यही स्पष्ट अभिप्राय उद्घाटित नहीं है? शोक इसी बात का है कि हम इधर विचार ही नहीं करते।

अब इन तीनों देवताओं का परस्पर कैसा सम्बन्ध है, इसका प्रतिपादक एक मन्त्र भी यहाँ उद्धृत किया जाता है—

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यङ्गः।

तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यान्नापच्यं विश्वपति सप्त पुत्रम्॥

(ऋ०, म० १, अनु० २२, सू० ८, म० १)

दीर्घतमा ऋषि के द्वारा प्रकाशित इस मन्त्र का निरुक्तकार ने केवल अधि-दैवत (देवता-पक्ष का) अर्थ किया है और भाष्यकार श्रीसायणाचार्य ने अधिदैवत और अन्यात्म दो अर्थ किये हैं। पहला अधिदैवत अर्थ इस प्रकार है कि—

(वामस्य) सबके सेवा करने योग्य, या सबको प्रकाश देनेवाले, (पलितस्य) सम्पूर्ण लोक के पालक (होतु.) स्तुति के द्वारा यज्ञादि में आह्वान करने योग्य, (तस्य अस्य) सुप्रसिद्ध इन प्रत्यक्ष देव सूर्य का (मध्यम भ्राता) बीच का भाई अन्तरिक्ष वायु अथवा विद्युत्-रूप अग्नि (अङ्ग. अस्ति) सर्वव्यापक है। (अस्य तृतीय भ्राता) इन्हीं सूर्यदेव का तीसरा भाई (घृतपृष्ठ) घृत को अपने पृष्ठ पर धारण करनेवाला— घृत से प्रदीप्त होनेवाला अग्नि है। (अत्र) इन तीनों में (सप्त पुत्रम्) सर्वत्र फैलनेवाले सात किरण रूप पुत्रों के साथ सूर्यदेव को ही मैं (विश्वपतिम्) सबका स्वामी और सबका पालन करनेवाला (अपश्यम्) जानता हूँ। इस अर्थ से सिद्ध हुआ कि अग्नि, वायु, और सूर्य ये तीनों लोको के तीन मुख्य देवता हैं। इन तीनों में परस्पर सम्बन्ध है, और सूर्य सब में मुख्य है। इस मन्त्र में विशेषणों के द्वारा कई एक विशेष विज्ञान प्रकट होते हैं, उन्हीं का संक्षेप नीचे लिखा जाता है।

वामस्य—निरुक्तकार वच् धातु से इस शब्द की गिद्धि मानते हैं। धातु का अर्थ है—सभक्ति, अर्थात् सम्यक् भजन या सविभाग—नॉटना। इसमें सिद्ध हुआ कि सूर्य सबको अपना प्रकाश और वृष्टि-जल आदि बाँटते रहते हैं। इतर मत्र सूर्य के अधीन रहते हैं। यज्ञ में भी सूर्य की ही प्रवान स्तुति की जाती है।

पलितस्य—निरुक्तकार इसका पालक अर्थ करते हैं। अर्थात्, सूर्य सबका पालन करनेवाले हैं। किन्तु पलित शब्द ध्वेत केश का भी वाचक है और ध्वेत केश के सम्बन्ध से कई जगह वृद्ध का भी वाचक हो जाता है। अतः, इसका यह भी तात्पर्य है कि सूर्य सबसे वृद्ध (प्राचीन) हैं।

होतुः—यह शब्द वेद में 'हु' धातु और 'हा' धातु दोनों से बनाया जाता है। हु धातु का अर्थ है—दान, अदन, और प्रीणन। हा धातु का अर्थ है—स्पर्धा, आह्वान और शब्द। अतः, इस विशेषण के अनेक तात्पर्य हो सकते हैं। जैसा कि सूर्य हमें वृष्टि जल का दान करते हैं, पृथ्वी में से रस का हरण (भोजन) करते हैं और सबको प्रसन्न रखते हैं। सब ग्रह-उपग्रहों के नाभि-रूप केंद्र-स्थान में स्थित रहकर मानो उनसे स्पर्धा कर रहे हैं। सब ग्रह-उपग्रहों का आह्वान-रूप आकर्षण करते रहते हैं, और ताप के द्वारा वायु में गति उत्पन्न कर उसके द्वारा शब्द भी कराते हैं। चतुर्थ पाद में भी दो सूर्य के विशेषण हैं।

विश्वपतिम्—प्रजाओं को उत्पन्न करनेवाले और उनका पालन करनेवाले। 'मून जनाः सूर्येण प्रसूताः' इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट सूर्य को सबका उत्पादक कहा है।

सप्त पुत्रम्—यहाँ पुत्र शब्द का रश्मियों से ही प्रयोजन है। यह सभी का अभिमत है। अतः, इसका तात्पर्य हुआ कि रश्मियाँ (सप्त) बड़े वेग से फैलनेवाली हैं। और उनमें सात भाग हुआ करते हैं। सूर्य अदिति के सप्तम पुत्र हैं—यह ऐतिहासिक पक्ष का अर्थ भी यहाँ ध्यान देने योग्य है।

भ्राता—इसका निरुक्तकार अर्थ करते हैं कि भरण करने योग्य अथवा हरण करनेवाला। इससे यह तात्पर्य सिद्ध होता है कि अपनी रश्मियों के द्वारा आकृष्ट रस को सूर्यदेव वायु में समर्पित करते हैं, वायु को गति आदि भी अपनी किरणों द्वारा देते हैं, अथवा वायु सूर्य से अन्तरिक्षस्थ रस को हरण कर लेता है, मानो तीनों लोकों के स्वामी सूर्यदेव ही थे, उनसे अन्तरिक्ष स्थान वायु ने छीन लिया।

मध्यम—पद से विद्युत् (विजली की आग) का ग्रहण करने पर भी ये अर्थ इस प्रकार ही ज्ञातव्य है। उसकी उत्पत्ति में भी निरुक्तकार सूर्य को कारण मानते हैं। और, वह भी मध्यम स्थान का हरण करता है।

अश्नः—इससे वायु और विद्युत् की व्यापकता सिद्ध होती है। इनके बिना कोई स्थान नहीं, सर्वत्र वायु और विद्युत् अनुस्यूत रहते हैं।

भ्राता—इसका अभिप्राय भी पूर्ववत् है। सूर्य अपने प्रकाश द्वारा इसका भरण करते हैं। अर्थात्, अग्नि में तेज सूर्य से ही आया है। और यह भी सूर्य के राज्य में से पृथिवी-रूप स्थान छीन लेता है।

घृतपृष्ठः—घृत से अग्नि की वृद्धि होती है। अथवा घृत शब्द द्रव्य का वाचक

होने से सोम का उपलक्षण है। अग्नि सदा सोम के पृष्ठ पर आरूढ रहता है। विना सोम के अग्नि नहीं रह सकती, और विना अग्नि के सोम नहीं मिलती। 'अग्निपोमात्मक जगत् ।'

इस प्रकार, देवताओं के विशेषणों से छोटे-छोटे शब्दों में विज्ञान की बहुत सी बातें प्रकट होती हैं। देवता-विज्ञान ही श्रुति का मुख्य विज्ञान है। ऐसे मन्त्रों के अर्थ सम्यक् समझकर आधुनिक विज्ञान से उनकी तुलना करने पर हमारे विज्ञान से उक्त आधुनिक विज्ञान का जितने अंश में भेद है, वह भी स्पष्ट हो सकता है। इस प्रकार की चेष्टा से हम भी अपने ज्ञानों का तत्त्व समझ सकेंगे, और आधुनिक विज्ञान का लाभ भी अल्प नहीं होगा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान का अभी कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ, संभव है, उनको भी इन प्राचीन सिद्धान्तों से बहुत अंश में सहायता मिले। अस्तु अब सन्नेप में उक्त मंत्र का आत्मात्मिक अर्थ भी लिखा जाता है।

(वामस्य) सब जगत् को उद्विग्न करनेवाला, अर्थात् अपने शरीर में स्थित जगत् को बाहर प्रकाशित करनेवाला (पलितस्य) सबका पालक, अथवा सबसे प्राचीन (होतुः) सबको फिर अपने में ले लेनेवाला, अर्थात् संहार करनेवाला, सृष्टि, स्थिति, लय के कारण परमात्मा का (भ्राता) भाग हरण करनेवाला, अर्थात् अन्न रूप (अन्न) व्यापनशील (मध्यम अस्ति) सबके मध्य में रहनेवाला सूत्रात्मा है। और, (अस्य) इसी परमात्मा का (तृतीय भ्राता) तीसरा भ्राता (धृतपृष्ठ अस्ति) विराट् है। धृतपृष्ठ शब्द जल का भी वाचक है, और जल से उस जल का कार्य स्थूल शरीर लक्षित होता है। उस शरीर का स्पर्श करनेवाला स्थूल शरीराभिमानी विराट् सिद्ध हुआ। (अन्न) इन सबमें (विद्वपतिम्) सब प्रजाओं के स्वामी (सत् पुत्रम्) सातों लोक जिसके पुत्र हैं, ऐसे परमात्मा को (अपश्यम्) जानता हूँ। अर्थात्, उसका जानना परम श्रेयस्कर है। इसका तात्पर्य यही है कि सम्पूर्ण जगत् का स्वाधीन कारण एक परमात्मा है, और सूत्रात्मा एव विराट्, जो सूक्ष्म दशा और स्थूल दशा के अभिमानी, वेदान्त-दर्शन में, माने गये हैं, दोनों इसी परमात्मा के अंश हैं।

अब आप लोगो ने विचार किया होगा कि वेद में विज्ञान प्रकट करने की शैली कुछ अद्भुत है और ऊपर से देखने पर जो बात हमें मामूली सी दिखाई देती है, वही विचार करने पर बड़ी गहरी सिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। अश्वमेध यज्ञ में मध्य के दिन एक ब्रह्मोच्च का प्रकरण है। एक स्थान पर होता, अध्वर्यु, उदात्ता, ब्रह्मा इन सबका परस्पर प्रश्नोत्तर होता है। इस प्रश्नोत्तर के मन्त्र ऋग्वेद-संहिता और यजुर्वेद-संहिता दोनों में आये हैं। उनमें से एक प्रश्नोत्तर देखिए—

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः ।

(ऋ० १।१६।४।३४, यजु० २३।६१)

यह यजमान और अध्वर्यु का सवाद है। यजमान कहता है कि मैं तुमसे पृथिवी का सबसे अन्त का भाग पूछता हूँ और भुवन, अर्थात् उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थों की नाभि जहाँ है, वह पूछता हूँ। इनमें दो प्रश्न हुए—एक यह कि पृथिवी की

जहाँ समाप्ति होती है, वह अवधि-भाग कोन-सा है, और उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थों की नाभि कहाँ है ? अब उत्तर सुनिए । अध्वर्यु कहता है—

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः ।

अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः ॥

(पूर्व से आगे का मन्त्र)

यज्ञ की वेदी को दिखाकर अध्वर्यु कहता है कि यह वेदी ही पृथिवी का सबसे अन्तिम अवधि-भाग है । ओर, यह यज्ञ सब भुवनों की नाभि है । स्थूल दृष्टि से कुछ भी समझ में नहीं आता । बात क्या हुई ? भारतवर्ष के हर एक प्रान्त में हर एक देश में यज्ञ होते थे । सभी जगह कहा जाता है कि यह वेदी पृथिवी का अन्त है । भला सब जगह पृथिवी का अन्त किस तरह आ गया ।

यह तो एक विनोद जैसी बात मालूम होती है । दो गाँववाले एक जगह खड़े थे । एक अपनी समझदारी की बड़ी टींग मार रहा था । दूसरे ने उससे पूछा— अच्छा, तू बड़ा समझदार है, तो बता सब जमीन का बीच कहाँ है ? पहला था बड़ा चतुर । उसने झट से अपनी लाठी एक जगह गाड़कर कह दिया—यही कुल जमीन का बीच है । दूसरा पूछने लगा—कैसे ? तो पहले ने जवाब दिया कि तू जाकर नाप आ । गलत हो तो मुझसे कहना, अब वह न नाप सकता था, न पहले की बात झूठी हो सकती थी । यह एक उपहास का गल्प प्रसिद्ध है । तो क्या वेद भी ऐसी ही मजाक की बातें बताता है । नहीं, विचार करने पर आपको प्रतीत होगा कि इन अक्षरों में वेद भगवान् ने बहुत-कुछ कह दिया है । पहले एक मोटी बात लीजिए । आदि, अन्त, समतल, लम्बे, चौकोर प्रभृति रूप पदार्थों के नियत होते हैं । किन्तु गोल वस्तु का कोई आदि-अन्त या ओर-छोर नियत नहीं होता । जहाँ से भी प्रारम्भ मान लें, उसके समीप ही अन्त आ जायगा । भूमि गोल है, इससे इसका आदि-अन्त नियत नहीं । जहाँ से एक मनुष्य चलना आरम्भ करे, उसके समीप भाग में ही प्राप्त होकर वह अपनी प्रदक्षिणा समाप्त करेगा । ऐसा अवसर नहीं आयगा कि जहाँ जाते-जाते वह रुक जाय और आगे भूमि न रहे । इससे अध्वर्यु यज्ञमान को बताता है कि भाई ! भूमि का अन्त क्या पूछते हो, वह तो गोल है । हर एक जगह उसके आदि-अन्त की कल्पना की जा सकती है । इससे तुम दूर क्यों जाते हो । समझ लो कि तुम्हारी यह वेदी ही पृथिवी का अन्त है । जहाँ आदि कल्पना करोगे, वहीं पर अन्त बन जायगा । इससे वेद भगवान् ने एक रोचक प्रश्नोत्तर के रूप में पृथिवी का गोल होना हमें बता दिया ।

अब याज्ञिक प्रसंग में इन मन्त्रों का दूसरा भाव देखिए । यज्ञ के कुण्डों और वेदी का सन्निवेश प्राकृत सन्निवेश के आधार पर कल्पित किया जाता है । सूर्य के सम्बन्ध से पृथिवी पर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा है, उसमें एक ओर सूर्य का गोल है, दूसरी ओर पृथिवी है और मध्य में अन्तरिक्ष है । अन्तरिक्ष द्वारा ही सूर्य-किरणों से सब पदार्थ पृथिवी पर आते हैं । इस सन्निवेश के अनुसार यज्ञ में भी ऐसा सन्निवेश बनाया जाता है कि पूर्व में आहवनीय कुण्ड, पश्चिम में गार्हपत्य कुण्ड और दोनों के बीच में वेदी ।

तब यहाँ आहवनीय कुंड सूर्य के स्थान में है, गार्हपत्य पृथिवी के स्थान में आर वेदी अन्तरिक्ष के स्थान में। उग विभाग को दृष्टि में रखकर जब यह कहा जाता है कि यह वेदी ही पृथिवी का अन्त है, तब उगका यह अभिप्राय स्पष्ट ममझ में आ सकता है कि पृथिवी का अन्त वही है, जहाँ से अन्तरिक्ष का प्रारम्भ है। वेदी-रूप अन्तरिक्ष ही पृथिवी का दूसरा अन्त है। इसके अतिरिक्त पृथिवी का और कोई अन्त नहीं हो सकता।

इन मन्त्रों को समझाने का एक तीसरा भी प्रकार है, आर वह इन दोनों से गम्भीर है। ऋग्वेद-भाष्य में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए श्रीमाधवाचार्य ने यह ब्राह्मण की श्रुति उद्धृत की है—

एनावनी वै पृथिवी यावती वेदिरिति श्रुतेः ।

अर्थात्, जितनी वेदी है, उतनी ही पृथिवी है। इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण पृथिवी-रूप वेदी पर सूर्य-किरणों के सम्बन्ध से आदान-प्रदान-रूप यज्ञ बराबर हो रहा है। अग्नि पृथिवी में अभिन्यात है, ओर अग्नि बिना आहुति के कभी ठहरता नहीं है। वह अन्नाद है। उसे प्रतिक्षण अन्न की आवश्यकता है। इससे वह स्वयं बाहर से अन्न लेता रहता है और सूर्याग्नि आदि को अन्न देता भी रहता है। जहाँ यह अन्न-अन्नादभाव अथवा आदान-दान की क्रिया न हो, वहाँ पृथिवी रह ही नहीं सकती। उससे स्पष्ट ही सिद्ध है कि जहाँ तक प्राकृत यज्ञ की वेदी है, वहाँ तक पृथिवी भी है। वस, इसी अभिप्राय को मन्त्र ने भी स्पष्ट किया है कि वेदी ही पृथिवी का अन्त है। अन्त पद आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। पृथिवी का आदि-अन्त जो कुछ भी है, वह वेदिमय है। यह वेदी जहाँ नहीं, वहाँ पृथिवी भी नहीं।

आजकल का विज्ञान जिसको मुख्य आधार मान रहा है, उस विद्युत् का प्रसंग वेद में किस प्रकार है यह भी देखिए—

अप्स्वग्ने सधिष्टव सौषधीरनुद्ध्यसे ।

गर्भं सन् जायसे पुनः ।

(यजु० १२।३६)

अर्थात्, हे अग्ने ! जल में तुम्हारा स्थान है, तुम ओषधियों में भी व्याप्त रहते हो और गर्भ में रहते हुए भी फिर प्रकट होते हो। ऐसे मन्त्रों में अग्नि सामान्य पद है और उससे पार्थिव अग्नि और वैद्युत अग्नि दोनों का ग्रहण होता है। किन्तु इससे भी विद्युत् का जल में रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो खास विद्युत् के लिए ही यह मन्त्र देखिए—

यो अन्धिष्यो दीह्यदप्स्वन्तर्य विप्रास ईळत्त अध्वरेपु ।

अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्याय ॥

(ऋ० १०।३०।४)

जो बिना इन्धन की अग्नि जल के भीतर दीप्त हो रही है, यज्ञ में मेधावी लोग जिसकी स्तुति करते हैं, वह 'अपा नपात्' मधुयुक्त रस हमें देवे। जिस रस से इन्द्र

वृद्धि को प्राप्त होता है और जल के कार्य करता है। इस मन्त्र में विना इन्धन के जल के भीतर प्रदीप्त होनेवाली जो अग्नि बतलाई गई है, वह विद्युत् के अतिरिक्त कौन सी हो सकती है, यह आप ही विचार करें। फिर भी, कोई सज्जन यह कहकर टालने का यत्न करें, कि जल में बड़वानल रहने का पुराना खयाल है, यही यहाँ कहा गया होगा, तो उन्हें देखना होगा कि इसमें उस अग्नि को 'अपा नपात्' देवता बताया गया है और 'अपा नपात्' निघण्टु में अन्तरिक्ष के देवताओं में ही आता है। तब 'अन्तरिक्ष की अग्नि जल के भीतर प्रज्वलित', इतना कहने पर भी यदि विद्युत् न समझी जा सके, तो फिर समझने का प्रकार कठिनता से मिल सकेगा।

अभिप्रवन्त समनेव योष्टाः कल्याणः समयमानासो अग्निम् ।

(ऋ० अ० ३।८।११)

इस मन्त्र में भी भगवान् यास्क ने विद्युत् का विज्ञान और जल से उसका उद्भव स्पष्ट ही लिखा है। विस्तार की आवश्यकता नहीं। यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विद्युत् और उसकी उत्पत्ति आदि का परिचय वेद में स्पष्ट है। प्रत्युत, जहाँ आजकल का विज्ञान विद्युत् पर सब कुछ अवलम्बित करता हुआ भी अभी तक यह न जान सका कि विद्युत् वस्तु क्या है? यह 'मैटर' है या नहीं? इसका विवाद अभी निर्णय पर ही नहीं पहुँचा, वहाँ वेद ने इसे 'इन्द्र देवता' का रूप मानते हुए इसका प्राणविशेष 'शक्तिविशेष' (एनर्जी) (अनमेटेरियल) होना स्पष्ट उद्घोषित कर रखा है। (देवता प्राणविशेष है, यह पूर्व कहा जा चुका है) और इसे सूर्य का भ्राता कहते हुए सूर्य से ही उसका उद्भव भी मान रखा है। जो जिन सिद्धान्तों का आविष्कार वैज्ञानिकों के लिए अभी शेष ही है, वे भी वेद में निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाते हैं।

रूप के सम्बन्ध में वर्तमान विज्ञान का मत है कि जिन वस्तुओं में हम रूप देखते हैं—उनमें रूप नहीं। रूप सूर्य की किरणों में है। वस्तुओं में एक प्रकार की भिन्न-भिन्न शक्ति है, जिनके कारण कोई वस्तु सूर्य-किरण के किसी रूप को उगल देती है, और शेष रूपों को खा जाती है। तात्पर्य यह कि रूपों का आधार—रूपों के बनानेवाली सूर्य-किरणें हैं। आप देखिए—वेद भी रूप-विज्ञान के सम्बन्ध में उपदेश करता है—

**शुक्रं ते अन्यद् यजतं ते अन्यद् विष्णुरूपे अहनी द्यौरिवासि ।
विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥**

(ऋ० ६।५।८।१)

इस मन्त्र में भाष्यकार श्रीमाधवाचार्य ने भी शुक्र-शुक्र-रूप और यजत-कृष्ण-रूप यही अर्थ किया है। पूषा देवता की स्तुति है कि रूप तुम्हारे हैं, तुम्हीं इन दोनों के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की सब मायाओं को बनाते हो या रक्षा करते हो। इससे यह भी प्रकट किया गया है कि रूप मुख्यतः दो ही हैं, शुक्र और कृष्ण।

उन्हींके समिश्रण ने सधि स्थान रक्त रूप और फिर परम्पर मेल में नाना रूप बन जाते हैं। यों, यहाँ 'पूपा' देवता को रूप का कारण माना गया है और—

इन्द्रो रूपाणि कनिकरुद्रचरत् ।

तेत्तिरीय सहिता इत्यादि में इन्द्र को स्रव रूपों का बनानेवाला कहा गया है। तात्पर्य यही कि स्रव-स्त्रिण-समक्त देवता ही रूपा के उत्पादक हैं। यह विज्ञान हमें इन मन्त्रों में मिल जाता है। यों, भातिक विज्ञान का गदित्त वणन किया गया। अब मनो-विज्ञान का भी निदर्शन देखिए।

मनोविज्ञान

पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने कुछ काल से परचित्त-विज्ञान की प्रक्रिया हँड निजाती है। मनुष्य के आन्तरिक विचार जेने होते हैं, उनके अनुसार उसके वातावरण (वायुमण्डल) में वसे ही परिवर्तन होते रहते हैं। वातावरण की परीक्षा से मनुष्य के विचार मालूम कर लिये जाते हैं कि वह क्रोधो है, मानी है, कामी है, या शान्त है इत्यादि।

हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से दूसरे के मन की बात जान लेने की विद्या की चर्चा है। किन्तु हम लोगों का प्राय यही विश्वास है कि आ-व्यात्मिक शक्ति से परचित्त-ज्ञान होता था। हमें आश्चर्य होता है, जब कि हम अथर्व संहिता के एक मन्त्र के आधार पर शतपथ ब्राह्मण में आधिभौतिक रीति से वैज्ञानिकों के तरीके से ही परचित्त-विज्ञान की बात स्पष्ट पाते हैं। शतपथ के का० ३, अ० ४, प्र० २, कण्टिका ६ में लिखा है—

मनो देवा मनुष्यस्याजानन्तीति, मनसा सङ्कल्पयति तत्प्राणमभि-
पद्यते, प्राणो वातम्, वातो देवेभ्य आचष्टे, तथा पुरुषस्य मनः । तस्मादेत
दपिणाभ्यनूकम्—

मनसा सङ्कल्पयति तद्वातमपि गच्छति ।

वातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुष ते मनः ॥

इसका स्पष्ट सीधा-सादा अक्षरानुवाद यह है कि देवता लोग मनुष्य के मन को जानते हैं, मनुष्य जो कुछ मन में सकल्प (विचार) करता है, वह उसके प्राण में चला जाता है, और प्राण वाहर के वायु में आता है। वह वायु देवताओं को बता देता है, जैसा कि पुरुष का मन है। इस अर्थ में अथर्व संहिता का मन्त्र (का० १२।४।४) प्रमाणस्वरूप उपस्थित किया जाता है—मनसा सङ्कल्पयति इत्यादि। इसका भी यही अर्थ है कि मन से जो विचार किया जाता है, वह वायु में प्राप्त हो जाता है और वायु देवताओं से कह देता है जैसा कि पुरुष का मन है।

इन बातों को सुनकर बहुत से सज्जन उपहास करते हैं कि वेद मदारी का शैल है, या भानमती का पिटारा है। जो कुछ बात देखी-सुनी, वह सब वेद में निकल पडती है। किन्तु इस उपहास के भय से स्पष्ट अवसरार्थ को कैसे छिपाया जाय।

कोई सज्जन कृपाकर यह बतावे कि इस श्रुति का अर्थ फिर है क्या ? गिद्वान्त तो सब स्पष्ट ही वेद में हमें प्राप्त होता है। हाँ, प्रयोग (एम्पेरिमेन्ट) हम नहीं जानते, यह हमारा दोष है, इस कारण जो भी कुछ कहा जाय, वह हमें सुनना होगा।

प्राण-रूप देवताओं का दिग्दर्शन अनेक मन्त्रों द्वारा हमने कराया। अब तारा-रूप देवताओं के विवरण का भी एक मन्त्र उपस्थित कर देते हैं।

तारा-विज्ञान

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

(यजु० स० २५।१९)

यह मन्त्र सनातन-धर्मानुयायियों में इतना प्रसिद्ध है कि तिलक आदि करते समय आशीर्वाद के रूप में ब्राह्मण इसी का प्रयोग करते हैं। द्विजों में विशेषतः कर्म-काण्डियों में आबाल वृद्ध प्रायः सभी इससे परिचित हैं। मन्त्र का सायण आदि भाष्यकारों की रीति से सरल अर्थ यह है कि (वृद्धश्रवाः) बड़ा यशस्वी वा अधिक धनवाला इन्द्रदेव हमारा कल्याणकारक हो, सबका जाननेवाला वा सर्वधनयुक्त पूषा देवता भी हमारे लिए शुभ करे। (अरिष्टनेमिः) जिसके प्राण, पक्ष आदि कभी नष्ट नहीं होते ऐसा तार्क्ष्य (गरुड) हमारे लिए शुभप्रद हो, और बृहस्पति भी हमारे कल्याण को परिपुष्ट करे। बड़े ही सरल अक्षरों में सीधी सी बात कही गई है। जगच्चक्र के चलाने-वाले महाशक्तिशाली देवताओं से मनुष्य अपनी शुभ-कामना करते हैं, और उनकी शुभ भावना के अनुसार देवता भी उनके लिए शुभप्रद होते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु, वेद सब प्रकार के विज्ञान की निधि है, भिन्न भिन्न श्रेणी के अधिकारों को अपने-अपने अधिकार के उपयुक्त सब प्रकार की शिक्षा दे देना वेद का ही महत्त्व है। उच्च कक्षा के अधिकारी जब इसका मनन करेंगे और विचारेंगे कि इन्द्र, पूषा, तार्क्ष्य और बृहस्पति इनको साथ साथ इस मन्त्र में कहने का क्या तात्पर्य है, तब अगो की सहायता से उन्हें यहाँ एक विचित्र ही चमत्कार प्रतीत होगा। मनन से विदित होगा कि इस मन्त्र में तारा-सम्बन्धी विज्ञान है। इसके ठीक समझने के लिए ज्योतिष-विद्या की आवश्यकता है। किन्तु संक्षेप में यहाँ कुछ लिखा जाता है।

भूगोल की शिक्षा जिस प्रकार भूमि को कई भागों में विभक्त कर सुगमता से दी जाती है, इसी प्रकार मान्य महर्षियों ने शिक्षा की सुगमता के लिए खगोल के भी अनेक भाग कल्पित किये हैं। सम्पूर्ण खगोल के ३६० कल्पित अंश हैं, उनमें से ३०, ३० अंश की एक एक भेद, वृष आदि राशि बनाकर १२ भागों में सम्पूर्ण खगोल बाँटा गया है। दूसरे प्रकार से १३ अंश २० कला का १ भाग मानकर, २७ भाग खगोल के किये जाते हैं, जिनको अश्विनी, भरणी आदि नक्षत्र कहते हैं। उक्त अन्तर पर जो बड़े बड़े तारे हैं, उनकी पहचान के लिए वे उन नामों से पुकारे गये हैं। कहीं समानान्तर पर कोई बड़ा तारा नहीं मिला, तो कुछ न्यूनाधिक अन्तर का तारा भी संकेत के लिए ले लिया गया है। इन २७ भाग-रूप नक्षत्रों में से कुछ कम ७ नक्षत्रों पर

खगोल का एक चतुर्थांश (९० अंग का) पूर्ण हो जाता है । इसी प्रकार के ९०-९० अंग के ४ खगोल के भाग इस मन्त्र द्वारा हमें बताये गये हैं ।

कई नक्षत्र एक एक तारा के, और कई दो-दो और बहुत बहुत ताराओं की समष्टि-रूप है । इनमें भी एक प्रधान तारा उन-उन नक्षत्रों का योग-तारा कहलाता है, उन प्रधान ताराओं को वेद में इन्द्र, अग्नि विष्णु, वृहस्पति आदि देवताओं के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । इसका कारण किञ्चित् गूढ है । इतना अवश्य स्मरण रहे कि ज्योतिःशास्त्र के मुहूर्त्तचिन्तागणि आदि ग्रन्थों में उन-उन नक्षत्रों के वही स्वामी माने गये हैं, जो उनकी प्रधान ताराओं के वैदिक देवता-सङ्केत हैं । इसके अनुसार चित्रा नक्षत्र का स्वामी तैत्तिरीय शाखा में इन्द्र है, वही इस मन्त्र में प्रथम निर्दिष्ट हुआ है । यह चित्रा नक्षत्र २७ नक्षत्रों में से मध्य का नक्षत्र है । मन्त्र में इसका 'वृद्धश्रवा' विज्ञोपण इसके तारा सन्निवेश-रूप आकार के कारण दिया गया है । 'वृद्धश्रवा.' का अर्थ है लम्बे कानवाला । भारत के और दूसरे देशों के भी पुराने चित्रों में चित्रा नक्षत्र का आकार लम्बे कान के उल्क जैसा बनाया हुआ मिलता है, क्योंकि कौशिक नाम उल्क का भी है । अल्लु, इसके ठीक सम्मुख अर्द्ध समानान्तर पर रेवती नक्षत्र है, जिसका देवता पूषा है । नक्षत्र-विभाग में अन्तिम नक्षत्र होने के कारण इसे मन्त्र में 'विश्ववेदा' (सर्वद्रव्य-युक्त या सर्वज्ञान-युक्त) कहा गया है । मध्य में चित्रा से प्रायः चतुर्थांश (९० अंग) दूरी पर श्रवण नक्षत्र है, जो इस मन्त्र में 'तार्क्ष्य' शब्द से युक्त है । श्रवण नक्षत्र में तीन तारे हैं, तीन ताराओं को सङ्कृत में 'तृक्ष' कहते हैं, और तृक्ष का ही स्वार्थिक तद्धित प्रत्यय से 'तार्क्ष्य' रूप बना लिया गया है । यह भी स्मरण रहे कि इस नक्षत्र का स्वामी विष्णु है, और तार्क्ष्य (गरुड) विष्णु का वाहन है । यह नक्षत्र सूर्य के क्रान्ति-वृत्त की अन्तिम सीमा पर पड़ता है, अतः इसे 'अरिष्टनेमि' कहा है । अरिष्ट, अर्थात् सब आपत्तियों के विनाशक सूर्यरथ-चक्र की यह नेमि (परिधि) पर है । इसके अर्द्धान्तर पर रेवती से चतुर्थांश दूरी पर पुष्य नक्षत्र है । जिसका स्वामी वृहस्पति इस मन्त्र के चतुर्थ पाठ में निर्दिष्ट हुआ है । इस प्रकार पुष्य, चित्रा, श्रवण, रेवती इन चार समानान्तर विभागों में विभक्त कर सम्पूर्ण खगोल को अपना कल्याणकारक बनाने की मनुष्य-समाज की ईश्वर से प्रार्थना है । हमारा सब शुभ-अशुभ अन्तरिक्षस्थ देवताओं पर अवलम्बित है । सम्पूर्ण आकाश मण्डल हमारे लिए शुभप्रद रहे, यह गम्भीर भाव की प्रार्थना इस मन्त्र द्वारा प्रकट होती है । इतनी विस्तृत नक्षत्र-विज्ञान की मूलभूत विद्या को बड़े सरल और अल्प अक्षरों में ईश्वर से ऋषिगण द्वारा प्रकट किया गया, यह छोटा मन्त्र कण्ठस्थ रखने पर खगोल के सब विभाग मानो हमारी दृष्टि के सामने रहते हैं ।

वेदों में वैज्ञानिक शिल्प

वेदों में विज्ञान के जो सिद्धान्त हैं, उनका दिग्दर्शन संक्षेप में किया गया । अब वेद में जो वैज्ञानिक शिल्प के बहुत-से वर्णन यत्र-तत्र मिलते हैं, उनमें से भी एक उद्धरण यहाँ दिया जाता है—

अनश्चो जातो अनमी शुरुक्थ्यो रथस्त्रिचक्रः परिवर्तते रजः
महत्तद्धो देव्यस्य प्रवाचनं द्यामृभवः पृथिवी यच्च पुण्यथ—
रथं ये चक्रुः सुव्रतं सुचेतसोऽविहरन्तं मनसरपरिध्यया
तां ऊन्वस्य सवनस्य पीतये आवो वाजा क्रभवो वेद्यामसि ।

(ऋग्वेद, मण्डल ४, सूक्त २६)

इन मन्त्रों के द्रष्टा वामदेव ऋषि हैं। ये ऋभु देवताओं की स्तुति के मन्त्र हैं। ऋभु देवताओं का इतिहास भी बहुत-कुछ कई मन्त्रों में बताया गया है, और उमके सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि उन्होंने मनुष्य योनि से देव भाव प्राप्त किया था—

भर्त्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः ।

एव इनकी मनुष्य-दशा के या देव-भाव के विविध शिष्टों का वर्णन ऋक्-संहिता के बहुत-से सूक्तों में मिलता है। भाष्यकार श्रीमाधवाचार्य के लेखानुसार प्रकृत मन्त्रों का अभिप्राय यह है कि हे ऋभु देवताओं! आपने जो रथ बनाया है वह बड़े आदि वाहन की और लगाम आदि उपकरण की कोई अपेक्षा नहीं रखता। अतएव वह सर्वथा स्तुति के योग्य है। तीन पहिये का वह रथ अन्तरिक्ष लोक में भ्रमण करता है। यह आपका बड़ा भारी काम, आपके देव-भाव का प्रख्यापक है (अर्थात् ऐसे ही बहुत-से महत्त्व के कार्यों से आपको देव-भाव प्राप्त हुआ है) और ऐसे कार्यों से आप पृथ्वी और शु (स्वर्ग) दोनों को पुष्ट करते हैं ॥१॥

हे ऋभुदेवताओं! बड़े विचारशील जिन आप लोगों ने अपने मन के विचार से विना प्रयत्न ही (अल्प प्रयास से ही) सुन्दर गोल और अकुटिल (सीधा) रथ बनाया है, उसको हम अपने दस यज्ञ में सोमपान करने के लिए निमन्त्रित करते हैं ॥२॥

एक वेद-मन्त्र में ऐसे रथ का भी वर्णन है, जो भूमि, अन्तरिक्ष और जल तीनों में समान गति रखता है। एव ऋभु-देवताओं ने एक ऐसा चमस बनाया जो एक रूप भी रहता था और चार रूपों में प्रकट कर दिया जाता था, ऐसा वर्णन भी मन्त्रों में आता है। किन्तु, अब विस्तार बहुत हो चुका, अतः इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं।

वेद और विज्ञान इन दोनों शब्दों का अर्थ-निरूपण कर, वेद में जो विज्ञान प्राप्त होते हैं, उनका दिग्दर्शन अवतक कराया गया। वेद तो अनन्त विज्ञानों का निधि है। मनु आदि परमाचार्य कहते आये हैं कि—

भूतं भवद् भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति ।

अर्थात्, सब कालों के ज्ञान-विज्ञान वेद से ही सिद्ध होते हैं। उनका विवरण किसी एक व्यक्ति के लिए सर्वथा कर देना कैसे सम्भव है। मैंने तो गुरु-कृपा से जो कुछ इस विषय को प्राप्त किया, उसका कुछ अग्रे स्थालीपुलाक-न्याय से यहाँ उपस्थित किया।

अब निबन्ध के दूसरे शीर्षक भारतीय सस्कृति का विवरण आरम्भ करते हुए,

‘भारत’ और ‘संस्कृति’ शब्दों के अर्थ का विस्तृत अध्ययन करना पहले आवश्यक हो जाता है। इसलिए, प्रथमतः ‘भारत’ शब्द के अर्थ पर ही विचार किया जाता है।

भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सीमा

भारत का विचार करते समय प्राचीन भारत कहीं तक था, उसकी सीमा क्या थी, यह जबतक स्पष्टतया न जान लिया जाय, तबतक भारतीय संस्कृति का विस्तृत चित्र सामने आना कठिन है। इसका कारण यह है कि जितने भी भारतीय आचार, व्यवहार, कला, कौशल आदि हैं, वे सब प्राचीन ग्रन्थों में उपनिबद्ध हैं। उन ग्रन्थ-कर्त्ताओं ने अपने समय के भारत का चित्र अवश्य प्रस्तुत किया है। आज का भारत उसकी अपेक्षा बहुत संकुचित हो गया है। उसे तो जाने दीजिए, भारत का जो भूगोल आज से २० वर्ष पहले था, वह भी आज नहीं है।

प्राचीन वाङ्मय के भारतविषयक अनुशीलन से पता चलता है कि भारत की पूर्वीय और पश्चिमीय सीमाएँ बहुत अधिक विस्तृत थीं। भारत की पूर्वीय सीमा चीन-सागर था। इस सीमा के अन्तर्गत ब्रह्मदेश, जिसे आजकल बर्मा कहा जाता है, स्याम, रगून आदि सम्मिलित थे। भारत की पश्चिमी सीमा लाल-सागर (भूमध्य सागर) तक चली गई थी। इस सीमा में वर्त्तमान पाकिस्तान, विलोचिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और अरब भी सम्मिलित थे। इस प्रकार पूर्वी चीन-समुद्र से पश्चिम में लाल-सागर तक भारत कहा जाता था। इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, जिनमें से कतिपय प्रमाणों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। भारत की दक्षिणोत्तर सीमा तो हिमालय और कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध ही है।

१. प्रथम प्रमाण मनु का आर्यावर्त्त सीमा-निर्देश है—

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्त्तं विदुर्वुधा ॥

अर्थात्, हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य में पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक ‘आर्यावर्त्त’ कहा जाता है।

यह भारतवर्ष के अन्तर्गत आर्यावर्त्त की सीमा का निर्देश है। यहाँ पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र शब्द से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अभिप्रेत नहीं हो सकता, अपि तु चीन-सागर और लाल-सागर से ही तात्पर्य है। भूगोल के नक्शों में विन्ध्याचल और हिमालय के मध्यभाग से पूर्व और पश्चिम की तरफ सीधी लाइन ले जाइए, तो उपर्युक्त दोनों समुद्र ही दोनों सीमाओं में पहले आवेगें। बंगाल की खाड़ी और अरब-सागर इस लाइन से दक्षिण भाग में रह जायेंगे। मनु का यह साक्ष्य पूर्व और पश्चिम सीमा का विस्तार स्पष्टतया प्रकट करता है।

२ व्याकरण-महाभाष्यकार भगवान् पतञ्जलि ने भी अपने महाभाष्य में भारतवर्ष की सीमा का निर्देश इस प्रकार किया है—

प्रागादर्शात् प्रत्यक् कालकवनात् दक्षिणेन हिमवन्तमुत्तरेण पारि-
यात्रम् ।

अर्थात्, आदर्श से पूर्व कालकवनमें पश्चिम हिमालय से दक्षिण ओर पारियात्र से उत्तर भारत कहलाता है।

इसमें आदर्श से तात्पर्य भूमध्य सागर के उत्तर-प्रान्त में स्थित तारस पर्वत से है। अथवा त्रस पर्वत को (जिसका नाम सिनाई पर्वत भी है) आदर्श पर्वत के नाम से गृहीत किया जा सकता है। यह आदर्श पर्वत पश्चिम समुद्र या यहूदी नाम के यवन-देश के समीप है। कुछ विद्वान् महाभाष्य के इस आदर्श शब्द से सिन्धु नदी के दक्षिण में स्थित सुलेमान पर्वत को लेते हैं। परन्तु, यह युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि पश्चिम सीमा में जो यवन-देश का और समुद्र का निर्देश किया गया है, वह सुलेमान पर्वत के 'आदर्श' से गृहीत होने पर उपपन्न नहीं होता। तारस नाम के सिनाई पर्वत का 'आदर्श' नाम से गृहीत होना अक्षर साम्य भी रखता है।

३. मात्स्य^१ मार्कण्डेय^२ आदि पुराणों में भारतवर्ष के पूर्व में किरात और पश्चिम में यवनो का होना बताया गया है। पुराणादि में यवन शब्द से मुसलमान जाति का ग्रहण करना तो भ्रान्तिमात्र है, क्योंकि यह जाति तो हजरत मुहम्मद का मत स्वीकार करने के कारण बनी है, जिसके जन्म की यह चौदहवीं शताब्दी है। इनका निर्देश पुराणों में सम्भव ही कहाँ है। वहाँ तो यवन शब्द से यवन-देश ही लिया जाता है। यवन-देश भी केवल यूनान या ग्रीस का ही नाम नहीं है, अपि तु भूमध्य सागर के पार्श्ववर्ती यहूदी जाति के निवास स्थान यहूदिया और कौडिया आदि प्रदेश यवन शब्द से ही कहे जाते थे। इसके अनेक प्रमाण हैं। उनके समीप तक आर्यावर्त्त वा भारतवर्ष की सीमा फैली हुई थी। पूर्व में जो किरात बताये गये हैं—उनके सम्बन्ध में भी ऐतिहासिकों का यही अनुमान है कि वह चीन-सागर के पूर्ववर्ती देशों की ही निवासिनी जाति थी। इससे भी भारत की पूर्वोक्त सीमा ही सिद्ध होती है।

४. पद्मपुराण और मत्स्यपुराण में पृथ्वी को चार दल का कमल बतलाया गया है। प्रमाण इस प्रकार है—

पद्मं नाभ्युद्भवं चैकं समुत्पादितवांस्ततः ।
सहस्रवर्णं विरजं भास्कराभं हिरण्यम् ॥
पद्मे हिरण्यमे तस्मिन्नसृजद् भूरिवर्चसम् ।
स्रष्टारं सर्वलोकानां ब्रह्माणं सर्वतोमुखम् ॥
तच्च पद्मं पुराभूतं पृथिवीरूपमुत्तमम् ।
यत्पद्मं सा रसादेवी पृथिवी परिकथ्यते ॥

१. योजनाना सहस्र वै द्वीपोऽय दक्षिणोत्तर ।

भायतस्तु कुमारीतो, गङ्गाया- प्रवहावधि ॥१॥

द्वीपो ह्युपनिविष्टोऽय म्लेच्छैरन्तेषु सर्वश ।

यवनाश्च किराताश्च तस्यान्ते पूर्वपश्चिमे ॥२॥—मात्स्य, ११४ ।

२. योजनाना सहस्र वै द्वीपोऽय दक्षिणोत्तरम् ॥

पूर्वं किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा ॥३॥—मार्क० ५५ ।

एव नारायणस्यार्थं मही पुष्करसम्भवा ।
प्रादुर्भावोऽप्ययं तस्मान्नाम्ना पुष्करसजितः ॥

(पद्म पु०, सू० ४० ४० मत्स्य० पु०, अ० १६९)

इसका अर्थ है कि नाभि से भगवान् ने एक पद्म को उत्पन्न किया, जो हजारों वणों का था, जिसमें रज नहीं था, अर्थात् जो विशुद्ध था, सूर्य के समान उसकी आभा थी, वह हिरण्मय था । उस हिरण्मय पद्म पर महातेजस्वी, सारे ससार के निर्माता, चारों ओर मुक्त रखनेवाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया । वही पद्म आगे चलकर पृथ्वी रूप में परिणत हुआ । वही पद्म रसादेवी, पृथ्वी कही जाती है ।

वह पद्म चार दल (पखुडियों) वाला था, इस विषय में मार्कण्डेयपुराण कहता है—

तदेतत्पार्थिवं पद्मं चतुष्पत्रं मयोदितम् ।
भद्राश्वभारताद्यानि पत्राण्यस्य चतुर्दिशाम् ॥

अर्थात्, यह जो पृथ्वी-पद्म है जिसको हमने चतुष्पत्र बतलाया है, उसके भद्राश्व, भारतादि चार पत्रे हैं । यहाँ दो ही पत्रों का नामत निर्देश है । ब्रह्मपुराण में चारों का निर्देश किया गया है—

भारताः केतुमालाश्च भद्राशवाः कुरवस्तथा ।
पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादा शैलवाह्यतः ॥

इसमें भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरु ये पृथ्वी-पद्म के चार दल कहे गये हैं । दूसरे शब्दों में उस समय सारी पृथ्वी इन्हीं चार भागों में विभक्त थी । यहाँ कुरु शब्द से उत्तर कुरु, अर्थात् सुमेरु-प्रान्त का ग्रहण है । ये चारों परिमाण की दृष्टि से समान थे, जो भूगोल खगोल के कल्पित ९०, ९० अंगों में विभक्त थे । इसका साक्ष्य सूर्य-सिद्धान्त के भूगोल-व्याय में इस प्रकार है—

भूवृत्तपादे पूर्वस्यां नव कोटीति विश्रुता ।
भद्राश्ववर्षे नगरी स्वर्णप्राकारतोरणा ॥
याम्यायां भारते वर्षे लङ्का तद्वन्महापुरी ।
पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकाख्या प्रकीर्त्तिता ॥
भूवृत्तपादविवरास्ताश्चान्योन्यं प्रतिष्ठिताः ।
तासामुपरिगो याति विपुवस्थो दिवाकरः ।
न तासु विपुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥

इसके अनुसार लंका और सुमेरु का स्पर्श करती हुई जो रेखा है, उसको भारत-वर्ष की मध्य रेखा कहा गया । अतः, उसके पूर्व के पैतालीस अंश और पश्चिम के पैतालीस अंशों से व्याप्त जो भूभाग है, वही भारतवर्ष है—यह सिद्ध हुआ । भारतवर्ष से नव्वे अंश पूर्व में भद्राश्व वर्ष है और भद्राश्व से नव्वे अंश उत्तर की ओर उत्तर कुरु वर्ष है । उसके उतने ही अंश वाद केतुमाल वर्ष आता है । इस प्रकार, भू पद्म के चार

दलों का वर्णन मिलता है। भारतवर्ष की मध्य रेखा उज्जयिनी पर मानी गई है। यह उज्जयिनी २३।९ उत्तर अक्षांश में स्थित है। पाश्चात्य विद्वान् ग्रीनविच नाम की मध्य रेखा से देशान्तर की गणना किया करते हैं। उज्जयिनी के ऊपर होकर गई हुई भारतीय मध्य रेखा और पाश्चात्य विद्वानों की सम्मत ग्रीनविच मध्य रेखा में ७५।४३ अंशों का अन्तर है। इस प्रकार, भूमध्य रेखा पर स्थित उज्जयिनी से ४५ अंश पश्चिम तक भारत की पश्चिम सीमा सिद्ध होती है और वह प्रदेश भूमध्य सागर के समीप ही टहरेगा।

५. भारतवर्ष के ९ उपद्वीप पुराणों में प्रसिद्ध हैं—(१) इन्द्रद्वीप, (२) नागद्वीप, (३) सौम्यद्वीप, (४) गान्धर्व द्वीप, (५) वारुण द्वीप, (६) कशेरुमान्, (७) गभस्तिमान्, (८) ताम्रपर्ण-सिंहल और (९) कुमारिका। इन उपद्वीपों को वर्तमान में इन नामों से कहा जाता है—(१) अटमन, (२) नीकोवर, (३) यचद्वीप, (४) किलीपाइन द्वीप, सब, (५) बोर्निया, (६) कसेरु, (७) मलका, (८) सीलोन और (९) कुमारी। इन सब उपद्वीपों का विस्तृत विवरण पुराणों में प्राप्त होता है। जब इतने दूर के देश उपद्वीप माने गये, तब अवश्य ही भारतवर्ष का बहुत विस्तृत होना सिद्ध होता है, क्योंकि सीमा के समीपवाले मिले हुए देश ही तो उपद्वीप कहला सकते हैं।

६. ऋग्वेद के मण्डल १० के सूक्त ८६ से प्रारम्भकर आगे के सूक्तों में एक वाक्-कल्ह का संकेत प्राप्त होता है। ऋश्राव ऋषि का दौहित्र एक जरथुस्त्र नाम का व्यक्ति हुआ, उसके हृदय में स्वभावतः उस काल के अन्य ब्राह्मणों से द्वेष था। ब्राह्मण-द्वेष के कारण ही उसने ब्राह्मी लिपि के विरुद्ध उल्टी लिखी जानेवाली खरोष्ठी लिपि का प्रसार किया। उसीके समय बाह्यिक देश में ऋषियों में एक विचार-संघर्ष और वाग्युद्ध उठ खड़ा हुआ। सौत्रामणि इष्टि (यज) में ऋषि इस विषय पर आपस में झगड़ पड़े कि इन्द्र को प्रधान देवता माना जाय, अथवा वरुण को। जरथुस्त्र ने परम्परा से चले आते हुए इन्द्र के प्राधान्य को अस्वीकार किया और उसके स्थान पर वरुण के प्राधान्य को प्रतिष्ठित किया। इसका संकेत ऋक्-सहिता में 'नेन्द्र देवममसत', इस मन्त्रांश में पाया जाता है। उपस्थित ऋषियों में नृमेधा, हिरण्यस्तूप, वामदेव, गार्ग्य आदि ने इन्द्र का पक्ष लिया और सुपर्ण, काण्व, भरद्वाज आदि ने वरुण का पक्ष लिया, वसिष्ठ आदि ऋषियों ने अपने-अपने स्थान पर दोनों को समान माना। इस सम्बन्ध के भिन्न-भिन्न ऋषियों के सूक्त वही हैं और इन्द्राणी का क्रोध एव इन्द्र-कृत और अन्य ऋषि कृत उसकी सान्त्वना के मन्त्र भी हैं। यह विरोध बहुत अधिक बढ़ गया, तब मनुष्यावतारधारी ब्रह्मा ने, जो बड़े विद्वान् महाप्रभावशाली और महातेजस्वी थे, भारत के दो विभाग कर दिये। सिन्धु नदी से पश्चिम का भाग वरुण को प्रधान माननेवालों को दिया। तथा पूर्व का भाग इन्द्र को प्रधान माननेवालों को दिया। इस घटना से भी भारतीय सीमा के अति विस्तृत होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि इससे सिद्ध हो जाता है कि सिन्धु नदी भारत के मध्य में है—न कि पश्चिम सीमा पर। सिन्धु को मध्य में मानने पर जितना प्रदेश सिन्धु के पूर्व में है, उतना ही पश्चिम में मानना पड़ेगा और वह भाग भूमध्य सागर तक ही पहुँचेगा।

७ भारत की सीमा प्राचीन काल में अत्यधिक विस्तृत थी, इस विषय में प्राचीन काल और आधुनिक काल में प्रचलित सजा शब्द भी प्रमाण है। हम ऊपर लिख आये हैं कि इन्द्र और वरुण को प्रधान मानने के विचार-विरोध में ब्रह्मा ने भारत के दो विभाग कर दिये। एक सिन्धु नदी के उस पार का लाल-सागर तक का प्रदेश, और दूसरा सिन्धु के पूर्व का प्रदेश। इस प्रकार, विभाग होने के अनन्तर सिन्धु के पारवाले लोग पूर्वीय तटवालों को सिन्धुस्थानीय कहने लगे। इसी शब्द का भाषावैज्ञानिक ढंग से विकृत होनेवाला रूप आज 'हिन्दुस्तानी' हो गया। इसी प्रकार, पूर्वीय तटवाले लोग पश्चिम के निवासियों को पारस्थानीय कहने लगे। वही शब्द विकृति-प्रक्रिया द्वारा आज पारसी रूप में उपस्थित हुआ है। इस प्रकार, प्राचीन वाङ्मय में प्रयुक्त ये सिन्धुस्थान और पारस्थान शब्द आपेक्षिक हैं, और भारत की पश्चिमी सीमा के विस्तार का निर्देश करते हैं। इसी प्रकार, पूर्वीय भाग के लिए आर्यावर्त्त सजा प्रसिद्ध हुई, और पश्चिम भारत का निर्देश 'आर्याण' शब्द से हुआ। आवर्त्त और अयन शब्द का एक ही तात्पर्य है। वही आर्याण शब्द भाषा-नियम से 'ईरान' बन गया। ये दो सजाएँ दोनों भागों में आर्यों की स्थिति और उनकी प्रधानता का संकेत करती हैं और भारत के सीमा-विस्तार को पृष्ट करती हैं।

लाल-सागर से पूर्व और सिन्धु नदी से पश्चिम कास्पियन सागर के दक्षिण भाग के प्रदेश के पुराने लोग ओरियन्स (Oriens) शब्द का व्यवहार करते थे। वह शब्द 'आर्यन्स' शब्द का अपभ्रंश प्रतीत होता है। वह भी अनुमान है कि ब्राह्मण-विरोधी जर्धुल्ल के अनुयायी लोग विपरीतगामी होने के कारण 'वामग' कहलाये—उसी का 'वा' टूटकर 'मग' जाति प्रसिद्ध हुई और प्राचीन आर्यों के विरोधी होने के कारण उन्हें आर्यों का वाधक 'आर्यन्स' कहा गया। उनका देश भी 'आर्यन्स' कहलाया। वही शब्द 'आर्यन्स' और धीरे-धीरे 'ओरियन्स' के रूप में आ गया। जो भी हो, इस प्रकार से वह ओरियन्स देश—'आर्यों का निकेतन', सिद्ध होता है और इस सजा से भी पश्चिम विभाग में आर्यों का निवास स्फुट अनुमित होता है।

एरियाना शब्द, जो कि पश्चिम देशों के लिए प्रयुक्त है, वह भी आर्यनिवास-मूलक ही है। इण्डिया और वामनियों शब्द भी वहाँ आर्यनिवास-मूलक ही प्रतीत होते हैं।

वर्त्तमान में और निकट अतीत में प्रयुक्त कतिपय सजा शब्द भी इस विस्तार-सीमा को सिद्ध करने में सहायक होते हैं।

पश्चात् प्रयुक्त होनेवाला खुरासान शब्द भी इस विषय में प्रमाण है। पश्चिमी भाग का राजा वरुण था, वसिष्ठ ऋषि उसके बड़े मित्र थे। पुराणों में कथा प्रसिद्ध है कि क्रान्त्युत्थ का राजा विश्वामित्र किसी समय वसिष्ठ के पास निवास करनेवाली गौ नन्दिनी को हरण करने के लिए प्रवृत्त हुआ। उस नन्दिनी की इच्छा विश्वामित्र के साथ जाने की नहीं थी। बलात् हरण करने पर उसको बहुत क्रोध आया और क्रोधवश उसने उस भूमि को अपने खुरों के प्रहार में खोद डाला। इस बलात्कार से गौ नन्दिनी का अपहरण वसिष्ठ ऋषि भी सहन न कर सके और उन्होंने वरुण से

सहायता के लिए कहा। वरुण ने पत्हव, पारद, यवन, शक और कम्बोजों को उसकी रक्षा के लिए भेजा। इन्होंने विवामित्र को मेना-महित पराजित किया और गो नन्दिनी की रक्षा की। नन्दिनी के खुरों से खोदने के कारण उस प्रदेश के निवासियों के नाम, खुरध, खुरद तथा कुर्ण हुए और इनके जनपद-सभों के नाम खुरद-स्थान या खुरासान हुए। यह खुरासान शब्द जिसका प्रयोग अकबर आदि मुगल बादशाहों ने किया है, पश्चिमी भारत को भारत सिद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। पश्चिम के देश के लिए प्रयुक्त होनेवाला ईरान शब्द भी आर्यायण से ही निष्पन्न है और वहाँ आर्यों के निवास को बतलाता है।

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब सिन्धु से पश्चिम के लाल-सागर तक के भारतीय प्रदेशों की ईरान, फारस, खुरासान आदि सजाएँ दिखाई गई हैं, तब बहुत समय से ये नाम विशेष भूभाग या विशेष देशों के वाचक कैसे हुए। आज ईरान, खुरासान और फारस आदि शब्द लाल सागर तक के प्रदेश के वाचक नहीं, अपि तु सकुचित देश-विशेषों के वाचक ही हैं। इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार इन्द्रप्रस्थ, द्वारका और लका नाम के प्रदेश प्राचीन काल में आज की अपेक्षा बहुत विस्तृत थे, परन्तु कालक्रम से विभिन्न राजाओं के अधिकार में सीमाओं का सकोच और विस्तार होते रहने से आज इनका यह छोटा सीमित स्वरूप रह गया है। यही बात इन पश्चिमी प्रदेशों की सजाओं पर भी घटित होती है। विभिन्न समयों में पश्चिमी प्रदेशों में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अनेक राज्य वहाँ बने और बिगड़े। समय-समय पर शासकों ने अपनी सीमाओं के निर्धारण में सकुचित प्रदेशों के लिए इन सजाओं को रूढ़ कर दिया। परन्तु प्रारम्भ में जब ये सजाएँ प्रचलित हुई थीं, तब विस्तृत प्रदेश की ही वाचक थीं।

हमारे पुराण आदि में पश्चिम प्रान्त में मज और कैकय देश बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बहुत बड़े प्रान्त थे। वाह्लीक देश भी पश्चिम का बहुत बड़ा प्रान्त था, जिसके प्रभावशाली राजा भूरिश्रवा आदि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा थे। वाह्लीक के प्रान्त में ही एक शाकद्वीप नाम से प्रसिद्ध स्थान था। वहाँ के क्षत्रिय शक कहलाते थे और जो ब्राह्मण उस प्रान्त से आकर बिहार के कुछ भाग में रह गये हैं, वे आज भी 'शाकद्वीपी' नाम से ही कहे जाते हैं। आज उस देश को स्कीथिया वा स्कीथिया कहा जाता है। इस प्रकार के बहुत सजा शब्द उस देश को सस्कृतज आर्यों का निवास सिद्ध कर रहे हैं। और भी इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि भारत पहले बहुत विस्तृत प्रदेश था। राज्य-क्रान्तियों के कारण वह पश्चिम से बहुत ही सकुचित होता गया और आज तो वह अतिसकुचित दशा में पहुँच गया। अस्तु, शास्त्रों के अनुसार जो भारतीय सस्कृति का निरूपण होगा, उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह उस विस्तृत देश की सस्कृति है और आज भारतीय सस्कृति में जिन अन्य देशों की सस्कृति का सम्मिश्रण ऐतिहासिक विद्वान् सिद्ध करते हैं, प्राचीन शिलालेखों और नये आविष्कृत प्रदेशों में जिन सस्कृतियों का आभास वे पाते हैं—वे देश भारतवर्ष में ही पूर्वकाल में सम्मिलित थे। इसीलिए, भारतीय सस्कृति का स्वरूप बताने में इस सीमा-निर्देश की आवश्यकता पूर्ति की गई।

भारतीय संस्कृति का मूल

इस प्रकार प्राचीन भारत का सधित विवरण हुआ। आधुनिक भारत जो कुछ है वह तो प्रत्यक्ष ही है, उसके विवरण की आवश्यकता नहीं। भारत के निवासी भारतीयों की संस्कृति वेदमूलक है। यद्यपि आगे चलकर भारत में ही ऐसे भी संप्रदाय बने, जिन्होंने वेदों को अपने आचार-विचारों का आधार नहीं माना, जैसे बौद्ध, जैनादि-संप्रदाय, सिक्ख-संप्रदाय आदि। परन्तु ये संप्रदाय जिन ग्रन्थों को अपने आचार-विचारों का मूल कहते हैं, उनमें भी, सूक्ष्म विवेचनापूर्ण दृष्टि से देखने पर, वैदिक आचार-विचारों का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई देता है। किसी-किसी अंश में चाहे उनमें भेद दिखाई देता हो, किन्तु मौलिकता में सभी एक स्थान पर आ जाते हैं। उदाहरणार्थ, जैन तथा बौद्धों के आचार-विचारों का एक मुख्य आधार अहिंसा है, वह अहिंसा वैदिक आचार-विचारों में भी अंत-प्रोत है। समुचित युद्ध आदि के स्थल पर वे भी अहिंसा का अपवाद मानते हैं, वैदिक सिद्धान्त में युद्ध आदि के साथ-साथ यज्ञ को भी अहिंसा का अपवाद-स्थल गिन लिया गया है। तात्पर्य यह कि भारतीयों की संस्कृति मूलतः एक ही है। हाँ, आज भारत में हमारे मुस्लिम बन्धु तथा ईसाई बन्धु भी निवास करते हैं। उनकी संस्कृति वैदिक संस्कृति से नहीं मिल पाती, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति के नाम से व्यवहृत भी नहीं हो सकती। भारत में उनका निवास भले ही चिरकालिक है और ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति की कुछ छाप उनकी संस्कृति पर भी पड़ जाना स्वाभाविक है, किन्तु मूलतः वे अपने प्राचीन स्थान अदन आदि की संस्कृति के ही अनुयायी हैं। अतः, भारतीय संस्कृति वेदमूलक है—इसमें सन्देह नहीं रह जाता।

अनेक पाश्चात्य विद्वानों और उनके अनुयायी अनेक भारतीय विद्वानों ने भी यह सिद्ध करने की चेष्टा की है और कर रहे हैं कि भारतीयों की संस्कृति कोई विशुद्ध संस्कृति नहीं, वह एक मिश्रित संस्कृति है। इस देश में सबसे पहले नीग्रो जाति के लोग आये। ये प्रायः असभ्य थे, किन्तु उनके अनन्तर औष्ट्रिक या आग्नेय जाति के लोग आये, वे कुछ सभ्य थे। उनके अनन्तर द्रविड और पीछे आर्य लोग आये। इन सबकी संस्कृतियों का सम्मिश्रण होता रहा और आज जो संस्कृति भारत में दिखाई देती है, वह मिश्रित संस्कृति ही है, किन्तु यह सब केवल कल्पना-मात्र है। इन बातों में हठ प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। ये सब ऐतिहासिकों के अपने मन्तव्य-मात्र हैं, जिन पर कुछ विद्वान् ऐसी कल्पनाएँ करते हैं। आर्यों के पूर्वज बाहर से आये, इस अनुमान का भी अनेक भारतीय विद्वानों ने सप्रमाण समुचित खण्डन कर दिया है। यह कल्पना यूरोप से उठी थी, जो केवल राजनीतिक आधार रखती थी। अंगरेज जाति अपने राजनीतिक चतुर्य में विश्व-विख्यात है। वहाँ के विद्वान् भी पूर्ण राजनीति-कुशल होते हैं। उन्होंने भारतीयों का अपने देश पर अनुराग शिथिल करने के लिए यह कल्पना की थी। आर्य कहीं से आये, इस पर अबतक भी एकमत नहीं हुआ है। वस्तुतः, जहाँ से इनका आगमन माना जाता है, वे देश प्राचीन भारत में ही सम्मिलित थे, वह हम भारत-सीमा-

निर्देश में सिद्ध कर चुके हैं। कई अन्यान्य देशों की सस्कृति का भारतीय सस्कृति से जो परस्पर मेल पाया जाता है, उसका कारण तो हमारे प्राचीन इतिहास-पुराणों से ही स्पष्ट हो जाता है कि अनेक भारतीय महाराजा दिग्विजय-यात्रा करते थे, उनके साथ बहुत-सी सेना विदेशों में जाती थी, और भारत से निकाले हुए भी बहुत-से ब्राह्मण अत्रिय दूसरे देशों में जाकर रहे—उनकी सस्कृति का प्रभाव उन देशों पर पड़ा, और वे भारतीय सस्कृति का अनुकरण ही अन्य देशों में होने से मेल प्रतीत होता है, भारत में अन्य सस्कृति का आना इससे सिद्ध नहीं होता। सारी जातियाँ यदि क्रम से यहाँ आती रहीं, तो क्या प्रकृति का प्यारा यह भूखण्ड पहिले निर्जन ही था? क्या इस सर्वप्रकृतिसम्पन्न देश में कोई सृष्टि हुई ही नहीं। इस प्रकार की कल्पनाएँ तो आश्चर्य को उत्पन्न करनेवाली होती हैं। यह विषय ऐतिहासिक है और हमारा निबन्ध विज्ञानविषयक है, इसलिए हम यहाँ इस विवेचन में नहीं जायेंगे। हमारे ग्राह्य यही मानते हैं कि आर्य लोग सृष्टि के आरम्भ से इसी पवित्र भूमि पर भारतवर्ष के निवासी हैं और भारतीय सस्कृति का मूल स्रोत वेद ही है।

भारतीय संस्कृति

भारतीय एव पाश्चात्य ऐतिहासिक विद्वानों के अन्वेषणों और विचारों ने उस तथ्य को सभ्य ससार में भली भाँति प्रकट कर दिया है कि सारे ससार की सस्कृतियों में यदि कोई सस्कृति अपने-आपको सबसे पुरानी सिद्ध कर सकी है, तो वह भारतीय सस्कृति ही है। ग्रन्थों को देखने से अनेक प्राचीन स्थानों की खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के परीक्षण से प्राचीन भारतीयों और विदेशियों, राजाओं और सम्राटों के शिला-लेखों से तथा ससार के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त प्राचीन सिक्कों एव इसी प्रकार की अनेक पुरातत्त्व-सामग्री से उपर्युक्त तथ्य सामने आया है। वर्तमान इतिहासज्ञों को भी अब भारतीय सस्कृति की सर्वप्राचीनता में विवाद का अवसर नहीं रह गया है। हमारे यहाँ के भारतीय ग्रन्थ तो इस सस्कृति को करोड़ों और अरबों वर्षों का सिद्ध करते हैं।

यह भी एक विचार उठता है कि यह सस्कृति शब्द प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता। यह शब्द पाश्चात्य देशों और उसकी भाषा के हमारे ससर्ग में आने के बाद उनके अनुकरण पर तैयार किया गया नया शब्द है। अनेक विद्वानों के विचारानुसार यह शब्द अँगरेजी के 'कल्चर' शब्द के अनुवाद में प्रयुक्त होने लगा। परन्तु इसके अर्थ का विचार करने पर ज्ञात होता है कि यह शब्द अपने-अपने देश के विचारों और व्यवहारों को प्रकट करता है। इसमें भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में भी आचार-विचार शब्द का प्रयोग बहुधा सर्वत्र मिलता है। निष्कर्ष यह है कि भारतीय विचारों और आचरणों का समालोचन ही भारतीय सस्कृति का अध्ययन कहलायेगा।

हमारे विचार और आचरण प्रारम्भ से कितने दृढ़ रहे हैं और इसकी सस्कृति की धारा सर्वदा से कितनी प्राणवान् रही है, इसका पता भी इसकी प्राचीनता से चल जाता है। प्राचीन होने के साथ-ही-साथ यह उस सस्कृति की दूसरी विशेषता है कि अनेक प्रबल आक्रमणों और उखाड़-फेंकनेवाले वात्या-चक्रों से सघर्ष करते हुए

आज भी भारतीय सस्कृति अपने किसी-न-किसी स्वरूप में व्यवस्थित है। ससार के इतिहास में अनेक सस्कृतियों ने जन्म लिये। उन्होंने अपने गौरवपूर्ण समय भी देखे, परन्तु वे अपने विरुद्ध आक्रमणों का सहन न कर सकीं और काल-क्वलित होकर भी इतिहास के पृष्ठों में अध्ययन का विषय बन गईं। रोमन देश की सस्कृति का किसी समय सारे विश्व पर प्रभाव था, यूनान की सस्कृति ने आज के अनेक देशों के विचारों को जन्म दिया। परन्तु आज उन सस्कृतियों का कहीं नाम-निगान तक नहीं। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण ससार के इतिहास में मिलेंगे। इसके विपरीत भारतीय सस्कृति, जो कि समस्त सस्कृतियों से अति प्राचीन सिद्ध हुई है, आज भी बहुत कुछ अपना स्वरूप रखे हुए है। इसका इतिहास भी बड़ा विकट है। बड़े-बड़े विकट समय के भीतर से इसे गुजरना पड़ा है। बड़े-बड़े झझावातों ने उसे उखाड़ने की चेष्टा की है। इसके सिद्धान्तों को दम भरकर अकझोरा गया है। परन्तु आश्चर्य है कि यह न मिट सकी। भारतीय सस्कृति विश्व के समस्त उत्थान और पतनों को साक्षी बनाकर देखती रही। इसका कारण क्या है कि यह न मिटी। अवश्य ही इसका कोई मौलिक कारण है। साथ ही, एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी मन्कृति आज तो जिस रूप में है, सो तो है ही, प्राचीन समय में तो हमारे देश के विचार ही सारे ससार के मार्गदर्शक माने जाते थे। उसका साध्य स्वयं भगवान् मनु देते हैं। वे कहते हैं कि—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिष्येरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

इस श्लोक के अर्थ पर दृष्टि विगट होती है। मनु कहते हैं कि भारतवर्ष में उत्पन्न होनेवाले अग्रजन्मा से सारे भारत के लोग अपने-अपने चरित्रों को सीखें। यहाँ तक भी ठीक था कि भारतवर्ष का अग्रजन्मा भारतीय व्यवहारों और विचारों को सिखा देता, परन्तु ससार के समस्त लोगों को अपने-अपने चरित्रों को वह कैसे सिखा सकता था। परन्तु उत्तर स्पष्ट है, यह आचरण और व्यवहार इतने व्यापक और विद्यालये कि ससार के किसी देश का कोई सुन्दर आचरण इससे छूट ही नहीं पाता था। तब यहाँ के आदर्श अग्रजन्मा से यदि भगवान् मनु सबको सीखने का आदेश देते हैं, तो यह आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है।

वर्तमान समय में जब सस्कृति की बात उठाई जाती है, तब भारतवर्ष की प्राचीन स्थिति और नवीन परिस्थिति में अन्तर पड़ जाता है। आज ससार में अनेक सम्यक् रहलानेवाले देश हैं कि जिनका प्रभाव भी खूब है। आज की नई-नई सम्यक्ताएँ जो विकसित हो रही हैं, भारत उनसे अपेक्षाकृत कुछ पीछे ही है। हम कह सकते हैं कि आज सस्कृतियों के सर्घर्ष का समय है। अनेक सस्कृतियाँ अपने को ऊँचा उठाने और दूसरी को गिराने में प्रयत्नशील हैं। जहाँ कहीं सर्घर्ष होता है, वहाँ सर्घर्ष से हानि और लाभ दोनों ही होते हैं। सस्कृतियों के इस सर्घर्ष से भी अनेक लाभ और साथ ही अनेक हानियाँ भी हुई हैं, जिनका दिग्दर्शन समय पर कराया जायगा। भारत में भी आज सस्कृति के विषय में नाना प्रकार के विचार सुनने में आते हैं। बहुत-से विद्वान्

इस विचार के हैं, जिनका कहना है कि अब पुरानी सस्कृति की आवश्यकता नहीं। अब समय बदल गया है। अब तो सभी सस्कृतियों को मिलाकर एक नई सस्कृति को जन्म देना चाहिए। सस्कृति का अब समयानुकूल नया स्वरूप होना चाहिए। कुछ विचारशील विद्वानों का इसके विपरीत यह कथन है कि भारत कि प्राचीन सस्कृति सर्वथा सर्वदा उपादेय है, आज भी उसीकी आवश्यकता है। इतनी पुरातन सस्कृति के जो गुण हैं, वे नवीन सस्कृति में नहीं लाये जा सकते, इसलिए उसका संरक्षण और पालन स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए नितान्त आवश्यक है।

पर यह एक मौलिक प्रश्न उठा होता है कि भारतीय सस्कृति का स्वरूप क्या है? आज हम देखते हैं, कुछ लोगों को जो भारतीय सस्कृति की रक्षा का दावा करते हुए सामने आते हैं। इसके ठीक विपरीत दूसरों का कहना है कि ये भारतीय सस्कृति की रक्षा नहीं, उनका सर्वनाश करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वर्णाश्रम-धर्म-व्यवस्था ही भारतीय सस्कृति की आधार-भित्ति है, तो दूसरे वर्ण-व्यवस्था को ही आधुनिक युग में अवनति का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। उनका कहना है कि वर्णाश्रम-व्यवस्था कोई ग्राह्यत या प्राकृतिक वस्तु नहीं है, जो अनिवार्यतः हर समय समाज का नियन्त्रण करे। यह तो प्राचीन समय के समाज का एक प्रयोग था, जो उस समय के समाज के लिए उपादेय सिद्ध हुआ, परन्तु आज के वातावरण में यह सर्वथा हेय है। और-और देशों की सस्कृति के स्वरूप का बहुत-कुछ निर्णय वहाँ के धर्म ग्रन्थों के आधार पर हो जाता है। आंग्ल देश की सस्कृति बहुत-कुछ वाइविल पढ़ने पर समझ में आ जाती है। मुस्लिम-सस्कृति को भी कुरान का अध्ययन करके कोई थोड़ा-बहुत समझ ही लेगा। परन्तु भारतीय सस्कृति समझने में इस उपाय में भी सन्देह खड़ा हो जाता है। यदि ये कहें कि वेदों में जिसका प्रतिपादन है, वही भारतीय सस्कृति है, तो बौद्ध, जैन, सिक्ख आदि वेदों को न माननेवालों का भारतीय सस्कृति में समावेश नहीं होता। कोई एक सर्वमान्य धर्म-ग्रन्थ नहीं है, जिसको आधार मानकर भारतीय सस्कृति को इदमित्य भाव से समझ लिया जाय।

हमारा अपना विचार यह है कि धर्म-ग्रन्थों के ऐक्य के न रहने पर भी सिद्धान्त की दृष्टि से भारतीय कहलानेवाले सभी आचार और विचारों का संग्रह हो सकता है। यह सिद्धान्त हो सकता है—आध्यात्मिकता की सर्वमान्यता। अध्यात्म दृष्टि पर समस्त व्यवहारों की हेयता और उपादेयता का निर्धारण करना, इस बात में सभी भारतीय मतों का ऐक्य हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय सस्कृति का मूलभूत स्वरूप अध्यात्म-प्रवीणता है। यह अध्यात्मवाद क्या चीज है और कैसे उसकी उपादेयता है। वह भारतीय सस्कृति का मूल कैसे है? आज भी भारत को उसकी आवश्यकता है अथवा नहीं, इत्यादि प्रश्नों का विचार ही हमें भारतीय सस्कृति के समीप ले जायगा। भारतीय विचारों में हमेशा से पंचभूतों से तैयार होनेवाले शरीर के अतिरिक्त एक आत्मा की सत्ता मानी जाती है। वह आत्मा अजर-अमर है, शरीर तो बराबर बदलता रहता है। परन्तु आत्मा सदा एक स्वरूप ही बना रहता है। ससार की सभी वस्तुओं की अपेक्षा वही प्रधान है। वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर आत्मा दूसरा

शरीर ग्रहण करता है। यदि भारतीय सस्कृति का वेदित्य पुनर्जन्मवाद है, तो भारतीय सस्कृति के अन्तर्गत आनेवाले बौद्ध, जैन, सिद्ध, आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज आदि जितने सम्प्रदाय हैं, वे सभी इस पुनर्जन्मवाद को अव्यय स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, आचार और विचार ये दो जो सस्कृति के पहलू हैं, उनमें विचाराज में भारतीयों का ऐक्य स्थापित है। शरीर के अतिरिक्त आत्मा है। जिस प्रकार शरीर के प्रति भोजनाच्छादनादि हमारे अनेक कर्त्तव्य हैं, उसी प्रकार आत्मा के प्रति भी हमारे कुछ कर्त्तव्य हैं। इस प्रकार के अध्यात्म पर अवलम्बित व्यवहार ही आचाराज में भारतीयों की एकता को प्रतिष्ठित करते हैं। प्राचीन समय में भी भारत में अध्यात्म-दृष्टि प्रधान रही है। आत्मा को उन्नत बनानेवाले आचरणों को ही धर्म कहा जाता है। आजकल शिथिल लोग धर्म से चोक्तते हैं। बहुत से लोग धर्म को एक हीवा समझते हैं। परन्तु खेद है कि ये धर्म के स्वरूप पर ध्यान नहीं देते। धर्म न तो कोई हीवा है और न कोई चौकानेवाली चीज है, न वह अवनति के मार्ग में ढकेलनेवाली कोई वस्तु है। धर्म उसी का नाम है, जो उन्नति की ओर ले जाय। धर्म का लक्षण करते हुए कणाद ने स्पष्ट कर दिया है कि—'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस सिद्धि स धर्मः', अर्थात् जो क्रमशः उन्नत करता हुआ चरम उन्नति तक ले जाय, वही धर्म है। वह उन्नति न केवल ससार की ही है, परन्तु उसके साथ साथ आत्मा की चरम उन्नति है, अर्थात् मोक्ष भी धर्म के द्वारा ही होता है। आजकल यन्त्र युग में नये-नये यन्त्रों का आविष्कार ही उन्नति की ओर अग्रसर होना है। किन्तु विचार कीजिए कि ये सब यन्त्रों को कौन बनाता है। मनुष्य की कल्पना-शक्ति ही इन यन्त्रों को जन्म देनेवाली है। यह कल्पना-शक्ति किस यन्त्र से प्रादुर्भूत होती है, इसका ज्ञान भारतीय सस्कृति में मुख्य माना गया था। यन्त्रों को जन्म देनेवाली कल्पना-शक्ति के उद्भावक मन, बुद्धि और सब-के-सब चैतन्यप्रद आत्मा का विचार आध्यात्मिकवाद है। भारतीय सस्कृति के नेता यही कहते हैं कि जो अपने-आपका परिष्कार वा सुधार न कर सका, वह अन्य वस्तुओं का निर्माता होने पर महत्त्वशाली नहीं कहा जा सकता। इसलिए, आध्यात्मिक-वाद की यहाँ की सस्कृति में प्रधानता हो गई है।

कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि अध्यात्मवाद के अनुयायियों ने धर्म के आगे अर्थ और काम को गिरा दिया। वे केवल धर्म-ही-धर्म को पकड़े रहे, और देश की अनेक प्रकार की उन्नति में बाधक सिद्ध हुए। परन्तु भारतीय सस्कृति के विचारकों को यह अच्छी तरह मालूम है कि हमारे यहाँ अर्थ और काम से विमुख होने का कहीं विधान नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों हमारे यहाँ पुरुषार्थ माने गये हैं। पुरुषार्थ का मतलब है, जो पुरुषों के द्वारा चाहने योग्य हो, अथवा मनुष्य के चार लक्ष्य हैं। 'पुरुषैरर्थ्यते', यह व्युत्पत्ति उपर्युक्त अर्थ को सिद्ध करती है। उनमें अर्थ और काम का ही सामान रूप से समावेश है, तब अर्थ और काम की उपेक्षा का आरोप कैसे माननीय हो सकता है। यह बात भी नहीं है कि भारत में कमी अर्थ, काम की उन्नति हुई ही नहीं। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, अर्थात् व्यवहार-शास्त्र और कलाशास्त्र तीनों भारत में पूर्णतया उन्नत थे। प्राचीन इतिहास इसका साक्षी है। सभी

नीति के उपदेश यही सिपाते हैं कि त्रिवर्ग की उन्नति करनी चाहिए, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति मुकर हो जाय। त्रिवर्ग में तात्पर्य धर्म, अर्थ और काम तीनों से है। प्राचीन समय में भारत की सम्पत्ति सभी देशों के लिए स्पृहणीय थी। काम, अर्थात् व्यवहार तो भारत से ही और देशों में सीखा है। सुखोपभोग की सामग्री भारत में कितनी विपुल थी, इसका पता प्राचीन कालों को पढ़ने से बड़ी आसानी से लग जाता है।

यह सब होते हुए भी भारतीय सभ्यता में इतनी विशेषता अवश्य है कि वहाँ धर्म को सभी पुरुषार्थों में प्रधान स्थान दिया गया है। धर्म का आत्मा से सीधा सम्बन्ध है। उससे आत्मा बलवान् होता है। जब कभी व्यवहार में धर्म के साथ अर्थ-काम का संघर्ष उपस्थित होता है, जब कभी प्रश्न खड़ा होता है कि या तो धर्म को अपना लो या अर्थ को। ऐसे समय में हम सदा धर्म को ही अपनाते हैं, यही हमारे शास्त्रकारों का उपदेश है कि—

परित्यजेदर्थं कामौ च स्यातां धर्मवर्जितौ।

अर्थात्, धर्म से विरुद्ध अर्थ और काम को छोड़ देना चाहिए। इस विषय का सूत्र से सूत्र विवेचन धर्मशास्त्रकारों ने किया है। भगवान् मनु कहते हैं कि—

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः।

द्रव्योपार्जन और अपनी उन्नति का सम्पादन अवश्य ही मानव-मात्र का कर्तव्य है, परन्तु वह द्रव्योपार्जन या आत्मोन्नति ऐसी हो, जिससे किमी से द्रोह न हो। दूसरों को धक्का मारकर उपार्जन करना ठीक नहीं। प्रश्न होता है कि किमी भी अर्थोपार्जन या उन्नति में परद्रोह तो अवश्य होगा। मान लिया जाय कि किसी मनुष्य को कोई अच्छा पद मिला, तो क्या उसका यह उपार्जन बिना द्रोह किये हो गया? नहीं। उसी के साथ जो दूसरे लोग उस पद के इच्छुक थे, उनको हटाने के कारण द्रोह तो हो ही गया। तब अद्रोह से उपार्जन कैसे सम्भव है। इसी सूक्ष्म बात को ध्यान में रखकर मनु भगवान् ने साथ ही कह दिया था कि 'अल्पद्रोहेण वा पुनः', अर्थात् यदि द्रोह अपरिहार्य हो, तो वह बहुत कम रूप में लिया जाय। जैसे पद प्राप्त होने पर जो द्रोह औरों से होता है, वह साक्षात् अपकार करने से नहीं, अपि तु दूसरों के द्वारा हुआ है। इसलिए यह अल्पद्रोह है। कारण वहाँ द्रोह लक्ष्य नहीं था, अपनी उन्नति ही लक्ष्य था। इस प्रकार का द्रोह उपार्जन में लक्ष्य है। परन्तु साक्षात् द्रोह नहीं करना चाहिए। जैसे, शिष्यायतो और आरोपों के द्वारा दूसरों को पद-च्युत करवाकर फिर स्वयं उस स्थान को लेना। इस प्रकार का उपार्जन धर्म-विरुद्ध है। यह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, धार्मिक नेताओं ने सर्वदा हमें सचेत किया है कि हम कभी प्रधान को, अर्थात् धर्म को न भूले। धर्म का ही दूसरा नाम है कर्तव्य। कर्तव्य और धर्म में भेद नहीं। कर्तव्य-निष्ठा ही भारतीय सस्कृति की प्रधान वस्तु है। कर्तव्य में आलस्य, प्रमादादि को स्थान नहीं। इस प्रकार, धर्म और उससे अविरुद्ध अर्थ और काम का आचरण करने से मोक्ष नाम का परम पुरुषार्थ अपने-आप सिद्ध हो जाता है।

मोक्ष को ही यह सस्कृति परम पुरुषार्थ कहती है। वह मोक्ष क्या है? आत्मा को स्वतंत्र बना देना ही मोक्ष है। कर्त्तव्य का आचरण करते-करते मन, बुद्धि और शरीर पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार के पवित्र मन और बुद्धि में आत्मा की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। वह आत्मा हमें कहीं बाहर से लेने नहीं जाना पड़ेगा, वह तो सबके पास है। परन्तु मन और बुद्धि अपवित्र होने ने उसे ग्रहण नहीं कर पाती। जब कर्त्तव्याचरण द्वारा मन, बुद्धि पवित्र हो जाती हैं, तब आत्मा का दर्शन होना सुगम हो जाता है। इसीको मोक्ष कहते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह ससार तो प्रभो और समन्याओं का जगल है। यह कैसे पहचाना जाय कि अमुक कर्त्तव्य है, और अमुक वर्म है, जहाँ कार्यों की शृङ्खला सामने खड़ी है। बहुत-से कार्य कर्त्तव्य-कोटि में आते हैं, बहुत-से त्याज्य हैं। सामान्य मानव-बुद्धि यह कैसे समझे कि यह करना चाहिए, और यह छोड़ना चाहिए? इस प्रश्न के अनेक समाधान भारतीय ग्रन्थों में मिलते हैं। अनेक ऐसी पहचान निश्चित की गई है। कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का विचार करनेवाले पाश्चात्य आधिभौतिकवादी पहले उन कार्यों को कर्त्तव्य-कोटि में रखते थे, जो सब मनुष्यों को लाभ पहुँचानेवाले हो। ऐसी परिभाषा बना लेने पर उनके सामने जब यह प्रश्न आया कि कोई कार्य ऐसा नहीं, जो सभी मनुष्यों को लाभ ही लाभ पहुँचाता है। किसी-न-किसी को किसी कार्य में हानि भी अवश्य होगी। चोरी को अपराध घोषित करना शायद चोरो को नागवार गुजरेगा। रोगियों की सख्या में कमी होना डॉक्टरों की रोजी छीनना होगा। भ्रातृ-भाव और बन्धुत्व की वृद्धि और द्वेष का अभाव होने से वकीलो की जीविका का प्रश्न आ जायगा। शायद कोई वकील यह नहीं चाहता होगा कि मेरे मुवकिल आपस का झगडा भूल जायें। ऐसी ही स्थिति में अच्छा-से-अच्छा माना जानेवाला कार्य भी कर्त्तव्य और वर्म न हो सकेगा, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों की पूर्व परिभाषा के अनुसार वह सब लोगो का हित-सम्पादन नहीं करता। इस प्रश्न के सामने आने पर पश्चिमी विद्वानों ने अपनी परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा कि धर्म वह है, जो अधिकांश मनुष्यों को अधिक लाभ पहुँचानेवाला हो। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने गीता-रहस्य ग्रन्थ में इस प्रकार के समस्त पाश्चात्य मतों को सामने रखकर उनकी आलोचना प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म अधर्म या कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का निर्णय भौतिक दृष्टि से कथमपि सम्भव नहीं। उसके निर्णय के लिए तो आध्यात्मिक दृष्टि को ही अपनाना होगा। भौतिक परिभाषा में उन्होंने अनेक दृष्टान्तों से दोष दिखाये हैं। मान लीजिए कि गर्मा में तृपार्त्त जनो की प्यास बुझाने के लिए किसीने प्याऊ लगाया। लोग उसके प्याऊ पर आते हैं और सुखाडु शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके प्याऊ पर जल पीनेवालो की भीड देखकर सामनेवाले दूकानदार बनिये ने भी एक प्याऊ खोल दिया, जो पानी के साथ चने भी खिलाता है। बनिये का उद्देश्य लोगो को जल से तृप्त करना नहीं है, अपि तु अपना व्यापार चमकाना है। प्यादा भीड़ बटने पर लोग उसकी दूकान पर बैठकर खरीददारी भी करते हैं। अब यदि पाश्चात्य दृष्टि से कर्त्तव्याकर्त्तव्य का या धर्माधर्म का विचार करें, तो बनिया ही वर्मात्मा सिद्ध

होता है, जो पानी के साथ चने भी खिलाता है, क्योंकि वह अधिक लोगों का अधिक हित सम्पादन करता है। परन्तु, विवेक-दृष्टि कभी उसे धर्मात्मा नहीं करेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य लोगों को लाभ पहुँचाने का नहीं। भारतीय दृष्टि में वही धर्मात्मा है, जिसने पहले प्याऊ खोला, क्योंकि वह निःस्वार्थ-भावना से पिपासा-निवृत्ति के लिए जल पिलाता है। उसके कार्य में किसी प्रकार की दुरभिमन्वि नहीं।

दूसरा उदाहरण लीजिए। अमेरिका में जब सर्वप्रथम ड्रामगाडी चलने को थी, तब लोग बड़े उत्सुक थे। कम्पनी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। परन्तु फिर भी महीनों बीत गये। सरकारी आज्ञा मिलने में देर हो रही थी। ज्यादा देर होती देर कम्पनी के टाइरेक्टर ने सरकारी ऑफिसर को तगड़ी सी रिश्त दे दी। फलतः, ड्राम चालू करने का आर्डर शीघ्र प्राप्त हो गया और शीघ्र टामगाडी के चलने से जनता को आराम हो गया। पाश्चात्य परिभाषा के अनुसार उस प्रकार रिश्त देना धर्म होना चाहिए, क्योंकि वह अधिकांश मनुष्यों के लाभ के लिए कार्य था। परन्तु, परिणाम उसका उल्टा हुआ। वहाँ के हाईकोर्ट में उस रिश्त लेने पर केस चला और अभियोग प्रमाणित होने पर देने और लेनेवालों को दण्ड भोगना पडा। इसलिए, हमारी सस्कृति के अनुसार धर्म के सम्बन्ध में ऐसी बातें नहीं चल सकती। आध्यात्मिक दृष्टि से ही विचार होगा। अमुक कार्य के करने में अमुक मनुष्य का उद्देश्य क्या है, और उस कार्य का परिणाम क्या है। यदि उद्देश्य और परिणाम बुरा है, तो अच्छा काम भी अधर्म ही ठहरेगा और उद्देश्य एवं परिणाम अनुचित न रहने से बुरे काम भी अच्छे हो जायेंगे। किसी भी कार्य में कर्त्ता की नीयत जाने बिना धर्म का निर्णय नहीं हो सकता। इसके लिए भी आध्यात्मिकता की ओर आना होगा। जो धर्म और कर्त्तव्य के निर्णय में आध्यात्मिकता की ही कमी हुई, तब भारत की ओर ही सबकी दृष्टि केन्द्रित होती है। भारत सर्वदा से आध्यात्मिक दृष्टि को सर्वोपरि मानता आया है। उपनिषद् की एक आख्यायिका है, याज्ञवल्क्य जब वृद्ध हुए, तब घर छोड़ वन में एकान्तवास करते हुए ब्रह्म-चिन्तन की इच्छा हुई। उनकी दो पत्नियों थी—मैत्रेयी और कात्यायनी। उन्होंने वन में जाने के पहले अपनी जो कुछ सम्पत्ति थी, उसको दोनों पत्नियों में विभक्त कर देना चाहा। उन्होंने मैत्रेयी को बुलाया और उसे समझाया कि मैं अपनी जो कुछ सम्पत्ति है, उसको तुम दोनों में बाँट देना चाहता हूँ। मैत्रेयी तो आर्य लक्ष्मी थी। ऋषि की सम्पत्ति क्या हो सकती है। कमण्डलु, मृगचर्म, कौपीन, कुटिया, यही तो ऋषियों के आश्रम में होता था। परन्तु मैत्रेयी ने कहा भगवन्! यदि आप मुझे वह सारी पृथ्वी दे दे, जो रत्न, सुवर्ण और समस्त धन-धान्यादि से लदी हुई हो, उसको प्राप्त करके तो मैं अमर हो जाऊँगी न? याज्ञवल्क्य ने कहा—सम्पत्ति से कोई मनुष्य अमर तो नहीं हो सकता। हाँ, जिस प्रकार धनवानों का जीवन बीतता है, सैकड़ों नौकर रखते हैं, तरह-तरह के वस्त्र पहन सकते हैं, सब प्रकार के स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकते हैं, उस प्रकार सुख से जीवन व्यतीत हो सकता है। परन्तु सम्पत्ति से अमरता तो नहीं मिल सकती। इस पर मैत्रेयी ने कहा—जिसको लेकर अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या करूँगी। जिसकी खोज में आप घर को छोड़कर वन में जा रहे हैं, अपने उस लाभ में आप हमें भी

हिस्तेदार बनाइए। तब याज्ञवल्क्य ने उसको ज्ञानोपदेश देना प्रारम्भ किया। तात्पर्य यह कि प्राचीन काल में भारत की जिनमें भी आत्मतत्त्व के सामने समस्त ससार की सम्पत्ति को भी तुच्छ समझने की भावना थी।

आध्यात्मिकता का एक स्वरूप कर्त्तव्य-निष्ठा भी है। वह कर्त्तव्य-निष्ठा ही भारत की देन है। कर्त्तव्य-निष्ठा की शिक्षा गुरुओं द्वारा आश्रमों में दी जाती थी। वचनों में शक्ति भी इसी निष्ठा से उत्पन्न होती है। कौन सी वह शक्ति है, जो पुत्र से पिता की, शिष्य से गुरु की आज्ञा का पालन करा देती है। यह शक्ति कर्त्तव्य-निष्ठा ही है। कर्त्तव्य-निष्ठा का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को इसलिए करना कि वह कर्त्तव्य है। इसलिए नहीं कि उसके करने से अच्छा फल मिलेगा। चाहे फल हो या नहीं, पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना ही होगा। आजकल अँगरेजी में इसे 'ड्यूटी' शब्द से कहा जाने लगा है। भारतीय चरित्रों में आप इस कर्त्तव्य-निष्ठा के जगह-जगह दर्शन करेंगे। भारत का एक सुन्दर सन्दर्भ है। वन में क्षत्राणी द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर को छेड़ दिया कि आप जो धर्म को इतना श्रेष्ठ कहा करते हैं, वह बात तो व्यवहार में ठीक नहीं जँचती। आप स्वयं इतने धर्मात्मा, यज्ञ, दान, व्रत पालन करनेवाले वा नियमों से रहनेवाले वन में भटकते हैं, और दम्भ की प्रतिमूर्ति, निरन्तर पाप-कर्मों में लीन रहनेवाला दुर्बोधन ससार-भर का ऐश्वर्य भोग रहा है। तब क्या यह समझा जाय कि यदि वनो में भटकना हो, तो धर्म से ताल्लुक रखो और यदि उन्नति करना हो, तो छल-कपट, दम्भ को अपनाओ। इसका बड़ा अच्छा उत्तर युधिष्ठिर ने दिया कि द्रौपदी! तुमको यह किसने वहका दिया कि मैं फल की इच्छा से कर्म करता हूँ। यह स्पष्ट समझो कि मैं दान, यज्ञादि कर्म-फल की आकांक्षा से कभी नहीं करता। दान करना चाहिए, इसलिए दान करता हूँ—

नाहं धर्मफलाकांक्षी राजपुत्रि चरामि भो ।
ददामि देयमित्येव यज्ञे यष्टव्यमित्युत ॥

यज्ञ करना चाहिए, इसलिए यज्ञ करता हूँ। इस उत्तर से स्पष्ट सिद्ध होता है कि भारत के महापुरुष कर्त्तव्य-निष्ठा से प्रेरित होकर ही कर्म किया करते थे। भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण ने भी कर्म करने की यही युक्ति अर्जुन को बताई है और इस प्रकार किया हुआ कर्म आत्मा को आवद्ध करनेवाला नहीं होता—यह स्पष्ट उपदेश किया है।

साराग यह है कि भारतीय सस्कृति आध्यात्मिकता पर अवलम्बित है और कर्म करने में कर्त्तव्य-निष्ठा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है। यदि आध्यात्मिकता न रहे, तो समझ लेना होगा कि भारतीय सस्कृति का लोप हो चुका। अतः, भारतीय सस्कृति के रक्षकों को आध्यात्मिकता की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वर्त्तमान युग में जो एकमात्र पेट की चिन्ता ही ससार में सब कुछ बन गई है, वह भारतीय सस्कृति की सर्वथा विधातिनी है। मनुष्य-जीवन का लक्ष्य केवल पेट भर लेना नहीं है। आत्मिक उन्नति ही मनुष्य-जीवन का मुख्य फल है। यही प्रवृत्ति जनता में फैलाने से

भारतीय सस्कृति बच सकेगी। और, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कर्त्तव्य-निष्ठा वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधार पर ही स्थित हो सकती है, अन्यथा कर्त्तव्य का ज्ञान ही किस आधार पर हो सकेगा? वर्ण-व्यवस्था ही अपने-अपने वर्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य निश्चित करती है। जिस वर्ण का जो धर्म है, उसमें फल का कुछ भी विचार न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए। यही कर्त्तव्य-निष्ठा है।

भारतीय सस्कृति के मुख्य ग्रन्थ भगवद्गीता में भी कर्त्तव्य-बुद्धि को ही मुख्य माना गया है, और फल की अपेक्षा न कर कर्त्तव्य-पालन का नाम ही कर्मयोग रखा है। कर्मयोग एक बहुत उच्चकोटि की वस्तु है, जो क्या सामाजिक, क्या राजनीतिक, क्या धार्मिक सभी विषयों में अत्यन्त उपादेय सिद्ध होती है, किन्तु जब यह प्रश्न उठाया जाय कि फल की इच्छा न कर, तो किस कार्य में प्रवृत्ति करे? क्योंकि, प्रवृत्ति का क्रम तो शास्त्रों में यही निर्धारित किया गया है कि पहले फल की इच्छा होती है, तब उसके साधन-रूप से उपाय की इच्छा और उपाय की इच्छा से आत्मा में प्रयत्न होता है। प्रयत्न नाम की एक प्रेरणा उठती है और उस प्रेरणा से हाथ-पैर आदि इन्द्रियों प्रवृत्त होती है। यदि फलेच्छा ही न होगी, तो आगे का क्रम चलेगा ही कैसे? और, प्रवृत्ति ही क्यों होगी? तब इसका उत्तर यही हो सकता है कि जिसके लिए जो कर्म नियत है, उसमें उसे प्रवृत्त रहना चाहिए। 'नियत कुरु कर्मत्वम्', यही भगवद्गीता का आदेश है। परन्तु किसके लिए कौन सा कर्म नियत है—इसका उत्तर तो वर्ण-व्यवस्था ही दे सकती है। उसमें ही भिन्न-भिन्न वर्णों के अपने-अपने कर्म नियत हैं, उनका अनुष्ठान विना फल की इच्छा के ही करते रहना चाहिए। यदि विना वर्ण-व्यवस्था माने भी कर्त्तव्य-निष्ठा का कोई यह समाधान करे कि जगत् के लाभदायक कर्म फल की इच्छा विना ही करते रहना चाहिए अथवा आत्मा की आज्ञा जिन कर्मों के लिए मिले, वे कर्म करते रहना चाहिए, तो इन पक्षों में जो दोष आते हैं, उनका विवरण आरम्भ में ही दे दिया गया है कि सबका लाभदायक कोई भी कर्म हो नहीं सकता और किनको लाभ पहुँचाने का यत्न करे और किनकी हानि की उपेक्षा करे—इसका भी नियामक कुछ नहीं मिल सकता। आत्मा की आज्ञा भी भिन्न-भिन्न परिस्थिति में भिन्न-भिन्न प्रकार की मिलती है। एक वार अनुचित कार्य करके जब आत्मा मलिन हो जाता है, तब वहाँ से अनुचित कार्यों की ही अनुमति मिलने लगती है। इससे आत्मा की आज्ञा पर भी निर्भर रहना बन नहीं सकता। सारांश यह है कि कर्मयोग-सिद्धान्त वर्ण-व्यवस्था के आधार पर ही बन सकता है और वह कर्मयोग-सिद्धान्त व्यवहार-क्षेत्र से पार पाने का सबसे उत्तम साधन है। इसलिए, कर्त्तव्य-निष्ठा वा कर्मयोग की सिद्धि के लिए वर्णाश्रम-व्यवस्था को भारतीय सस्कृति में प्रधान स्थान दिया गया है।

वर्ण-व्यवस्था

वर्त्तमान में वर्ण-व्यवस्था पर बहुत आक्षेप होते हैं और इसी पर भारत की अवनति का बहुत-कुछ दायित्व रखा जाता है। इसे दूषित करनेवाले विद्वानों का कथन है कि वर्ण-व्यवस्था ने ही समाज में आपस में फूट डाल दी। परस्पर ऊँच-नीच

भाव पैदा कर दिया, और यही सब अवनति की जट हुई। किन्तु, विचार करने पर यह आक्षेप निर्मूल ही सिद्ध होता है। वर्ण-व्यवस्था कभी परस्पर विरोध वा आपस की फूट नहीं सिराती। वेद-मन्त्रों से स्मृति-पुराणादि तक जहाँ कहीं वर्ण-व्यवस्था वा वर्णन है, वहाँ सर्वत्र सब वर्णों को एक शरीर वा अंग माना गया है।

ब्राह्मणोऽस्य पुरुषमासीद् बाह्व राजन्यं कृतः।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥

(पुरुषसूक्त)

अर्थात्, विराट् पुरुष वा ब्राह्मण मुख था, अर्थात् विराट् पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ था। क्षत्रिय उसके बाहु थे, वैश्य कटि वा उदर थे और विराट् पुरुष के पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए थे। इसी वेद-मन्त्र वा अनुवाद सब स्मृति-पुराणों में है। इसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक वर्ण के शरीर में जैसे प्रकृति के द्वारा चार भाग बनाये गये हैं—शिर, वक्ष स्थल, उदर और पाद, वैसे ही परमात्मा का जो ब्रह्माण्ड-रूप विराट् शरीर है, उसमें भी चार भाग हैं। हमारे शरीर के प्रथम भाग शिर में ज्ञान-शक्ति है। ज्ञान की इन्द्रियों आँख, कान, नाक आदि शिर में ही हैं, और वर्तमान विज्ञान भी यही कहता है कि शिर में ही ज्ञान-तन्तु रहते हैं, उनके अभिप्लवन से ही ज्ञान पैदा हुआ करता है। विचार का कार्य अधिक करनेवाले को शिर में ही पीडा होती है। द्वितीय भाग वक्ष स्थल में बल की शक्ति है। बल की इन्द्रियों, जिनसे बल का काम होता है, हाथ इसी अंग में आते हैं। और बल का कार्य अधिक करनेवाले को छाती में ही पीडा होती है। शरीर के तीसरे उदर-भाग में सग्रह और पालन की शक्ति है। बाहर से सब वस्तुओं को उदर ही लेता है और उनका विभाग करके आवश्यकतानुसार सब अंगों में भेज देता है। उनके ही द्वारा सब अंगों का पालन होता है। अन्न-पानादि बाहर से पहले उदर में भी पहुँचाये जाते हैं और वहाँ से विभक्त होकर सब अंगों का पोषण करते हैं। यहाँ तक कि मस्तक में वा पैर में भी पीडा हो, तो औषधि उदर में ही डाली जाती है। वहाँ से वह शिर आदि में पहुँचकर पीडा शान्त करती है। चौथे भाग पाद में सेवा-शक्ति है। यह उक्त तीनों अंगों को अपने-अपने कार्य में सहायता देता है। देखने की इच्छा आँख को होती है। उसी को उत्तम दृश्य देखने से सुख मिलता है। मधुर गान सुनने की इच्छा कान को होती है, किन्तु दृश्य देखने वा गान सुनने के स्थानों में आँख वा कान को पैर ही पहुँचाते हैं। बल का कार्य करने के लिए और उदर-पोषण की सामग्री के लिए भी नियत स्थानों में पैर ही ले जायेंगे। इन्हीं चारों शक्तियों के परस्पर सहयोग से सब काम चलता है, और सब अंगों के अपने-अपने कार्य में व्यापृत रहने पर आत्मा प्रसन्न रहता है। जैसे, हमारा यह व्यष्टि शरीर है, उसी प्रकार परमात्मा का शरीर वह सम्पूर्ण प्रपञ्च है। इसमें भी समष्टि-रूप से चारों शक्तियाँ भिन्न-भिन्न अवयवों में वर्तमान हैं, और परस्पर सहयोग से कार्य करती हैं। जहाँ प्रधान रूप से ज्ञान-शक्ति है, वे प्रपञ्च-रूप परमात्मा के शिरःस्थानीय ब्राह्मण हैं। जहाँ बल-शक्ति है, वे वक्ष स्थल रूप क्षत्रिय हैं।

सग्रह-शक्तिवाले ऊरु वा उदरस्थानीय वैश्य हैं और सेवा-शक्तिवाले पाटस्थानीय शूद्र हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही शरीर में प्रकृति ने ऊच्चावच भाव से रखा है। प्रकृति का किसी के साथ पक्षपात नहीं। ज्ञान शक्ति का ही यह प्रभाव है कि वह सबसे ऊँचे स्थान में बैठती है। इसीलिए, प्रकृति ने शिर को सब अवयवों में ऊँचा स्थान दिया है। शिर सब अवयवों से सदा ऊँचा ही रहना चाहता है। यदि आप सब अंगों को एक सीध में लिटाना चाहे, तब भी एक तकिया लगाकर शिर को कुछ ऊँचा कर ही देना पड़ेगा। नहीं तो शरीर को चैन ही नहीं मिलेगा। यह ज्ञान-शक्ति की ही महिमा है। इसी प्रकार प्रपच में भी ज्ञान-शक्ति के कारण ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्था द्वारा उच्च स्थान पाते हैं। अन्यान्य शक्तियाँ भी अपने-अपने प्रभावानुसार क्रम से सन्निविष्ट होती हैं। उसी के अनुसार तत्त्व शक्ति-प्रधान वर्णों का भी स्थान नियत किया गया है। इसमें राग-द्वेष की कोई भी बात नहीं है। शरीर के अवयवों में उच्च-नीच भाव का कभी झगडा नहीं होता, सदा सबका सहयोग रहता है। पैर यदि मार्ग में चलते हैं, तो उन्हें मार्ग बताने को आँख प्रस्तुत रहती है। यदि पैर ठोकर खाए, तो दोप आँख पर ही दिया जाता है। इसी प्रकार उदर में क्षुधा लगे, तो भोजन का सामान जुटाने को हाथ सदा प्रस्तुत रहते हैं और उदर में भी कभी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती कि जो अन्न-पान मुझे मिल गया, वह मैं ही रखूँ और अवयवों के पालन में इसे क्यों लगाऊँ ? यदि कदाचित् ऐसी प्रवृत्ति हो जाय, तो उदर भी रोगान्त्रांत होकर दुःखी होगा और अन्य अंग भी दुर्बल हो जायेंगे। आत्मा भी विकल हो जायगा। अतः, इससे सब अवयवों के परस्पर सहयोग से ही शरीर का और शरीर के अधिष्ठाता आत्मा का निर्वाह होता है। शरीर के अवयवों के अनुसार वर्ण-व्यवस्था बतानेवाले शास्त्रों ने समाज को इसी प्रकार के सहयोग की आज्ञा दी है। अपनी-अपनी शक्ति लगाकर अपने-अपने कार्यों द्वारा सब वर्ण समाज का हित करते रहे—इसीसे प्रपच का अधिष्ठाता परमात्मा प्रसन्न रहता है। परस्पर राग-द्वेष का यहाँ कोई भी स्थान नहीं। कदाचित् यह प्रश्न हो कि जिन-जिन में उक्त प्रकार की शक्तियाँ देखी जायँ, उन्हें उन कार्यों में लगाया जाय, यह तो ठीक है, किन्तु केवल जन्मानुसार वर्ण-व्यवस्था स्थिर रखना तो उचित नहीं हो सकता। ब्राह्मण वा क्षत्रिय के घर जन्म लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण वा क्षत्रिय क्यों हो जाय ? और अन्य वर्णों की अपेक्षा अपने को क्यों मानने लगे। इसका उत्तर है कि कारण के गुणों के अनुसार ही कार्य में गुण होते हैं—यह भी विज्ञान-सिद्ध नियम है। काली मिट्टी से घडा बनाया जायगा, तो वह काला ही होगा। लाल धागो से कपडा बनाया जायगा, तो लाल ही होगा। मीठे आम के बीज से जो वृक्ष बना है, उसके फल मीठे ही होंगे। इत्यादि प्रकृति-सिद्ध नियम सर्वत्र ही देखा जाता है। तब माता-पिता के रज-वीर्य में जैसी शक्तियाँ हैं, वे ही सन्तान में विकास पायेगी। यदि कहीं इससे उल्टा देखा जाय, तो समझना चाहिए कि आहार-विहार, रहन-सहन आदि में कुछ व्यक्तिगत वा दोष हुआ है। उसका प्रतिकार करना चाहिए। विज्ञान-सिद्ध वर्ण-व्यवस्था पर क्यों दोष दिया जाय। गिल्पियों में आज भी परीक्षा करके देखा जा सकता है कि एक बदर्ई का

पुत्र जितनी जल्दी लकड़ी का काम करना सीखेगा, उतनी जल्दी दूसरी जाति का नहीं सीख सकेगा। जब यह विज्ञान-सिद्ध नियम है, तब उच्च वर्णों में इसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है? यदि होता है, तो अवश्य ही उसका कोई प्रबल कारण है। उस कारण को हटाने का ही यत्न करना चाहिए। विज्ञान-सिद्ध वर्ण व्यवस्था को विगाड़ डालना तो उल्टा मार्ग होगा। पहले शुक्र के निरूपण में कहा जा चुका है कि शुक्र ही तीन प्रकार का होता है—ग्रहवीर्य, ध्रुवीर्य और विड्वीर्य। इनके कारण ही वर्ण-व्यवस्था होती है। यह वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था सर्वत्र व्यापक है और सब पदार्थों में है। पशुओं में, पक्षियों में, औषधादि में सर्वत्र भारतीय शास्त्रों में वर्ण-भेद लिखा है। उसी वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था के आधार पर सामाजिक रूप में भी वर्ण-व्यवस्था भारत में अनादि काल से प्रवृत्त है और उसका आधार जन्म और कर्म दोनों को माना गया है। आजकल के कई योग्य विद्वान् भी जो यह कहने का साहस कर बैठते हैं कि भारतीयों में रक्त का विचार नहीं रहा। वे किसी भी रक्त को अपने में सम्मिलित कर लेते थे, उनमें पाचन-शक्ति थी, इत्यादि। यह उन विद्वानों का कथन भारत के प्राचीन शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं होता। भारतीय सत्कृति के प्रतिपादक वेद, धर्म-शास्त्र आदि ने रक्त-शुद्धि का पूर्ण आग्रह किया है। यजुर्वेद-संहिता में मन्त्र है कि—

ब्राह्मणमद्यविदेर्यं पितृमन्तं पैतृमत्यमृपिमापेर्यं ।

(यजु० ७० । ४६)

अर्थात्, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, जिसका पिता भी प्रशस्त है और पिता का पिता, अर्थात् पितामह भी प्रशस्त है। इससे कुल-परम्पराप्राप्त ही ब्राह्मणत्व स्पष्ट हो जाता है। और रक्त-शुद्धि का पूरा प्रमाण मिल जाता है। इसी प्रकार राज्याभिषेक के मन्त्र में भी पढ़ा जाता है कि—

इमं देवा असपत्नं सुवह्वं
इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रम् ।

(यजुर्वेद)

इसमें भी बताया गया है कि राज-सिंहासन पर हम जिसका अभिषेक कर रहे हैं, वह असुक पिता का और असुक माता का पुत्र है। इससे भी मातृकुल और पितृकुल दोनों का प्रशस्त रूप से विख्यात होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। स्मृतियों में तो रक्त-मिश्रण वा वर्णसंकरता की बहुत ही निन्दा की गई है। मनुस्मृति में लिखा है कि—

यस्मिन्नेते परिध्वंसा, जायन्ते वर्णदूषकाः ।

राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥

अर्थात्, जिस समाज में वर्णों को दूषित करनेवाले वर्णसंकर अधिक पैदा हो जाते हैं, वह समाज या वह सब राष्ट्र ही उन व्यक्तियों के साथ नष्ट हो जाता है। स्थान-स्थान पर रक्त-मिश्रण वा वर्णसंकरता की घोर निन्दा है। ऐतिहासिक विद्वान् जो यह सिद्ध करते हैं कि बहुत-सी जातियाँ भारत में आईं और वे यहाँ की जाति-व्यवस्था में ही लीन हो गईं। उनके प्रमाण यदि पुष्ट हो, तो वही माना जा सकता है कि वे आगत जातियाँ अपना-अपना पृथक् दल बनाकर भिन्न जातियों के रूप में रहीं।

जैसा कि भारत के ग्रामों में जाट, गृजर, मीना, अहीर आदि बहुत सी जातियाँ मिलती हैं। वे उन आगत जातियों के रूपान्तर हैं—यह सम्भव है, किन्तु यहाँ के वर्णों में वे आगत जातियाँ सम्मिलित हो गई हों, यह सम्भव नहीं। भारत को मदा से वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण आग्रह रहा है और वह व्यवस्था प्राकृतिक वा विज्ञानानुमोदित है।

शरीर-संगठन की दृष्टि से वर्ण-व्यवस्था का महत्त्व दिखाया गया। अब समाज संगठन की दृष्टि से विचार किया जायगा।

विद्या, बल, द्रव्य आदि सत्र शक्तियों में दुर्बल किसी समाज की संगठन द्वारा उन्नति करने को उसके नेता प्रस्तुत हो, तो सबसे पहले उनका ध्यान शिल्प की उन्नति की ओर जायगा। सत्र प्रकार के शिल्पों की उन्नति के बिना देश या समाज उन्नत हो ही नहीं सकता। प्रथम महायुद्ध के अवसर पर देखा गया कि भारत में वस्त्रों की कमी जो हुई, सो तो हुई, किन्तु वस्त्रों को सीने के लिए सूई की भी कमी हो गई। सूई भी हमें दूसरे देशों से लेनी पड़ती थी। भला, ऐसा समाज सम्यक्ता की श्रेणी में आकर उन्नति की ओर कैसे पैर बढ़ा सकता है। अतएव, उनके अनन्तर हमारे नेताओं की दृष्टि शिल्प की उन्नति की ओर गई और उनके उद्योग और ईश्वर-कृपा से आज भारत शिल्प में बहुत-कुछ उन्नत हो गया है। अस्तु, प्राचीन भारत में भी इस बात पर पूरा ध्यान दिया गया था, और वर्ण-व्यवस्था में प्रचुर सख्या में रहनेवाली शूद्र जाति के हाथ में शिल्प-बल दिया गया था।

शिल्पैर्वा विविधैर्जीवेत् द्विजातिहितमाचरन् ।

(याज्ञवल्क्य स्मृति)

शूद्रों में भी भिन्न-भिन्न शिल्पों के लिए भिन्न जातियों का विभाग कर दिया गया था। किसी जाति को वस्त्र बनाने का व्यवसाय, किसी को सीने का, किसी को लकड़ी का, किसी को लोहे का, किसी जाति को सोने का, इस प्रकार से भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न शिल्प बँट दिये गये थे, जो आज भी चले आ रहे हैं। यह शिल्प-बल शूद्र-बल है। शूद्रों के बुद्धि-विकास से शिल्पों की उन्नति यहाँ पूर्ण मात्रा में हुई। ढाँके की मलमल की बराबरी आज तक भी पाश्चात्य जगत् न कर सका। प्राचीन भारत के नेता ऋषि-महर्षियों का यह भी ध्यान था कि सब प्रकार के बलों की उन्नति समाज में की जाय, किन्तु उन बलों के दुरुपयोग से समाज को क्लेश न हो, इसका भी ध्यान रखा जाय। इसलिए, उन्होंने अपनी व्यवस्था में एक बल का नियन्त्रण दूसरे बल के द्वारा किया। नियन्त्रण निग्रह और अनुग्रह दोनों से होता है। हितैषिता भी हो और साथ ही दुरुपयोग से बचाया जाय, तभी ठीक नियन्त्रण हो सकता है। इस दृष्टि से शूद्र-बल का नियन्त्रण व्यापार बल के द्वारा किया गया। वह व्यापार-बल वैश्य बल है। और वर्ण-व्यवस्था में शूद्रों से ऊपर वैश्यों का स्थान है। शिल्पी को अपने शिल्प के अधिकाधिक प्रसार की इच्छा रहती है और वह प्रसार व्यापार-बल के द्वारा ही हो सकता है। एक ग्राम, नगर और देश के शिल्प को सैकड़ों-हजारों कोसों तक प्रचारित कर देना व्यापार-बल का ही काम है। इसलिए व्यापार-बल शिल्प-बल की सहायता भी करता है और आलस्यादि दुरुपयोग से उसे बचाता भी है। प्रसार की लालसा से शिल्पियों को

अपने शिल्प कार्य में आलस्य नहीं होता, और वे अपनी बनाई वस्तु का अनुचित मूल्य भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार, समाज में दो बल सम्पन्न हुए। व्यापार-बल में लक्ष्मी (सम्पत्ति) की कृपा होती है, और लक्ष्मी से उन्मत्त होकर दीन-दुःखियों को त्रास देने आदि के तप में बल का दुरुपयोग भी सम्भव है। इसलिए व्यापार बल या सम्पत्ति-बल का नियन्त्रण शासन-बल द्वारा किया गया। यह वर्ण-व्यवस्था का तीमरा ध्वज बल है।

वेद के अभिषेक के मन्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि राजा ब्रह्मों का ही राजा होता है—‘एष वो विशो राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा’, हे ब्रह्मों ! हमारे अभिषेक द्वारा यह तुम्हारा राजा हुआ। हमारा ब्राह्मण का राजा तो सोम है। यह अभिषेक करनेवाला ब्राह्मण कहता है। यह ध्वज-बल भी वैश्य-बल की पूर्ण सहायता भी करता है। उन्हें बोरी, ढाके आदि से बचाना ध्वज-बल का ही काम है और वह व्यापार-बल यदि विकृत होकर उपद्रव करने लगे, तो उसका नियन्त्रण भी ध्वज-बल के द्वारा होता है।

ध्वज-बल वा शासन-बल भी यदि विकृत होकर रक्षा के स्थान में प्रजा को सताने लगे, तो उसका उपाय अन्य किसी सत्कृति में नहीं है। अन्य सत्कृति के अनुयायी तो इतना ही उत्तर दे देते हैं कि शासन-बल का नियन्त्रण करनेवाला कानून वा विधान है। किन्तु यह उत्तर पर्याप्त नहीं। कानून वा विधान तो जड़ है और शासक के हाथ में है। शासक यदि उन्मत्त होकर उन्हें न माने, तो वे कानून वा विधान क्या कर सकते हैं। भारतीय सत्कृति ने ही उसका पूर्ण तप से उत्तर दिया है। इस सत्कृति में शासन बल वा ध्वज-बल का नियन्त्रण ब्रह्म-बल के हाथ में रखा है। सासारिक बल तो पूर्णतप से राजा के हाथ में देना तो आवश्यक होगा। अन्यथा शासन ही कैसे चलेगा। सासारिक बल से तो शासन का नियन्त्रण हो नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म-बल को आध्यात्मिक बल के तप में रखा गया है। अध्यात्म शक्ति ऋषि-मुनि आदि में इतनी प्रबल होती थी कि वे अपनी उस शक्ति से लौकिक बल सम्पन्न राजा को भी नियन्त्रित कर सकते थे। किसी भी राजा के उन्मार्गगामी होने पर ब्रह्म बल से उसका नियन्त्रण किया गया। इसके बहुत-से दृष्टान्त भारतीय सत्कृति के इतिहास-पुराणों में प्राप्त होते हैं। अब यदि यह प्रश्न उठाया जाय कि ब्रह्म बल के विकृत होने पर उसका नियन्त्रण करनेवाला कौन है ? तो, इसका उत्तर सहज ही है कि विकृत वा उन्मार्गगामी होने पर ब्रह्म-बल रहता ही नहीं। अध्यात्म बल तो तभी तक रहता है, जब तक वह पुरुष वैदिक मार्ग पर चलता हुआ सर्वभूतों का हितकारी और सदाचारी बना रहे। विकार आने पर वह बल ही चला जाता है। जिसके दृष्टान्त आजकल के ब्राह्मण हमलोग हैं। वैदिक परम्परा छूट जाने के कारण आज हममें वह बल ही नहीं रहा, तब उन्मार्गगामी होने पर हमारा भी नियन्त्रण शासन-बल के द्वारा ही हो जाता। यह वर्ण-व्यवस्था का दोष नहीं, हमारा अपना दोष है। वर्ण-व्यवस्था ने तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सब प्रकार के बल समाज में रहे और वे विकृत होकर समाज का अपकार भी न कर सके। एक-दूसरे से नियन्त्रित रहे। इसलिए, यह समाज-व्यवस्था, विचार करने पर, सब व्यवस्थाओं से उत्तम कही जा

सकती है। कुल-कामागत वर्ण-व्यवस्था में नैतिक दृष्टि से यह बड़ा लाभ है कि आपत्ति का समय हो, चाहे सम्पत्ति का, शिल्प, व्यापार आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसा महायुद्ध के अनन्तर कई देशों के शिल्प-व्यापार नष्ट हो गये। यह दशा भारतीय सस्कृति में नहीं हो सकती, यदि वर्ण-व्यवस्था ठीक चलती रहे। शासन-बल युद्ध में सलग रहेगा और दूरे बलों की अनुयायिनी वृग्री जातियाँ अपना-अपना कर्त्तव्य-पालन करती रहेगी। हाँ, जहाँ भयानक विप्लव उपस्थित हो, वहाँ ब्राह्मणादि सब वर्गों को शस्त्र-ग्रहण करने की भी आज्ञा भारतीय शास्त्रों में है।

शास्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते ।

अर्थात्, जहाँ धर्म वा सस्कृति का लोप होने की सम्भावना आ जाय, वहाँ ब्राह्मणादि सब वर्गों को शस्त्र-ग्रहण करना चाहिए इत्यादि।

आजकल बहुते-से सुधारक महोदय जो ब्राह्मणों पर यह दोष लगाते हैं कि उन्होंने सब शक्ति अपने हाथ में ले ली, शूद्र आदि को पगु बनाकर रखा—वहाँ उनसे पूछना चाहिए कि शूद्रादि की लौकिक उन्नति ब्राह्मणों ने छीन ली वा पारलौकिक। पारलौकिक उन्नति छीनने का ब्राह्मणों को सामर्थ्य ही कहाँ था, वह तो ईश्वरीय देन है। उसे कौन छीन सकता है। सदाचारी मनुष्य परलोक में उन्नति करेगा, इस व्यवस्था को कौन हटा सकता है। और, लौकिक उन्नति तो शिल्प और व्यापार से होती है, उनमें शिल्प शूद्रों के हाथ में और व्यापार वैश्यों के हाथ में दिया गया। ब्राह्मणों ने अपने हाथ में लौकिक उन्नति का साधन रखा ही कहाँ? फिर यह उलटा आक्षेप क्यों? वस्तुतः, विद्या और कला—दो ही शक्ति हैं। वर्ण-व्यवस्थानुसार विद्या ब्राह्मणों के हाथ में और कला वैश्य-शूद्रों के हाथ में है। दोनों में ही बुद्धि की आवश्यकता है? और बुद्धि के द्वारा सभी अपने-अपने कार्यों की उन्नति कर सकते हैं। इसलिए यह कहना भी उपयुक्त नहीं होता कि 'निर्बुद्धि का नाम ही शूद्र है।' शूद्र यदि निर्बुद्धि रहे, वा बुद्धिमान् होते ही ब्राह्मणादि की श्रेणी में चले जायँ, तो देश में शिल्प वा व्यापार की उन्नति कैसे होगी। अस्तु, सारांश यही है कि भारतीय सस्कृति का आधार वर्णाश्रम-व्यवस्था ही है। और, वह आ-व्यात्मिक, सामाजिक वा नैतिक सब दृष्टियों से निर्दोष है। जो दोष वर्त्तमान में दिखाई देते हैं, वे व्यवस्था की गिथिलता वा उसके ठीक पालन न होने से ही हैं। शास्त्र-दृष्टि से कोई भी दोष उनमें नहीं आ सकता।

आश्रम-व्यवस्था

वर्ण-व्यवस्था जहाँ सामाजिक सगठन सिखाती है, वहाँ आश्रम-व्यवस्था एक ही व्यक्ति को समय-भेद से लौकिक और पारलौकिक सब उन्नति का साधन करना सिखा देती है। केवल लौकिक उन्नति के चक्कर में पड़ हम आ-व्यात्मिक दृष्टि से विमुख न हो जायँ और मनुष्य-जीवन का फल ही सर्वथा न खो बैठे, इसका उपाय आश्रम-व्यवस्था कर देती है।

आश्रम-व्यवस्था में पहले ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याध्ययन, दूसरे गृहस्थाश्रम में उस विद्या के उपयोग द्वारा अपनी वृत्ति चलाना, कीर्त्ति प्राप्त करना, वंश-वृद्धि करना

आदि कार्य किये जाते हैं। यह समय प्रवृत्ति-मार्ग में लगाया गया। ५० वर्ष की अवस्था तक ये दोनों आश्रम समाप्त हो जाते हैं। ५० वर्ष के अनन्तर वानप्रस्थाश्रम का आरम्भ है। उसमें निवृत्ति मार्ग के उपयोगी अध्यात्म विद्या का अभ्यास, उपासना और चित्तशुद्धि के लिए व्रतोत्वास आदि तप किये जाते हैं। इस प्रकार, निवृत्ति-मार्ग की योग्यता यदि प्राप्त हो जाय और ससार के लोगों से वैराग्य हो जाय, तो चतुर्थ आश्रम सन्यास में प्रवेश होता है। वहाँ सारे कार्य छोड़कर केवल ज्ञाननिष्ठा का प्रयत्न किया जाता है। इसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्य-जन्म की सफलता पूर्ण रूप से हो जाती है। यह आदर्श भारतवर्ष में ही था कि राजा-महाराजा तक भी ५० वर्ष की अवस्था के अनन्तर अपना राज्य छोड़कर वानप्रस्थाश्रम में चले जाते थे। निवृत्त (Retired) होने की प्रथा आजकल भी है, किन्तु आश्रम व्यवस्था न होने से 'रिटायर्ड' पुरुष भी पुनः द्रव्य के लोभ में ही फँसकर अन्यान्य कार्य करते रहते हैं। भारतीय आदर्श यह नहीं था। यहाँ वृद्धावस्था में त्याग का अभ्यास ही मुख्य माना जाता था। इसीलिए, अर्थ और काम का साधन रहते हुए भी भारतीय संस्कृति में लोलुपता नहीं बट पाई और आध्यात्मिकता नष्ट नहीं हुई। यह वर्णाश्रम व्यवस्था संस्कारों पर निर्भर है, इसलिए आगे संस्कारों का विवेचन किया जाता है।

आर्य-संस्कृति के संस्कार

आर्य जाति में सोलह संस्कारों का महत्त्व सुप्रसिद्ध है। हम लोगों की मान्यता है कि एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है इन संस्कारों से। इसी आधार पर वैदिक संस्कार जिसके हुए हो, उसे द्विज, अर्थात् दो बार जन्म लेनेवाला कहा जाता है। ये संस्कार हिन्दू जाति की एक बड़ी विशेषता के रूप में माने गये हैं। आज भी कुछ जीर्ण-शीर्ण रूप में कई एक संस्कारों का प्रचार हिन्दू जाति में देखा जाता है। किन्तु उनका तात्त्विक विचार बहुत कम लोगों के ध्यान में आता है। यहाँ संस्कारों के विज्ञान पर कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है।

संस्कार में दो प्रकार की वस्तुएँ देखने में आती हैं—एक प्राकृत और दूसरी संस्कृत। प्रकृति ने जिस रूप में जिस वस्तु को पैदा किया। वह उसी रूप में यदि बनी रहे, तो उसे प्राकृत वस्तु कहेंगे। जैसे—पर्वत, जंगल के वृक्ष, नदी आदि। किन्तु प्रकृति के द्वारा पैदा की हुई वस्तु का अपने उपयोग में लाने के लिए जब हम सुधार कर लेते हैं, तब उस सुधरी हुई वस्तु को संस्कृत कहा जाता है। वह सुधार ही संस्कार है, जो कि तीन प्रकार से होता है—(१) दोषमार्जन, (२) अतिशयाधान, (३) हीनाग-पूत्ति। प्रकृति के पैदा किये पदार्थ में यदि कोई दोष हो, अर्थात् हमारे उपयोग में लेते समय कोई बाधा उसमें आई हो, तो उसे दूर करना पहला दोषमार्जन-संस्कार है। उपयोगी बनाने के लिए उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न कर देना अतिशयाधान संस्कार है। फिर भी उपयुक्तता में कोई त्रुटि हो, तो अन्य किसी पदार्थ का सम्मिश्रण कर उस त्रुटि की पूर्ति कर देना ही 'हीनागपूत्ति' नाम का तीसरा संस्कार है। हम कह सकते हैं कि जिन-जिन पदार्थों को मनुष्य अपने उपयोग में लेता है, उन्हें संस्कार करके ही लेता है।

प्राकृत पदार्थों का उपयोग बहुत ही अल्पमात्र में किया जाता है। उदारहण के लिए, पहले अन्न को ही ले लीजिए। प्रकृति रेतों में जिस दशा में अन्न पैदा करती है, वे उसी दशा में हमारे काम में नहीं आ सकते, हम उन्हें राने लगे, तो हमारे दाँत ही पहले छिर्दे-भिद जायें और उदर की जटराग्नि भी न उसे स्वीकार करे, न पचा सके। रुचि की तो बात ही क्या, शरीर-पोषण भी उससे सम्भव नहीं। इसलिए पहले उसका दोषमार्जन सस्कार करना होता है। अनुपयुक्त वस्तु जो उसमें सम्मिलित है, उन्हें भूसी, तुप आदि के रूप में निकाल बाहर कर दिया जाता है। आगे उस दोषरहित अन्न में कुटाव, पिसाव और अग्निपाक आदि के द्वारा काम में लाने योग्य विशेषताएँ उत्पन्न की जाती हैं, यह अतिशयाधान हुआ। फिर भी रुचि के लिए मधुर, लवण, शाक आदि का सम्बन्ध भी उन अन्नो से जोड़ दिया जाता है, यह हीनागपूर्ति हुई। तीनों सस्कारों से सस्कृत होकर वे अन्न हमारे शरीर को पोषण देते हैं और हमारी रुचि बढ़ाते हैं। इसी प्रकार वस्त्र को देखिए। जो वस्त्र हम पहनते हैं, उन्हें उस स्वरूप में प्रकृति पैदा नहीं करती। प्रकृति ने पैदा किया है कपास, जो अपने स्वरूप में हमारे उपयोग में कभी नहीं आ सकता। अपने उत्पत्ति-स्थान से कुछ मिट्टी आदि का सम्बन्ध जो उसमें हो गया था, जिस वीज से पौधा बनकर वह पैदा हुआ, वह वीज भी इसके स्वरूप में सम्मिलित है। ये वस्तुएँ हमारे उपयोग में बाधा देनेवाली हैं। इसलिए, पहले दोषमार्जन-सस्कार द्वारा उन्हें निकाल बाहर किया जाता है। फिर, जो स्वच्छ रूई तैयार हुई, उसका सूत बनाना, कपडा बुनना और कोट आदि के रूप में शरीर पर धारण करने की योग्यता उसमें ला देना, यह सब 'अतिशयाधान' है। बाहरी वस्तु बटन आदि लगा देना हीनागपूर्ति है। इन तीनों प्रकार के सस्कारों से सस्कृत कर वस्त्रों को हम काम में लाते हैं।

सभी वस्तुओं की यही दशा है। लोहा जिस स्वरूप में खान से निकलता है, उसे देखकर कोई यह आशा भी नहीं कर सकता कि यह वस्तु हमारे बड़े काम की होगी, किन्तु बड़े-बड़े कारखानों द्वारा पहले जिसका दोषमार्जन होता है, उत्पत्ति-स्थान से प्राप्त मलिनता आदि को उसमें से निकाला जाता है, फिर लोहार द्वारा भिन्न-भिन्न रूप में गढ़वाकर वा तेजी के लिए धार दिलाकर 'अतिशयाधान', अर्थात् विशेषता उत्पन्न करते हैं, फिर भी उपयोग में लाने के लिए चाकू में बेट और तलवार में मूठ आदि लगाकर हीनागपूर्ति भी जब कर ली जाती है, तब वह सुसस्कृत लोहा हमारे सब प्रकार के काम में आता है। इन जड़ वस्तुओं के सस्कारों का प्रसार आज ससार में बहुत है और दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। सच पूछिए, तो यही कला-कौशल है। विभिन्न जातियों और समाजों को अभिमान होता है कि हम जैसा चाहे वैसा, उत्तम-से-उत्तम वस्त्र बना देते हैं। हमारे कारखानों में लोहे की अपूर्व वस्तुएँ तैयार हो सकती हैं, इत्यादि। किन्तु प्राचीन भारतीयों को यह भी अभिमान था कि हम मनुष्य को जैसा चाहे, वैसा बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से इनमें मनुष्यों के सस्कारों की भी योजना थी। बृहदारण्यक उपनिषद् में एक इसी विषय का प्रकरण है कि यदि कोई अपने पुत्र को भेदावी पण्डित बनाना चाहे, तो इस प्रकार का सस्कार करे। यदि वीर वा धनी बनाना

चाहे, तो इस प्रकार का, इत्यादि। इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य में उपयुक्त गुण लाकर उसे समाज के लिए पूर्ण उपयोगी बना देना ही इन संस्कारों का उद्देश्य रहा है।

मनुष्य के संस्कार भी उक्त तीन प्रकरणों में बाँटे जाते हैं—दोषमार्जन, अति-शयाधान और हीनागपूर्ति। जिस प्रकार अन्न, कपास, लोहा आदि अपने उत्पत्ति-स्थानों के दोष अपने साथ लाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी उत्पादक सामग्री वा उत्पत्ति-स्थान के दोषों से अत्यन्त दूषित रहता है। उन दोषों को हटाना पहले आवश्यक है। उसी के लिए जन्म क्या, गर्भ में आते ही उनके संस्कारों का आरम्भ हो जाता है। स्मृतिकारों ने स्पष्ट लिखा है कि इन संस्कारों के द्वारा वीज और गर्भ के दोष दूर किये जाते हैं। 'वैजिकं गाम्भिकं चैनो द्विजानामपि मृष्यते' (मनु), 'एवमेन. गम याति वीजगर्भ-समुद्भवम्' (याज्ञवल्क्य)। संस्कारों के सफल्य में भी बोला जाता है कि वीजगर्भ-समुद्भवैर्नोनिवर्हणद्वारा परमेश्वरप्रीत्यर्थमित्यादि। (एनस् गवद पाप वा दोष का वाचक है।)

यो तो संस्कारों की बहुत बड़ी संख्या भी धर्मशास्त्रों में मिलती है। गौतम-सूत्र के ८वें अध्याय में अड़तालीस संस्कार लिखे गये हैं। 'अष्टचत्वारिंशता संस्कारैः संस्कृत' इत्यादि। जैसे—(१) गर्भाधान, (२) पुसवन, (३) सीमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, (७) चौल, (८) उपनयन, (९-१२) चार वेदव्रत (१ महानाम्नी व्रत, २ उपनिषद् व्रत, ३ महाव्रत, ४ गोदान), (१३) स्नान, (१४) विवाह, (१५-१९) पंच महायज्ञ (१ ब्रह्मयज्ञ, २ देवयज्ञ, ३ पितृयज्ञ, ४ भूतयज्ञ, ५ मनुष्ययज्ञ, (२०-२६) सप्त पाकयज्ञ (१ अष्टका, २ पार्वणश्राद्ध, ३ श्रावणी, ४ आग्रहायणी, ५ चैत्री, ६ आश्वयुजी), (२७-३३) सप्त हविर्यज्ञ (१ अग्न्याधान, २ अग्निहोत्र, ३ दर्शपूर्णमास, ४ चातुर्मास्य, ५ आग्रानेष्टी, ६ विरूढ पशुबन्ध, ७ सौत्रामणि), (३४-४०) सप्त सोमयज्ञ (१ अग्निष्टोम, २ अव्यग्निष्टोम, ३ उत्थ, ४ षोडशी, ५ वाजपेय, ६ अतिरात्र, ७ अपशोर्याम), (४१) दया, (४२) क्षमा, (४३) अनसूया, (४४) गौच, (४५) अनायास, (४६) मगल, (४७) अकार्पण्य, (४८) अस्पृहा। सुमन्तु ने पच्चीस संस्कार लिखे हैं, किन्तु इनके अधिकतर अतिशयाधान रूप संस्कार हैं। उन्हें दैव संस्कार कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को देवता बना देने के उपयोगी इन अड़तालीस संस्कारों में वेद के सब यज्ञ आदि भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य में एक दैवात्मा उत्पन्न कर दिया जाता है, और वह आत्मा उसे अवश्य देवताओं में सम्मिलित कर देता है। अस्तु, यह दूर की बात है भगवान् व्यास ने अपनी स्मृति में इस युग के उपयोगी तो सोलह संस्कार लिखे हैं, जिनका नाम गौतम सूत्र के आरम्भ में आया है, जिनकी आज भी हिन्दू जाति में चर्चा है। वे भी सत्र-त्रे-सत्र तो आज समाज के बहुत अल्प अंश में प्रचलित हैं, किन्तु कुछ संस्कार सभी द्विजों में चलते हैं।

धर्म-ग्रन्थों में ये संस्कार आडम्बरशून्य वैज्ञानिक विधियों के रूप में हैं। किन्तु आज जो संस्कार प्रचलित भी हैं, उनमें बाह्याडम्बर ने अधिक स्थान ले लिया है। वैज्ञानिक विधियों पर बहुत कम ध्यान रह गया है। समय समय पर कई नेताओं ने

इनके सुव्यवस्थित रूप में पुनः प्रचार करने का उद्योग किया, जैसे श्रीत्वामी दयानन्दजीने आर्य जाति में सस्कारों के पुनः प्रचार करने की बहुत-कुछ योजना की, किन्तु समय के प्रभाव से इस अर्थ में उन नेताओं को सफलता न मिल सकी।

इन सस्कारों की शास्त्रीय पद्धति पर ध्यान दिया जाय, तो विचार से स्पष्ट भाषित होगा कि ये विधियाँ वैज्ञानिक हैं। उनमें अधिकांश का सम्बन्ध मनोविज्ञान से है। भौतिक विज्ञान के आधार पर भी बहुत-से कार्य उत्तम होते हैं। प्रत्येक अर्थ पर विचार करने के लिए तो एक बड़े ग्रन्थ की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए, इस लेख में कुछ अर्थों पर ही प्रकाश डाला जा सकता है। बालक को सामने बैठकर माता-पिता वेद मन्त्रों की सहायता से मन में यह भाव रख कि हम इसका दोषमार्जन या अतिशयाधान कर रहे हैं, तो उस मनोवृत्ति का प्रभाव मिश्र के कोमल अन्तःकरण पर अवश्य पड़ता है। यह मनोविज्ञान की बात है, जो कि सभी सस्कारों में अनुवर्तमान रहती है। इसके अतिरिक्त जैसे पुसवन और सीमन्तोन्नयन इन गर्भावस्था के सस्कारों में गर्भिणी के समक्ष वीणावादन और सुललित गायन का विधान सूत्रों में देखा जाता है। उससे भी गर्भिणी के अन्तःकरण में एक प्रकार का प्रमोद या हर्ष होना स्वाभाविक है। और, उसका प्रभाव गर्भस्थित बालक पर पड़ना मनोविज्ञान की बात है। बालक के उत्पन्न होने पर सबसे पहले जातकर्म-सस्कार में सुवर्ण का अर्थ, घृत और मधु उसे चटाने की विधि है। भौतिक विज्ञान द्वारा सिद्ध है कि ये तीनों ही पदार्थ शोधक हैं। ये दोष दूर कर एक प्रकार की शुद्धता या पवित्रता देते हैं। इसी कारण व्रत, देवपूजा आदि में सब जगह इनका प्रयोग विशेष रूप से आवृत्त हुआ है। जातमात्र बालक के अन्दर पहले ही इन पदार्थों को प्रविष्ट कराना, जहाँ शोधन की योजना करेगा, वहाँ उसके कोमल अवयवों को पुष्ट और सुदृढ बनाने में भी सहायता देगा। आगे नामकरण-सस्कार में किसका कैसा नाम रखा जाय, इसकी व्यवस्था होती है। शास्त्रों ने विधान किया है कि सामाजिक व्यवस्था भी वर्ण-विभाग के अनुसार, जिससे जैसा काम लेने की आगे व्यवस्था होगी, तदनुकूल ही पहले से उसका नाम रखना चाहिए। जैसा कि ब्राह्मण के नाम में मंगल या विद्या का सम्बन्ध हो। क्षत्रिय के नाम में वीरोचित प्रभाव प्रतीत होता हो और वैश्य के नाम में धन-समृद्धि की बात आती हो। जब ऐसे नामों से वह अपने जीवन में बार-बार सम्बोधित होगा, तो उन शब्दों द्वारा उन गुणों पर उसका चित्त निरन्तर आकृष्ट होता रहेगा और उसका प्रभाव बार-बार चित्तपर पड़ने से उन गुणों की समृद्धि या उज्ज्वलता उसमें होती रहेगी। यह भी मनोविज्ञान का विषय है। स्त्रियों के नाम ऐसे होने चाहिए, जिनके उच्चारण में वर्णों की कठिनता का अनुभव न हो, जिनमें क्रूरता का भाव बिलकुल न हो और अन्त में दीर्घ वर्ण आवे—जैसे सुसगता, यशोदा आदि। यह मानी हुई बात है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक मृदुता होती है। उस कोमलता का आभास उनके नामों से ही मिल जाना चाहिए और परस्पर व्यवहार में उसका बार-बार स्मरण होने पर वह मृदुता स्थिर रहेगी।

आगे अन्नप्राशन में भी जैसा स्वभाव बनता है, उसके उपयुक्त ही अन्न आरम्भ में खिलाने का विधान है, जो स्पष्ट ही पदार्थ-विज्ञान से सम्बन्ध रखता है।

आगे चूड़ाकरण वा मुण्डन संस्कार का समय आता है। हमारे शरीर के सब अणुओं में एक प्रकार की शरीराग्नि निरन्तर भ्रमण करती रहती है, और वही उन अणुओं का शोधन करती है, किन्तु वेग और नत्त उस अग्नि की व्याप्ति से बाहर निकल जाते हैं। इसका स्पष्ट ही प्रमाण है कि वेगों वा नत्तों का छेदन करने पर भी कोई व्रण नहीं होता। इसी कारण उनके दोषों का शोधन शरीराग्नि नहीं करती। उनके दोष तो तभी दूर हो सकते हैं जब उनका छेदन कर दिया जाय वा अग पर से उसे हटा दिया जाय। यही दोषमार्जन मुण्डन-संस्कार का लक्ष्य है। साथ ही, उसमें ऐसी वस्तुओं का लेपन मस्तक पर करताया गया है, जिससे उस कोमल मस्तक में कोई व्रण भी न होने पावे, और वेगों के स्थान की पवित्रता भी हो जाय। मन्त्रपूर्वक हवन का भी इस संस्कार से ही आरम्भ हो जाता है, जो कि बाह्य शुद्धि और भीतर की शुद्धि का भी एकमात्र उपाय है। इस संस्कार में अन्य वेगों को हटाकर एक शिरसा रज्जु दी जाती है। यह शिरसा हिन्दू जाति का एक विशेष चिह्न माना गया है। इसका वैज्ञानिक तत्त्व यह है कि ब्रह्मरन्ध्र के ठीक ऊपर शिरसा रखी जाती है। सूर्य का प्राण ब्रह्मरन्ध्र के द्वारा ही हमारे भीतर आता रहता है और भीतर के प्राण उसी रन्ध्र से सूर्य की ओर जाते रहते हैं। यह आवागमन-प्रक्रिया वेद-विज्ञान के प्रकरण में स्पष्ट की जा चुकी है। हमने कर्म या उपासना के द्वारा अन्तःकरण में जो अतिशय उत्पन्न किया, वह यदि सूर्य के आकर्षण से सूर्य में चला जाय, तो हमारे पास कुछ न रहेगा और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जायगा। वेग विद्युत्-शक्ति को रोकनेवाले हैं। वह वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध है। अतएव, कर्म या उपासना के समय ब्रह्मन्ध्र शिरसा ब्रह्मरन्ध्र पर स्थापित रहने से हमारा अतिशय निकल कर बाहर न जा सकेगा तथा अतिशय द्वारा हम कृतकार्य होंगे।

अथ वटे संस्कार—यज्ञोपवीत और विवाह का अवसर आता है। यज्ञोपवीत संस्कार दोष मार्जन भी करता है और अतिशयवान भी। विद्या पढ़ने का आरम्भ इसी संस्कार के अनन्तर होता है, इसलिए बुद्धि को पहले से सात्त्विक विद्या के प्रवेग के लिए विकसित कर देना और स्मरण-शक्ति को बढा देना वा दृढ करना आवश्यक है। वह काम इस संस्कार के द्वारा किया जाता है। इसमें सूर्य के उपस्थान, अर्थात् आराधना की प्रधानता रखी गई है। हमारे शास्त्रों का सिद्धान्त है कि बुद्धि सूर्य का ही एक अणु है। इसकी पुष्टि (विकास) सूर्य की आराधना से ही हो सकती है। अग्नि-हवन आदि तो इस संस्कार में प्रधान हैं ही, जो कि बुद्धि को विग्रह रूप से परिमार्जित करते हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त पलाश का उपयोग इस संस्कार में विशेष रूप से माना गया है। पलाश का ही दण्ड हाथ में रहता है। पलाश की ही समिधाओं का हवन है। भोज्यादि पदार्थ रखने के लिए पलाश के ही पत्ते हैं, आदि आदि। वस्तु-विज्ञान के आधार पर शास्त्रों का निश्चय है कि पलाश स्मरण-शक्ति बढ़ाने वा दृढ करने में बहुत सहायता देता है। पलाश की शाखा का बार-बार सेचन करना यज्ञोपवीत के समय वा उसके अनन्तर आवश्यक माना गया है। साथ ही ब्रह्मन्ध्र की रक्षा के उपयोगी मूँज आदि का भी उपयोग इस संस्कार में है। ये सब पदार्थ-विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली बातें हैं। जिस प्रकार का यज्ञसूत्र वा यज्ञोपवीत जिस वटु को पहनाया जाता है,

उसमें भी बडा रहस्य है। भारतीय सभ्यता के अनुगार उसको वेद का अन्वयन करना है। वेद परब्रह्म वा ईश्वर का प्रधान रूप से वर्णन करता है। ईश्वर ने सृष्टि किम प्रकार की, इसका विवरण अति सक्षेप में इस प्रकार है कि ईश्वर ने तेज, अप् (जल) और अन्न (पृथ्वी) इन तीनों तत्त्वों को सद्म रूप में उत्पन्न किया, किन्तु ये पृथक् पृथक् रहकर जब आगे सृष्टि बनाने में समर्थ न हो सके, तब तीनों को आपस में मिलाकर प्रत्येक को त्रिवृत्त (तीन लट) कर दिया, और उनमें शक्ति-रूप से स्वयं प्रविष्ट हुआ। वस, इसी तत्त्व का एक नमूना यज्ञोपवीत के रूप में बनाया जाता है। पहले तीन जगह तीन तीन धागे रखकर उन तीनों को बाँटकर तीन तीन का एक-एक बना लेते हैं, और उन तीनों को इकट्ठा कर उनमें ईश्वर की स्थिति का संकेत देने की एक ब्रह्मग्रन्थि लगा देते हैं—यह नमूना सदा गले में पडा रहने से निरन्तर उस बटु का ध्यान ईश्वर की सृष्टि-रचना पर जाता रहेगा और वेद-विद्या के सीखने में उससे शीघ्र कृतकार्य होगा।

विवाह-संस्कार भी अतिशयाधान-रूप है, वह स्त्री में दूसरे कुल से सम्बद्ध होने का अतिशय उत्पन्न करता और स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर एकरूप बना देने के कारण वह हीनागपूर्ति भी करता है, जिससे एकरूपता प्राप्त कर दोनों पति-पत्नी गृहस्थाश्रम चलाने योग्य सस्थान उत्पन्न करने और यज्ञ-यागादि सम्पादित करने के उपयोगी बन जाते हैं। पत्नी के देह, प्राण, मन आदि का दृढ सम्बन्ध पति के देह, प्राण, मन से जोड़ देना ही इस संस्कार का लक्ष्य है, जिसकी विधियाँ भी बहुत वैज्ञानिक हैं।

परस्पर योग-निर्माण में और उसको दृढ करने में जिन जल और अग्नि की शक्ति मानी जाती है, उनका उपयोग विवाह-संस्कार में पूर्ण रूप से किया जाता है। एक-दूसरे से परस्पर हाथ मिलाने से परस्पर की विद्युत् का संयोग होता है, यह भी विज्ञान-सिद्ध है। अतः, वर वधू का पाणि-ग्रहण करता है और वधू का पिता उस समय उन दोनों के मिले हुए हाथों पर जल-प्रक्षेप करता है। इससे दोनों विद्युत् का संश्लेषण कर अग्नि हवन के द्वारा उसे दृढ कर दिया जाता है। विवाह में जो मन्त्र पढे जाते हैं, उनका भी अर्थ यही है कि इन दोनों के मन, प्राण, बुद्धि आदि सम्मिलित होकर एक हो जायें। यह मन की भावना भी अन्तःकरण के परस्पर संश्लेषण में बहुत बडा काम देती है। इसी आधार पर वैदिक मन्त्रों में माना गया है कि वधू का संश्लेष अपने गोत्र से हटकर वर के साथ जुड़ जाता है और उस दिन वह वर के गोत्र की ही बन जाती है। इन बातों से सिद्ध है कि अन्यान्य जातियों की तरह भारतीयों का विवाह केवल मनमाना सम्बन्ध नहीं, किन्तु एक वैज्ञानिक दृढ सम्बन्ध है, जो जन्मान्तर तक भी बना रहता है।

आचारों की वैज्ञानिकता

अन्यान्य देशों में धर्म और विज्ञान प्रायः परस्पर विरुद्ध माने जाते हैं। वैज्ञानिकों और धार्मिकों के परस्पर सङ्घर्ष के उदाहरण भी उनके इतिहासों में बहुत मिलते हैं। उनके धर्म-ग्रन्थों में तो यहाँ तक मिलता है कि शैतान की प्रेरणा से आदम ने ज्ञान-

वृक्ष के फल खा लिये, इसलिए वह वहाँ से वहिष्कृत कर दिया गया। ऐसी कथाएँ यही सूचित करती हैं कि मनुष्य को ज्ञान-विज्ञान की ओर बढ़ने से धार्मिक ग्रन्थ सदा मना करते रहे हैं। किन्तु, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे सर्वश्रेष्ठ धर्मप्रवक्ता भगवान् मनु ने स्पष्ट घोषणा की है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञान में अग्रसर होता जाता है, वैसे ही वैसे उसकी ज्ञान में रुचि बढ़ती जाती है, और वही दृष्ट धार्मिक हो सकता है। धर्मोपदेश को जो मनुष्य तर्कबल से भी समझ लेता है, वही धर्म का पूर्ण विज्ञाता होता है। यह हमारे धर्मग्रन्थों का डिष्टिम-घोष है। भारत के इतिहास में वैज्ञानिकों या दार्शनिकों का धार्मिकों के साथ कभी संघर्ष हुआ हो, ऐसा कहीं नहीं मिलता। दर्शन ही हमारे विज्ञान है, और वे ही धर्म के मूल हैं। धर्मशास्त्र-प्रवक्ताओं ने भी इसीलिए दार्शनिक विषयों को ग्रन्थों में स्थान दिया है। भगवान् मनु ने आरम्भ के प्रथमाध्याय में और उपसंहार के बारहवें अध्याय में दोनों जगह दार्शनिक विवेचन किया है। इससे उन्होंने स्पष्ट बतला दिया कि धर्म का मूल तत्त्व दर्शन-ज्ञान है। याज्ञवल्क्य भगवान् ने भी यति-धर्म-प्रकरण में पूर्ण दार्शनिक विवेचन किया है।

अन्यान्य देशों के साथ भारत की इस विषमता का कारण यही है कि दूसरे देशों में धार्मिक नियम किसी प्रतिष्ठाप्राप्त विवेचक विद्वान् के द्वारा सघटित हुए हैं। किन्तु भारत के धार्मिक नियम मनुष्य-बुद्धि द्वारा प्रसृत नहीं। वे प्रकृति के शाश्वत नियमों के आधार पर सघटित हैं। अतएव हमारे यहाँ धार्मिक नियमों को 'ईश्वरीय नियम' समझा और कहा जाता है। प्रकृति के परिचालक का नाम ही ईश्वर है, अतः प्राकृतिक नियम वृद्धे, चाहे ईश्वरीय नियम, वात एक ही होती है। हमारे छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े जिन-जिन नियमों की आधुनिक विज्ञान ने परीक्षा की, उन्हें अपनी परीक्षा में भी उत्तीर्ण ही पाया। प्राकृतिक या वैज्ञानिक होने के कारण ही भारतीय धार्मिक नियमों में परिवर्तन का कोई स्थान नहीं। मनुष्य बुद्धि द्वारा सघटित नियमों का परिवर्तन दूसरे मनुष्य की बुद्धि कर सकती है, किन्तु ईश्वरीय प्रकृति के द्वारा सघटित नियमों का परिवर्तन मनुष्य के द्वारा असंभव है। ऐसा परिवर्तन तो तभी कर सकता है, जब वह स्वयं ईश्वरीय बन जाय। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर भी अपने नियमों को बदलता नहीं। यदि बदल दे, तो उसमें अज्ञानता सिद्ध हो जाय। पहले कोई काम भूल से कर दिया जाय, तब उसका परिवर्तन समझ लेने पर, होता है। किन्तु जो सदा ही सर्वज्ञ है, उससे भूल कैसे हो और परिवर्तन का स्थान ही कैसे प्राप्त हो ? इसके एक-दो उदाहरण देना यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा। हमारे यहाँ का एक सामान्य नियम है कि सन्ध्या-पूजा आदि के समय हम कुशा, ऊर्णवस्त्र और रेशमी वस्त्र को पवित्र मानते हैं। इनका ही आसन रखते हैं और शरीर पर ओटने की आवश्यकता हो, तो भी ऊर्णा व रेशम का वस्त्र ही लेते हैं। भगवद्गीता में आसन के लिए आज्ञा है—'चैलाजिनकुशोत्तरम्।' अर्थात् कुश, मृगचर्म या ऊन का वस्त्र और रेशम का वस्त्र, ये व्रम से उपर रखे जाने चाहिए। साथ ही यह भी नियम है कि आवृत (आच्छादित) स्थान में बैठकर ही पूजा आदि करनी चाहिए, खुले अन्तरिक्ष में नहीं। वर्तमान विज्ञान की परीक्षा द्वारा सिद्ध हो गया है कि उक्त तीनों वस्तुएँ ऐसी हैं,

जिनमें होकर विद्युच्चक्ति (Electricity) प्रसृत नहीं होती। इससे स्पष्ट आशय समझ में आ जाता है कि जप, पूजा आदि के द्वारा अन्तःकरण में संचित हमारी शक्ति को पृथिवी अपने आकर्षण-बल से खींच न ले, इसलिए ऐसी वस्तुएँ बीच में डे दी जाती हैं, जिनमें होकर विजली के आकर्षण का प्रभाव ही न पट सके। साथ ही सूर्य मण्डल के द्वारा आकर्षण न हो जाय, इसलिए आवृत स्थान का आवृत्त किया जाता है, जहाँ कि सूर्य का आकर्षण बहुत मन्द गति से होता है। अब इन नियमों का कोई परिवर्तन करना चाहे, तो वह तभी सकता है, जब पृथ्वी या सूर्य में से आकर्षण-शक्ति में भी विद्युत् की शक्ति प्रवाहित करने की योग्यता उत्पन्न कर दी जाय। ऐसा परिवर्तन यदि मनुष्य-शक्ति के बाहर है, तो इन नियमों का परिवर्तन भी मनुष्य के द्वारा कैसे किया जा सकता है ? गोमय के उपलेपन की भी यही स्थिति है। उसकी भी वैज्ञानिक परीक्षा हो चुकी है।

दूसरा उदाहरण भी देखिए। पूजा आदि प्रत्येक कार्य को आरम्भ करने से पहले हमारे यहाँ आचमन करने का नियम है। इस पर 'शतपथ-ब्राह्मण' के आरम्भ में ही प्रश्न उठाया गया है कि 'यज्ञ-कर्म के आरम्भ में आचमन क्यों किया जाय ?' दो कारण बतलाकर वहाँ इसका उत्तर दिया है। जल का स्वभाव है कि वह मलिनता को धो देता है, और दो वस्तुओं को आपस में संयुक्त कर देता है। या यों कहिए कि एक प्रकार का चप उत्पन्न कर देता है, इसलिए जल को पवित्र और मेध्य कहा जाता है। पवित्र शब्द का अर्थ है 'शोधन करनेवाला' और मेध्य शब्द का अर्थ है 'परस्पर योग की शक्ति पैदा करनेवाला'। यहाँ दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। मनुष्य समय-समय पर झूठ बोल देता है, इसलिए उसके अन्तःकरण में मलिनता आ जाती है। मन, वाणी और कर्म का एक क्रम में रहना ही शुद्धता है। झूठ बोलने से यह क्रम विगड़ जाता है, क्योंकि मन में कुछ और ही है, वाणी से कुछ और ही निकलता है और क्रिया कुछ और ही होती है। इन तीनों का क्रम विगड़ना ही एक प्रकार का मैल है। इसलिए झूठ बोलने से अन्तःकरण में मलिनता आ जाती है। इसी प्रकार, अन्यान्य बुरे विचारों से भी उन बुरे विषयों का प्रतिविम्ब पड़कर मलिनता आती है। उस मलिनता को धो डालने की आवश्यकता है और यज्ञ, पूजा आदि के द्वारा जो नये संस्कार उत्पन्न करने हैं, वे अन्तःकरण में दृढ़ता से चिपक जायँ, इसकी भी आवश्यकता है, इसलिए आचमन सब कर्मों के आरम्भ में आवश्यक माना जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई भी बुरा काम करके हम जल पी लिया करें, तो यह पाप की मलिनता हमारी दूर हो जाय। बुद्धिपूर्वक जो काम किया जायगा, उसका संस्कार तो बुद्धि में दृढ़ता से बैठेगा। वह केवल जल से दूर नहीं हो सकता। उसके लिए तो प्रायश्चित्त-स्वरूप विस्तृत कर्म करने की आवश्यकता होती है। जैसे, वस्त्र या पात्र में यदि अधिक मल लग जाय, तो वह केवल जल से दूर नहीं होता, उसे हटाना हो, तो मलशोधक रीठा, क्षार, साबुन आदि से रगड़ने की आवश्यकता होती है। किन्तु अज्ञान-वश बहुत बार इच्छा न रहते हुए भी हमारे मुख से झूठ बात निकल जाती है। श्रुति में स्पष्ट लिखा है कि कौन मनुष्य सदा सत्य बोलने का दावा कर सकता है। मनुष्य का

ज्ञान ही परिमित है। वह कई जगह असली बात को न समझकर उल्टा समझ जाता है, तब उस अमत्य को यह कैसे बचा सकता है ? बस, ऐसी अनिच्छापूर्वक अज्ञात दशा में होनेवाले असत्य आदि दुष्कर्मों से जो अत्य मल आता है, वह आचमनादि द्वारा दूर कर दिया जाता है। साथ ही आचमन गंगा, विष्णु आदि के स्मरणपूर्वक मन्त्र से किया जाता है, इसलिए मन वाणी और वस्तु तीनों की शक्ति मिलकर हमारे अभीप्सित को सिद्ध करती है। केवल जल पी लेने से यह काम नहीं हो सकता। आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान केवल वस्तु-शक्ति का दिग्दर्शन करा सकता है। जल पीने से मन की उथल-पुथल दूर होकर शान्ति प्राप्त होना अनुभवसिद्ध है, और सबसे मल के प्रदान उत्पादक क्रोध की शान्ति तो जल से तुरत होती है।

वाक् और मन की शक्ति में अभी उसका प्रवेग नहीं। इसलिए हमारे धार्मिक नियमों का आशिक समर्थन ही विज्ञान के द्वारा हो सका है। सत्कार आदि की प्रत्येक क्रिया हमारे यहाँ वाक्शक्ति, मन शक्ति, और वस्तुशक्ति तीनों पर अवलम्बित है, इसलिए आधुनिक विज्ञान धार्मिक नियमों का पूरा पता देने में अभी अपर्याप्त है। किन्तु वस्तुशक्ति का जितना पता वह दे सकता है, उससे उतने अग्र में हमारे धार्मिक नियमों का समर्थन हो जाता है। हमारा विज्ञान तो तीनों शक्तियों को मिलाकर ही चलता है। मन, प्राण और वाक् तीनों मिलकर ही आत्मा के सहचर है। इसलिए तीनों की ही प्रवणता धार्मिक कार्यों में आवश्यक है। इसी गम्भीर विज्ञान के आधार पर धार्मिक नियमों का पूरा समर्थन होता है और इस विज्ञान का अभाव होने के कारण ही आजकल प्रत्येक बात में मनुष्यों को शका होती है। शका निराकरण का एक ही उपाय है कि भारतीय विज्ञान का मनन हो, इसका प्रसार हो, इसकी परिभाषाएँ समझी जायँ, तब फिर शका का कोई स्थान नहीं रह जायगा। हमारे दर्शन-शास्त्रों का विज्ञान इसी प्रकार का है, जिसमें मन, वाक् और वस्तु, तीनों की शक्तियों का सम्मिश्रण है। उस विज्ञान से धर्म का अद्वैत सम्बन्ध है, और उस सम्बन्ध को जानने पर ही सब शकाएँ दूर हो सकती हैं।

व्रत, उपवास आदि

इस आचमन के विधान के अनन्तर ही व्रतपथ-ब्राह्मण में व्रतोपवास का प्रसंग उठाया गया है। इसकी उपपत्ति वहाँ यों की गई है कि यज्ञ-रूप दर्शपूर्णमासेष्टि प्रतिपदा को होती है। किन्तु उसके लिए तैयारी अमावास्या वा पूर्णिमा को ही आरम्भ कर दी जाती है। इस पर श्रुति ने विचार किया है कि देवता मनुष्य के मन की बात जानते हैं। जब उसने मन में इष्टि करने का सकल्प किया, तब उसका भाव जानकर देवता उसके अन्तःकरण में आ विराजते हैं। गृहस्थ का कर्त्तव्य है कि यदि कोई अतिथि अपने यहाँ आया हो, तो बिना उसे भोजन कराये स्वयं भोजन न करे। देवताओं को उस दिन—अमावास्या वा पूर्णिमा को भोजन कराना, अर्थात् उनके लिए आहुति देना विधिसिद्ध नहीं। क्योंकि, होम का विधान वेद में प्रतिपदा को है। तब क्या किया जाय ? बिना अतिथियों को भोजन कराये कैसे भोजन

किया जाय । इसका उपाय यही है कि स्वयं यजमान भी अमावास्या और पूर्णिमा को भोजन न करे, और यदि भोजन न करने से कोई त्रुटि की सम्भावना हो, तो ऐसी वस्तु खाय, जिसे देवता न खाते हों । इससे अतिथि रूप देवताओं की अवज्ञा न होगी । अतिथि जिस वस्तु को न खाता हो, उस वस्तु को यदि हम उसके सामने खा लें, तो इससे उसकी अवज्ञा नहीं हो सकती । क्योंकि, वह स्वयं खाना चाहता ही नहीं है, तब अवज्ञा कैसी ? देवताओं को सोमप्रधान चावल आदि अन्न और घृत, दुग्ध आदि प्रिय है, इसलिए उन वस्तुओं को छोटकर अरण्य में पैदा हुए श्यामाक (सामा), निवाट, शृङ्गारक (सिगाडा) वा फल आदि खा लेना चाहिए । क्योंकि, फल आग्नेय होने के कारण देवताओं को प्रिय नहीं है ।

इसी आधार पर भारतीयों में आज भी व्रत, उपवास आदि की व्यवस्था चलती है । वहाँ भी लक्ष्य यही रहता है कि जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि को जब हमें शिव, विष्णु आदि की पूजा रात्रि में करनी होती है, तब दिन में ही उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और मन में सकल्प का उदय होते ही भगवान् मन में आ विराजते हैं, तब उनकी पूजा से पहले अपने-आप भोजन नहीं किया जा सकता । उपवास शब्द का अर्थ भी यही है कि हमारे 'उप' अर्थात् समीप में ईश्वर वा देवताओं का वास हो गया है, इसलिए हमारा भोजन करना उचित नहीं । यदि पूर्ण उपवास की शक्ति न हो, तो फलाहार की जो सामग्री बचाई गई है, उसका उपयोग कर लेना चाहिए । इस प्रकार यह व्रतोपवास आज भारतीय सस्कृति के जो प्रधान अंग बने हुए है, उसका कारण इनकी वेदमूलकता ही है ।

अन्य प्रकार के भी व्रत, उपवास आदि धर्मशास्त्रों में बताये गये हैं कि किसी प्रकार का पाप यदि अज्ञान वा प्रमाद से हो जाय, तो उसे दूर करने के लिए प्रायश्चित्त-रूप से व्रत वा उपवास करना चाहिए । (एक बार भोजन वा फलाहार आदि के नियम को व्रत कहते हैं और आहारमात्र को सर्वथा छोड़ देने को उपवास कहा जाता है ।) हमारे उदर की वैश्वानर अग्नि अपने लिए अन्न चाहती है, यदि उसे अन्न न मिलेगा, तो वह सोमप्रधान मन पर अपनी शक्ति लगावेगी और इस प्रकार मन में स्थित पाप आदि उसके आक्रमण से जल जायेंगे । तीसरा एक यह भी कारण होता है कि चंचलता के कारण मन पूजा आदि के कार्य में स्थिर नहीं होता । यदि भोजन के अभाव में उसमें कुछ दुर्बलता आ जायगी, तो उसे स्थिर करने में सहायता मिलेगी । मन की अन्नमयता भी वेद ने ही बताई है । इस प्रकार, व्रतोपवासों में वेदमूलक ही सिद्ध होते हैं । दस इन्द्रियों और मन इस एकादशी को वश करने का स्मरण कराने के लिए एकादशी व्रत का भी भारतीय सस्कृति में बहुत बड़ा महत्त्व है । अन्न न लेने से मन और इन्द्रियों में दुर्बलता आती है और उन्हें वश करना आसान होता है, यह कहा जा चुका है । इनकी पुष्टि के लिए ही अन्न ग्रहण न करना, अपितु यज्ञार्थ अन्न प्रसाद-रूप से लेना यह बोधन करने को उस दिन अन्न-ग्रहण का निषेध भी विशेष रूप से किया गया है । तीर्थों की वेदमूलकता गंगा के प्रकरण में दिखाई जा चुकी है । पवित्र जल वा पवित्र भू-भाग ही तीर्थ माने जाते हैं । आज भारतीय

संस्कृति में इन ऋत तीर्थादि की ही प्रचुरता देखी जाती है, और ये भी वेदमूलक हैं। इसलिए, सिद्ध हो जाता है कि भारतीय संस्कृति का मूल वेद ही है।

पर्व और उत्सव

इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के पर्वोत्सवादि भी विज्ञानमूलक हैं। प्रति अमावास्या और पूर्णिमा को पर्व माना जाता है। सूर्य और चन्द्रमा के सम्बन्ध की स्थिति इन दोनों दिनों में बदलती है। दो के मध्य में जो विभाजक भाग होता है, उसे ही पर्व कहते हैं। इन दिनों वेद में यज्ञ का भी विधान किया गया था, जिसे दर्श-पौर्णमासेष्टि कहा करते हैं। आज भी इन दिनों में पूजा, दान, स्नान आदि का विशेष महत्त्व माना जाता है। भारत में वर्णानुक्रम से चार पर्व प्रधान माने जाते हैं—उपाकर्म (रक्षावन्धन), विजयादशमी, दीपावली और होलिका।

उपाकर्म

उपाकर्म तो शुद्ध वैदिक ही है, जैसे वर्तमान में ग्रीष्मावकाश के अनन्तर विद्यालयों में अध्ययन-सत्र का आरम्भ होता है, उसी प्रकार पुराकाल में श्रावण-शुक्ल पूर्णिमा वेदाध्ययन-सत्र की आरम्भ-तिथि नियत थी। उस दिन से प्रारम्भ कर साढ़े पाँच महीनों तक नित्य वेदाध्ययन होता था और पौष की अष्टमी के अनन्तर शुद्धपक्ष में वेद और कृष्णपक्ष में वेदांग पढ़े जाते थे। इस आरम्भ के दिन चित्त और शरीर की शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की अपामार्ग, दूर्वा (दूब) आदि ओषधियों से स्नान का विधान है। गोमय, भस्म आदि शुद्ध पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। इनसे शरीर और अन्तःकरण की शुद्धि कर वेदाध्ययन और अध्यापन में गिष्य और गुरु प्रवृत्त होते हैं। जब ओषधियाँ उत्पन्न हो जायँ और वर्षा से ग्रीष्म का आतप शान्त हो जाय, तभी इसका विधान है। रक्षावन्धन भी इस दिन बड़े महत्त्व की वस्तु है। इससे गुरु, गिष्य, भ्राता, भगिनी आदि का सम्बन्ध दृढ किया जाता है।

नवरात्र और विजयादशमी

दूसरा उत्सव आश्विन शुद्ध की विजयादशमी है। कई एक विवेचक विद्वानों का कथन है कि यह ससार एक रणक्षेत्र है, प्रत्येक जीव को ससार में दूसरे जीवों से सवर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे रणक्षेत्र (मैदाने जग) कहना युक्ति-युक्त होता है। जीव ससार में क्या आता है, मानो एक रणक्षेत्र में उतरता है। इस रणक्षेत्र में यद्यपि प्रत्येक जीव विजय चाहता है, हर एक की यह इच्छा रहती है कि मैं ही उन्नति की दौड़ में सबसे आगे रहूँ, किसी से एक अगुल पीछे रहना कोई नहीं चाहता, सभी उत्सुक हैं कि विजय-श्री हमें ही वरमाला पहनाये, किन्तु इच्छा-मात्र रखने से विजय-श्री किसी को नहीं मिलती। विजय मिलना शक्ति पर अवलम्बित है, जिसमें जितनी शक्ति होगी, उतने ही दर्जें तक वह ससार-क्षेत्र में विजयी होगा। इस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए किसी युक्ति-प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यह ससार में प्रति क्षण प्रत्यक्ष देखा जाता है। विशाल वृक्ष छोटे-छोटे पौधों की खुराक छीनकर अपना विस्तार फैलाते हैं, बड़े जल-जन्तु छोटे को निगलकर अपना स्वरूप बढ़ाते हैं, सबल पशु

निर्बली को अपने सामने खाने तक नहीं देता, शक्तिशाली उल्ट् अपने से अल्पशक्ति कौओ के घोंसले तोड़-मरोड़कर पक देता है। कहीं तक कटे, जहाँ शक्ति है, वहाँ विजय है, यह दृश्य चारों ओर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इमीलिए हमारे ज्ञान्त्रो ने पहले नवरात्र में शक्ति की उपासना करने के अनन्तर दशमी को विजय का उत्सव मनाने की शिक्षा दी है, शक्त्युपासना और विजय का घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया है।

हमारे शास्त्र इस जगत् को दो प्रकार के भाव से देखते हैं—व्यष्टि-रूप से और समष्टि-रूप से। व्यष्टि, अर्थात् अलग-अलग और समष्टि, अर्थात् समूह, समुदाय। प्रत्येक जीव या जट अपनी पृथक्-पृथक् रहने की दशा में एक-एक व्यष्टि है, किन्तु जहाँ यह पृथक्त्व मिटकर एकरूपता भासित होती है, वह समष्टि है। व्यष्टि जीव उपासक है, और समष्टि जगन्नियन्ता परमात्मा उपास्य। कहीं व्यष्टि से समष्टि बनती है और कहीं समष्टि से व्यष्टि की रचना आरम्भ होती है। एक-एक वृक्ष मिलकर वन बन गया। यह व्यष्टि से समष्टि की उत्पत्ति कही जाती है। किन्तु एक अग्नि की ज्वाला से विस्फुल्लिङ्ग (छोटे-छोटे अग्निकण) अलग-अलग निकल पड़े, वा एक मेघ से जल बरसकर पृथक्-पृथक् जल के स्रोत बन गये, वा एक अनन्त आकाश से पृथक्-पृथक् मठाकाश, गृहाकाश, घटाकाश बन गये, यह सब समष्टि से व्यष्टि का विकास है। ईश्वर से जगत् की उत्पत्ति इस दूसरे प्रकार में आती है। इसलिए यहाँ यो समझना होगा कि जगन्नियन्ता जगदीश्वर एक शक्तिधन है। वह अनन्त शक्तियों का भाण्डार है। उसी सर्वशक्तिमान् से अल्प मात्रा में व्यष्टि-जीवों को शक्ति मिली है। अब भी जीव यदि अपनी शक्ति-मात्रा को बढ़ाना चाहे, अल्पशक्ति से महाशक्ति बनना चाहे, तो उसका एकमात्र उपाय परमात्मा की उपासना ही है। स्वतः कोई जीव शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु शक्तिधन की उपासना से वह अनन्तशक्ति बन सकता है। यही आर्यों का दृढ सिद्धान्त है। यह विषय पहले कहा जा चुका है।

उपासना शब्द का अर्थ है—उप = समीप में आसना = स्थिति, अर्थात् अपने मन को किसी एकरूप में स्थिर करना या स्थिर करने का अभ्यास करना। मन की यह शक्ति है कि जिसमें मन लगाया जाता है उसके गुण-धर्मों को वह अपने में लेता रहता है। स्थिर हो जाने पर तो फिर यह न केवल स्वयं तदाकार हो जाता है, वरन् अपने अनुयायी शरीर, इन्द्रिय आदि को भी तदाकार बना देता है। इसके लिए शास्त्रो में एक 'कीटभ्रमर-न्याय' बताया जाता है। 'तिलचट्टा' नाम के एक विशेष प्रकार के कीड़े को पकड़कर भौरा अपने घर में ले जाता है, फिर उनके हाथ-पैर तोड़कर उस पर चारों ओर 'भो'-'भो' करता मँडराता रहता है। भयवश उस कीड़े की चित्तवृत्ति एकदम भ्रमराकार हो जाती है, और कुछ समय में वह भौरा ही बन जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है। अस्तु, तात्पर्य यह है कि जिस पर मन स्थिर हो, उसके धर्म को ग्रहण करना मन का स्वभाव है। अतएव अनन्त शक्तियों का आविर्भाव हो जाना असम्भव बात नहीं। इसी मनोविज्ञान के आधार पर भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि, अनन्त शक्तियों प्राप्त करते थे। योग-दर्शन में इन्हीं शक्तियों का 'विभूति' रूप से विस्तृत वर्णन मिलता है। स्मरण रहे कि 'ध्यानयोग' और 'उपासना' एक ही वस्तु है। आरम्भ में कुछ प्रकार-

भेद भले ही हो, उद्देश्य दोनों का एक है। यह प्राचीन भारत की खाम बिना थी, अतएव दूसरे देशों ने इसका आभास मात्र ही प्राप्त किया है। दूसरे देशों में अभी तक योगविद्या का जो कुछ अग्र गया है, वह खेल-तमाशों के उपयोग में आता है, किन्तु भारतीय इसे दृढ़ विज्ञान का रूप देकर इससे मंत्र प्रकार की मफलता प्राप्त कर चुके थे।

शक्ति और शक्तिमान् इन दोनों में भेद नहीं होता। विना शक्तिमान् के निराधार शक्ति नहीं रह सकती, और विना शक्ति के शक्तिमान् का कोई रूप नहीं समझा जा सकता है? जिस किसी पदार्थ के सम्बन्ध में जो कुछ हम जानते हैं, वह उसकी शक्ति ही को तो जानते हैं। अमुक पदार्थ काला है, पीला है, ठोस है, तीखा है, अमुक मनुष्य बुद्धिमान् है, वीर है, साहसी है, वह सब शक्तियों का ही विकास है। सब शक्तियों को एक तरफ निकालकर शुद्ध पदार्थ का कोई रूप समझ में ही कभी नहीं आ सकता। ईश्वर को भी जब कभी हम समझने की कोशिश करते हैं, तब उसकी भी शक्तियों द्वारा ही करते हैं। ईश्वर जगत् का बनानेवाला है, वह जगत् का पालन-कर्त्ता है, भक्तों का रक्षक है, दुष्टों का सहारक है इत्यादि रूप से ईश्वर को समझा जाता है। जगत् की रचना, पालन, रक्षा, सहार यह सब शक्तियों का ही विकास है। इसलिए शक्ति को छोड़कर ईश्वर का रूप भी अविज्ञेय (जानने के अयोग्य) हो जाता है। वह किसी प्रकार मन में नहीं आ सकता। विना मन में आये उपासना हो नहीं सकती। इसलिए ईश्वरोपासना शक्त्युपासना से सबलित है, इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी ईश्वरोपासक हैं। वे सर्वशक्तिमान् कहकर ही ईश्वर की उपासना करते हैं। केवल नाम में शक्ति का समन्वय रखते हैं, ऐसा ही नहीं, किन्तु रूप में भी नारायण के साथ लक्ष्मी, कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती और गणेश के साथ ऋद्धि-सिद्धि रखकर शक्ति और शक्तिमान् के नित्य सम्बन्ध की स्पष्ट घोषणा करते हैं। अब यह उपासकों की रचि का भेद है कि कोई शक्तिमान् को प्रधान रखकर शक्ति को उसके आश्रित मानकर उपासना करते हैं, और कोई शक्ति को ही प्रधान रूप से अपना उपास्य बना लेते हैं। लोक में भी कहावत प्रसिद्ध है कि 'राजा को क्या मानना है, राजा तो हम जैसा ही हाथ, पैर, नाक, कानवाला है, राजा की शक्ति का सम्मान है' इत्यादि। इसी प्रकार, ईश्वर के सम्बन्ध में भी बहुत-से उपासक यही निश्चय करते हैं कि जिस शक्ति के कारण परमात्मा है, वही शक्ति हमारी उपास्य है। वही शक्ति जगत् में व्यापक है, वही ईश्वर है।

यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ।
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥

(अतीत, वर्त्तमान, अनागत, जो कुछ वस्तु ससार में है, उसमें सबकी जो शक्ति है, वही तू है, तू सबकी आत्मा है, तेरी स्तुति कौन कर सकता है।)

वस्तुतः, ईश्वर का कोई नियत लिंग नहीं। न वह पुरुष है, न स्त्री। साथ ही वह पुरुष भी है, स्त्री भी है। अतएव पिता कहकर उसकी उपासना करो या या माता कहकर। उपासक की रचि का भेद है, ईश्वर में कोई भेद नहीं, अत उपासक की

रुचि और अधिकार के अनुसार ही भिन्न-भिन्न नाम-रूप सनातन धर्म में माने गये हैं। अस्तु, सत्र जगत् की, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की परिचालक शक्ति ईश्वर-रूप से हमारी उपास्य है। इसकी उपासना ही हम जीवधारियों के लिए विजय देनेवाली है, इसमें कोई सन्देह नहीं। यह शक्ति काल के रूप में नित्य हमारे अनुभव में आती है। ऋतु या मौसम के रूप से यह काल रूप ईश्वर-शक्ति जगत् में सतत परिवर्तन करती रहती है। इसका अनुभव प्रत्येक प्राणी को स्पष्ट रूप में है। सवत्सर काल का प्रधान रूप है। स्थूल मान से सवत्सर में ३६० दिन-रात होते हैं। इनको यदि ९, ९ के खण्डों में विभक्त किया जाय तो सम्पूर्ण वर्ष में ४० नवरात्र होते हैं। नौ-नों के खण्ड बनाने का अभिप्राय है कि अखण्ड मख्याओं में नौ सबसे बड़ी संख्या है, और प्रकृति वा शक्ति का इस संख्या से खास सम्बन्ध है। प्रकृति के सत्व, रज और तम नाम के तीन गुण हैं और ये तीनों परस्पर मिले हुए त्रिवृत होते हैं, अर्थात् जैसे तीन लड़कों की एक रस्ती बनाई जाय, उसी तरह तीन-तीन से एक-एक विशिष्ट गुण बना हुआ है। यो समझिए कि जैसे यज्ञोपवीत में तीन तार हैं, और फिर एक-एक में तीन-तीन, यों मिलाकर नौ तार होते हैं, यही प्रकृति का रूप है। प्रकृति के तीन गुण और फिर तीनों में एक-एक में तीनों सम्मिलित। अस्तु, उक्त चालीस नवरात्रों में से चार नवरात्र प्रधान हैं। उनका प्रत्येक तीन-तीन मास में चैत्र, आपाद, आश्विन और पौष की शुद्ध प्रतिपदा से आरम्भ होता है। इन चारों महीनों से भिन्न-भिन्न ऋतु या मौसम का आरम्भ होता है। इनमें भी दो—चैत्र और आश्विन के नवरात्र विशेष रूप से प्रधान हैं। ये दोनों ही ग्रीष्म और शीत, दो प्रधान ऋतुओं के आरम्भ की सूचना देनेवाले हैं। इस अवसर में प्रधान शक्ति सम्पूर्ण जगत् का परिवर्तन करती है, इस समय उस महाशक्ति का रूप प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए, विज्ञान की भित्ति पर प्रतिष्ठित सनातन धर्म में ये शक्त्युपासना के प्रधान अवसर माने गये हैं।

दूसरी बात यह भी है कि कृषि-प्रधान भारतवर्ष में चैत्र और आश्विन में ही महालक्ष्मी का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वर्षा की फसल आश्विन में और शीत की चैत्र में पककर तैयार हो जाती है। मानो, भारत की धनधान्य-समृद्धि अपने पूर्ण रूप में प्रस्तुत हो जाती है। जिन दिनों भारत का समय सुख-समृद्धिमय था, आज की तरह अकाल और महंगी की भीषणता नहीं थी, उन दिनों आश्विन और चैत्र में घर-घर महालक्ष्मी के स्वागत की उत्सुकता दिखाई देती थी। इस अवसर में कृतज्ञ भारत जगच्छक्ति-रूप महालक्ष्मी की उपासना आवश्यक समझता है। अपना अहंकार भुलाकर, जिस परमात्मा की परम शक्ति की कृपा से यह सुख-समृद्धि प्राप्त हुई है, उसके चरणों में नत होना अपना कर्तव्य मानता है। इसीलिए दोनों नवरात्र उपासना के प्रधान समय माने गये हैं। आश्विन का महीना जैसे धान्य-समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, वैसे रोगों के आक्रमण के लिए भी चिर काल से प्रसिद्ध है। आयुर्वेद इसे 'यम-दण्ड' कहता है। इस समय प्राकृतिक आपत्ति से बचने के लिए भी महाशक्ति की उपासना ही एक परम अवलम्ब है।

जिन दिनों भारत के वीर क्षत्रिय ससार-भर में विजय का डंका बजाते थे,

उन दिनों इस आश्विन मास का और भी अधिक महत्त्व था। चातुर्मास्य में विजय यात्रा स्थगित रहती थी, वे घर पर विश्राम करते थे। आश्विन मास आते ही, 'वर्षा विगत गरद ऋतु आई' होते ही शक्ति की उपासना करके वे फिर विजय-यात्रा का आरम्भ कर देते थे, इसलिए आश्विन मास का नवरात्र शक्ति की उपासना के लिए सबसे प्रधान है और इसके पूर्ण होते ही विजय-यात्रा का दिन ('विजयादशमी') आता है।

शक्ति के भी सौम्य, क्रूर आदि नाना रूप हैं और अपने-अपने अधिकारानुसार सिद्धि भी विभिन्न प्रकार की प्रत्येक मनुष्य चाहता है। अपनी-अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार ही रूपों की उपासना होती है। मत्त्व, रज और तम के श्वेत, रक्त और कृष्ण (काला) रूप शास्त्रों में माने गये हैं। स्वच्छता, सर्वर्ष और आवरण का बोधन कराने के लिए ही इन रूपों की कल्पना है। उन्हीं गुणों के रूप में यहाँ भी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उपासना होती है। गुणों के अनुकूल ही उनके हाथों में आयुध या अन्य चिह्न भी रखे जाते हैं। इनकी उपासना से अपने-अपने कार्य में सबको विजय प्राप्त होती है, यही विजयादशमी का लक्ष्य है।

दीपावली

दीपावली उन विशेष पर्व-उत्सवों में एक है (सर्वश्रेष्ठ कहने पर भी अत्युक्ति न होगी), जो भारतवासियों में मुख्य और प्राणशक्ति के संचारक कहे जाते हैं। वर्ण-क्रमानुसार वैद्यों का यह प्रधान उत्सव है। वैद्यवर्ग के साथ मिलकर सब वर्ण-जाति के लोग इस दिन भगवती कमला की उपासना के आनन्द में मग्न हो जाते हैं। मनुष्यों की सुखकान्ति पर उनके वस्त्र, आभूषणादि पर और उनके निवास-भवनों में जिधर देखो, उधर लक्ष्मी माता अपना प्रभाव प्रकट करती है। सब दुःख-द्वन्द्व भुलाकर सब प्रकार की चिन्ता-बाधाओं को दूर कर इस दिन भारतवासी लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए एकप्राण होकर रहते हैं।

तेज ही ससार में सार है, तेज ही श्री का मुख्य रूप है। तेजोहीन होने पर मनुष्य हतश्री कहा जाता है। ईश्वर ने तीन तेज हमें अपने निर्वाह के लिए दिये हैं—सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि। इनकी ही सहायता से हमारे सब कार्यों का निर्वाह होता है। सूर्य इन सबमें मुख्य तेज है, किन्तु गतिक्रम के अनुसार समीप और दूर होने से इस तेज की प्राप्ति में न्यूनाधिकता होती है। ज्योति शास्त्र में मेघराशित्थित सूर्य उच्च भाव का और तुलाराशित्थित नीच भाव का माना गया है। कार्तिक मास में सूर्य तुलाराशित्थित होने के कारण नीच भाव का है, अर्थात् उस तेज का इस समय हम पर अत्यल्प और विकृत प्रभाव पड़ता है। अमावास्या के दिन चन्द्र-तेज का सर्वथा अभाव ही हो जाता है। इसलिए इस समय सर्वथा तृतीय तेज अग्नि ही हमारी एकमात्र शरण है। इसी वैज्ञानिक तत्त्व के आधार पर आज भगवती लक्ष्मी माता की उपासना में अग्नि की प्रधानता रखी गई है। यथाशक्ति खूब दीपावली प्रकाशित करना विविध प्रकार के बारूद के खेलों से अग्निक्रीडा करना इस दिन शिष्ट-सम्प्रदाय में मुख्यतया प्रचलित है। ईश्वर की दया से ससार में विज्ञान का प्रचार बढ़ रहा है, अविद्या की

रात्रि में विज्ञान की दीपावली फिर से चमक उठी है। प्रत्येक रात के मूल कारण की खोज होने लगी है। हानि-लाभ की सब रात विचारी जा रही है। आज वैज्ञानिकों की कृपा से ससार को भी यह रात विदित हो गई है कि चातुर्मास्य में (वर्षा ऋतु में) विविध प्रकार के कीटाणु (गूधम रोगजन्तु) उत्पन्न हो जाते हैं, जल की बहुलता और सूर्य-तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना ही इनका मुख्य कारण है। इन्हीं के कारण शरद ऋतु में विविध प्रकार के रोग अपना प्रभाव जमाते हैं और मनुष्य-समाज अत्यन्त पीड़ा सहने के साथ-साथ सहार को भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। जिन मकानों में अच्छी तरह धूप नहीं पहुँचती, वहाँ तो शीतकाल में भी उन जन्तुओं का प्रभाव रह जाता है, और उनसे हानि होना सम्भव है। ऐसे स्थानों को खूब स्वच्छ करना और अग्नि से उनमें गरमी पहुँचाना ही इस आपत्ति से बचने का उपाय हो सकता है। यही सब कार्य दीपावली के अवसर पर एक नियमबद्ध होकर साधारण ग्रामीण लोग तक भी करते हैं। अपने घरों को, घरों की सब सामग्री को और बच्चादि को इस समय यथाशक्ति सब स्वच्छ करते हैं, और घरों में खूब दीपावली प्रज्वलित कर और अन्यान्य प्रकार से अग्नि की गरमी पहुँचाकर वहाँ से दगिद्रा अलक्ष्मी को नष्ट करते हुए लक्ष्मी माता का आवाहन करते हैं। साथ ही नवीन धान्य, जो लक्ष्मी माता की कृपा से प्राप्त हुए हैं, को समर्पित कर अपने उपयोग में लाना आरम्भ किया जाता है। कृषिप्रधान भारत में धान्य-लक्ष्मी आज घर-घर विराजित होती है। ऐसे समय अपने अहभाव का त्यागकर परमपिता जगदीश्वर की अपार सत्ता का स्मरण करना, “भगवन्! तेरी ही कृपा से हम इस सब समृद्धि के अधिकारी हैं, हम तुच्छ जीवों में क्या शक्ति है, काठ की पुतली की तरह आपकी ही शक्ति से हम परिचालित हैं, आपकी दी हुई यह सब वस्तु आप को ही समर्पित है। निरन्तर हमारा इसी प्रकार परिपालन कीजिए,” इस परम शुद्ध भाव से उसके सम्मुख होना हमारे पूर्वजों ने पद-पद में सिखाया है। हमारे पर्व-उत्सवों में इस प्रकार के अनेकानेक दृष्ट और अदृष्ट गूढ प्रयोजन भरे पडे हैं।

होलिका

होली हिन्दुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। सस्कृत में इसका नाम ‘होलिका’ या ‘होलाका’ कई जगह आया है। यह शूद्रों का मुख्य त्यौहार माना जाता है। किन्तु प्रत्येक त्यौहार में एक-एक वर्ण की प्रधानता रहने पर भी अन्य सभी वर्ण अपने भाई उस वर्ण के साथ मिलकर सब व्यवहारों को मानते हैं। इसलिए होली भी हिन्दू-मात्र का जातीय त्यौहार है।

यह प्रसिद्धि विना आधार की नहीं है, इसमें बहुत-कुछ सत्यता है। किन्तु इतना कहना ही पडेगा कि हमारे कई एक शास्त्रीय और सदाचारसिद्ध अनुष्ठानों का होली के साथ सम्बन्ध है। होली कई एक पर्व, उत्सव और श्रौत-स्मार्त्त कर्मों का समूह है। जिसमें कालक्रम से रूपान्तर होते होते भिन्न-भिन्न कर्मों के कुछ-कुछ चिह्न-मात्र बाकी रह

गये है। वे सभी कर्म केवल ऋद्रों से ही सम्बन्ध नहीं रखते, किन्तु अनेक का मुख्य सम्बन्ध द्विजातियों से ही है। यहाँ यह देखना है, कि होली की कर्त्तव्यता में किन-किन कर्मों के सम्बन्ध का आभास मिलता है।

यह कहा गया है कि वेद का मुख्य प्रतिपाद्य कर्म यज्ञ है। उस श्रौत यज्ञ के मुख्य तीन भेद हैं—इष्टि, सोम और चयन। इनमें इष्टि अग्निहोत्र, दर्शपौर्णमास और चातुर्मास्य आदि भेदों से अनेक प्रकार की है। चातुर्मास्य उन यज्ञों का नाम है, जो चार-चार महीने के अन्तर से वर्ष में चार बार किये जाते हैं। वैसे तो ऋतु छह मानी गई है, किन्तु दो दो ऋतुओं में समय प्रायः एक-सा रहता है। इसलिए प्रधान ऋतु (मौसम) तीन ही है—गर्मी, वर्षा और शीत। इनकी सन्धि में एक एक चातुर्मास्य यज्ञ (इष्टि) का विधान श्रुति में है। फाल्गुन शुक्ल-पूर्णिमा के दूसरे दिन गरमी के आरम्भ का चातुर्मास्य याग होता है। यहीं से वर्ष का आरम्भ है। इसलिए यह प्रथम चातुर्मास्य याग है, जिसका नाम वैश्वदेव है। आपाढी पूर्णिमा के दूसरे दिन 'वृष्ण प्रघास' नाम का दूसरा चातुर्मास्य होता है। कात्तिकी पूर्णिमा के दूसरे दिन 'शाकमेध' नाम का तीसरा और फाल्गुन के मध्य में समाप्तिका 'सुनासीरीय' नाम का चौथा चातुर्मास्य और करते हैं। इस प्रकार, यह फाल्गुनी पूर्णिमा चातुर्मास्य यज्ञ के आरम्भ का प्रधान समय है। कहना नहीं होगा कि इस यज्ञ का सम्बन्ध द्विजातियों से ही है।

नवीन अन्न पैदा होने पर जबतक वह यज्ञ द्वारा देवताओं को अर्पित न किया जाय, तबतक अपने काम में नहीं लिया जा सकता। यह आर्य जाति का प्राचीन धर्म-विश्वास है। हिन्दुओं का पवित्र भाव है कि ऋषि से जो अन्न हमें प्राप्त होता है, वह देवताओं का दिया हुआ है। उनके दिये हुए की भेंट पहले उन्हें ही देना आवश्यक है। भगवद्गीता में आज्ञा है कि—

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः।

अर्थात्, देवताओं के दिये हुए को बिना उनकी भेंट किये जो स्वयं खा लेता है, वह चोर है। इसलिए जब-जब नया अन्न पैदा हो, तब तब एक इष्टि (यज्ञ) होती है, जिसका नाम श्रौत सूत्रों में 'आग्रायणेष्टि' है। यह वर्ष में तीन बार की जाती है—भदई धान या श्यामाक आदि मुन्यन्न पैदा होने के समय भाद्रपद में, धान, मक्का, बाजरा आदि पैदा होने के समय कार्तिक या मार्गशीर्ष में और यव, गोधूम आदि पैदा होने के समय फाल्गुन या चैत्र में। इसका समय भी फाल्गुन की पूर्णिमा है। जिन द्विजों ने श्रौत अग्निहोत्र न लिया हो, वे निरग्नि कहलाते हैं। निरग्नि द्विजातियों के लिए भी गृह्यसूत्रों में इस नवीन अन्न पैदा होने के अवसर में एक स्मार्त्त इष्टि का विधान है, जिसे 'नवान्नेष्टि' या 'नवान्न-प्राशन' नाम से कहा गया है। किसी भी प्रकार हो, नवीन अन्न का पहले होम करना आवश्यक समझा गया है। यह कर्म भी हमारे होलिका के त्यौहार में ही आजकल मिला हुआ है। और, इसका इतना ही चिह्न शेष रह गया है कि होली की ज्वाला में गेहूँ, जौ आदि की बाले सेक ली जाती है, इस स्मार्त्त कर्म का सम्बन्ध भी प्रधानतः द्विजातियों से ही है।

पौराणिक आख्यान प्रसिद्ध है कि हिरण्यकशिपु देव की बहन, जिम्का नाम 'होलिका' था, अपने भाई की आज्ञा में प्रह्लाद को गोद में लेकर उसे जलाने के लिए अग्नि में बेटा थी। किन्तु जगत् के एक-एक अणु में ईश्वर को देखने-वाला ईश्वरभक्त प्रह्लाद न जला और वह होलिका जल गई। इस पवित्र अलौकिक घटना की स्मृति में आज भी ईश्वर-विद्ववासी आर्यावर्त्त-निवासी होलिका को जलाते हैं, और अग्नि-ज्वाला के बीच से प्रह्लाद के प्रतिनिधि एक वृक्ष को निकालकर जलाशय में ठण्डा करते हैं। उसी वृक्ष को प्रह्लाद का प्रतिनिधि मानकर पहले पूजन भी करते हैं। यह पौराणिक अनुष्ठान है और इसका भी सम्बन्ध सभी वर्णों से है।

भविष्यपुराण (उत्तरपर्व, अव्याय १३२) में एक दूसरे प्रकार का भी उपाख्यान है—माली नाम के राक्षस की पुत्री लुण्डा या ढीटा नाम की एक राक्षसी थी। उसने बड़ी तपस्या करके शिव से वर प्राप्त किया, जिससे वह शस्त्र-अस्त्रों द्वारा अव्यय हो गई। वह उन्मत्त (असावधान) बालको को सताने लगी, विशेषकर ऋतु की सन्धि में उसकी पीडा होती थी। उसका नाश किसी शस्त्र, अस्त्र, मन्त्र, औषधि आदि से न होता था। सत्ययुग में रघु के राज्य में जब प्रजा ने इससे बहुत त्रस्त होकर राजा के पास जाकर अपनी करुण कथा कही, तब राजा ने अपने गुरु वसिष्ठजी से उसका उपाय पूछा। उन्होंने यही उपाय बतलाया कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन जब शीत समाप्त होता है और गर्मी का प्रारम्भ होता है, सत्र मनुष्य, विशेषकर बालक बड़े उत्साह से काष्ठ के बने हुए खड्ग आदि शस्त्र लेकर योद्धाओं की तरह विचरे, सूखे काष्ठ और उपलो का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाय, सायकाल उसमें अग्नि लगाकर राक्षस विनाशक मन्त्रों से हवन किया जाय। उस अग्नि की सब लोग तीन प्रदक्षिणा करें और उस समय 'अड्डा', 'अड्डा' आदि ऊँची आवाज से शब्द करें, यथेच्छ भाषण करें। सायकाल घर में और आँगन में गोबर से चौका लगाना, छोटे बालको को घर में रखना, काष्ठ की तलवार लिये हास्य-रस के गीत गाते हुए कुमारों से उनकी रक्षा कराना और कुमारों को गुड, पक्वान्न, मिठाई आदि वाँटना चाहिए। उस रात्रि को बालको की विशेष रक्षा करनी चाहिए। इससे इस राक्षसी की पीडा मिटेगी। निदान वैसा ही किया गया, उससे प्रजा में शान्ति हुई और तब से सदा के लिए यह विधि चल पडी। 'अड्डा', 'अड्डा' शब्द के कारण उस राक्षसी का नाम 'अडाडा' है, शीत और उष्ण के बीच में होने के कारण 'शीतोष्ण' है और होम के कारण यह पर्व 'होलिका' नाम से प्रसिद्ध हुआ है इत्यादि।

यह सब काम आज भी होलिका के दिन होता है। काठ के खड्ग (खोडे), गोबर की ढाल आदि वस्तुएँ बनाई जाती हैं। अग्नि-प्रज्वालन, अग्नि-प्रदक्षिणा, यथेच्छ भाषण आदि सभी कुछ होते हैं। डफ आदि वाद्यों पर उच्चैः स्वर से हास्यप्रधान गायन भी खूब प्रसिद्ध है। यथेच्छ भाषण अशिक्षा और कुशिक्षा के योग से अश्लील भाषण के रूप में परिणत हो गया है। राक्षस विनाशक मन्त्रों से हवन तो नहीं होता, किन्तु धूप देकर गण्डे, ताबीज आदि बालको के बाँधने का प्रचार है।

वस्तुतः, इस पौराणिक विधान का सम्बन्ध विज्ञान से प्रतीत होता है। शीतकाल का संचित कफ वसंत की गरमी पाकर पिघलता है, उसके सब कीटाणु शरीर में फैलकर नाना रोग पैदा करते हैं। यह ऋतु कफरोग के लिए आयुर्वेद में या लोक में सुप्रसिद्ध है। विशेषकर बालकों को गिन्-भिन्न प्रकार के रोग इस मौसम में होते हैं। घरों में शीतकाल में पूर्ण गरमी न पहुँचने के कारण कई प्रकार के कीटाणु अपना स्थान बना लेते हैं, जो कि कई प्रकार की हानि करते हैं। शरीर में उत्साह लाना, क्रोधना, अग्नि जलाकर उसके पास रहना, ऊँची आवाज से गाना आदि सभी काम कफ के निवर्त्तक हैं। मिष्टान्न में गुड़ की प्रधानता भी कफ की निवृत्ति के लिए ही बताई गई है। घरों को स्वच्छ करना, गोबर से लीपना, अग्नि प्रज्वलित करना, ये सब विधियाँ भी कीटाणु-विनाशक हैं। इन वैज्ञानिक अनुष्ठानों से कफरोगों की निवृत्ति में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। हास्यरस-प्रधान गायन और यथेच्छ भाषण इसी आधार पर रखा गया है। मनुष्य स्वभावतः ऐसे विषयों को उच्च स्वर से बोलता है। उत्साहजनित उच्च स्वर कफ हटाकर फेफड़ों को साफ करेगा।

इस वैज्ञानिक अनुष्ठान का सम्बन्ध भी सभी वर्णों से है, और पुराणों में भी सबके लिए ही यह विधान है। चारों वर्णों के उपयुक्त क्रियाएँ भी इसमें स्पष्ट मिलती हैं। रक्षोघ्न मन्त्रों से हवन ब्राह्मणवर्णोचित कार्य है। शम्भु-अन्न लेकर घूमना क्षत्रियजनोचित, मिठाई आदि का आयोजन वैश्यजनोचित और यथेच्छ भाषण आदि शूद्रजनोचित कार्यों का इसमें समावेश है। इन वैज्ञानिक क्रियाओं की ही इस त्यौहार में प्रधानता है।

चैत्र से नये सवत्सर का प्रवेश भारत में सुप्रसिद्ध है। यद्यपि आजकल चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से नये वर्ष का आरम्भ माना जाता है, किन्तु अनुभव यह है कि किसी देव-काल में चैत्र कृष्ण-प्रतिपदा भी सवत्सर आरम्भ की तिथि मानी जाती होगी। अमान्त और पूर्णिमान्त दोनों प्रकार के मास शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, तब पूर्णिमान्त मास के अनुसार चैत्र कृष्ण-प्रतिपदा भी सवत्सरारम्भ की तिथि होनी चाहिए। दूसरे ग्रन्थकार वसन्त ऋतु का आरम्भ चैत्र वदी प्रतिपदा से ही मानते हैं, और वसन्त ऋतु वर्ष का आरम्भ है। चैत्र वदी प्रतिपदा को वर्षारम्भ इससे भी सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में फाल्गुनी पूर्णिमा को सवत्सर का मुख कहा है, इससे भी चैत्र कृष्ण-प्रतिपदा का वर्षारम्भ-तिथि होना निर्विवाद है। अस्तु, फाल्गुनी की पूर्णिमा को पहला वर्ष समाप्त हो गया, अर्थात् वह वर्ष मर गया। इसलिए उसे जला देना चाहिए। इस विचार से भी अग्नि-प्रध्वालन होली के दिन होता है। सवत् जलाने की प्रसिद्धि भी कई प्रान्तों में है। सवत् जलाने की प्रथा का अनुमान इससे भी दृढ़ होता है कि पञ्जाब में मकर-सक्रान्ति के पूर्व दिन, जिसे 'लोदी' कहते हैं, होली की भाँति ही अग्नि जलाने की प्रथा है। वहाँ मकर-सक्रान्ति से वर्षारम्भ मनाने की प्रथा रही होगी, इसीसे पूर्व दिन पूर्व (पिछले) वर्ष को जलाने की प्रथा चल पड़ी। इसका शास्त्रीय आधार तो दृष्टिगत नहीं हुआ, किन्तु सदाचारसिद्ध यह प्रथा अवश्य विदित होती है।

वसन्त ऋतु स्वभावतः उन्मादक है। शीतकाल में प्रकृति सबको बल देती है।

शक्ति संचित होने पर उसका प्रेम-रूप से प्रस्फुटित होना स्वाभाविक है। हमारे शान्ना में वसन्त को कामदेव का मित्र इसी आधार पर कहा गया है। सस्कृत-साहित्य के कविकुलगुरु कालिदास ने वसन्त का प्राकृतिक चित्र खींचते हुए खग, मृग, वृक्ष, लता आदि का भी इस ऋतु में प्रेमपाश से बद्ध होना चित्रित किया है। इसी प्रेमोन्माद को पूर्ण चरितार्थ करने का हिन्दू-जाति में एक दिन नियत है—चैत्र कृष्ण-प्रतिपदा। वही वसन्तारम्भ का दिन है। उस दिन बटे, छोटे, बनी, दरिद्र, ऊँच, नीच, जाति, पाँति सब भेदभाव भुलाकर आपस में मिले। प्रेममय मधुर भाषण करें और प्रेम-चिह्न के रूप में एक-दूसरे पर रंग छोड़े। प्रेमोन्माद के कारण ही हँसी-मजाक और यथेच्छ भाषण को भी उस दिन स्थान दिया गया है। आजकल के सभ्य देशों के जो लोग हमारी होली की हँसी उड़ाते हैं, उनके देशों में 'एप्रिल-फूल' के नाम से क्या होता है। इस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। हाँ, हिन्दू-जाति की यह विशेषता है कि इनके पर्व, उत्सव आदि का भी आधार विज्ञान (साइन्स) है और वे अपने प्रेम-दर्शन में धनिक दरिद्रों का भेद नहीं रखते। अस्तु, इस विधि में शूद्रों की प्रधानता है। द्विजाति लोग धीरता के कारण उन्माद के उतने बगीभूत नहीं होते, जितने शूद्र। इसलिए शूद्रों की इसमें प्रधानता रखकर द्विजातियों का उनके साथ प्रेम-प्रदर्शन ही इस विधान में मुख्य है।

वसन्तोत्सव और कामदेव-पूजा की भी प्रतिपदा के दिन शास्त्र में विधि है। दक्षिण देश में यह उत्सव 'भदन-महोत्सव' के नाम से ही प्रसिद्ध है। स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ स्थान में सबका बैठना, चन्दन, रोली, गुलाल आदि लगाना और आम्र-मजरी का आस्वादन करना इस विधान की मुख्यता है। यह चन्दन-गुलाल ही अशिक्षा के पुट से कीचड़ उछालने तक पहुँच गया। होलिका के भस्म का वन्दन करना भी शास्त्र में विहित है। इस विधि ने भी राख-धूल उछालने की प्रथा में सहायता पहुँचाई है।

देवी-पूजा, हिण्डोले का उत्सव (दोलोत्सव) आदि तन्त्रशास्त्रोक्त कई विधान भी प्रतिपदा के दिन मिलते हैं, जो कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित भी हैं। उनका विस्तार-भय से यहाँ विवेचन नहीं किया जाता।

होली का त्यौहार बहुत पुराना है। मीमांसा के भाष्यकार शबरस्वामी आदि ने सदाचार का मुख्य उदाहरण इसे ही रखा है और पूर्व के (प्राच्य) देशों में इसका विशेष प्रचार बताया है। आनन्दमूर्ति भगवान् श्रीकृष्ण की कृपा से ब्रजमण्डल तो इस त्यौहार का प्रधान केन्द्र बन गया है, अतएव ब्रजवासियों का इससे प्रधान सम्बन्ध हो गया है। हिन्दू-जाति को अपने इस जातीय त्यौहार की यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिए, किन्तु अशिक्षा के कारण प्रवृत्त कुरीतियों को निकालकर इसे शास्त्रानुकूल उत्तम रूप पर लाने का प्रयत्न भी अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम त्यौहार का मुख्य उद्देश्य सिद्ध कर सकें और असभ्यता के कलक से बचे रहें।

भक्ति और उपासना

भारतीय सस्कृति में भक्ति और उपासना की प्रधानता है। मनुष्य अपने कल्याण-साधन के लिए इन्हीं का आश्रय लेता है। कह चुके हैं कि किसी ईश्वर-रूप में

अपने चित्त को स्थिर करने का नाम ही उपासना है और चित्त की स्थिरता बलपूर्वक नहीं होती, किन्तु प्रेम से ही चित्त स्थिर होता है। उम ईश्वर-प्रेम को भक्ति कहते हैं। उपासना और भक्ति में परस्पर जन्य-जनक सम्बन्ध है। उपासना में अधिकाधिक प्रवृत्ति होती है। भक्ति और उपासना से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के लाभ हैं। ईश्वर में मन लगाकर उनकी शक्तियों का अंग अपने मन में अधिकाधिक ग्रहण करने से लौकिक लाभ भी हो सकता है, किन्तु मुख्य लाभ यही है कि ईश्वर में मन लगाकर जगत् से विरक्ति प्राप्त कर अपना जीवभाव हटाया जाय और ईश्वर-सत्ता में ही अपने को लीन कर परमानन्द-रूप मोक्ष की प्राप्ति की जाय। भगवत्प्रेम यदि प्राप्त हो जाय, तो मनुष्य की सासारिक उन्नति की वासना अपने-आप हट जाती है। इसीलिए, भक्ति का विशेष महत्त्व है।

वैदिक मार्ग की उपासना पर एक यह आक्षेप किया जाता है कि वेद तो अनेकेश्वरवादी हैं। वेदों में भिन्न-भिन्न देवताओं को ही ईश्वर मान रखा है, और उनकी ही स्तुति उनमें विशेषतः प्राप्त होती है। एक परमात्मा का ज्ञान या उसी की उपासना तो वहाँ है ही नहीं। तदनुसार आज भी भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की उपासना प्रचलित है। कोई विष्णु को पूजता है, कोई राम और कृष्ण को और कोई शिव, गणेश या शक्ति को। तत्र एकेश्वरवाद कहाँ रहा। किन्तु यह आक्षेप विलकुल निस्सार है। वेदों में अनेक मन्त्र ऐसे हैं, जो एक ही ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्
यस्मिन् देवा अधिविश्वे निपेदुः।
यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति
य इत्तद्धिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥
(ऋग्वेद)

अर्थात्, ऋचा के प्रतिपाद्य अक्षर परमाकाश-रूप परब्रह्म, जहाँ सारे देवता निवास करते हैं, जो जो नहीं जानता, वह वेद की ऋचा से क्या करेगा, अर्थात् उसका वेद पढ़ना व्यर्थ है। और, जो उसको जान जाता है, वह अमृत अवस्था—मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः।
तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

इस प्रकार के अनेक मन्त्रों में एक ईश्वर ही भिन्न-भिन्न देवताओं के रूप में व्यवस्थित है, यह स्पष्ट कहा गया है। उपनिषदों में तो—

स देव सौम्येद्मग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्, इत्यादि।

इस प्रकार अनेक वाक्यों द्वारा सम्पूर्ण जगत् का मूल तत्त्व ही एक परब्रह्म को माना गया है, जिसका विस्तार से निरूपण हम आरम्भ में ही कर आये हैं। इसलिए अनेकेश्वरवाद की तो क्या कथा, वेद में तो परमात्मा परब्रह्म ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी

नहीं माना जाता। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भी ईश्वर का ही रूप कहा जाता है। ईश्वर को सजातीय, विजातीय और स्वगत तीनों भेदों से रहित मानते हैं। वहाँ अनेकेश्वरवाद का स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता।

वात यह है कि परब्रह्म मन और वाणी से परे है, यह आरम्भ में ही विस्तार से कहा जा चुका है। तब जहाँ मन की गति ही नहीं, उसकी उपासना किस प्रकार की जा सकती है। मन लगाने का नाम ही तो उपासना है। मन जिसे पकड़ ही नहीं सकता, उसमें लगेगा कैसे? इसलिए कोई आधार मानकर उस पर चित्त लगाना ही उपासना की सफलता के लिए आवश्यक हो जाता है। परब्रह्म को मन नहीं पकड़ सकता, किन्तु यह सपूर्ण जगत् भी तो परब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसमें तो कहीं भी मन लगाया जा सकता है और वह मन लगाना भी परब्रह्म में मन लगाना ही कहा जायगा, क्योंकि वह पदार्थ भी परब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसी आशय से भिन्न-भिन्न देवताओं की स्तुति प्रार्थना वेदों में की गई है कि वे भी ईश्वर के ही रूप हैं और इसी अद्वैतभाव से भारतीय सस्कृति का अनुयायी नदी, वृक्ष, प्रतिमा आदि सबके सामने ईश्वरबुद्धि होकर मस्तक झुकाता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि—

सियारामसय सब जग जानी ।
करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥

भक्तों की यही बुद्धि हो जाती है और इसी बुद्धि से अथवा इसी बुद्धि को प्राप्त करने के लिए भारतीय सस्कृति के अनुयायी नदी, पर्वत, वृक्ष आदि सबको सिर झुकाते हैं। वे उन जड़ पदार्थों को मस्तक नहीं झुकाते, वरन् उनमें विराजमान ईश्वर की सत्ता को ही सिर झुकाते हैं। और, वेद ने जो भिन्न-भिन्न देवताओं की या उलूखल, मुसल आदि तक की स्तुति की है, वह भी परब्रह्म सत्ता की ही स्तुति है, यह निरुक्त आदि में स्पष्ट कर दिया गया है।

भक्ति और उपासना की सफलता के लिए भारतीय सस्कृति में अवतारवाद और मूर्त्ति-पूजा को भी प्रधान स्थान दिया गया है। इनकी मूर्त्तियाँ अधिकारानुसार अनेक प्रकार की होती हैं। ईश्वर ने भी भारत में ऐसे तत्त्व उत्पन्न किये हैं, जो ईश्वर की ओर पूरा ध्यान दिला देते हैं। गङ्गा नदी में एक विशेष प्रकार के प्रस्तर-खड निकलते हैं, जो ऊपर से श्यामवर्ण होते हैं और उनके भीतर सुवर्ण रहता है। वेदविज्ञान के निरूपण में हिरण्यगर्भ का स्वरूप हम ऐसा ही बता आये हैं कि मध्य में सूर्य का प्रकाश है, और उसको चारों ओर से परमेश्वरमण्डल के श्यामवर्ण सोम ने घेर रखा है। इस हिरण्यगर्भ की पूरी प्रतिकृति ही शालग्राम-शिला है, जो भारत के ही एक प्रदेश में मिलती है। ईश्वर की पूरी प्रतिकृति होने के कारण उसमें ईश्वरभाव से शीघ्र मन लग सकता है और इसीलिए द्विजाति लोग प्रधान रूप से उसकी उपासना करते हैं। उसकी ही उपासना नहीं करते, उसके द्वारा परमेश्वर की भी उपासना करते हैं। परमेश्वर में ही मन लगाते हैं। शिव की उपासना भी नर्मदेश्वर में की जाती है। नर्मदा में गङ्गा-गढाये इस प्रकार के प्रस्तर-खड मिलते हैं, जो मध्य में गोल और इधर-उधर प्रलम्बाकार

होते हैं। एक सूर्य का प्रकाश जहाँ तक फैलता है, वही एक ब्रह्माण्ड है, वह कहा जा चुका है। किन्तु सूर्य का भ्रमण माननेवालों के मत से सूर्य एक जगह नहीं रहता, वह पूर्व, पश्चिम या दक्षिणोत्तर घूमता रहता है। पृथ्वी का भ्रमण माननेवालों के मत से भी पृथ्वी और सूर्य के सम्बन्ध में परिवर्तन होते रहने में अनेक वृत्त मिलकर प्रलम्बाकार हो जाते हैं। यही नर्मदेश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार की उपासनाओं के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न ईश्वर-रूपों की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना भी भारतीय सङ्कृति में सुप्रसिद्ध है। जैसे तो पंचभूतों के अधिष्ठाता मानकर पंचदेव-रूप में परमेश्वर की उपासना यहाँ मानी गई है, किन्तु उनमें विष्णु, शिव और शक्ति की उपासना का विशेष रूप से प्रचार है। गणेश की पूजा सब क्रायों के आरम्भ में हो जाती है, क्योंकि वे भूमितत्त्व के अधिष्ठाता और प्रतिष्ठा-प्राण के रूप हैं। उनके बिना कोई कार्य प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकता। एव सूर्य की उपासना भी सव्याकाल में सभी द्विजाति कर लेते हैं। इसलिए स्वतन्त्र रूप से इन दोनों की उपासना का प्रचार कम है। उक्त तीनों ईश्वर-रूपों की जो उपासना विशेष रूप में प्रचलित है, उनमें शक्ति की उपासना पर विजयादशमी के प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। अब आगे कृष्ण और शिव के विवरण में भी उसका प्रसंग आयागा। क्योंकि, शक्ति तो सबसे अनुस्यूत व्यापक है। वह मुख्य उपास्य है। सब रूपों के साथ रहती है, उसी के कारण सब रूप उपास्य हैं। विष्णु भगवान् की उपासना दो प्रकार की है—चतुर्भुज लक्ष्मी सहित नारायण के रूप में और राम-कृष्ण आदि अवतारों के रूप में। इन दोनों प्रकारों पर यहाँ कुछ विवरण देना आवश्यक है। विष्णु भगवान् की मूर्ति का विवरण स्वयं विष्णुपुराण में किया है,^१ जिसमें उनके आयुध आभूषण आदि पर जगत्तत्त्वों की दृष्टि का विधान करते हुए सब जगत् के आलम्बन अव्यय पुरुष के रूप में उनकी उपासना स्पष्ट की गई है। वहाँ लिखा है कि भगवान् के हृदय में जो कौस्तुभमणि है, वह निर्गुण, निर्लेप जीवात्माओं की प्रतिकृति है। मणि-रूप में जीवात्माओं का धारण भगवान् कर रहे हैं। उनके वक्ष स्थल पर जो श्रीवत्स-चिह्न है, जिस पर अनन्त शेषनाग का फण छाया किये रहता है, वह प्रकृति का रूप है। उनके

^१ आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणात्मकः, विद्यति कौस्तुभमणिस्वरूप भगवान्हरिः । श्रीवत्समस्थानधरमनन्तेन समाश्रितः । प्रधानं बुद्धिरप्यारते गदात्पेण माधवे ॥ भूतादिमिन्द्रियादि च द्विधाऽहङ्कारमीश्वरः । विभक्तिं शङ्करपेण शार्ङ्गत्पेण च स्थितम् । चलत्स्वरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलः । चक्रस्वरूपं च मनो वत्ते विष्णुकरे स्थितम् ॥ पञ्चरूपा तु या माला वैजयन्तीगदाभूतः । सा भूतहेतुसङ्घाता भूतमाला च वे द्विजः । यानोन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि वै । शरत्पाण्यशेषाणि तानि घत्ते जनार्दन ॥ विभक्तिं यच्चानिरत्नमच्युतोऽत्यन्तनिर्मलः । विधामय तु तज्ज्ञानमविद्याकोशमस्थितम् । इत्थं पुमान्प्रधानं च बुद्धयहङ्कारमेव च । भूतानि च हृषीकेशो मत सर्वेन्द्रियाणि च ॥ विद्याविद्ये च मैत्रेय सर्वमेतत्समाश्रितः । ब्रह्मभूषणमस्थानस्वरूपं रूपवर्जितम् । विभक्तिं मायारूपोऽसौ त्रेयने प्राणिना हरिः । स विचार प्रधानं च पुमाश्चैवाखिल जगत् ॥ विभक्तिं पुण्डरीकाक्षस्तदेव परमेश्वरः । या विद्या या तथाऽविद्या यत्त्वच्चानन्दव्ययम् । तत्तन् सर्वभूतेश मैत्रेय मधुसूदने । —विष्णु पु०, अश १, अध्याय २०, श्लो०६५-७८

हाथ मे जो गदा है, वह बुद्धिरूपा है। गदा जिस प्रकार किसी स्थूल पदार्थ को तोड़ देती है, उसी प्रकार बुद्धि भी सबको तोड़कर भीतर प्रविष्ट होती जाती है, यही दोनों का सादृश्य है। शख ओर शार्ङ्ग इन्द्रियों ओर भूतों को उत्पन्न करनेवाले सात्त्विक ओर राजस अहंकार की प्रतिकृति है। उनके हाथ मे जो सुदर्शन चक्र है, वह सब जीवों के मन का रूप है। मन की तरह ही वह अत्यन्त वेगवान् और सदा चलता रहनेवाला है। इन आयुधों से यह प्रकट किया जाता है कि सबकी बुद्धि इन्द्रिय और पंचमहाभूतों के आधार भगवान् ही है। उन्हीं की प्रेरणा से सब जीवों के मन, बुद्धि आदि काम करते हैं। भगवान् के गले मे जो अनेक रूप की वैजयन्ती माला है, वह पंचमहाभूतों की माला समझनी चाहिए। तूणीर मे जो वाण भरे हुए हैं, वे सब प्राणियों की ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों के रूप हैं। भगवान् के हाथ मे जो नन्दक खड्ग है, वह प्रदीप्त ज्ञान का स्वरूप है, जो कि अविद्या-रूप कोप से आच्छादित है। इसका यही अभिप्राय है कि विद्या और अविद्या दोनों भगवान् की शक्ति है, जो उनके ही हाथ मे रहती है। इस प्रकार सब आव्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तत्त्वों को धारण करनेवाले भगवान् विष्णु अव्यय पुरुष है। यद्यपि हम अक्षर पुरुष की कलाओं मे विष्णु को व्रता आये हैं, किन्तु अक्षर मे भी अभिव्याप्त और उसका भी आलम्बन अव्यय पुरुष है। इसलिए अक्षर द्वारा भी अव्यय पुरुष की ही उपासना की जाती है। यह विष्णु भगवान् की मूर्त्ति का विवरण हुआ। सब तत्त्वों के आश्रय-रूप मे विष्णु की उपासना है। अब इनके प्रधान अवतार भगवान् कृष्ण की उपासना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

अवतार का विवरण

वह परमेश्वर परमात्मा स्व-स्वरूप से अविज्ञेय है। स्वरूपलक्षण द्वारा हम उसे पहचान नहीं सकते। यह सब मे निलीन-निगूढ है। किन्तु जगत्, जो कि प्रत्यक्ष है, वह भी उससे पृथक् नहीं। वही जगत् है और वही जगत् का नियन्ता है, इसलिए जगत् मे जो-जो उसके रूप जगत् का नियमन करते हुए दिखाई देते हैं, उनके द्वारा ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। उनके द्वारा ही उपासना कर सकते हैं, वे ही परमेश्वर के 'अवतार' हैं। दूसरे शब्दों मे क्षर पुरुष मे अव्यय पुरुष की जो कलाएँ परिचित होती हैं, वे ही अवतार हैं। उनके द्वारा ही अव्यय पुरुष उपास्य या ध्येय होता है। इसी कारण अवतार का वाचक श्रीमद्भागवतादि मे 'आविर्भाव' शब्द भी आया है और जगद्व्यापी विराट्-रूप को ही भागवत मे पहला अवतार बताया गया है—'एतन्नानावताराणा निधान वीजमव्ययम्।' जगत् मे परमात्मा जो आविर्भूत होता है, सो मानो, अपने स्व-स्वरूप स्वधाम से जगत् मे उतरता है। अव्यय पुरुष ही क्षर रूप मे उतरकर आया है। इसलिए उसे 'अवतार' कहते हैं। परमात्मा का रूप 'सत्य' है, वह तीनों कालों मे, सब देशों मे, सब दशाओं मे अवाधित रहता है। कारण को सत्य कहते हैं। वह सबका कारण है, इसलिए परम सत्य है। वह सत्य जगत् मे 'नियति' रूप से प्रकट है। प्रत्येक पदार्थ के भीतर एक नियम काम कर रहा है।

जल सदा नीचे की ओर ही जाता है, अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर की ही उठती है, वायु सदा तिरछी ही चलती है, सूर्य नियत समय पर ही उदित होता है। हरिण के दोनो सींग दरावर नाप में बढ़ते हुए समान रूप से मुड़ते हैं। वेर के वृक्ष में प्रत्येक पर्व-ग्रन्थि पर दो काँटे पैदा होते हैं, जिनमें एक मुड़ जाता है, एक खड़ा रहता है। वसन्त ऋतु आते ही आम के वृक्षों में मजरी निकलने लगती है। इस प्रकार, सब जगत् को अपने-अपने धर्म में नियत रूप से स्थिर रखनेवाली शक्ति, जिसमें चेतना भी अनुस्यूत है, 'अन्तर्यामी नियति' वा 'सत्य' शब्द से कही जाती है। कह सकते हैं कि उस परम सत्य का नियति रूप से, इस जगत् में अवतार है। इसी प्रकार, सत्, चित्, आनन्द परमात्मा के ये रूप शास्त्रों में वर्णित हैं, उनका जगत् में प्रतिष्ठा, ज्योति और यज्ञ के रूप में अवतार होता है। सत्ता और विधृति ये दोनो प्रतिष्ठा के रूप हैं, प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व रखता है, और अपने कार्य को अपने आधार पर धारण करता है। जैसा कि मृत्तिका घट का वा तन्तु पट का रूप धारण करते हैं। ये सत्ता के विश्वचर रूप हुए। चित् (ज्ञान) का विश्वचर रूप ज्योति है। इसके तीन भेद हैं— नाम, रूप और कर्म। इन्हीं से सब पदार्थों का प्रकाश (ज्ञान) होता है। ये ही सब पदार्थों के भेदक हैं। आनन्द का विश्वचर रूप यज्ञ है। आनन्द का अन्न ग्रहण करना ही यज्ञ कहलाता है। इसलिए 'अन्न' नाम से भी इस रूप का व्यवहार करते हैं। अन्न-ग्रहण से वस्तु का विकास होता है, और विकास ही आनन्द का रूप है, इस 'यज्ञ' का विवरण पहले किया जा चुका है। इन तीनों विश्वचर रूपों को भी 'प्रतिष्ठा वै सत्यम्', 'नामरूपे सत्यम्' इत्यादि श्रुतियों में 'सत्य' शब्द से कहा है—

यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥

इस श्रुति में सर्वज्ञ परपुरुष अव्यय से इन्हीं तीन विश्वचर रूपों की उत्पत्ति कही गई है। विश्वातीत रूपों से विश्वचर रूपों की उत्पत्ति कही गई है। विश्वातीत रूपों का विश्वचर रूप से अवतार ही उत्पत्ति है। श्रुति में ब्रह्म नाम प्रतिष्ठा का और अन्न नाम यज्ञ का है। इन तीनों सत्वों का भी सत्य परमात्मा है। इसलिए वह 'सत्यस्य सत्यम्' कहा जाता है। श्रीमद्भागवत में भगवान् श्रीकृष्ण की गर्भस्तुति आरम्भ करते हुए देवताओं ने कहा है—

सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं

सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये ।

सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं

सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥

जिनके व्रत-कर्म वा सकल्प सत्य है (देवताओं के—अग्नि, वायु, सूर्य आदि के कर्म व्यभिचारी नहीं होते, इस विशेषण से भगवान् की सर्वदेवरूपता बताई गई है), सत्य ही जिनका पर-आश्रय आधार है (इससे पूर्वोक्त नियतिरूपता भगवान् की कही गई), जो तीनों काल में सत्य अबाधित है वा तीनों रूप से जो सत्य है (अन्तर्यामी, वेद

और सूत्रात्मा—ये तीन भगवान् के सत्यरूप हैं), जो सत्य के (पूर्वांक्त प्रतिष्ठा, नामरूप और यज्ञ के) कारण हैं, जो उक्त तीनों सत्यों में निहित-निगूढरूप से प्रविष्ट हैं वा जो अव्यय पुरुष-रूप भगवान् परम सत्य-शुद्ध रम-रूप ब्रह्म में निहित आत्मरूप से स्थित हैं, जो सत्य के भी सत्य हैं, अर्थात् कारणों के भी कारण हैं (कार्य की अपेक्षा कारण को सत्य कहा जाता है) अथवा प्रजापति का नाम सत्य है, उसमें भी जो सत्य हैं, अर्थात् प्रजापति की सत्यता भी जिन पर अवलम्बित है, ऋत और सत्य दोनों जिनके नेत्र (सूत्र) हैं, जिनका केन्द्र न हो, उन्हें ऋत कहते हैं, जैसे—वायु, जल आदि । जो केन्द्रबद्ध हो, वे सत्य कहलाते हैं, जैसे—तेज, पृथ्वी आदि । इन दोनों प्रकार के नेताओं (रई चलाने की रस्सियों) में से जिन्होंने सब प्रपञ्च को पकड़ रखा है, (इन दोनों भावों की अभिव्यक्ति परमेष्ठिमण्डल में होती है, इससे भगवान् का परमेष्ठिरूप बताया गया) और स्वयं भी जो सत्यस्वरूप हैं—हम उसी भगवान् की शरण में हैं । इस श्लोक में भगवान् के सत्यरूपों का सक्षिप्त विवरण है ।

उक्त (नियति, प्रतिष्ठा, नामरूप आदि) रूपों से परमात्मा का प्रथम अवतार स्वयम्भू में होता है । वही विश्व का प्रथमोत्पन्न रूप है । अतः सत्य का प्रथम आविर्भाव यही है । आगे परमेष्ठी में, सूर्य में, चन्द्रमा में और पृथ्वी में क्रमिक अवतार हैं । पृथ्वी द्वारा पृथ्वी के सब प्राणियों में भी परमात्मा के विश्वचर रूपों का आगिक अवतार होता है । अतः, स्वयम्भू भगवान् का प्रथमावतार और आगे के परमेष्ठी आदि भी अवतार कहे जाते हैं । इनमें पूर्व-पूर्व का 'प्राण' उत्तरोत्तर में अनुस्यूत होता है । इससे पूर्व-पूर्व के धर्म न्यूनाधिक मात्रा में उत्तरोत्तर में सक्रान्त हैं । स्वयम्भू के प्राण और उसके धर्म परमेष्ठी में, दोनों के सूर्य में, तीनों के चन्द्रमा में, चारों के पृथ्वी में और पाँचों के प्राणियों में सक्रान्त होते हैं । कौन-कौन मण्डल किस-किस 'प्राण' का अन्यत्र सक्रमण करता है, यह भी श्रुतियों से प्रमाणित हो जाता है । स्वयम्भू-मण्डल से भृगु, चित् और सूत्र (ऋत, सत्य), परमेष्ठिमण्डल से भृगु, अगिरा और अत्रि, सूर्य से ज्योति, गौ और आयु, चन्द्रमा से यज्ञ, रेत और पृथ्वी से वाक्, गौ एव द्यौ—ये प्राण निकलते रहते हैं, और अन्यत्र सक्रान्त होते हैं । इन सबका विवरण इस लेख में नहीं किया जा सकता, सक्षेप में इतना ही कहना है कि प्राणिमात्र में, विशेषतः मनुष्यों में जो शक्तियाँ देखी जाती हैं, वे इन्हीं भगवान् के अवतारों से प्राप्त हैं । भिन्न-भिन्न शक्ति के अविष्टान भिन्न-भिन्न आत्माओं का विकास भी प्राणियों में इन मण्डलों से प्राप्त प्राणों द्वारा ही होता है । जैसे, खनिज आदि में केवल वैश्वानर आत्मा, वृक्षादि में वैश्वानर और तैजस, इतर प्राणियों में वैश्वानर, तैजस, प्रज्ञान ये तीनों भूतात्मा और मनुष्यों में भूतात्मा, विज्ञानात्मा महानात्मा, सूत्रात्मा आदि विकसित होते हैं । जिसमें जिस मण्डल के प्राण की अधिकता हो, उसमें उसी के अनुसार विशेष शक्ति पाई जाती है और उसे उसका ही अवतार कहा जाता है । इस प्रकार, सभी प्राणी एक प्रकार से भगवान् के विभूति-अवतार कहे जा सकते हैं । किन्तु जिसमें शक्तियों का जितना अधिक विकास होता है, वह उतने ही रूप में औरों का विभूति-रूप से उपास्य हो जाता है ।

जिनमें जीव-कोटि से अधिक शक्तियों का विकास हो, बुद्धि के चारों ऐश्वर

रूप या उनमें से एक, दो या तीन मनुष्य-कौटि से अधिक मात्रा में जहाँ प्रकट हुए हों, जीवसाधारण आवरण से हटकर अव्ययात्मा की कलाएँ जिनमें आविर्भूत दीख पड़े, उन्हें विशेष रूप से अवतार माना जाता है, और जहाँ पूर्णरूप से सब शक्तियों का विकास हो, पूर्ण रूप से अव्ययात्मा की सब कलाएँ प्रकट हों, वे पूर्णावतार वा साक्षात् परमेश्वर परब्रह्मरूप से उपास्य होते हैं।

श्रीकृष्णावतार

ऐश्वर्य और अवतार का यह रहस्य दृष्टि में रखकर अब भगवान् श्रीकृष्ण के चरित्रों की आलोचना कीजिए, तो स्फुट रूप से भासित हो जायगा कि वे 'पूर्णावतार', हैं। दुराग्रह छोड़ दिया जाय, तो विवश होकर कहना ही पड़ेगा कि 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' (श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान्—परब्रह्म परमेश्वर हैं) पहले बुद्धि के चारों ऐश्वर्य रूपों (धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य) को ही देखिए, इनकी पूर्णता श्रीकृष्ण में स्पष्ट प्रतीत होगी। धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान् श्रीकृष्ण का अवतार है, उनका प्रत्येक कार्य धर्म की कसौटी है, उनके सब चरित्र शुद्ध, सात्विक हैं, रज और तम का वहाँ स्पर्श भी नहीं है। अमानिता, अदम्भ आदि बुद्धि के धार्मिक गुणों को पूर्ण मात्रा में वहाँ मिला लीजिए। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में आगन्तुको के चरण-प्रक्षालन का काम उन्होंने लिया था। महाभारत में अर्जुन के सारथि बने थे। इन बातों से बढकर निरभिमानता क्या हो सकती है? भगवान् श्रीरामचन्द्र इसलिए धार्मिकगिरोमणि मर्यादापुरुषोत्तम कहलाते हैं कि पिता की आज्ञा से उन्होंने राज्य छोड़ दिया था। अब विचारिए, वहाँ साक्षात् पिता की साक्षात् आज्ञा थी, किन्तु कस के मारने पर भगवान् श्रीकृष्ण से मथुरा का राज्य ग्रहण करने का सब बान्धवों ने जब अनुरोध किया, तब उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि हमारे पूर्व-पुरुष यदु का महाराज ययाति ने वज्र-परम्परा तक के लिए राज्याधिकार छीन लिया है, इसलिए हम राजा नहीं हो सकते, यो उन्होंने बहुत पुराने पूर्वपुरुष की परोक्ष आज्ञा का सम्मान कर राज्य छोड़ा। इससे उनका धार्मिक आदर्श कितना ऊँचा सिद्ध होता है। धर्म के प्रधान अंग सत्य में वे इतने सुदृढ थे कि शिशुपाल की माता को शिशुपाल के सौ अपराध सहन करने का वचन दे दिया था। युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में शिशुपाल के कट्ट भाषण पर तटस्थों को क्रोध आ गया। किन्तु वे सौ की पूर्ति तक चुपचाप रहे। सौ पूर्ण होने पर ही उसे मारा। इसके अतिरिक्त धर्म के नाम पर जो लोग उल्टे मार्ग में फँसते हैं, दो धर्मों का परस्पर विरोध दिखाई देने पर उस ग्रन्थ को सुलझाने में बड़े-बड़े विद्वानों की भी बुद्धि जो चक्कर में पड़ जाती है और भ्रान्तिवश अधर्म को धर्म मान लेती है, उन ग्रन्थियों को अपने आचरण और उपदेश दोनों से भगवान् श्रीकृष्ण ने खूब सुलझाया है। धर्म के सब अंगों को पूरा निभाया है। धर्म का स्वरूप सदा देशकालपात्र-सापेक्ष होता है। एक समय एक के लिए जो धर्म है, भिन्न अवसर में वा भिन्न अधिकारों के लिए वही अधर्म हो जाता है। इस अधिकार-भेद 'श्रेयान् स्वधर्म.' के वे पूर्णज्ञाता थे। धर्म का बलाबल

वे खूब देखते थे। दुष्टों का किसी भी प्रकार दमन वे धर्मानुमोदित मानते थे। कर्णाजुन-युद्ध में रथ का पहिया पृथ्वी में चले जाने पर धर्म की दुहाई देकर अर्जुन से शस्त्र चलाना बन्द करने का अनुरोध करते हुए कर्ण को उन्होंने यही कहकर फटकारा था कि 'जिसने अपने जीवन के आचरणों में धर्म का कभी आदर नहीं किया, उसे दूसरे से अपने लिए धर्माचरण की आशा करने का क्या अधिकार है?' काल्यवन जब अनुचित रूप से विना कारण मथुरा पर चढ़ाई कर आया, तब उसे धोखा देने में उन्होंने कुछ भी अनौचित्य नहीं समझा। अधार्मिकों के साथ भी यदि पूर्ण धर्म का पालन किया जाय, तो अधार्मिकों का हौसला बटता है, और वर्म की हानि होती है। इसलिए समाज-व्यवस्थापक को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। रथचक्र लेकर भीष्म के सामने दौड़ते हुए उन्होंने जब भीष्म पर आक्षेप किया कि तुमने धार्मिक होकर भी अधर्मी दुर्योधन का साथ क्यों दिया, तब भीष्म के "राजा पर देवतम्" (राजा बड़ा देवता है) उसकी आज्ञा माननी ही चाहिए"—उत्तर देने पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि दुष्ट राजा कभी माननीय नहीं होता, तभी तो देखो मैंने स्वयं कस का नियन्त्रण किया। यो, सामाजिक नेता के धर्मों की उन्होंने खूब शिक्षा दी है, और वर्म के साथ नीति का क्या स्थान है, कहाँ-कहाँ नीति को प्रधानता देनी चाहिए, और कहाँ-कहाँ धर्म को, इन बातों को खूब स्पष्ट किया है। नीति का उपयोग जहाँ धर्मरक्षा में होता हो, वहाँ वे नीति को प्रधानता देते हैं। इस व्यवस्था को भूल जाने से ही भारतवर्ष विदेशियों से पदाक्रान्त हुआ है और परिणाम में इसे धर्म की दुर्दशा देखनी पडी है। अस्तु, कर्णपर्व में महाराज युधिष्ठिर के गाण्डीव धनुष की निन्दा करने पर सत्य-प्रतिज्ञा-निर्वाह के उद्देश्य से युधिष्ठिर पर शस्त्र चलाने के लिए उत्पन्न अर्जुन को ऐसे अवसर में सत्य-पालन का अनौचित्य बताते हुए उन्होंने रोका था, और बड़ों की निन्दा ही उनका हनन है, इस अनुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी। सौतिक पर्व में अवत्यामा ने जब सोये हुए द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को मार दिया और अर्जुन ने उसके वध की प्रतिज्ञा से बिलखती द्रौपदी को सान्त्वना देकर युद्ध में जीतकर उसे पकड़ लिया—तब युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रहे थे कि ब्रह्महत्या मत करो। इसे छोड़ दो। भीमसेन कह रहे थे कि ऐसे दुष्ट को अवश्य मार दो। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी मारने के पक्ष में थी। उस समय भी उन्होंने 'धनहरण मारने के ही सदृश होता है, इसके मस्तक की मणि निकाल लो', यह अनुकल्प बताकर अर्जुन से दोनों गुरुजनों की आज्ञा का पालन कराया था और उसे ब्रह्महत्या से बचाकर अनुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी। ऐसे प्रसंग धर्म ग्रन्थि सुलझाने के आदर्श उदाहरण हैं। भगवद्गीता के प्रारम्भ में अर्जुन के विचार स्थूल दृष्टि से बिलकुल धर्मानुकूल, प्रत्युत एक आदर्श धार्मिक के विचार प्रतीत होते हैं, किन्तु उन्होंने स्वधर्मविरुद्ध कहकर 'प्रजावादाश्च भाषसे' के द्वारा उन विचारों को बिलकुल अनुचित ठहराया और उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जो गीता का स्वाध्याय करने पर बिलकुल ठीक मालूम होता है। बाल्यकाल में ही गोपों द्वारा इन्द्र की पूजा हटाकर उन्होंने जो गोवर्धन-पूजा प्रवृत्त की, उसमें भी वही अधिकार-भेद का रहस्य काम कर रहा है। उनका यही अभिप्राय है कि

ईश्वर जब सर्वव्यापक है, तब गोवर्धन जो हमारे समीप है और जिससे हमारा सब प्रकार से पालन होता है, उसे ही ईश्वर की मूर्ति मानकर क्यों न पूजा जाय ? क्या वह ईश्वर की विभूति नहीं है ? 'इन्द्र की पूजा करने से इन्द्र वर्षा करेगा', इस काम्यधर्म के वे सदा से विरोधी रहे हैं, इसे उन्होंने स्थान-स्थान पर 'दुकानदारी' बताया है, और धर्म-सीमा से दहिर्भूत माना है। अपना कर्त्तव्य समझ बर्म का अनुष्ठान करना, यही श्रीकृष्ण भगवान् की शिक्षा है। अस्तु, विस्तार का प्रयोजन नहीं, सर्वांगपूर्ण, बलाबल-विवेचना-सहित, आदर्श धर्म का उनकी कृति और उपदेशों में पूर्ण निर्वाह है। इसी-लिए उस काल के धार्मिक नेता भगवान् व्यासजी वाल्मिक्याचार्य भीष्म वा धर्मावतार युधिष्ठिर आदि उनको साक्षात् ईश्वर मानते थे और धर्मग्रन्थि सुलझाने में उनको ही प्रमाणित करते थे। महाराज परीक्षित का जब मृत बालक-दशा जन्म में हुआ, तब उसको जिलाते समय भगवान् श्रीकृष्ण ने अपनी वर्मपरायणता का ही आधार रखा है, ऐसा महाभारत में भी आख्यान है। वहाँ उनकी उक्ति यही है कि यदि मैंने आजन्म कभी धर्म वा सत्य का अतिक्रम न किया हो, तो यह बालक जी उठे। इससे अपनी धर्मपरायणता का आदर्श और धर्म की अलौकिक शक्ति भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं प्रकट की है।

दूसरा बुद्धि का रूप 'ज्ञान' भी भगवान् श्रीकृष्ण में सर्वांगपूर्ण था। क्या व्यावहारिक ज्ञान, क्या राजनीतिक ज्ञान, क्या धार्मिक ज्ञान, क्या दार्शनिक ज्ञान—सबकी उनमें पूर्णता थी। वे सर्वज्ञाननिधि थे, इसके लिए उनका एक भगवद्गीता का उपदेश ही पर्याप्त प्रमाण है। जिसमें ज्ञान की याह आज पाँच हजार वर्ष तक भी मिल न सकी। नित्य नये-नये विचार और नये नये विज्ञान उस ७०० श्लोकों के छोटे से ग्रन्थ से प्रस्तुत हो रहे हैं। और भी, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध आदि में उनके कई एक उपदेश हैं, जो ज्ञान में उनकी पूर्णता के प्रबल प्रमाण हैं। इनके अतिरिक्त व्यवहार में भी उनका पूर्ण ज्ञान विकसित है।

व्यावहारिक ज्ञान कार्य-कारण-भावज्ञान का नाम है, किस उपाय से कौन-सा कार्य सिद्ध हो सकता है, यह ज्ञान लेना ही व्यावहारिक ज्ञान होता है, इसका चिह्न है सफलता। जितना व्यावहारिक ज्ञान जिसमें होगा, उतनी ही सफलता उसे मिलेगी। जीव-कोटि के बड़े-बड़े विद्वान् और महान् नेता भी खास-खास अवसरों पर धोखा खा जाते हैं और सफलता से हाथ धो बैठते हैं। इतिहासों में इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। भगवान् श्रीकृष्ण का व्यावहारिक मार्ग बाल्यकाल से ही कितना कण्टकाकीर्ण था, वह उनके चरित के स्वाध्याय करनेवालों से छिपा नहीं है। चारों तरफ आसुर भावपूर्ण राजाओं का दबदबा था, उन सबका दमन करना था। किन्तु इस दशा में भी उन्हें वहाँ असफलता नहीं मिली। इतना ही नहीं, किसी दशा में चिन्तित होकर सोचना भी न पड़ा, प्रत्येक स्थान में सफलता हाथ बाँधे खड़ी रही। क्या यह विज्ञान की पूर्णता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ? क्या इससे भगवान् श्रीकृष्ण का पूर्ण ईश्वरत्व प्रकट नहीं होता ? भारत का सम्राट् जरासन्ध और उनका मित्र काल्यवन अपने अतुल सैन्य-सागर से मथुरा पर घेरा दिये पड़े हैं, उस दशा में सभी यादवों को अपने अक्षत सामान-सहित सुदूर काठिणावाड के द्वारका-

स्थान में ले जाकर बसा देना और समुद्र के मध्य में एक आदर्श नगर बना उने भारत के गव नगरों से प्रधान कर देना, वास्तव में व्यावहारिक ज्ञान की मनुष्य-सीमातीत काष्ठा है। यादवों के एक छोटे-मे राज्य का इतना दबदबा जमा देना कि सम्पूर्ण भारत के महाराजाओं को उनकी आज्ञा माननी पड़े, यह राजनीतिक ज्ञान की सीमा है। महाभारत में भी उनका राजनीतिक ज्ञान स्थान-स्थान में अपनी अलौकिक छटा दिखा रहा है। वर्तमान युग के राजनीतिक भी उनके राजनीतिक ज्ञान का लोहा मानते हैं। ज्ञान की सर्वांगपूर्णता में किसी विचारक को सन्देह नहीं हो सकता।

अत्र ऐश्वर्यं लीजिए। कहा जा चुका है कि बुद्धि के विकास का नाम ऐश्वर्य है, उसके प्रतिफल आध्यात्मिक अणिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ और बाह्य अलौकिक सम्पत्ति आदि होते हैं। जिन्होंने द्वारका की समृद्धि का वर्णन पटा है, उन्हें बाह्य अलौकिक सम्पत्ति की बात बतानी न होगी। बाल्य चरित्रों में कालियदमन, गोवर्धन-धारण आदि वा आगे के चरित्रों में विश्वरूप-प्रदर्शन, अनेकरूप-प्रदर्शन आदि आध्यात्मिक शक्तियों की परा काष्ठा के उदाहरण भी प्रचुरता से मिलते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानग्रन्थ आजकल की जनता असम्भव कोटि में मानती है। वस्तुतः, भगवान् श्रीकृष्ण में ऐश्वर्य जन्मसिद्ध है, आध्यात्मिक शक्तियों की विभूतियों के रूप में ही उनके अलौकिक कार्य हुए हैं। काल-वश भारत के दुर्दैव से योगविद्या आज नष्ट हो गई। जिनके कारण भारत आध्यात्मिक शक्तियों का जगद्गुरु था, आज उनका परिचय ही न रहा, इससे आध्यात्मिक शक्तियों के कार्यों को आज असम्भव समझा जाय, तो आश्चर्य नहीं। किन्तु किसी बात को असम्भव बताना कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। कार्य-कारण भाव-पूर्वक उपपत्ति सोचना बुद्धिमत्ता का लक्षण है।

व्यवसायात्मिका बुद्धि का चौथा रूप वैराग्य है, जो कि रागद्वेष का विरोधी है। इसकी पूर्णता का चिह्न यह है कि सब काम करता हुआ भी, पूर्ण रूप से ससार में रहता हुआ भी सबसे अनासक्त रहे, किसी बन्धन में न आवे। कमल पत्र की तरह निर्लिप्त बना रहे। ससार छोड़कर अलग हो जाना अभ्यासवश जीवों में सम्भव है, किन्तु ससार में रहकर सर्वथा निर्लिप्त रहना शुद्ध ऐश्वर्य धर्म है। भगवान् श्रीकृष्ण के चरित्रों में आदि से अन्त तक वैराग्य का (राग-द्वेषशून्यता का) पूर्ण विकास है। कहीं बाल्यकाल का गोप-गोपियों और नन्द-यशोदा के साथ वह प्रेम कि जिसमें बंधकर एक क्षण वे विना श्रीकृष्ण के न रह सकते थे और कहीं यह आदर्श निगुरता कि अक्रूर के साथ मथुरा जाने के बाद वे एक बार भी वृन्दावन वापस नहीं आये। उद्धव को भेजा, बलराम को भेजा, उन्हें सान्त्वना दी, किन्तु अपना 'वेलगपन' दिखाने को एक बार भी किसी से मिलने को स्वयं उधर मुख नहीं किया। पहले गोपियों के साथ रासलीला करते समय ही मय्य में अन्तर्हित होकर अपनी निरपेक्षता उन्होंने दिखा दी थी। प्रकट होने पर जब गोपियों ने व्यग्य से प्रश्न किया कि अपने साथ प्रेम करने-वालों से भी जो प्रेम नहीं करते, उनका क्या स्थान? तब उन्होंने कहा था कि वे दो ही हो सकते हैं—'आत्मासमा, आसक्तमा, अकृतज्ञा, गुरुद्रुह', या तो पूर्ण ज्ञानी या कृतज्ञ। साथ ही अपना स्वभाव भी उन्होंने बताया था कि 'नाहं तु सस्यो भजतोऽपि

जन्तून् भजाम्यमीपामनुवृत्तिसिद्धये', बस, इस स्वभाव का पूर्ण निर्वाह उन्होंने किया। यादवों के राज्य का सब काम वे चलाते थे, किन्तु बन्धन-रूप कोई अधिकार उन्होंने नहीं ले रखा था, वहाँ भी 'वैलाग' ही रहे। महाभारत-युद्ध अपनी नीति से ही चलाया, किन्तु बने रहे 'पार्थसारथि'। बहूत-से द्रुष्ट राजाओं को मारा, किन्तु उनके पुत्रों को ही राज्य का अधिकार दे दिया, राज्यलोलुपता कहीं भी न दिखाई। अपने कुटुम्बी यादवों को भी जब उद्धत होते देखा, उनके द्वारा जगत् में अज्ञान्ति की सम्भावना हुई, तब उनका भी अपने सामने ही सर्वनाश करा दिया। वैराग्य का—राग-द्वेषगन्धता का ही लक्षण 'समता' है, सो उनके आचरणों में ओतप्रोत है, हर एक यही समझता था कि श्रीकृष्ण भरे हैं, किन्तु वे ये किसी के नहीं, सबके ओर सबमें स्वतन्त्र। पटरानियों में भी यही दृष्टा थी, रुक्मिणी अपने को पटरानी समझती थी। सत्यभामा अपने को अतिप्रिया मानती थी, सब ऐसा ही समझती थीं। वह भगवान् श्रीकृष्ण की समता का निदर्शन है। नारद ने परीक्षा करते समय इसी समता पर आश्चर्य प्रकट किया था। आप सत्यभामा का हठ रखने को पारिजात हरण करते हैं, तो जाम्बवती को पुत्र प्राप्त होने के लिए शिव की आराधना करते हैं, किसी भी प्रकार समता को नहीं जाने देते। महाभारत-युद्ध के उपस्थित होने पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सहायता माँगने आते हैं और दोनों का मनोरथ पूर्ण होता है। अर्जुन से पूर्ण सौहार्द है, किन्तु गर्व-भङ्गन के लिए स्थान-स्थान पर उसका भी शासन किया जाता है। वे सब समता के प्रबल प्रमाण हैं। बुद्धि के उक्त चारों सात्त्विक त्तप जिसमें हो, वही भगवान् कहा जाता है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीरणा ॥

वैराग्यं ज्ञानमैश्वर्यं धर्मश्चेत्यात्मबुद्धयः ।

बुद्धयः श्रीर्यशश्चैते पङ् वै भगवतो भगाः ॥

उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामगति गतिम् ।

वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ इत्यादि ।

यज्ञ और श्री इन दो बाह्य लक्षणों को भग शब्दार्थ में और अन्तर्गत किया गया है, उन दोनों का भगवान् श्रीकृष्ण में पूर्ण मात्रा में विकास सर्वप्रसिद्ध है, इस पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। तृतीय श्लोक में भगवान् का जो लक्षण लिखा है—भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, लोकलोकान्तर-गति, वहाँ से लौटना, विद्या और अविद्या—इन सबका ज्ञान, गीता में इन सब विषयों का वित्पष्ट प्रतिपादन ही बता रहा है कि भगवान् श्रीकृष्ण में यह परिपूर्ण रूप से है। भगवद्गीता में उक्त चारों सात्त्विक बुद्धिरूपों का विशद निरूपण है। बुद्धियोग ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है, उसमें वैराग्ययोग, ज्ञानयोग, ऐश्वर्ययोग और धर्मयोग—यह क्रम रखा गया है। इनको क्रम से राजर्षिविद्या, सिद्धविद्या, राजविद्या और आर्षविद्या नाम से भी कहते हैं, इनका पल क्रम से अनासक्ति (समता), अनावरण, भक्ति और बन्धन-मुक्ति द्वारा बुद्धि का अव्ययात्मा में समर्पण-त्प योग है। यह सब भगवद्गीता-विज्ञान-भाष्य में सगतिपूर्वक निरूपित हुआ है। इससे भी उक्त चारों त्तपों की पूर्णता गीता के

वक्ता भगवान् श्रीकृष्ण में गिद्ध होती है, यों 'भग' लक्षण की पूर्णता से श्रीकृष्ण(अच्युत) भगवान् कहलाते हैं। यद्यपि योगसाधन से जीवों में भी सात्त्विकबुद्धि लक्षण प्रकट हो सकते हैं, किन्तु किसी मात्रा में ही होते हैं, एक कोई पूर्णरूप में प्रकट हो जाय—यह भी सम्भव है, और ऐसे ब्रह्मर्षि, राजर्षि, मुनि आदि भी भगवान् कहे जाते हैं। किन्तु सब रूपों की परिपूर्णता जीव में अशक्त भी जीवभाव रहने पर असम्भव है। सबकी पूर्णता ईश्वर में ही होती है। फिर यह भी विलक्षणता है कि जीवों में ये लक्षण प्रयत्न-साध्य होते हैं और ईश्वर में स्वतन्त्र। भगवान् श्रीकृष्ण का योगसाधन-रूप प्रयत्न किसी इतिहास में नहीं लिखा और वाल्यकाल से ही व्यवसायात्मक बुद्धि के लक्षण उनमें प्रकट है। इससे उक्त बुद्धि-लक्षण उनमें स्वतः सिद्ध है—यही कहना पड़ेगा और उन्हें अच्युत भगवान् ईश्वर का पूर्णावतार या साक्षात् परमेश्वर ही मानना पड़ेगा।

व्यवसायात्मक बुद्धि की पूर्णता के कारण अव्यय पुरुष का आचरण अशक्तः भगवान् श्रीकृष्ण में नहीं है, अव्यय पुरुष की पाँचों कलाओं का पूर्ण विकास है। अतएव भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने-आपको भगवद्गीता में 'अव्यय पुरुष' कहा है। अन्यय पुरुष का लक्षण पहले लिखा जा चुका है कि सब में समन्वित रहता हुआ भी, सबका आलम्बन होता हुआ भी वह सर्वथा निर्लिप्त रहता है। विलकुल 'वैलाग' रहता है। यह लक्षण भगवान् श्रीकृष्ण में किस प्रकार समन्वित है, हम वैराग्य-निरूपण में दिखा चुके हैं। अब अव्यय की कलाओं के विकास पर भी पाठक विचार करे। आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्—ये अव्यय पुरुष की कलाएँ पहले लिखी जा चुकी हैं। इनको क्रम से नीचे देखिए।

वाक् के विकास के लक्षण है भौतिक समृद्धि और वाक्-शक्ति। भौतिक समृद्धि की पूर्णता भगवान् श्रीकृष्ण में हम दिखा चुके हैं। वाक्-शक्ति से भी उन्होंने कई जगह काम लिया है। भगवद्गीता की घटना सुप्रसिद्ध ही है। युद्ध छोड़कर भागते हुए एक दृढप्रतिज्ञा हठी वीर को अपनी वाक्-शक्ति से ही उन्होंने स्वयं में लगाया। छोटी-सी अवस्था में वाक्-शक्ति से ही गोपो से इन्द्रपूजा छुड़वाकर गोवर्धन-पूजा करवा दी। ग्राम की भोली-भाली जनता का विश्वास—धार्मिक विश्वास बदल देना कितना कठिन काम है। वह उन्होंने सात वर्ष की अवस्था में ही वाक्-शक्ति के प्रभाव से कर दिखाया। गोप-कन्याओं का नग्न स्नान रोकने में भी उन्होंने वाक्-शक्ति से काम लिया है, ऐसे वाक्-शक्ति-विकास के कई-एक उदाहरण हैं। दूसरी प्राण-कला के विकास के लक्षण है—बल शौर्य, क्रियाशीलता आदि। जिसने शिशु-अवस्था में अपनी लात से बड़े गकटों को उलट दिया। कुमारवस्था में पुराने अर्जुन-वृक्षां को एक झटके में उखाड़ फेंका। किशोरावस्था में कस के बड़े-बड़े मल्लों को अखाड़े में पछाड़ दिया। मत्त हाथी को मार गिराया। यौवन में नग्नजित् राजा के यहाँ सात मत्त वृषभों को एक साथ नाथ दिया। क्षत्रियत्व की पूर्णता के उस समय में—महा महावीर क्षत्रियों के भारत में विराजमान रहते—जिनके सामने लडकर कोई न जीत सका। सब दुष्ट राजाओं पर आक्रमण कर सबका दमन जिन्होंने किया। सारे भूमण्डल का भार उतारा, अकेले इन्द्रपुरी पर चढ़ाई कर पारिजात-हरण में इन्द्र-पूजा

और इन्द्र तक का मान भग किया—उनके बल और शौर्य के अतिमानुष विकास में सन्देह को स्थान ही कहाँ है ? आपकी क्रियाशीलता भी जगद्विदित है। आज द्वारका में है, तो कल देहली में, परसों युद्ध में चढाई हो रही है, तो अगले दिन तीर्थ-यात्रा। हज़ारों रानियों के साथ पूर्ण गार्हस्थ्य-धर्म का निर्वाह, यादव राज्य का सब प्रबन्ध कर भूमण्डल में उसे आदर्श-प्रतिष्ठित बनाना, पाण्डवों के प्रत्येक कार्य में सहायक और सलाहकार-रूप से उपस्थित रहना, भू-भार हरण का अपना कर्त्तव्य-पालन भी करते जाना, महागन्धुओं से द्वारका की रक्षा भी और गन्धुओं पर आक्रमण कर उनका विध्वंस भी। यथासमय में द्वारका से विदर्भ देग पहुँच रुक्मिणी का मनोरथ पूर्ण कर देना आदि भी क्रियाशीलता के अति-मानुष उदाहरण हैं। इस प्रकार, अव्यय पुरुष की दूसरी कला का विकास पूर्ण रूप में सिद्ध होता है।

तीसरी कला मन के विकास के लक्षण हैं—मनस्विता, उत्साहशीलता, मनो-मोहकता (मनोहरता) आदि। मिथुपाल-जैसे वीर राजा के मित्रों और सेना-सहित उपस्थित होने का समाचार सुनकर भी अकेले कुण्डिनपुर चले जाना, भारत के सम्राट् परम शत्रु जरासन्ध से लड़ने को केवल भीम और अर्जुन को साथ ले, बिना सेना के जा पहुँचना, भरी सभा में कूटकर कस जैसे राजा के केश पकड़ उसे गिरा देना, मणि-चोरी का कलङ्क लगने पर सबके मना करते रहने पर भी अकेले अपार गुफा में चले जाना—ऐसी मनस्विता और हिम्मत के उदाहरण उनके चरित्रों में सैकड़ों हैं। मनोहरता तो उनकी प्रसिद्ध है, उनका नाम ही 'चित्तचोर' है। शत्रु भी लड़ने को सामने आकर एक बार आकृष्ट होकर चौकड़ी भूल जाते थे। विदेशीय क्रूर वीर काल्यवन को भी अनुताप हुआ था कि ऐसे सुन्दर नौजवान से लड़ना पड़ेगा।

चौथी कला 'विज्ञान' के सम्बन्ध में पहले ही बहुत-कुछ लिखा जा चुका है। बुद्धिप्रसाद-रूप 'ज्ञान' के रहते अव्यय पुरुष की इस 'ज्ञान'-कला का विकास होता है। यहाँ विज्ञान से ससार-ग्रथिमोचक आत्मविज्ञान ही अभिप्रेत है। उसके विकास में भगवद्गीता के उपदेश से बढ़कर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं।

अब पाँचवीं सबसे उत्कृष्ट अव्यय की (प्रथम) कला आनन्द है, वही ब्रह्म का मुख्य स्वरूप बताया गया है—'रसो वै सः'। इसका पूर्ण विकास अन्य अवतारों में भी नहीं देखा जाता। भगवान् श्रीरामचन्द्र में अन्य सब कलाओं का विकास है, किन्तु आनन्द का सर्वोच्च विकास नहीं है, उनका जीवन 'उदासीनतामय' है। उसमें गान्त्यानन्द है। किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण में आनन्द के सब रूपों का पूर्ण विकास है। आनन्द के दो भेद हैं—एक समृद्ध्यानन्द, दूसरा शान्त्यानन्द। जब मनुष्य को किसी इष्ट वस्तु धन-पुत्रादि की प्राप्ति होती है, तब उसका चित्त प्रफुल्लित होता है, उस प्रफुल्लता की मनोवृत्ति-रूप आनन्द वा समृद्ध्यानन्द कहा जाता है। यह प्रफुल्लता थोड़े काल रहती है, आगे वह इष्ट वस्तु—धन पुत्रादि मौजूद रहती है, किन्तु वह चित्त-विकास, वह प्रफुल्लता नहीं रहती, अब वह समृद्ध्यानन्द शान्त्यानन्द में परिणत हो गया। निर्धन की अपेक्षा धनवान् को, अपुत्र की अपेक्षा पुत्रवान् को अधिक आनन्द है। किन्तु उस आनन्द का सर्वदा अनुभव नहीं होता। चित्त-विकास सदा नहीं रहता। वस

अनुभव-काल में चित्त-विकास-दशा में समृद्धयानन्द और अनुभव में न आनेवाला, मनोवृत्ति से गृहीत न होनेवाला आनन्द शान्त्यानन्द कहलाता है। मन में इच्छा-रूप तरंग न उत्पन्न होने की दशा में या दुःख-निवृत्ति-दशा में भी शान्त्यानन्द ही होता है। शान्त्यानन्द के ब्रह्मानन्द, योगानन्द, विद्यानन्द आदि भेद पंचदशी आदि ग्रन्थों में बताये गये हैं और समृद्धयानन्द के मोद, प्रमोद, प्रिय आदि भेद तैत्तिरीयोपनिषद् में आनन्दमय के सिर, पक्ष आदि के रूप से कहे गये हैं। अभिनव वस्तु के दर्शन में प्रिय-रूप आनन्द है, उसके प्राप्त होने में मोद और भोग-काल में प्रमोद होता है, ऐसी भाष्यकारों की व्याख्या है। अस्तु, शान्त्यानन्द तो ईश्वर के प्रायः सभी अवतारों में रहता है, क्योंकि ईश्वर है ही आनन्द-रूप, किन्तु भोग-लक्षण समृद्धयानन्द का भगवान् श्रीकृष्ण में ही पूर्ण विकास है। चित्त-विकास-रूप आनन्द की पूर्ण मात्रा हमारे चरित्रनायक में ही है। अनेक ग्रन्थों में सधेप या विस्तार से भगवान् श्रीकृष्ण का जीवन-चरित्र लिखा गया है, किन्तु कहीं उनके जीवन में ऐसा अवसर दिखाई नहीं देता, जहाँ वे हाथ पर गाल रखकर किसी चिन्ता में निमग्न हो। जीवन-भर में कोई दिन ऐसा नहीं, जिस दिन वे शोकाक्रान्त हो आँसू बहा रहे हो। कैसा भी झझट सामने आये, सबको खेल-तमाशों में ही उन्होंने सुलझाया। चिन्ता या शोक को कभी पास न फटकने दिया। बाल्यकाल में ही नित्य कस के भेजे असुर मारने को आ रहे हैं, किन्तु खेल-तमाशों में ही उन्हें ठिकाने लगाया जाता है। कस-जैसा घोरकर्मा पातकी ताक में है, किन्तु यहाँ गोवत्सों को चराने के मिष से गोप-सखाओं के साथ वशी के स्वरो में राग अलापे जा रहे हैं। गोपियों के घरों का माखन उड़ाया जा रहा है, चीर-हरण का विनोद हो रहा है, रासलीला रची जा रही है। वर्तमान सभ्यता के अभिमानी जो महाशय इन चरित्रों पर आक्षेप करते हैं, वे श्रीकृष्णावतार का रहस्य नहीं समझते। इतना अवश्य कहेंगे कि यदि ये लीलाएँ न होतीं, तो भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णावतार या साक्षात् भगवान् न कहलाते, आनन्द की पूर्ण अभिव्यक्ति उनमें न मानी जा सकती। आगे यौवन-चरित्रों में भी दुष्टों का सहार भी हो रहा है, राज्य की उन्नति भी हो रही है। जो सुन्दरियाँ अपने में अनुरूप सुनी जाती हैं, उनके साथ विवाहों का आयोजन भी चल रहा है। सब प्रकार के झझट भी सुलझाये जा रहे हैं और राजधानी को पूर्ण समृद्धिमय बनाकर अनेक रानियों के साथ आदर्श गार्हस्थ्य-सुख का उपभोग भी हो रहा है। पारिजात-वृक्ष लाकर सत्यभामा के मान का भी अनुरोध रखा जा रहा है। भूमि को स्वर्ग-रूप भी बनाया जा रहा है। अर्जुन-जैसे मित्रों के साथ सैर का आनन्द भी लटा जा रहा है। कदाचित् कोई मनचले महाशय प्रश्न करे कि बहुत-से पुरुष मद्यपानादि में वा अनेक स्त्रियों के सहवास में—ऐशो आराम में ही अपना जीवन बिताना, जीवन का लक्ष्य मानते हैं, क्या उन्हें भी ईश्वर का पूर्णावतार समझा जाय, तो उत्तर होगा कि हाँ, समझा जा सकता था, यदि वे अपने धर्म से विच्युत न होते, यदि सब प्रकार के ऐशो आराम में रहकर भी उनमें निर्लिप्त रह सकते, यदि विनोदमय रहकर भी अपने कर्त्तव्य को न भूलते, यदि लौकिक और पारलौकिक उन्नति से हाथ

न धोते, यदि सब कुछ भोगते हुए भी क्षणमात्र में सबको छोड़कर कभी याद न करने की शक्ति रखते, यदि ऐसे भोग के परिणाम-रूप में नाना आधि व्याधि वा भयानक शोक, मोह आदि से ग्रस्त न होते, यदि पूर्ण समृद्धयानन्द भोगते हुए भी शान्त्यानन्द में निमग्न रहते, यदि उस दशा में भी अपने अनुभव के—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्भुत् ।

तद्भक्तामा यं प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

न मे पार्थास्ति कर्त्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त्त एव च कर्मणि ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता)

—ऐसे सच्चे उद्धार निकालकर ससार को शान्ति-समुद्र में लहरा सकते । क्या ससार में कोई जीव ऐसा दृष्टान्त है, जिसके जीवन में दुःख का स्पर्श भी न हुआ हो ? जिसने सब प्रकार के लौकिक सुख भोगते हुए भी अपना पूर्ण कर्त्तव्य पालन किया हो ? जो ससार में लीप्त दीखता हुआ भी आत्मविद्या का पारङ्गत हो ? जो जगत् भर को अन्याय हटाने की चुनौती देता हुआ भी भय और चिन्ता से दूर रहे ? नि सन्देह ये परमानन्द परमात्मा के लक्षण हैं, जीवकोटि के बाहर की बातें हैं ।

वेदान्त के ग्रन्थों में आनन्द का चिह्न प्रेमास्पदत्व को माना है, आत्मा को आनन्द-रूप इसी युक्ति से सिद्ध किया जाता है कि वह परम प्रेमास्पद है । औरों के साथ प्रेम आत्मार्थ होने पर ही सम्भव है, आत्मा में निरुपाधिक प्रेम है । भगवत में जब ब्रह्मा ने गोप-गोवत्स-हरण किया था और भगवान् श्रीकृष्ण ने सब गोप गोवत्स अपने रूप से प्रकट कर दिये थे, उस प्रसङ्ग में कहा है कि गौओं को वा गोपों के पिताओं को उनमें बहुत अधिक प्रेम हुआ । परीक्षित के कारण पृथने पर शुक्याचार्य ने यही कारण बताया कि आत्मा आनन्द-रूप होने से परम प्रेमास्पद है, भगवान् श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं, आनन्दमय है, अतः उनके स्वरूप से प्रकट गोवत्सादि में अत्यधिक प्रेम होना ही चाहिए । अस्तु, जिसमें अधिक प्रेम हो, वह आनन्दमय होता है, यह इस प्रसंग से सिद्ध हुआ । इस लक्षण के अनुसार परीक्षा करें, तो भी भगवान् श्रीकृष्ण की आनन्द-मयता पूर्णरूप से सिद्ध होती है । जैसा प्रेम का प्रवाह उन्होंने बहाया था, वैसा किसीने नहीं बहाया । बाल्यकाल से ही सब उनके प्रेम में वँध गये थे । ब्रज के खग, मृग, वृष, लता भी वशी-ध्वनि से प्रेमोन्मत्त हो जाते थे । गोप, गोपाङ्गनाएँ अपने कुटुम्बियों से प्रेम छोड़ उनसे प्रेम करते थे । जो आसुर भाव से दवे हुए थे, उन्हें छोड़ श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह भूमण्डल को प्लावित कर चुका था । शत्रु भी क्षणमात्र उनके प्रेम से आकृष्ट हो जाते थे, यह हम लिख चुके हैं । उस दिन ही क्यों ? आज भी सब श्रेणी, सब धर्मों के सब जाति के मनुष्यों का जितना प्रेम भगवान् कृष्ण पर देखा जाता है, उतना किसी पर नहीं । एक गवैया यदि गान का अभ्यास करता है, तो

पहले श्रीकृष्ण उसकी जवान पर आते हैं, किसी जाति का कोई ऐसा अभागा गायक न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के पद न गाये हों, तुकवन्दीवाले तक कोई ऐसा कवि न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में कभी अधर न जोटे हो। चित्रकला पर जिसने जरा भी हाथ जमाया है, वह श्रीकृष्ण की मूर्ति एक-आध बार अवश्य बना चुका होगा। मूर्ति बनाने का शिल्प जाननेवाला प्रायः ऐसा नहीं मिलेगा, जिसने श्रीकृष्ण की मूर्ति कभी न बनाई हो। धार्मिक भक्त, विलासी रसिया, राजनीतिक रिफार्मर, न्यू जेण्टलमैन, दार्शनिक, निरपेक्ष, सबके कमरों में या मकान की दीवारों पर किसी-न-किसी रूप में वे नजर आ जायेंगे। ताना-री-री करनेवाले छोटे बच्चे, कुमार, किशोर, मार्ग में अलापते हुए तानसेन को मात देने की इच्छा रखनेवाले रसिया, खेतों के किसान, गाँवों की भोली-भाली स्त्रियाँ, सबकी जिह्वा पर किसी-न-किसी रूप में उनका नाम विराजित सुन पड़ेगा। और तो क्या, होलीमें उन्मत्त जनता भी आपके ही यश को अपनी वाणी पर नचाती है। भक्त लोग अपना सर्वस्व समझकर, धार्मिक लोग धर्मरक्षक समझकर, विलासी विलास के आचार्य समझकर, दार्शनिक गीता के प्रवक्ता समझकर, राजनीतिक नीति के पारङ्गत समझकर, देशहितैषी देशोद्धारक समझकर और गोसेवक गोपाल समझकर समय-समय पर उनका स्मरण करते हैं। साम्प्रदायिक भेद रहते हुए भी वैष्णव विष्णु का पूर्णावतार मानकर, शाक्त आद्याशक्ति का अवतार कहकर और शैव शिव का अनन्य समझकर उनको भजते हैं। शिव, विष्णु और शक्ति की उपासना में चाहे मतभेद रहे, श्रीकृष्ण-मूर्ति की ओर सबका झुकाव है। भारत के ही नहीं, अन्यान्य देशों के लोग भी कृष्ण-प्रेम से प्रभावित हुए हैं, उनके उपदेशों और चरित्रों का रूपान्तर से आदर सब देशों में हुआ है। मुसलमानों में रसखानि, खानखाना, नवाज, ताज बेगम आदि की बात तो प्रसिद्ध ही है। वर्त्तमान युग के ईसाइयों में भी कई विद्वानों ने इस बात की चेष्टा की है कि क्राइस्ट को श्रीकृष्ण का रूपान्तर सिद्ध किया जाय। आज भी, महात्मा गान्धी के अनुयायी चित्र में गान्धीजी के हाथ में सुदर्शन देकर या गोवर्धन-पर्वत उनकी मुजा पर रखकर उन्हें श्रीकृष्ण-रूप में देखने को उत्सुक है। यह बात क्या है? क्यों श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह सबको आप्लुत कर रहा है? उत्तर स्पष्ट है कि वे आनन्द रूप हैं, सर्वात्मा हैं, परब्रह्म हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप से सबको विवश होकर उनसे प्रेम करना पड़ता है। आसुर भावावेश के कारण जिनके अन्तरात्मा पर आवरण है, उनकी बात तो सदा ही निराली है। अस्तु, अव्यय पुरुष की पाँचों कलाओं का विकास भगवान् श्रीकृष्ण में परिपूर्ण है, यह सक्षेप में दिखा दिया गया। ब्रह्म के अन्य विश्वचर रूप प्रतिष्ठा-ज्योतिः आदि जो पहले लिखे गये हैं, उनके विकास पर पाठक स्वयं विचार सकते हैं। इस प्रकार, धर की आध्यात्मिक कला-रूप स्वयम्भू आदि पाँच अवतार जो पहले बतलाये गये हैं, उनके प्राण-रूप शक्तियों का आविर्भाव सक्षेप में भगवान् श्रीकृष्ण में दिखलाया गया।

पहले कहा जा चुका है कि परमेष्ठिमण्डल विष्णुप्रधान है, और भगवान् श्रीकृष्ण विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, अतः परमेष्ठिमण्डल के सम्बन्ध में ही मुख्यतया विचार किया जाता है।

श्रीराधा और श्रीकृष्ण

बहुतो के चित्त में यह शंका होती है कि द्विजों का गौरवर्ण होना ही प्राकृतिक है, फिर ऐसे प्रतिष्ठित कुल के विशुद्ध क्षत्रिय राम और कृष्ण कृष्णवर्ण क्यों हैं ? कदाचित् कहा जाय कि ये विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान् कृष्णवर्ण हैं, इसलिए ये भी कृष्णवर्ण हैं, तो वहाँ भी प्रश्न होगा कि सत्त्वगुण के अधिष्ठाता भगवान् विष्णु भी कृष्णवर्ण क्यों ? सत्त्व का रूप शास्त्र में श्वेत माना गया है, रज का लाल और तम का काला। तमोगुण का अधिष्ठाता कृष्णवर्ण हो सकता है, किन्तु सत्त्व का अधिष्ठाता श्वेतवर्ण होना चाहिए। आइए, पहले इसी प्रश्न पर विचार करे। कृष्णवर्ण तीन प्रकार का है—अनुपाख्य कृष्ण, अनिरुक्त कृष्ण और निरुक्त कृष्ण। सृष्टि के पहले की अवस्था को कृष्ण कहा जाता है—‘आसीदिद तमोभूतम्’ (मनु०)। यह अनुपाख्य कृष्ण है। जिसका हमें कुछ ज्ञान न हो सके, उसे कृष्ण और जो हमारी समझ में आ जाय, वह शुद्ध कहलाता है। निगूढ को कृष्ण और प्रकाशित को शुद्ध कहते हैं। यह औपचारिक प्रयोग है। काला परदा पडने पर कुछ नहीं दीखता, इसलिए न दीखनेवाली वस्तु काली कही जाती है। प्रकाश श्वेत मादस होता है, इसलिए प्रकाशमान वस्तु को श्वेत कहते हैं। कार्य जबतक उत्पन्न न हो, तबतक अपने कारण में निगूढ रहता है, उसका ज्ञान हमें नहीं होता, इसलिए कार्य की अपेक्षा से कारणावस्था को कृष्ण और कार्योत्पत्ति-दशा को शुद्ध कहते हैं। सब जगत् जहाँ निगूढ है, जहाँ आज दीखनेवाले जगत् का कोई ज्ञान नहीं, उस सब जगत् की कारणावस्था—पूर्वावस्था को दृश्यमान जगत् की अपेक्षा कृष्ण ही कहना पड़ेगा। इसलिए, सब जगत् के कारण भगवान् विष्णु वा आद्याशक्ति कृष्णवर्ण ही कहे जाते हैं। इस कृष्ण का हमें अभी अनुभव नहीं होता, यह केवल शास्त्रवेद्य है, इसलिए इसे अनुपाख्य कृष्ण कहेंगे।

दूसरा अनिरुक्त कृष्ण वह है, जिसका अनुभव तो हो, किन्तु ‘इदमित्यम्’ रूप से एक केन्द्र में पकड़कर निर्वचन न किया जा सके। जैसे, ऊपर आकाश में, अन्धकार में वा आँख मीच लेने पर काले रूप का अनुभव होता है, किन्तु वह सर्व रूप का अभाव कालेपन से भासित है। किसी केन्द्र में पकड़कर उस काले रूप को निरुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा निरुक्त कृष्ण कोयला आदि पदार्थों में है। इनमें अनुपाख्य कृष्ण का अनिरुक्त कृष्ण में और अनिरुक्त कृष्ण का निरुक्त कृष्ण में अवतार होता है। या यो कहे कि पूर्व-पूर्व कृष्ण से ही उत्तरोत्तर कृष्ण का विकास होता है। चन्द्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों मण्डल निरुक्त कृष्ण हैं। यह वैदिक सिद्धान्त है। पृथ्वी को वेद में कृष्णा कहा जाता है, अन्धकार पृथ्वी की काली किरणों का ही समूह है—यह भी वेद में प्राप्त होता है। ‘चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्ण’ (गतपथ, १३।२।१७) इत्यादि श्रुतियों में चन्द्रमा को भी कृष्ण कहा है, और ‘आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृत मर्त्ये च। हिरण्यमयेन सचिता रथेन देवो याति भुवनानि पद्भ्यन्’ इत्यादि मन्त्रों में सूर्य-मण्डल को भी कृष्ण कहा है, और हिरण्यमय प्रकाश-भाग को सूर्य का रथ बताया है। तात्पर्य यह कि प्रकाश मण्डल एव योग्य है, कई प्राणों के सम्बन्ध

से बनता है, सूर्य-मण्डल स्वभावतः कृष्ण ही है। आज के वंजानिक भी इस सिद्धान्त के अनुकूल ही जा रहे हैं। अस्तु; इन तीनों से परे जो परमेष्ठी-मण्डल है, वह अनिरुक्त कृष्ण है। रूपो का अविदेवता सूर्य है, सूर्य-किरणों से ही मय रूप बनते हैं, अतः सूर्य-मण्डल की उत्पत्ति के पूर्व परमेष्ठी-मण्डल में कोई रूप नहीं कहा जा सकता। उसे 'आपोमय मण्डल' वा 'सोममय मण्डल' कहा जाता है। सोम, वायु और आप् तीनों एक ही द्रव्य की अवस्थाएँ माने जाते हैं, वायु घनीभूत होने पर 'आप्' अवस्था में आ जाती है, और तरल होने पर 'सोम' अवस्था में। इसी द्रव्य में अनिरुक्त कृष्ण वर्ण प्रतीत हुआ करता है। यह द्रव्य परमेष्ठी की किरणों द्वारा बहुत बड़े आकाश-प्रदेश में व्याप्त है। सूर्य यद्यपि हमारे लिए बहुत बड़ा है, किन्तु इस सोम-मण्डल की अपेक्षा उसकी स्थिति (पॉजिशन) ऐसी ही है, जैसी घोर अन्धकार-मय जगल में एक टिमटिमाते दीपक की। एक सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है, उसकी परिधि-कल्पना कर वहाँ तक ब्रह्माण्ड समझा जाता है, उस परिधि से बाहर अनन्त आकाश में यह अनिरुक्त कृष्ण सोम वा आप् भरा हुआ है। वही अनिरुक्त कृष्ण काले आकाश के रूप में हमें प्रतीत हुआ करता है। वह कृष्ण है, और सूर्य-प्रकाश की प्रतिमा 'राधा' है। 'राध्' धातु का अर्थ है 'सिद्धि'। सूर्य-प्रकाश में ही सब व्यावहारिक कार्य सिद्ध होते हैं, अतः 'राधा' नाम वहाँ अन्वर्थ (सार्थक) है। कृष्ण श्याम-तेज है, राधा गोर-तेज। कृष्ण के अक में (गोद में), अर्थात् श्याम तेजोमय मण्डल के बीच में राधा विराजित है। ब्रह्माण्ड की परिधि के भीतर भी वह सोम-मण्डल व्याप्त है। जैसे, व्यापक आकाश में कोई दीवार (भित्ति) बनाई जाय, तो हमें प्रतीत होता है कि यहाँ अब आकाश (अवकाश) नहीं रहा। किन्तु यह भ्रम है, उस दीवार के आधार रूप से आकाश वहाँ मौजूद है, उसी में दीवार है, और दीवार हटते ही फिर आकाश ही आकाश रह जाता है। इसी प्रकार, सूर्य-प्रकाश होने पर वह कृष्ण सोम-मण्डल हमें प्रतीत नहीं होता, किन्तु प्रकाश उसीके आधार पर है, वह प्रकाश में अनुस्यूत है, और प्रकाश हटते ही (सूर्यास्त होते ही) फिर वह श्याम-तेज प्रतीत होने लग जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर विना अन्धकार के प्रकाश और विना प्रकाश के अन्धकार कहीं नहीं रहता, दोनों परस्पर अनुस्यूत हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जहाँ एक दीपक का प्रकाश हो, वहाँ दूसरा दीपक और लाया जाय, तो प्रकाश अधिक प्रतीत होता है, तीसरा दीपक और आवे, तो और भी अधिक। दीपक जितने अधिक होंगे, प्रकाश में उतनी ही स्वच्छता आती जायगी। मला यह क्यों ? जब एक दीपक के प्रकाश ने अपनी व्याप्ति के प्रदेश में से अन्धकार हटा दिया, तब फिर उसी प्रदेश में दूसरे दीपक का प्रकाश क्या विशेषता पैदा कर देता है कि हमें अधिक स्वच्छता प्रतीत होती है ? मानना पड़ेगा कि एक दीपक का प्रकाश रहने पर भी उसमें अनुस्यूत अन्धकार था, जिसे दूसरे दीपक ने हटाया, फिर भी जो शेष था, उसे तीसरे और चौथे ने। स्मरण रहे कि श्याम-तेज ही अन्धकार-रूप से प्रतीत हुआ करता है। यो, प्रकाश में अनुस्यूत श्याम-तेज जब सिद्ध हो गया, तब मानना होगा कि हजारों दीपों का वा सूर्य का प्रकाश रहने पर भी आंशिक श्याम-तेज की व्याप्ति हट नहीं सकती, वह आकाश की

तरह अनुस्यूत रहती ही है। दूसरा प्रमाण यह है कि जिस स्थान में अनेक दीपक हो, वहाँ भी एक दीपक के सम्मुख भाग में कोई लकड़ी आदि आवरणक पदार्थ रखे, तो उसकी धीमी सी छाया, उसके सम्मुख भाग में, प्रतीत होगी। जितने अग में प्रकाश का आवरण होकर स्वतःसिद्ध तम दीख पड़ता है, उसे ही छाया कहते हैं। जब एक दीप के प्रकाश का आवरण होने पर भी दूसरे दीपों का प्रकाश उसी स्थान में मौजूद है, तब यह छाया की प्रतीति क्यों ? मानना होगा कि प्रकृत दीपक जिस अन्धकार के अग को हटाता था, उसके प्रकाश का आवरण होने पर वह अज्ञ छाया-रूप से प्रतीत होता है। इसी प्रकार निविड अन्धकार में भी प्रकाश का कुछ भी अग न रहे, तो अन्धकार का प्रत्यक्ष ही न हो सके। बिना प्रकाश की सहायता के नेत्ररश्मि कोई कार्य नहीं कर सकती। सिद्ध हुआ कि गौर तेज और श्याम तेज—राधा और कृष्ण, अन्योन्य-आलङ्कित रूप में ही सदा रहते हैं, कभी कृष्ण के अक में राधा छिपी हुई है, कभी राधा के अचल में कृष्ण दुबक गये हैं। इसीसे दोनों एकरूप माने जाते हैं। एक ही ज्योति के दो विकास हैं, और एक के बिना दूसरे की उपासना निन्दित मानी गई है—

गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजः समर्चयेत् ।

जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे ॥

तस्माज्ज्योतिरभूद् द्वेधा राधामाधवरूपकम् ।

(सम्मोहनतन्त्र, गोपालसहस्रनाम)

इस विष्णु-रूप परमेष्ठिमण्डल का अवतार होने के कारण भगवान् श्रीकृष्ण का श्याम रूप था, और गौरवर्णा भगवती श्रीराधा से उनका अन्योन्य तादात्म्य सम्बन्ध था, निरतिशय प्रेम था। वहाँ राधा (प्रकाश-भाग) परमेष्ठिमण्डल की अपनी नहीं, परकीया है, इसलिए यहाँ भी राधा के साथ कृष्ण का विवाह-सम्बन्ध नहीं है। परमेष्ठिमण्डल को वेद में 'गोसव' और पुराण में 'गोलोक' कहा गया है, इसका कारण है कि गौ—जिन्हें किरण कह सकते हैं, उनकी उत्पत्ति परमेष्ठिमण्डल में ही होती है। आगे के मण्डलों में उन गौओं का विकास है, अतएव सूर्य और पृथ्वी के प्राणों में 'गौ' नाम आया है। इन गौओं का विवरण ब्राह्मण-ग्रन्थों में बहुत है। ये प्राण-विशेष हैं। हमारे 'गौ' नाम से प्रसिद्ध पशु में इस प्राण की प्रधानता रहती है, अतएव यह गौ भी हमारी आराध्य है। अस्तु, गौ का उत्पादक और पालक होने से परमेष्ठी 'गोपाल' है। प्रथमतः गौ उसे प्राप्त हुई—इसलिए 'गोविन्द' है। अतएव हमारे चरित-नायक भगवान् श्रीकृष्ण भी परमेष्ठी का अवतार होने के कारण गौओं के सहचारी बने, और गोपाल वा गोविन्द ऋहलाये। इसी प्रकार, परमेष्ठी का इन्द्र से सख्य (साहचर्य) है, (देखें—पूर्व आधिदैविक क्षर कलाओं का विवरण, परमेष्ठी के आगे इन्द्र-मण्डल उत्पन्न होता है, और इन्द्र परमेष्ठी से ही बद्ध है), इसलिए भगवान् श्रीकृष्ण का भी इन्द्राक्ष अर्जुन से साहचर्यपूर्ण सौहार्द रहा।

आगे चन्द्र मण्डल भी अवतारों में (क्षर की आधिदैविक कलाओं में) आया है,

उसके प्राणो का प्रतिफल भी कृष्णचरितों में बहुत-कुछ दीख पड़ता है। चन्द्रमा समुद्र (आपोमय मण्डल) में रहता है।

चन्द्रमा अप्सवन्तरा सुपर्णो धावते द्विवि ।

(ऋग्वेद)

इसलिए, भगवान् श्रीकृष्ण भी समुद्र के बीच में द्वारका बसाकर रहे। चन्द्र-मण्डल श्रद्धामय है, इस कारण भगवान् श्रीकृष्ण में भी श्रद्धा बहुत अधिक थी। सामान्य ब्राह्मणों के भी अपने हाथों से चरण धोना, स्वयं उनके चरण दबाना, देवयजन, गिवाराधन आदि श्रद्धा के बहुत-से निदर्शन हैं। रासलीला का भी चन्द्रमा से बहुत सम्बन्ध है। चन्द्रमा रागिचक्र में रासलीला करता रहता है। प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से की जाती थी, उसके अनुसार विशाखा (नक्षत्र) सब नक्षत्रों की मध्यवर्तिनी होने से रासेश्वरी है, उसका दूसरा नाम 'राधा' भी है। अतएव, उसके आगे के नक्षत्र को 'अनुराधा' कहते हैं। विशाखा पर जिस पूर्णिमा को चन्द्रमा रहता है— उस दिन सूर्य कृत्तिका पर रहता है। सम्मुख-स्थित सूर्य की सुपुष्पा-रश्मि से विशाखायुत चन्द्रमा प्रकाशित होता है, कृत्तिका का सूर्य 'वृष' राशि का है, अतएव यह राधा वृषभानुसुता कही जाती है। फिर, जब पूर्ण चन्द्रमा (पूर्णिमा का चन्द्रमा) राधा के ठीक सम्मुख भाग में कृत्तिका पर आता है, तब कार्तिकी पूर्णिमा रास का मुख्य दिन होता है इत्यादि। ये सब घटनाएँ भगवान् श्रीकृष्ण की 'रासलीला' में भी समन्वित होती हैं।

इस प्रकार, भगवान् विष्णु की और उनके मुख्य अवतार श्रीकृष्ण की उपासना का रहस्य सक्षेप में बताया गया। अब आगे भगवान् शिव की उपासना का रहस्य भी सक्षेप से कहा जाता है।

शिवोपासना

शिव, विष्णु आदि के रूप में परब्रह्म की ही उपासना होती है—यह कह चुके हैं। 'शिवमद्वैत चतुर्थ मन्यन्ते' और 'एको रुद्रोऽवतस्थे' इत्यादि श्रुतियों में शिव को परतत्त्व-रूप ही कहा है, किन्तु वाणी और मन से पर होने के कारण शुद्ध रूप में परतत्त्व की उपासना नहीं होती, इसलिए पुरुष-रूप में ही उपासना की जाती है। वैदिक विज्ञान में परतत्त्व के पुरुष-रूपों का निरूपण किया जा चुका है और उनमें सर्वप्रथम प्रधान अव्यय पुरुष माना गया है। अव्यय पुरुष की पाँच कलाएँ भी बताई जा चुकी हैं। उनके नाम हैं आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक्। इन पाँचों कलाओं के अधिष्ठाता-रूप से भगवान् शंकर के पाँच रूप माने जाते हैं, जिनके भिन्न-भिन्न ध्यान तन्त्र ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं। आनन्दमय रूप की मृत्युञ्जय नाम से उपासना होती है, क्योंकि 'रस' स्वयं आनन्द रूप है—रस ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति' (श्रुति)। और, बल, जिसका दूसरा नाम मृत्यु भी है, उस आनन्द का तिरोधान करता है। मृत्यु (बल) का जय करने से, मन से हटा देने से, आनन्द प्रकट होता है, वा यो कहिए कि आनन्द ही मृत्यु का जय करके प्रकट हुआ करता है। इसलिए, आनन्द

‘मृत्युञ्जय’ है। दूसरी कला विज्ञानमय शंकरमूर्त्ति की ‘दक्षिणामूर्त्ति’ नाम से उपासना प्रसिद्ध है। ‘विज्ञान’ बुद्धि का नाम है, उसका धन ‘सूर्य-मण्डल’ है। सूर्य-मण्डल से ही विज्ञान सौर जगत् के सब प्राणियों को प्राप्त होता है। सूर्य सौर जगत् के केन्द्र में स्थित है, वृत्त (मण्डल) में केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता है। यह वृत्त की परिभाषा है, अतः विज्ञान उत्तर से दक्षिण को आनेवाला सिद्ध हुआ। इसी कारण, विज्ञानमय मूर्त्ति दक्षिणामूर्त्ति कही जाती है। वर्णमातृका पर यह मूर्त्ति प्रतिष्ठित है। विज्ञान का आधार वर्णमातृका है। इसके स्पष्टीकरण की सम्भवतः आवश्यकता न होगी। वे दोनो (मृत्युञ्जय और दक्षिणामूर्त्ति) प्रकाशप्रधान होने के कारण श्वेत वर्ण माने जाते हैं। तीसरी मनोमय (अन्यय पुरुष की) कला के अधिष्ठाता ‘कामेश्वर’ शिव है। मन कामप्रधान है—

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि

मनसो रेतः प्रथमं तदासीत् । (श्रुति)

इस कारण, इसका ‘कामेश्वर’ नाम है और मन के धर्म अनुराग का वर्ण ‘रक्त’ माना जाता है, इसलिए यह कामेश्वर-मूर्त्ति तन्त्रों में रक्तवर्ण मानी गई है। पञ्चप्रेत-पर्येक पर शक्ति के साथ विराजमान इस कामेश्वर-मूर्त्ति की उपासना तान्त्रिकों में प्रसिद्ध है। चौथी कला प्राणमय मूर्त्ति ‘पशुपति’, ‘नीललोहित’ आदि नामों से उपासित होती है। यह पञ्चमुखी मूर्त्ति है। आत्मा-पशुपति प्राण-रूप पाश के द्वारा विकार-रूप पशुओं का नियमन करता है। अतः, प्राणमय मूर्त्ति को ही ‘पशुपति’ कहना युक्तियुक्त है। वैदिक परिभाषा में प्राण दो प्रकार का है—एक आग्नेय, दूसरा सौम्य। अग्नि का वर्ण (लोहित सुनहरा) और सोम का नील वा कृष्ण माना गया है। ‘यदग्ने रोहित त्पम्’, ‘तेजस्तद्रूपम्’, ‘यच्छुक्ल तदपाम्’, ‘यत्कृष्ण तदन्नस्य’ (छान्दोग्यो-पनिषद्, प्रपा० ६, ख० ४)। सोम ही अन्न होता है, इस कारण यहाँ अन्न शब्द से सोम का निदेश हुआ है, इसीलिए यह मूर्त्ति नीललोहित कुमार नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनो रूपों के सम्मिश्रण से पाँच रूप बनते हैं, इसलिए पाँच वर्ण के पाँच मुखों का ध्यान इस मूर्त्ति का ध्यान कहा गया है—

मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवावर्णैर्मुखैः पञ्चभि-
रुच्यशैरञ्चितमीशमिन्दुमुकुटं पूर्णेन्दुकोटिप्रभम् ।
शूलं टङ्कणपाणिवज्रहननान्नागेन्द्रघण्टाङ्कुशान् ।
पाशं भीतिहरं दधानममिताकल्पोज्ज्वलाङ्गं भजे ॥

सोम (कृष्णवर्ण) पर जब अग्नि (लोहित) आरूढ हो, तब धूमिल रक्त होता है, और अग्नि पर सोम आरूढ हो, तो पीतरूप हो जाता है। सोम और अग्नि की मात्रा के तारतम्य से और भी मोतिया, वैगनी, हरित आदि रूप बनते हैं। अस्तु, यहाँ इस विषय का विस्तार करने से प्रकरण-विच्छेद का भय है।

इस पञ्चमुख मूर्त्ति का एक मुख सब के ऊपर है और चार मुख चारों दिशाओं में। ऊर्ध्वमुख ईशान नाम से, पूर्वमुख तत्पुरुष नाम से, दक्षिण अवचोर नाम से,

उत्तर वामदेव नाम से और पश्चिम सत्रोजात नाम से पूजा जाता है। पॉचवी कला वाजपय मूर्ति भूतेश नाम से उपास्य है। वाक्, अन्न और भूत—ये शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं, यही भूतेश शिव अथवा मूर्ति माने जाते हैं। इस प्रकार, अव्यय पुरुष के रूप में भगवान् शिव की उपासना का विवरण हुआ, आगे अक्षर पुरुष के रूप में भी इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

अक्षर-रूप में शिवोपासना

एकमूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः।

ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही हैं। एक ही अक्षर पुरुष के तो तीन रूप हैं, एक ही शक्ति के तो तीन व्यापार हैं—दृष्टिमात्र का भेद है। एक ही बिन्दु पर तीनों शक्तियाँ रहती हैं, किन्तु कार्यवश कभी भिन्न-भिन्न स्थान भी ग्रहण कर लेती हैं। चेतन प्राणियों में विशेष कर शक्तियों का स्थान-भेद देखा गया है, वहाँ प्रतिष्ठा-बल मध्य में और गति-बल और आगति-बल इधर-उधर रहते हैं। जैसा मनुष्य-शरीर के अन्तर्गत हृदय-कमल में ब्रह्मा की, नाभि में विष्णु की और मस्तक में शिव की स्थिति मानी गई है। मनुष्य-शरीर पार्थिव है, पृथ्वी से जो प्राण मानव-शरीर में आता है, वह नीचे से ही आता है। इसलिए, आदान-शक्ति के अधिष्ठाता विष्णु की स्थिति नाभि में कही गई है, और उत्क्रमण उससे विपरीत दिशा में होना सिद्ध ही है, इससे महेश्वर की स्थिति शिरोभाग में मानी जाती है। सम्पूर्ण शरीर की प्रतिष्ठा हृदय है, हृदय में ही एक प्रकार की तिलमात्र ज्योति याज्ञवल्क्य-स्मृति आदि में बताई जाती है, वही से सब शरीर को चेतना मिलती है, अतः वह ब्रह्मा का स्थान हुआ। सन्ध्योपासन में इन्हीं स्थानों में इन तीनों देवताओं का ध्यान होता है, किन्तु वृक्षों में यह स्थिति कुछ बदल गई है, वहाँ के लिए यो कहा जाता है—

मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे।

अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः ॥

यहाँ अश्वत्थ को प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षण-रूप से अश्वत्थ का नाम लिया गया है, सभी वृक्षों की स्थिति इसी प्रकार है। उनकी प्रतिष्ठा (जीवन) मूल पर निर्भर है, इसलिए मूल में ब्रह्मा कहा जाता है। मूल से जो रस आता है, उसके द्वारा वृक्ष का पालन वा पोषण मध्य भाग से होता है। आया हुआ रस यज्ञ द्वारा गूदा, त्वचा आदि के रूप में मध्यभाग में ही परिणत होता है। इससे यज्ञ-रूप पालक विष्णु की स्थिति मध्य में मानी गई है और यह रस ऊपर के भाग से उत्क्रान्त होता रहता है। इसीसे वृक्ष के ऊपरी भाग से शाखा, पत्ते आदि निकलते रहते हैं। अतएव, उत्क्रान्ति का अधिपति महेश्वर वहाँ भी अग्रभाग में ही माना गया है। यह सब इन्द्रप्राण-रूप से महेश्वर की उपासना है। अक्षर पुरुष के निरूपण में कह चुके हैं कि इन्द्र, अग्नि, और सोम तीनों अक्षरों को मिलाकर महेश्वर के नाम से इनकी उपासना होती है। और इसलिए 'वन्दे वह्निशशाङ्कसूर्यनयनम्' इत्यादि ध्यान में सूर्य, चन्द्र और अग्नि को शिव का नेत्र माना है। यह आधिदैविक रूप में शिवोपासना है।

धर-रूप में शिवोपासना

धर पुरुष की प्राण-कला ऋषि, पितृ ओर देव के रूप में परिणत होती है, यह कह चुके हैं। देवों में पृथ्वी, अग्नि, अन्तरिक्ष की वायु और बुलोक का देव सूर्य है—यह भी विज्ञान-प्रसंग में निरूपित हो चुका है। अन्तरिक्ष की वायु ही रुद्र भी कही जाती है। वे रुद्र शिव के ही अवतार वा गण माने जाते हैं और उनके रूप में भी शिव की उपासना होती है, यह रुद्र रूप से शिवोपासना है। रुद्र नाम यद्यपि वायु का है, किन्तु वायु दो प्रकार की है—एक, अग्नि से सम्बद्ध अग्निप्रधान, और दूसरी, सोमप्रधान। अग्निप्रधान वायु भुव, अर्थात् हमारे इस अन्तरिक्ष में रहती है और सोमप्रधान वायु सूर्य-मण्डल के ऊपर परमेष्ठिमण्डल के जन तप-लोको में रहती है। अन्तरिक्ष की वायु अग्नि-सम्बन्ध से उपद्रावक वा रोगजनक है। उसे रौद्र वायु कहते हैं, और परमेष्ठिमण्डल की सोमप्रधान वायु पूर्ण शान्तिप्रद होने के कारण शाम्भु सदाशिव कहलाती है। इसी कारण, ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि को ही रुद्र कहा है। 'अग्निर्वारुद्रः तस्य द्वैतन्वौ घोरान्या च शिवान्या च', अग्निमिश्रित वायु को रुद्र मान लेने पर दोनों बातों की उपपत्ति हो जाती है। अर्थात्, रुद्र वायु-रूप भी है और अग्नि-रूप भी। ये अग्नि और वायु भौतिक अग्नि-वायु नहीं, प्राण-रूप हैं। इनमें परस्पर जन्यजनक भाव है, इसलिए ब्राह्मणों में कहीं अग्नि को वायु-जनक बताया है और कहीं अग्नि को वायु-उत्पादक। भौतिक अग्नि दोनों प्राणों के सम्मिश्रण से ही उत्पन्न होती है, इसलिए रुद्र को 'कृगानुरेता' कहा जाता है, अर्थात् कृगानु—अग्नि रुद्र का रेत वा वीर्य है। यह रुद्र-प्राण हमारी त्रिलोकी में व्याप्त है। यह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल पैदा करता है, इसीलिए उक्त ब्राह्मण-श्रुति ने कहा है कि रुद्र नाम अग्नि के दोनों रूप हैं—घोर और शिव। आगे सूर्य से ऊपर के जन और तप लोको की वायु सदा ही कल्याणकारक है। इसलिए, उसे सदाशिव कहते हैं। वह सोमप्रधान है और सोम की ही स्थूल अवस्था जल है। जल का नाम वैदिक भाषा में 'अम्वा' भी है। इसलिए, सोमप्रधान वायु शाम्भु सदा-शिव, अर्थात् अम्वा के साथ सदाशिव, इस रूप में वर्णन किया जाता है। इनमें घोर-रूप रुद्र से श्रुतियों में यह प्रार्थना की जाती है कि आप हमारी, हमारे कुटुम्ब की रक्षा कीजिए। आपके धनुष का बाण हम पर न चले। आप धनुष की प्रत्यञ्चा उतार दीजिए। आप मूजवान् पर्वत से भी परे पधारिए इत्यादि।^१ और, शिववायु से पधारकर कल्याण करने की प्रार्थना की जाती है।^२ रुद्र ग्यारह प्रसिद्ध हैं। आध्यात्मिक, आधि-

१ 'मानस्तोके तनये मान धायु मानो गोषु मानो अश्वेषु रिरिष ।

मानो वीरान् रुद्र भामिनोवधीर हविष्मन्त सद्मित्वा हवामहे ॥'

'विज्यन्धनु कपर्दिनो विशल्यो वाणवान् उत ।'

'परो मूजवतोतीहि ।' इत्यादि

२ याते रुद्र शिवातनुरघोरापापकाशिनी तयानस्तन्वा शान्तमया गिरिशन्नाभिचाकशीहो ।—

इत्यादि ।

भौतिक, आधिदैविक वा अधियज्ञ-भेद से इन ग्यारह के पृथक्-पृथक् नाम श्रुति, पुराण आदि में प्राप्त होते हैं। शतपथ, चतुर्दश काण्ड, (वृहदारण्यक उपनिषद्) अ० ५, ब्राह्मण ९ में शाकल्य और याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर में देवता-निरूपण में (उद्यमे पुरुषे प्राणाः आत्मेकादशः) पुरुष के दस प्राण और ग्यारहवाँ आत्मा आध्यात्मिक रुद्र वताये गये हैं। दस प्राणों की व्याख्या अन्यत्र श्रुति में इस प्रकार है—‘सप्त शीर्षण्याः प्राणाः द्राववाञ्चौ, नाभिर्दशमी’—मस्तक में रहनेवाले सात प्राण, दो आँख, दो नाक, दो कान और एक मुख, नीचे के दो प्राण, मल-मूत्र त्यागने के दो द्वार और दसवाँ नाभि अन्तरिक्षस्थ वायु प्राण ही हमारे शरीरों में प्राण-रूप होकर प्रविष्ट हैं और वे ही इन दसों स्थानों में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र-प्राण के सम्बन्ध से ‘रुद्र’ कहा गया है। ग्यारहवाँ आत्मा भी यहाँ ‘प्राणात्मा’ ही विवक्षित है, जो कि इन दसों का अधिनायक ‘मुख्य प्राण’ कहलाता है। आधिभौतिक रुद्र पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, यजमान (विद्युत्), पवमान, पावक और शुचि नाम से कहे गये हैं। इनमें आदि के आठ शिव की अष्टमूर्त्ति कहलाते हैं, जिनका निरूपण आगे किया गया है। ओर, आगे के तीन (पवमान, पावक और शुचि) घोर-रूप हैं। वे उप-द्रावक रुद्र (वायुविशेष) हैं। इनमें शुचि सूर्य में, पवमान अन्तरिक्ष में और पावक पृथ्वी में कार्य करता है, किन्तु हैं तीनों अन्तरिक्ष में वायु। अष्टमूर्त्ति की उपासना है और तीनों से पृथक् रहने की प्रार्थना है। आधिदैविक एकादश रुद्र तारा-मण्डलों में रहते हैं। इनके कई नाम भिन्न-भिन्न रूप से मिलते हैं—(१) अज एकपात्, (२) अहिर्बुध्न्य, (३) विरुपाक्ष, (४) त्वष्टा, अयोनिज वा गर्भ, (५) रैवत, भैरव, कपर्दी वा वीरभद्र, (६) हर नकुलीश, पिङ्गल वा स्थाणु, (७) बहुरूप, सेनानी वा गिरीश, (८) त्र्यम्बक, भुवनेश्वर, विश्वेश्वर वा सुरेश्वर, (९) साधिन, भूतेज वा कृपाली, (१०) जयन्त, वृषाक, विशम्भु वा सन्ध्य और (११) पिनाकी, मृगव्याध, लुब्धक या शर्व। इनका पुराणों में स्थान-स्थान पर विस्तृत वर्णन है। वे सब तारा-मण्डल में तारा-रूप से दिखाई देते हैं। रुद्र-प्राण इनमें अधिकता से रहता है, और इनकी रश्मियों से भूमण्डल में आया करता है, इसीसे इन्हें ‘रुद्र’ कहा गया है। इनमें भी ‘घोर’ और ‘शिव’ दोनों प्रकार की रुद्राग्नि हैं। इनके आधार पर फलाफल हिन्दू-शास्त्रों में प्रसिद्ध है—जैसे श्लेषा-नक्षत्र पर सूर्य के रहने पर जो वर्षा होती है, उसे रोगोत्पादक और मघा की वर्षा को रोगनाशक माना जाता है इत्यादि। रोम-देश के पुराने तारा-मण्डल के चित्रों में सर्पधारी, कपालधारी, शूलधारी आदि भिन्न-भिन्न आकारों के इन ताराओं के चित्र दिखाई देते हैं, उन ताराओं का आकार ध्यानपूर्वक देखने पर उसी सन्निवेश का प्रतीत होता है, इसीलिए उनके वैसे आकार बनाये गये हैं। ऐसे ही शिव के भी विभिन्न रूप उपासना में प्रसिद्ध हैं। पुराणों में कई एक शिव के आख्यान इन तारों के ही सम्बन्ध के हैं, जैसा शिव ने ब्रह्मा का एक मस्तक काट दिया—इस कथा का ‘लुब्धक बन्धु’ तारे से सम्बन्ध है। यह कथा ब्राह्मणों में भी प्राप्त होती है, और वहाँ इसका तारापरक ही विवरण मिलता है। दक्षयज्ञ की कथा भी आधिदैविक और आधिभौतिक—दोनों भावों से पूर्ण है। वह मनुष्याकारधारी

शिव का चरित्र भी है और दक्ष का सिर काटकर उसकी जगह वकरे का सिर लगाया गया—इसका यह आशय भी है कि प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को आरम्भ में रखकर होती थी, किन्तु उसे अश्विनी (मेष) से आरम्भ किया गया। इसी प्रकारकी कई एक कथाएँ अधिदैविक भाव की हैं। यज्ञ में ११ अग्नि होती है। पहले तीन अग्नि हैं—गार्हपत्य, आहवनीय, धिष्ण्य। इनमें गार्हपत्य के दो भेद हो जाते हैं। इष्टि में जो गार्हपत्य था, वह सोमयाग में पुराण गार्हपत्य कहलाता है। और, इष्टि के आहवनीय को सोमयाग में गार्हपत्य बना लेते हैं। यह नूतन गार्हपत्य कहलाता है। धिष्ण्यग्नि के ८ भेद हैं, जिनके नाम श्रुति में आग्निश्रीय, अच्छावाकीय, नेश्रीय, पोष्टनीय, ब्राह्मणाच्छसीय, होत्रीय, प्रजास्त्रीय और भार्जालीय हैं। आहवनीय एक ही प्रकार का है। इस प्रकार ११ होते हैं। ये सब अन्तरिक्षस्थ अग्नियों की अनुकृति हैं, इसलिए वे भी एकादश रुद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये शिव-रूप ही यज्ञ में ग्राह्य हैं। घोर-रूपों का यज्ञ में प्रयोजन नहीं।

यह रुद्र-रूप शिव का कर्मकाण्ड और उपासना से सम्बन्ध संक्षेप में बताया गया।

विश्वचर ईश्वर और शिवमूर्ति

विश्व के उत्पादक अव्यय, अक्षर और धर पुरुषों के रूप में शिवोपासना संक्षेप में दिखाई गई। शिव का 'विश्व' रूप है। ईश्वर जगत् को रचकर उसमें प्रविष्ट होता है। वह प्रविष्ट होनेवाला रूप ईश्वर का 'विश्वचर' रूप कहा जाता है, यही रूप सब जगत् का नियन्ता है और व्यवहार में, न्याय-दर्शन में वा उपासना-शालों में यही नियन्ता 'ईश्वर' कहलाता है। ईश्वर के इस रूप की व्याप्ति सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में है, समष्टि ब्रह्माण्ड में और प्रत्येक व्यष्टि पदार्थ में यह व्यापक रूप से विराजमान है और ब्रह्माण्ड से बाहर भी व्याप्त रहकर ब्रह्माण्ड को अपने उदर में रखे हुए है। बाहर रहनेवाला रूप विश्वातीत कहलाता है—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
 कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च ॥
 यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद् यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चिद् ।
 वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णपुरुषेण सर्वम् ।
 यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं संचविचैति सर्वम् ॥
 तमीशानं वरदं देवमीड्यं, निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ।

सर्वाननशिरोश्रीव. सर्वभूतगुहाशयः ।

सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात् सर्वगता शिवः ॥

(श्वेताश्वतर उपनिषद्)

—इत्यादि शतश मन्त्रों में ईश्वर के विश्वचर रूप का वर्णन मिलता है, और इनमें 'शिव', 'ईशान', 'रुद्र' आदि पद भी स्पष्ट हैं।

यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईश्वर का शरीर कहलाता है, इस शरीर का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है।

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ
 दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः ।
 वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य,
 पद्भ्यां पृथिवी ह्येव सर्वभूतान्तरात्मा
 (मुण्ड० २।१।४)

अर्थात्, अग्नि जिसका मस्तक है, चन्द्रमा-सूर्य दोनों नेत्र हैं, दिशाएँ श्रोत्र हैं, वेद वाणी है, विश्वव्यापी वायु प्राण-रूप से हृदय में है, पृथ्वी पाद-रूप है—वह सब भूतो का अन्तरात्मा है ।

इसी प्रकार का सक्षिप्त वा विस्तृत वर्णन पुराणो में प्राप्त होता है । इसी वर्णन के अनुसार उपासना में शिवमूर्त्ति के ध्यान है । हम पहले कह चुके हैं कि अग्नि की व्याप्ति इक्कीस स्तोम (सूर्य-मण्डल) तक है । इसी अग्नि को यहाँ मस्तक बताया गया है और उसी मस्तक के अन्तर्गत सूर्य, चन्द्रमा को नेत्र माना है । यो, पृथ्वी से आरम्भ कर सूर्य-मण्डल से परे स्वयम्भू-मण्डल तक ईश्वर की व्याप्ति बताई जाती है । हमारी आराध्य शिवमूर्त्ति में भी तृतीय नेत्र-रूप से अग्नि ललाट में विराजमान है, जो अन्य दोनो नेत्रों से किञ्चित् ऊपर तक है । सूर्य और चन्द्रमा दोनो नेत्र हैं ही—‘वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम्’, यह त्रिनेत्र का दूसरा भाव हुआ । यहाँतक अग्नि की व्याप्ति हुई, इससे आगे सोम-मण्डल है और सोम की तीन अवस्थाएँ हैं—अप्, वायु और सोम, यह भी पहले कह चुके हैं । इनमें से सोम चन्द्रमा-रूप से, अप् गगा-रूप से और वायु जटा-रूप से शकर के मस्तक में (अग्नि आदि से ऊपर) विराजमान है । सूर्य-मण्डल से ऊपर परमेष्ठिमण्डल का सोम, मण्डल-रूप में नहीं है, इसलिए शिव के मस्तक पर भी चन्द्रमा का मण्डल नहीं, किन्तु कलामात्र है । सोम के ही तीन भाग हैं, जो तीन कला (अश, अवयय) कहे जा सकते हैं । केवल सोम पूर्णरूप में नहीं रहता, किन्तु भागों में विभक्त होकर रहता है, इसलिए भी चन्द्र की कला का मस्तक पर विराजित होना युक्तियुक्त है । मण्डल-रूप पृथ्वी का चन्द्रमा पहले नेत्रों में आ चुका है, यह स्मरणीय है । परमेष्ठिमण्डल का ‘अप्’ ही गगा के रूप में परिणत होता है, यह गगा के विज्ञान में स्पष्ट किया गया है । वह गगा जटा में है, अर्थात् वायु-मण्डल में व्याप्त है । शिव का नाम ‘व्योमकेश’ है, अर्थात् आकाश को उनकी जटा माना गया है और आकाश वायु से व्याप्त ही पाया जाता है—

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

—इत्यादि पूर्वोक्ति स्मरण कीजिए । इससे भी जटाओं का वायु-रूप होना सिद्ध है । एक-एक केश के समूह को ‘जटा’ कहते हैं और वायु का भी एक-एक डोरा पृथक्-पृथक् है, जिनकी समष्टि ‘वायु’ कहलाती है—यह जटा और वायु का सादृश्य है । पृथ्वी का अधिकतर सम्बन्ध सूर्य से ही है, आगे के सोम-मण्डल का पृथ्वी से साक्षात् सम्बन्ध नहीं होता, सूर्य-चन्द्र द्वारा होता है, इससे हमारा असली ब्रह्माण्ड सूर्य तक ही है । यही यहाँ भी (शिवमूर्त्ति में भी) सूचित किया है, क्योंकि

मस्तक तक ही शरीर की व्याप्ति है—केग मुख्यतः शरीर के अंग नहीं कहे जाते। शरीर का भाग ही अवस्थान्तरित होकर केग-रूप में परिणत होता है। इसी प्रकार अग्नि ही अवस्थान्तरित होकर सोम रूप में परिणत होती है, यह कह चुके हैं। यह परमेष्ठिमण्डल की वायु जटा-रूप से है और जिसे श्रुति में प्राण-रूप से हृदय में विराजमान कहा है। वह हमारे इसी अन्तरिक्ष की वायु है। पद्मपुराण में पृथ्वी का पद्म-रूप से निरूपण किया है और शंकर का ध्यान पद्मासन-स्थित रूप में है—‘पद्मासीन समन्तात् स्तुतममरगणै’, इससे पृथ्वी की पादरूपता भी ध्यान में आ जाती है। इस ब्रह्माण्ड में ईश्वर के शरीर विष और अमृत दोनों हैं। विष भी कहीं बाहर नहीं, ईश्वर-शरीर में ही है। किन्तु, ईश्वर विष को गुप्त—अन्तर्लान रखता है और अमृत को प्रकट। जो ईश्वर के उपासक ईश्वर के शरीर-रूप से जगत् को देखते हैं, उनकी दृष्टि में अमृत ही आता है। विष विलीन ही रहता है। अतएव, शंकर की मूर्ति में विष गले के भीतर है, वह भी कालिका-रूप से मूर्ति की गोभा ही बटा रहा है। अमृतमय चन्द्रमा स्पष्ट रूप से सिर पर विराजमान है। वैज्ञानिक समुद्र-मन्थन के द्वारा जो विष प्रकट होता है, उसे रुद्र ही धारण करते हैं। ईश्वर को गाल्कारो ने ‘विन्दुधर्माश्रय’ माना है, जो धर्म हमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, वे सब ईश्वर में अविरुद्ध होकर रहते हैं। सभी विरुद्ध धर्मों को ब्रह्माण्ड में ही तो रहना है, बाहर जायें तो कहाँ ? और, ब्रह्माण्ड ठहरा ईश्वर-शरीर, फिर वहाँ विरोध कैसा ? यह भाव भी शिवमूर्ति में स्पष्ट है कि वहाँ अमृत भी है, विष भी, अग्नि भी है, जल भी, किसी का परस्पर विरोध है ही नहीं। इस भाव को पार्वती की उक्ति में कविकुलगुरु कालिदास ने बड़े सुन्दर शब्दों चित्रित किया है—

विभूषणोद्भासि भुजङ्गभोगि वा
गजाजिनालम्बि दुकूलवारि वा ।
कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखरं
न विश्वमूर्त्तैरवधार्यते वपुः ॥

(कुमारसम्भव, अ० ५)

अर्थात्, वह शरीर भूषणों से भूषित भी है और सर्प-शरीरो से वेष्टित भी। गजचर्म भी ओढे हुए है और सुन्दर-सुन्दर बहुमूल्य वस्त्रधारी भी हो सकता है। वह शरीर कपालपाणि भी है और चन्द्र-मुकुट भी। जो विश्वमूर्ति ठहरा, उस शरीर का एक रूप से निश्चय कौन कर सकता है ?

भगवान् शंकर के हाथ में परशु, मृगवर और अभय वताये गये हैं।

परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् ।

ध्यान में हाथों के द्वारा देवमूर्ति के कार्य प्रकट किये जाते हैं—यह ‘निदान’ की परिभाषा है। यहाँ भी शंकर के (ईश्वर के) चार कर्म इन चिह्नों द्वारा वताये गये हैं। परशु (वा त्रिशूल) रूप आयुध से दुष्टों का आत्मविधातक दोषों और उपद्रवों का, पवमान, पावक, शुचि आदि घोर रूद्रों का हनन सूचित किया जाता है। आल

आने पर सबका हनन भी इसीसे सूचित हो जाता है। दूसरे हाथ में मृग है। शतपथ-ब्राह्मण, काण्ड १, अव्याय १, ब्राह्मण ४ में कृष्णमृग को यज्ञ का स्वल्प व्रताया गया है। अन्यत्र शतपथ और तैत्तिरीय में यह भी आख्यान है कि अग्नि वनस्पतियों में प्रविष्ट हो गई—‘वनस्पतीनाविवेग’। इस ऋचा को भी वहाँ प्रमाण-रूप में उपस्थित किया गया है। उस अग्नि को देवताओं ने हँटा, इससे ‘मृग्यत्वान्मृगः’—हँटने योग्य होने से वह अग्नि ‘मृग’ कहलाई। यह अग्नि वेद की रक्षक है। अस्तु, दोनों ही प्रकार के मृग के धारण द्वारा यज्ञ वा वेद की रक्षा—यह ईश्वर का कर्म सूचित किया गया है। वरमुद्रा के द्वारा सबको सम कुछ देनेवाला ईश्वर (शंकर) ही है। अग्नि, वायु और इन्द्र-रूप से वही सब जगत् का पालक है—यह भाव व्यक्त किया है, और अभय के द्वारा अनिष्ट से जगत् का नाश विवक्षित है। यम, निर्द्वन्द्व, वरुण और रुद्र—ये चार जगत् के अनिष्टकारक माने गये हैं। इनमें रुद्र समय पर हनन करता है और अन्य अनिष्टों का उपमर्दन कर रक्षा भी करता है। इसीसे रुद्र-मूर्ति में अभय-मुद्रा आवश्यक है। शंकर व्याघ्रचर्म को नीचे के अंग में पहनते हैं वा आसन बनाकर विछाते भी हैं और गजचर्म को ऊपर ओढ़ते हैं, इससे भी उपद्रवों दुष्टों का दबना और सम्पत्ति देना लक्षित होता है। उनके गले में जो मुण्डमाला है, उससे यही सूचित होता है कि सब जगत् के पदार्थ ईश्वर के रूप में अन्तर्गत हैं, उनके रूप में सब पिरोये हुए हैं—

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।

ईश्वर सत्ता से पृथक् किये जाने पर सब पदार्थ अचेतन-मृत हैं, यही भाव ‘मुण्ड’-रूप से सूचित किया है। प्रलय-काल में शिव ही शेष रहते हैं, शेष सब पदार्थ चेतनाशून्य होकर मृत मुण्ड-रूप से उनमें प्रोत रहते हैं, यह भी मुण्डमाला का भाव है।

सर्प

शिव को ‘सर्पभूषण’ कहा जाता है। उनकी मूर्ति में जगह-जगह सोंप लिपटे हुए हैं। इसका स्थूल अभिप्राय कह चुके हैं कि मंगल और अमंगल सब कुछ ईश्वर-शरीर में है। दूसरा अभिप्राय यह भी है कि सहारकारक शिव के पास सहार-सामग्री भी रहनी ही चाहिए। समय पर उत्पादन और समय पर सहार—दोनों ईश्वर के ही कार्य हैं। सर्प से बढकर सहारक तमोगुणी कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अपने बालों को भी खा जाना—यह व्यापार सर्प-जाति में ही देखा जाता है, अन्यत्र नहीं। तीसरा अभिप्राय किञ्चित् निगूढ है। चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति आदि ग्रह, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं—वे अपने एक परिभ्रमण में जिस मार्ग पर गये थे, ठीक उसी बिन्दु पर दूसरी बार नहीं जाते। किञ्चिद् हटकर उसी मार्ग पर चलते हैं, यो एक-एक बार के भ्रमण का एक-एक कुण्डलाकार वृत्त बनता जाता है। कुछ नियत परिभ्रमणों के बाद वे फिर अपने उस पूर्व वृत्त पर आ जाते हैं, यह नियम भिन्न-भिन्न ग्रहों का भिन्न-भिन्न रूप से है। मंगल ७९ वर्ष में फिर अपने पूर्व वृत्त पर आता है और

ग्रहों का भी सम्यक् नियंत्रण है। यह भिन्न-भिन्न मण्डलों का समुदाय रस्मी की तरह लपेटा हुआ ध्यान में लाया जाय, तो वह सर्प-मुण्डली के आकार का ही होता है। अतः, वेदों में इनका व्यवहार नाग वा सर्प बतलाने ही किया गया है। आधुनिक ज्योतिष-ज्ञान में इन्हें कलावृक्ष कहते हैं। सर्प को मध्य में रखकर घूमनेवालों में आठ ग्रह मुख्य हैं, अतः आठ ही सर्प प्रधान माने गये हैं। और भी, बहुत से ताँगे घूमनेवाले हैं। उनके लक्षण बनते हैं। ये सब यह और उनके कथा-वृत्त (सर्प) ईश्वर के शरीर—त्रयाण्ड के अन्तर्गत हैं, इसलिए शिव के शरीर में भूषण-रूप से सर्पों की स्थिति बताई गई है। तारा-मण्डल में भी अनेक रूढ़ हैं और उनके आकार सर्प-जैसे दिखाई देते हैं।

श्वेत मूर्ति

भगवान् शंकर की मूर्ति उज्वल (श्वेत) है—‘रदाकल्पोज्ज्वलाद्गम्’—इसका अभिप्राय निम्नलिखित है—

(१) व्यापक ईश्वर चेतन, अर्थात् ज्ञान-रूप है। ज्ञान को ‘प्रकाश’ कहते हैं, अतः उसका वर्ण श्वेत ही होना चाहिए।

(२) श्वेत वर्ण कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। वस्त्र आदि पर दूसरे रंग चटाने के लिए यत्न करना पड़ता है, किन्तु श्वेत रंग के लिए कोई रँगरेज नहीं होता। श्वेत पर और-और रंग चटते हैं, और धोकर उतार दिये जाते हैं। श्वेत पहले भी रहता है और पीछे भी। धोरी द्वारा दूसरे रंग के उतार दिये जाने पर श्वेत प्रकट हो आता है। इससे श्वेत नैसर्गिक ठहरा। यस, यही बताना है कि ईश्वर का कृत्रिम रूप नहीं है, सब रूप उसमें उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं, वह स्वभावतः एकत्प है वा यों कहें कि कृत्रिम रूपों से वञ्चित है, नीरूप है।

(३) वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि श्वेत कोई भिन्न रूप नहीं। सब रूपों के समुदाय को ही श्वेत कहते हैं। सब रूपों को जब मिलाया जाय, तब वे यदि सब-के-सब मूच्छित हो जायें, तो काला रूप बनता है और सब जाग्रत् रहें, तो श्वेत प्रतीत होता है। सूर्य की त्रिरणों में सभी रूप हैं—यह वैज्ञानिक लोग जानते हैं। तिकोने काँच की सहायता से इसे सर्वसाधारण भी देख सकते हैं। किन्तु सबके मिलने के कारण प्रतीत श्वेत रूप ही होता है। भिन्न-भिन्न सभी वर्णों के पत्ते एक यन्त्र में रखकर उसे जोर से घुमाया जाय, तो श्वेत ही दिखाई देगा। इससे सिद्ध है कि सब रूप ही, किन्तु उनमें भेद भाव न हो, वही शुद्ध होता है। यही स्थिति ईश्वर की है। जगत् के सब रूप उसी में ओत-प्रोत हैं, किन्तु भेद छोड़कर। भेद अविद्या-वृत्त है। ईश्वर में अभिन्न रूप से सबकी स्थिति है। तब उस ईश्वर को श्वेत ही कहना और देखना चाहिए। यहाँ प्रसगागत रूप से यह भी ज्ञातव्य है कि विष्णु भगवान् का श्याम रूप भी सर्वरूपाभाव का ही बोधक है। कोई रूप न होने पर श्यामता कही जाती है और प्रतीत भी होती है। जैसे सर्वरूप-शून्य आकाश में श्यामता प्रतीत होती है। अतः, ईश्वर के अक्षरो में ये गुणों के रूप नहीं, वरन् उक्त अभिप्राय के अनुसार ही हैं।

(४) सात लोकों में जो स्वयम्भू से पृथ्वी तक पाँच मण्डल बताये गये हैं, उनमें से सूर्य-मण्डल में सभी वर्ण हैं। आगे परमेष्ठिमण्डल कृष्ण है—उससे आगे स्वयम्भू-मण्डल प्रकाशमय श्वेतवर्ण है और आग्नेयमण्डल होने के कारण वह 'शिव-मण्डल' वा 'रुद्रमण्डल' भी कहलाता है। वही मण्डल सर्वव्यापक होने के कारण ईश्वर का रूप कहा जा सकता है। उसके प्रकाशमय श्वेत वर्ण होने के कारण शिवमूर्ति का श्वेत वर्ण युक्तियुक्त है।

विभूति

शकर भगवान् सर्वांग में विभूति से अनुलित-आच्छन्न रहते हैं। इसका भी यही कारण है। उक्त पाँचों मण्डलों के प्राण सारे पार्थिव पदार्थों में व्याप्त हैं। उनमें से सौर जगत् में सूर्य-प्राण उद्भूत (सबसे उत्तर प्रकाशित) रहते हैं, और आगे के अमृत-मण्डलो (परमेष्ठी और स्वयम्भू) के प्राण आच्छन्न (ढके हुए, गुप्त) रहते हैं। उनका ही भाव श्वेत विभूति रूप में बताया गया है। यह भी विज्ञान-प्रकरण में कह चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ को अन्त तक जला देने पर अन्त में भस्म ही शेष रहता है और वह परमेष्ठिमण्डल का अंश है। उसीसे आगे सब विश्व का उत्पादन होता है, वह भाव भी विभूति में समझ लेना चाहिए। इसी से पुराणों में कई जगह ऐसा जो वर्णन आता है कि शिव अपनी विभूति से ही ब्रह्माण्ड का उत्पादन करते हैं, वह भी सुसगत हो जाता है। इस प्रकार, शिव की मूर्ति का सक्षित अभिप्राय बताया गया। शिव के और भी कई प्रकार के ध्यान हैं, उनमें भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। हमारा यह दिग्दर्शन-मात्र है।

शिव और शक्ति

अग्नि चुलोक वा स्वर्लोक तक (सूर्य-मण्डल तक) व्याप्त है, उसके आगे सोम-मण्डल है। अग्नि की गति ऊपर को और सोम की गति ऊपर से नीचे की ओर रहती है। यह भी कह चुके हैं कि विशकलन की सीमा पर पहुँच कर अग्नि ही सोम-रूप में परिणत हो जाती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आकर अग्नि में प्रवेश कर सोम अग्नि बन जाता है। इनमें अग्नि को 'शिव' और सोम को 'शक्ति' कहते हैं। 'सोम' शब्द उमा से ही बना है—'उमया सहितः सोमः'। शक्ति-रूप की विवक्षा कर उमा भगवती कह लीजिए, और शक्तिमान् द्रव्य वा प्राण को शक्ति का आश्रय, शक्ति के अतिरिक्त मानकर 'उमया सहितः सोमः' कह लीजिए। वात एक ही है। भेद-अभेद की विवक्षा-मात्र का भेद है। यह तत्र बृहज्जावालोपनिषद्, ब्राह्मण २ में स्पष्ट है—

अग्नीषोमात्मकं	विश्वमित्यग्निराचक्षते ।
रौद्री	घोराया तैजसी तनूः ।
सोम	शक्त्यमृतमयः शक्तिकरी तनूः ।
अमृतं	यत्प्रतिष्ठा सा तेजोविद्याकला स्वयम् ।
स्थूलसूक्ष्मेषु	भूतेषु स एव रसतेजसि (सी) ॥ २ ॥

द्विविधा तेजसो वृत्तिः मूर्त्यान्मा चानलात्मिका ।
 तथैव रसशक्तिश्च सोमात्माचान (नि) लात्मिका ॥ २ ॥
 वैश्वानरमयं तेजो मधुगद्विमयो रसः ।
 तेजो रसविभेदैस्तु वृत्तमेतच्चराचरम् ॥ ३ ॥
 अग्नेरमृतनिष्पत्तिरमृतेनाग्निरेधते ।
 अतएव हविः फलसमगर्नीपोमात्मकं जगत् ॥ ४ ॥
 ऊर्ध्वशक्तिमय (यः) सोम अधो (धः) शक्तिमयोऽनलः ।
 ताभ्यां सम्पुटितस्तस्माच्छ्वद्विध्वमिदं जगत् ॥ ५ ॥
 अग्ने (ग्नि) रूर्ध्व भवत्येषा (प) यावत्सौम्य परामृतम् ।
 यावद्रन्यात्मकं सौम्यममृतं विसृजत्यधः ॥ ६ ॥
 अतएव हि कालाग्निरधस्ताच्छक्तिरूर्ध्वगा ।
 यावदादहनद्रोर्ध्वमधस्तात्पवनं भवेत् ॥ ७ ॥
 आधारशक्त्यावधृतं कालाग्निरयमूर्ध्वगं ।
 तथैव निम्नगः सोमः शिवशक्तिपटास्पदः ॥ ८ ॥
 शिवश्चोर्ध्वमय शक्तिरूर्ध्वशक्तिमयः शिव ।
 तद्विन्यं शिवशक्तिभ्यां नाध्यात्मिह किञ्चन ॥ ९ ॥

इसका तात्पर्य है कि इस सभ जगत् के आत्मा अग्नि और सोम हे वा इसे अग्नि-रूप भी कहते हे । घोर तेज (अग्नि) रुद्र का शरीर हे, अमृतमय शक्ति देनेवाला सोम शक्ति-रूप हे । अमृत रूप सोम सक्ती प्रतिष्ठा हे, विद्या और कला आदि मे तेज (अग्नि) व्याप्त हे । त्वल वा सूक्ष्म सब भूतो मे रस (सोम) और तेज (अग्नि) सब जगह व्याप्त हे । तेज दो प्रकार का हे—सूर्य और अग्नि । सोम के भी दो रूप हैं—रस (अप्) और अनिल (वायु) । तेज के विद्युत् आदि अनेक विभाग हैं और रस के मधुर आदि भेद हे । तेज और रस से ही यह चराचर जगत् बना हे । अग्नि से ही अमृत (सोम) उत्पन्न होता हे और सोम से अग्नि बटती हे, अतएव अग्नि और सोम के परस्पर हविर्यज्ञ से सब जगत् उत्पन्न हे । अग्नि ऊर्ध्वशक्तिमय होकर, अर्थात् ऊपर को जाकर सोमरूप हो जाता हे । सोम अध शक्तिमय होकर, अर्थात् नीचे आकर अग्नि बन जाता हे, इन दोनो के सम्पुट मे निरन्तर यह विश्व रहता हे । जबतक सोम-रूप में परिणत न हो, तबतक अग्नि ऊपर ही जाती रहती हे और सोम-अमृत जबतक अग्नि-रूप न बने, तबतक नीचे ही गिरता रहता हे । इसलिए कालाग्नि-रूप रुद्र नीचे हे और शक्ति इनके ऊपर विराजमान हे । दूसरी स्थिति में फिर (सोम की आहुति हो जाने पर) अग्नि ऊपर और पवन सोम नीचे हो जाता हे । ऊपर जाती हुई अग्नि अपनी आधारशक्ति सोम से ही धृत हे (विना सोम के उसका जीवन नहीं) और नीचे आता हुआ सोम शिव की ही शक्ति कहलाता हे, अर्थात् विना शिव के आधार के वह भी नहीं रह सकता । दोनो एक दूसरे के आधार पर हे । शिव शक्तिमय है, शक्ति शिवमय है । शिव और शक्ति जहाँ व्याप्त न हो, ऐसा कोई स्थान नहीं ।

अब इस पर और व्याख्या लिखने की आवश्यकता नहीं रही । अग्नि से सोम

और सोम से अग्नि बनती है—वे दोनों एक ही तत्त्व हैं। इसलिए, शिव और शक्ति का अभेद (एकरूपता) माना जाता है। एक के बिना दूसरा नहीं रहता। इसलिए, शिव और उमा मिलकर एक अंग हैं। उमा शिव की अर्द्धाङ्गिनी है, सोम भोज्य है और अग्नि भोक्ता, इसलिए अग्नि पुरुष और सोम स्त्री माना गया है। लोक क्रम में सोम ऊपर रहता है, इससे शिव के वक्षःस्थल पर खड़ी हुई शक्ति की उपासना होती है। शिव ज्ञान-स्वरूप वा रस-स्वरूप है और शक्ति क्रिया वा बलरूपा। क्रिया वा बल ज्ञान वा रस के आधार पर खड़ा रहता है। इसलिए, भगवती को शिव के वक्षःस्थल पर खड़ी हुई मानते हैं। यह भी भाव इसमें अन्तर्निहित है। बिना क्रिया के ज्ञान में स्फूर्ति नहीं, वह मुर्दा है। इसलिए वहाँ शिव को 'शिव' रूप माना जाता है। अथवा, यो भी कह सकते हैं कि विश्वरूप (विराट् रूप) शिव है, उस पर चित्कलात्पा (ज्ञानशक्ति-रूपा) भगवती खड़ी है। वही इसकी प्रधान शक्ति है, उसके बिना विश्वरूप निश्चेष्ट है। वह 'शिव' रूप है। ज्ञान और क्रिया को अर्द्धांग भी कह सकते हैं। यो, कोई भी भाव मान लिया जाय, सभी प्रमाणसिद्ध और अनुभवगम्य हैं।

शिव और विष्णु

उपासना के प्रेमियों में इस बात पर आधुनिक युग में बहुत विवाद रहता है कि शिव और विष्णु में कौन बड़ा है? कोई विष्णु को ही परमात्मा कहकर शिव को उनके उपासक मानते हुए जीव-कोटि में मानने का साहस करते हैं और कोई शिव को परतत्त्व कहकर विष्णु को उनके अनुमत सेवक वा जीवविशेष कहने तक का पाप करते हैं। कुछ सज्जन दोनों को ईश्वर के ही रूप कहते हुए भी उनमें तारतम्य रखते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया में वस्तुतः इन विवादों का अवसर ही नहीं है। यहाँ न कोई छोटा है, न बड़ा। अपने-अपने कार्य के सभी प्रभु हैं। यह उपासक की इच्छा और अधिकार के अनुसार नियत है कि वह किसी रूप को अपनी उपासना के लिए चुन ले। किन्तु किसी को छोटा कहना या उसकी निन्दा करना अपनेको विज्ञान-शून्य घोषित करना है। अस्तु, अब क्रम से देखिए—निर्विशेष, परात्पर वा अव्यय पुरुष, जो उपासना और ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है, जो जीव का अन्तिम प्राप्य है, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं। उसे, 'वेवेष्टीति विष्णुः'—सर्वत्र व्यापक है, इसलिए 'विष्णु' कह लीजिए, अथवा 'शेरतेऽस्मिन् सर्वे इति शिवः'—सब कुछ उसी के पेट में है, इसलिए 'शिव' कह लीजिए। उसका कोई नाम-रूप न होते हुए भी—'सर्वधर्मो-पपत्तेश्च', इस वेदान्त-सूत्र के अनुसार सभी गुण, कर्म और नाम उसके हो सकते हैं, अतएव विष्णुसहस्रनाम में शिव के नाम और शिवसहस्रनाम में विष्णु के नाम आते हैं। मूलरूप में भेद है ही नहीं। यो, परमशिव वा महाविष्णु एक ही वस्तु है, उपासक के अधिकार वा रुचि के अनुसार उसकी भिन्न-भिन्न नाम-रूपों से उपासना होती है। अब आगे अक्षर पुरुष में आइए—यहाँ विष्णु और महेश्वर शक्ति-भेद से पृथक्-पृथक् प्रतीत होंगे, जैसा कहा गया है कि आदान-क्रिया के अधिष्ठाता विष्णु और उक्लान्ति के अधिष्ठाता महेश्वर हैं, किन्तु वस्तुतः विचार करने पर एक ही अक्षर

पुरुष की दोनों कलाएं ई. एगलिय गौलिक भेद इसमें गिन नहीं होता। आदान और उन्नान्ति दोनों एक ही गति के भेद हैं। गति यदि केन्द्राभिमुखी हो, तो 'आदान' कहलाता है और यदि केन्द्र से विपरीति दिशा में, अर्थात् पराङ्मुखी हो, तो 'उन्नान्ति' कहलाती है। यों, एक ही गति के दिग्भेद से दो विभेद हैं। तब, वास्तविक भेद कहां रहा ? नाममात्र का ही तो भेद है। एक कवि ने बड़ी सुन्दरता से कहा है—

उभयोरेका प्रकृति प्रत्ययतो भिन्नवद्भाति ।
कलयतु कञ्चन मूढो हरिहरभेद विना शास्त्रम् ॥

व्याकरण के अनुसार हरि और हर दोनों शब्द एक ही 'ह' धातु से बनते हैं, अतः प्रकृति (मूलधातु) दोनों में एक है, केवल प्रत्यय सुदा-सुदा है, तब इनका भेद मानना ज्ञान से अनभिज्ञों का ही काम है। दूसरा अर्थ श्लोक का यह है कि दोनों की प्रकृति एक है, अर्थात् मूलतत्त्व रूप से दोनों एक हैं, केवल प्रत्यय-प्रतीति (बाहरी दृष्टि) से भेद हो रहा है, यह भेद ज्ञान दृष्टिवालों को कभी प्रतीत नहीं होता। अतएव, उन्नान्ति का नेता 'इन्द्र' कहलाता है, तो आदान का उपेन्द्र (दूसरा इन्द्र)। विष्णु का दूसरा नाम उपेन्द्र भी है।

कुछ मज्जन् शिव को सहारकर्ता कहकर उपासना के अयोग्य मानते हैं, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि में यह भी तर्क नहीं ठहरता। हम अक्षर पुरुष के निरूपण में त्यज कर चुके हैं कि एक दृष्टि से जो सहार है, दूसरी अपेक्षा से वही उत्पादन वा पालन है। नाममात्र का भेद है, वास्तविक भेद इसमें भी नहीं है। इसके अतिरिक्त सहार भी तो ईश्वर का ही काम है और वह अवश्यम्भावी है। समय पर उत्पादन और पालन जैसे नियत हैं, वैसे ही सहार भी नियत है। तीनों कार्य ईश्वर के द्वारा ही होते हैं। यदि एक ही शक्ति तीनों कार्यों को करनेवाली न मानी जाय, तो बड़ा युक्ति-विरोध आ पड़े। सहार करनेवाला कोई और है, तो वह पालक से जवरदस्त कहा जायगा, क्योंकि उसके पालित को वह नष्ट कर देता है। फिर सहारक ही ईश्वर कहलायेगा, पालक नहीं। इसके अतिरिक्त जिसने सबका सहार किया, वही तो अन्त में शेष रहेगा, फिर सृष्टि के समय सृष्टि भी वही करेगा। दूसरा रूप है ही कहाँ, जो सृष्टि करें ? इन सब कुतर्कों का समाधान तभी होता है, जब एक ही ईश्वर के कार्यापेक्षा से तीनों रूप माने जायँ, उनमें भेद न माना जाय। जिस समय जिस रूप वा शक्ति की आवश्यकता होती है, उस समय वह प्रकट हो जाता है, तत्त्व एक ही है। फिर भी, कहा जाय कि तत्त्व चाहे एक हो, किन्तु सहारकारक रूप से हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, तो यह युक्ति भी निःसार है। सब रूपों के उपासक अपने उपास्य में सभी शक्तियों का ध्यान करते हैं। विष्णु के उपासक भी उनको उत्पादक, पालक और सहर्ता तीनों कहते हैं और शिव के उपासक भी ऐसा ही मानते हैं। कोई भी शक्ति न मानने से ईश्वर में न्यूनता आ जायगी। ईश्वर का काम यथाकाल सब कार्य करना है। काल में सहार अभीष्ट ही है। क्या सहार का ध्यान न करनेवालों का सहार न होगा ? फिर, महेश्वर तो केवल सहारक है भी नहीं, तीन अक्षर-कलाओं की समष्टि को

महेश्वर बताया गया है, इनमें अग्नि और सोम ही तो सब जगत् के उत्पादक हैं, इसलिए यह उत्कर्षापकर्ष की कल्पना कोरी कल्पना ही है। कुछ सज्जन शिव को तमोगुणी कहकर उपासना के अयोग्य ठहराने का साहस करते हैं, किन्तु यह भी साहसमात्र ही है। शिव ईश्वर हैं, वे तमोगुण के वश में तो हो नहीं सकते। ईश्वर और जीव में यही तो भेद है कि जीव प्रकृति के वश में है और ईश्वर प्रकृति का नियन्ता है। तब, शिव तमोगुणी है, इसका अभिप्राय यह होगा कि वे तमोगुण के नियन्ता हैं। तो फिर सत्त्वगुण के नियमन करने की अपेक्षा तमोगुण के नियमन करने का कार्य कितना कठिन है और वैसा कार्य करनेवाला रूप और भी उत्कृष्ट है कि नहीं, इसका विचारशील स्वयं निर्णय करें।

वस्तुतः तमोगुण 'आवरक' कहलाता है। भूतो की उत्पत्ति तमोगुण से ही मानी जाती है और वैज्ञानिक प्रक्रिया में भूतो के उत्पादक अग्नि और सोम हैं। उन अग्नि और सोम के अधिनायक महेश्वर हैं, इसलिए उन्हें तमोगुण का अधिष्ठाता कहा गया है। इससे उपास्यता में कोई हानि नहीं। उपासक उन्हें तमोगुण के नियन्ता कहकर उपासना करते हैं। अतएव, परमवैराग्यवान् अत्यन्त शान्त विषय-निर्लिप्त रूप में उपासक उनका ध्यान करते हैं, इससे उनमें तमोगुण की वृद्धि होगी, इसकी लेशतः भी सम्भावना नहीं। तमोगुण के नियन्ता वे भी हो जायेंगे।

अब प्राकृत स्वयम्भू आदि मण्डले पर विचार कीजिए। यहाँ भी एक दृष्टि से एक की व्याप्ति न्यून रहती है, तो दूसरी दृष्टि से दूसरे की। विष्णु यज्ञ-स्वरूप हैं, और यज्ञ द्वारा ही रुद्र आदि सब देवता उत्पन्न होते हैं—यज्ञ के आधार पर ही सब देवताओं की स्थिति है। रुद्र शिव का रूप है, इसलिए कहा जा सकता है कि शिव विष्णु के उदर में है—उनसे उत्पन्न होते हैं। किन्तु, दूसरी दृष्टि से अग्निप्रधान सूर्य-मण्डल रुद्र-रूप है, उस मण्डल की व्याप्ति में, अर्थात् सौर जगत् के अन्तर्गत यज्ञमय विष्णु है। सौर जगत् में जो यज्ञ हो रहा है, उसी से हमारा जीवन है और 'यज्ञो वै विष्णुः', यज्ञ ही विष्णु का रूप है, इस दृष्टि से शिव या रुद्र के पेट में विष्णु रहे। अब आगे बढ़िए। सूर्य का उत्पादक यज्ञ परमेष्ठिमण्डल में होता है, अतएव वह मण्डल विष्णुप्रधान कहा गया है। उस मण्डल के पेट में सूर्य-मण्डल आ जाता है, इससे विष्णु के पेट में शिव का अन्तर्भाव हुआ। और आगे चले, तो परमेष्ठिमण्डल स्वयम्भू-मण्डल के अन्तर्गत रहता है, स्वयम्भू-मण्डल आग्नेय होने के कारण रुद्र का वा अग्नि के नियन्ता महेश्वर का मण्डल कहा जा सकता है, यह अभी विस्तार से निरूपित हो चुका है। स्वयम्भू-मण्डल के अन्तर्गत एक वाचस्पति तारा है, वह श्रुति में इन्द्र माना गया है और इन्द्र महेश्वर के रूप में अन्तर्गत है। उस मण्डल की व्याप्ति में परमेष्ठि-मण्डल के अन्तर्भूत रहने के कारण फिर शिव के उदर में विष्णु आ गये। इसीलिए, स्पष्ट कहा गया है—

शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोस्तु हृदयं शिवः ।

सब जिसके अन्तर्गत है, वह परमाकाश सर्वरूप है, उसे परमशिव कह लीजिए, वा महाविष्णु। इसलिए, इस दृष्टि से भी कोई भेद वा छोट-बड़ापन सिद्ध नहीं होता।

मनुष्याकारधारी शिव

हमारे शास्त्रों में ईश्वर का दो भावों में वर्णन है, जगानिक रूप में और मनुष्याकार में। वे मनुष्याकार ईश्वर के मनुष्यरूप वा अवतार कहे जाते हैं। वैज्ञानिक निरूपण में आर इन मनुष्याकारधारी ईश्वर रूपों के चरित्रों में आश्चर्यजनक सादृश्य देखा जाता है। अतएव आर्याशास्त्रों का विश्वास है कि उपासकों पर अनुग्रह के कारण ईश्वर मनुष्य रूप ग्रहण करता है। गुरुवर श्रीमत्सुन्दरजी ओझा विद्यावाचस्पति के देवासुरख्याति, अविराति और इन्द्रविजय आदि में निरूपण है कि पृथ्वी में भी एक त्रिलोकी है। कारणावत पर्वत—जिससे इरावती नदी निकलती है—के उत्तर का प्रदेश भून्वर्ग (त्रिविष्टप) कहलाता है। उसमें इन्द्रविष्टप, विष्णुविष्टप, ब्रह्मविष्टप आदि विभाग भी पुराणादि में सुप्रसिद्ध हैं। आर्य सभ्यता के प्राधान्य-काल में इस प्रदेश में सब वैज्ञानिक देवताओं के समान ही सत्या प्रचलित थी। अस्तु, इस अप्रकृत विषय का हम यहाँ विस्तार न करेंगे। यहाँ हमारा वक्तव्य केवल इतना ही है कि एक भगवान् शंकर का मनुष्यरूप भी है। वह लक्ष्यालक्ष्य रूप है। कभी कार्य-काल में प्रकट होता है और कभी अलक्षित रहता है। इसी प्रकार के वर्णन इस रूप के पुराणों में हैं। इसे शिवावतार कह सकते हैं। समय-समय पर इन शंकर भगवान् की तीन स्थानों पर स्थिति बताई गई है। प्रथम, भद्रवट स्थान में—जो कैलास से पूर्व की ओर लौहिल्यगिरि के ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा नदी उसके नीचे होकर बहती है। दूसरा स्थान कैलास पर्वत पर और तीसरा मूजवान् पर्वत पर। मूजवान् का स्थान-निर्देश हम पहले कर चुके हैं। शंकर के गणभूत आदि का निवास हिमालय और हेमकूट के दरों में बताया गया है। शंकर भगवान् भी पूर्ण वैराग्यरत, आत्मसम्यगी हैं। काशी-खण्ड में एक कथा है कि शंकर भगवान् ने अपना सारा राज्य मानसरोवर पर विष्णु भगवान् को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर एकान्त में रहने लगे। देवताओं के कार्य के लिए—स्वामि कार्तिकेय की उत्पत्ति के लिए पार्वती-विवाह करने को वा त्रिपुर-वध करने को ऐसे ही अन्यान्य समयों में देवताओं की प्रार्थना पर ये प्रकट होते रहे हैं। पार्वती-विवाह, त्रिपुर वध आदि की कथाएँ इनकी बड़ी रोचक और आर्य सभ्यता के युग में पदार्थ-विज्ञान का अद्भुत महत्त्व प्रकट करनेवाली हैं, किन्तु उनका विवरण शंकर भगवान् की कृपा से कभी समयान्तर में सम्भव होगा।

इस प्रकार भारतीय सस्कृति में प्रचलित वेदमूलक उपासना का सक्षिप्त निरूपण किया गया।

भारतीय संस्कृति पर आक्षेप का समाधान

कहा जा चुका है कि भारतीय सस्कृति का मूल वेद ही है। इस सस्कृति पर बहुत पूर्व काल से कुछ आक्षेप होते रहे हैं। सर्वप्रथम बौद्ध और जैन सम्प्रदाय की ओर से यह आक्षेप हुआ कि वेद में पशु-हिंसा का विधान है और वह निर्दयतापूर्ण एवं सर्वथा अनुचित कर्म है। किसी प्राणी को सताना वा मारना कभी धर्म नहीं कहा

जा सकता। इस पर यह कहना है कि वेद ने पशु-हिंसा का अपनी ओर से विधान नहीं किया, प्रत्युत उत्तमगति की आकांक्षा रखनेवाले पुरुषों को रागद्वेष-रहित होने का ही सदा उपदेश दिया—‘मा हिंस्यात्सर्वा भूतानि’, ‘किसी भी प्राणी को न मारो’, यह सर्वप्रथम वेद की ही घोषणा है और उमी के आधार पर अन्य सम्प्रदायों के अहिंसा-सिद्धान्त प्रचलित हुए हैं। किन्तु विचित्र प्रकार के विभिन्न अधिकारी होते हैं, जो सर्वथा रागद्वेष रहित या सर्वहिंसाविनिर्मुक्त नहीं हो सकते और पृथ्वी-लोक से भी उत्कृष्ट देवलोक आदि के भोगों की आकांक्षा जिनके हृदय में प्रदीप्त है, उन्हें भी वेद निराश करना नहीं चाहता। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि वेदिक धर्म किसी को भी निराश नहीं करता। सभी को मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता रहता है। इसलिए, उक्त अभिलाषावाले को देवलोक आदि की प्राप्ति का भी उपाय बता देना वहाँ आवश्यक माना गया है।

देव-निरूपण में बताया गया है कि देवताओं से ही सम्पूर्ण स्थावर जगत्मात्मक जगत् बनता है। भिन्न-भिन्न प्राणियों के शरीरों में भिन्न-भिन्न देवताओं की प्रधानता रहती है। पशुओं में रहनेवाले प्राण पाँच प्रकार के हैं, यह भी पुरुषसूक्त के प्रमाण से पहले कहा जा चुका है। जैसा कि उदय के अनन्तर अधोमुख रूप से दिखाई देनेवाले सूर्यमण्डल से जो प्राण पृथ्वी पर आता है, वह अश्व कहलाता है। जिसका वर्णन बृहदारण्यक के प्रारम्भ में ही है कि मेव्य अश्व का सिर उषा है। (सूर्योदय के पहले जो प्रकाश आता है, वह उषा कहा जाता है। वहाँ से उस प्राण के आगमन का आरम्भ हो जाता है, इसलिए उसे शिर कहा गया।)

सूर्य उस अश्व का चक्षु है, (जैसे चक्षु से मनुष्य का तेज निकलता है, उसी प्रकार सूर्य से ही यह अश्वप्राण निकलता है)। वायु-मण्डल इसका श्वास स्वरूप है। वैश्वानर अग्नि इसका मुखव्यादान (मुँह फाड़ना) है, और सवत्सर ही इस में अश्व का आत्मा है (कहा जा चुका है कि सवत्सराग्नि सूर्य से निकलकर पृथ्वी पर आनेवाली अग्नि का ही नाम है, इसलिए उसे ही इसका स्वरूप या आत्मा कहकर दोनों की एकता सिद्ध की गई)। द्यु, अर्थात् स्वर्गलोक इस अश्व का पृष्ठ है, अन्तरिक्ष उदर है, पृथ्वी इसके बैठने का स्थान है इत्यादि। इस वर्णन से सूर्य-मण्डल से आनेवाला प्राण ही अश्व है, यह स्पष्ट हो जाता है। जो पशु हमारे यहाँ अश्व नाम से कहा जाता है, उसमें इस नाम की प्रधानता होती है। इसलिए, ससार में भी अश्व को सूर्य का वाहन भी कहा करते हैं तथा इसीलिए यह अश्व अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी है। शरीर के सार भाग वसा और मज्जा में वह प्राण विशेष रूप से प्रतिष्ठित रहता है। उस प्राण के साथ सम्बन्ध जोड़कर यदि यजमान को सूर्यलोक पहुँचाना हो, तो अश्व की वसा और मज्जा का अग्नि में हवन कर यजमान के आत्मा में उसका आवेश करा दिया जाता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से आकर्षण के नियम के अनुसार उस यजमान आत्मा की सूर्यलोक में गति निश्चित हो जाती है। इसी प्रकार, भिन्न-भिन्न देवताओं के प्राण जिन-जिन पशुओं में प्रतिष्ठित हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर महर्षियों ने उनके साथ सम्बन्ध जोड़कर उन लोकों में पहुँचने का उपाय कामना रखनेवाले पुरुषों को बताया है।

यह मन ही विज्ञान-रूप प्रिया है, जो प्रवृत्त उपनिषद् के वर्णनानुसार उपा आदि पर उपासना द्वारा ध्यान लगा सकते हैं, उनको बिना पशु हिंसा ही उन-उन लोकों की प्राप्ति हो जाती है। किन्तु, जिनके मन में उपासना का इतना बल नहीं, उनकी भी आसना-पूजा के लिए यह योग के ध्यान ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। साख्य-दर्शन में मिद्वान्त निरूपित किया गया है कि उन उन लोकों में जाकर वहाँ का आनन्द भोगते समय पशु हिंसा जनित पाप का फल दुःख भी उन्हें समय समय पर अवश्य ही भोगना पड़ता है। किन्तु जो उग्र दैत्यों-सुग्र को उच्च कोटि का मानकर उसके लिए उतना अन्न सुग्र भी सहन करने को प्रस्तुत है, उन्हें उग्रका उपायमात्र वेद ने बताया है। ज्ञानों में ऐसी प्रक्रिया के लिए एक 'कृपयनक न्याय, माना जाता है। उसका आशय है कि उग्रों को देनेवाले मनुष्य के गरीर में मिट्टी अवश्य लगती है, परन्तु जल निकल आने पर वह मिट्टी भी बूल जाती है और आगे जल का बहुत लाभ भी मिल जाता है। इसी प्रकार, ऐसे काम्य कर्मों में जो हिंसा आदि दोष होते हैं, वे उस लाभ के आगे गण्य मान लिए जाते हैं। अथ च, उसी कारण जानकाण्ड के प्रतिपादक वेदों के ही उपनिषद्-भाग में इनकी निन्दा भी की गई है —

प्लवा ह्येते अदृढा यक्षरूपा अप्रादशोक्तमवरं येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो ह्यभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि थान्ति ॥

(मुण्डकोपनि०, मुण्डक १, खण्ड २)

अर्थात्, वे यज्ञ-रूप नोकराएँ दृढ नहीं हैं, जिनमें १६ ऋत्विक् यजमान और यजमान-पत्नी इन १८ पुरुषों द्वारा साध्य कर्म बताये गये हैं। जो इसी को कल्याण-कारक मानकर इमी में निरत हो जाते हैं, वे जरा और मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकते। बार-बार जन्म लेकर बृद्धावस्था और मृत्यु का कष्ट उन्हें सहना ही पड़ता है। इस सारे निरूपण से यह सिद्ध है कि भारतीय आर्य-सस्कृति का पशुहिंसा का कर्म करना आदर्श नहीं है, अपितु कामनावालों के लिए यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपायमात्र बताया गया है। कदाचित् शका हो कि ऐसे अपवृष्ट उपाय को बताने से लाभ ही क्या ? तो, इसके दो लाभ ज्ञानों में निरूपित हैं। एक तो जिनकी प्रकृति मास खाने की पड़ गई है, उन पर रोक लगाई जाती है कि केवल यज्ञ का श्रेयभूत मास ही तुम खा सकते हो, यथेच्छ पशु मारकर नहीं। यदि इतना उन्हें रोक लिया, तो आगे उनकी आदत सर्वदा के लिए छुड़ा देने में भी सफलता मिल सकेगी। यह प्रक्रिया जैनधर्म में भी मानी जाती है। उनके ज्ञानों में भी अणुव्रत और महाव्रत दो प्रकार के व्रतों का निरूपण है। किसी देश में, किसी काल में या किसी प्राणिविशेष की हिंसा छोड़ देना अहिंसा-अणुव्रत कहलाता है और सर्वथा छोड़ देना महाव्रत। यह प्रक्रिया इसीलिए मानी गई है कि किसी को एकदम बुरे कार्य से बचा देना बहुत कठिन है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा प्रलोभन देकर धीरे-धीरे रक्षण करने से सफलता मिल जाती है। हमारे ज्ञानों में इस प्रक्रिया को परिसरख्या कहते हैं। उसका तात्पर्य धीरे-धीरे निवृत्त करने में ही रहता है। दूसरा फल यह है कि जब वे वेदोक्त प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ग-

सुख प्राप्त कर लेंगे, तब उनका वेद पर पूर्ण विश्वास हो जायगा। तब जन्मान्तर में वे वेदोक्त अहिंसा आदि पर भी पूर्ण विश्वास कर उपासना और ज्ञान के द्वारा पूर्ण कल्याण के भाजन बन सकेंगे। ऐसी हितबुद्धि से ही यज्ञादि कर्मों का उपदेश वेदों में आया है, हिंसादि दुष्कर्मों को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं।

जब कोई बालक हठकर कटु औषधि पीने के लिए राजी न होता हो, तो उसे पहले गुड आदि मधुर का प्रलोभन देकर हितबुद्धि से कटु औषधि उसके पिता आदि पिता देते हैं। इसको शास्त्र में 'गुडजिह्विका-न्याय' कहते हैं। इसी प्रकार, एकान्ततः हिंसा असत्य, अभक्ष्य-भक्षण आदि छोड़कर सर्वथा विरक्त भाव में जाने को जो तैयार न हो, उन्हें स्वर्गादि का प्रलोभन देकर भी धर्म में लाया जाता है। जो एकान्ततः छुड़वाने का ही आग्रह करते हैं, उन्हें सर्वत्र सफलता नहीं मिल सकती। कुसस्कार जिनके प्रबल हैं, वे वैराग्य-मार्ग में जाने को प्रस्तुत नहीं हो सकते। जैन आदि के बताये हुए कल्याणप्रद एकान्त वैराग्य-मार्ग में उनकी अनुयायिता का अभिमान रखनेवाले भी कितने अग्रसर होते हैं, यह प्रत्यक्ष देखने पर ही प्रतीत हो जायगा। 'तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो, बदला लेने की चेष्टा न करो' इस अत्यन्त आदरणीय हजरत ईसा के भव्य उपदेश का पालन ईसाई समाज में कितना होता है, यह सबको प्रत्यक्ष है। तब ऐसे दुरुह मार्ग, जिन पर चला न जा सके, उन्हें बताकर चुप हो जाना, न चल सकनेवालों के लिए कोई सरल प्रक्रिया न बता सकना धर्माचार्यों के लिए आदर्श-रूप नहीं कहा जा सकता। इसलिए, शनैः-शनैः निवृत्त करने की प्रणाली ही वैदिक सस्कृति में उपयुक्त मानी गई है। इसका स्पष्टीकरण श्रीमद्भागवत में किया है—

लोके व्यवयामिपमद्यसेवा
नित्यास्ति जन्तोर्नहि तत्र चोदना ।
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ-
सुराग्रहैराशु निवृत्तिरिष्टा ॥

अर्थात्, स्त्री-पुधर्म, मास-भक्षण वा मद्यपान आदि में तो मनुष्यों की स्वाभाविक ही प्रवृत्ति हो जाती है। इनके लिए शास्त्र को विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं। विधि तो वहाँ मानी जाती है, जहाँ बिना विधि के उस कार्य में प्रवृत्त होना सम्भव न हो। जैसे सन्व्योपासन, अग्निहोत्र आदि की विधि शास्त्र में न होती, तो कोई भी उन कार्यों को न करता। किन्तु उक्त मास-मद्यसेवनादि कार्य तो ऐसे हैं, जिनमें स्वतः ही मनुष्य प्रवृत्त होते हैं। इसलिए वहाँ विधि-वाक्य की आवश्यकता नहीं। तब विवाह, यज्ञ वा सौत्रामणि यज्ञ में सुरा-ग्रहण आदि विधान क्यों मिलते हैं? उनका तात्पर्य यही है कि धीरे धीरे इन कार्यों से मनुष्य को बचाया जाय। विवाह-विधि का आशय यही है कि एक ही स्त्री से स्त्री-पुभाव का सम्पर्क रहे। अन्य स्त्रियों से माता, भगिनी वा पुत्री की बुद्धि की जाय। इसी प्रकार, यज्ञ में मास-भक्षण के और सौत्रामणि यज्ञ में सुरा-ग्रहण की विधि का भी यही तात्पर्य है कि अन्य स्थानों में मास-

मत्र वा उपकार लगी न हो। इस प्रकार भोज प्रलोभन देकर बचाने में सुरे क्रायों की प्रवृत्ति मत्वा दृष्ट जाती है। और, ऐसा उपदेग देनेवाला धर्म मत्र मनुष्यों वा उपकारक सिद्ध हो जाता है। इस दृष्टि में विचार करने पर विवेचक विद्वाना को स्पष्ट विदित हो जायगा कि वैदिक मार्ग पर अवलम्बित भारतीय संस्कृति ही मत्रयी उपकारक हो सकती है। अन्य दृष्टादी धर्म योंउ मनुष्यों वा उपकार भले ही कर सक, सर्वोपकारक नहीं हो सकते।

अधिकार-भेद

इस पर आधुनिक विद्वान यह आक्षेप करते हैं कि वैदिक मार्ग की भारतीय संस्कृति सर्वोपकारक हो ही कैसे मत्रयी है? उगमें तो अति सफ़ोच है। अन्य धर्मावलम्बियों की बात तो जाने दीजिए, उदिक धर्म माननेवालों में भी सत्रको वेद पढाया तक नहीं जाता न उन्हें वैदिक यज्ञ करने दिये जाते हैं। यह सत्र तो केवल मुष्टी-भर द्विजातियों के लिए 'रिजर्ज' कर रखा है। तत्र, उन संस्कृति वा धर्म को सर्वोपकारक सिद्ध करने की चेष्टा एक उपहासात्सव बात है। इस पर हमारा कहना है कि आप कृपा कर यह विचार करें कि क्या एत्र ही प्रकार का मार्ग सत्र मनुष्यों के लिए उपकारक सिद्ध हो सकता है? प्रत्येक मनुष्य की रुचि, शक्ति और प्रकृति में जत्र नितान्त भेद है—एक प्रकार का भोजन भी सबके लिए न रुचिकर है, न हितकर। घृत-भोजन से बहुता को लाभ होता है, किन्तु मन्दाग्निवालों के लिए वह अपकारक है, इसी प्रकार एक प्रकार का वस्त्र-विन्यास वा रहन-सहन भी सबको रुचिकर नहीं हो सकता। एक प्रकार की औपधि भी सब व्यक्तियों में वा सत्र रोगों में लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती। उत्तम वैद्य वही कहलायगा, जो रोग की, रोगी की शक्ति की, और उसकी आदत की परीक्षा कर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए, भिन्न-भिन्न उचित औपधो की व्यवस्था करेगा। इसी प्रकार, वही धर्माचार्य भी सर्वोपकारी होगा, जो अधिकार के अनुसार धर्म बताता हो। एक ही लाठी से सबको हॉकनेवाला कभी सर्वोपकारक नहीं हो सकता। जिस प्रकार गरिष्ठ भोजन व्यायामी शक्तिशाली मनुष्यों के लिए हितकर है, किन्तु अल्पशक्ति मनुष्यों के लिए उल्टा हानिप्रद हो जाता है, उसी प्रकार कुछ मनुष्यों के लिए उत्तम धर्म भी दूसरों के लिए हानिकारक हो जाता है। धर्म एक प्रकार का अतिशय अन्त-करण में उत्पन्न करता है, किन्तु व्यायाम की दी हुई शक्ति को जो नहीं सह सकते, उनके लिए जैसे व्यायाम अहितकर हो जाता है, वैसे ही जिनका अन्त करण धर्म के दिये हुए प्रवल संस्कार को धारण करने में असमर्थ होता है, उनको वह धर्म हानिकर ही होगा। वेद के गभीर विज्ञान को समझने की शक्ति जिनमें नहीं, उसके समझने के उपयुक्त संस्कार जिनके नहीं हुए, उनको वेद पढाना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। इसीका फल आज प्रत्यक्ष है कि अनधिकारी व्यक्ति वेद देखकर उससे विपरीत वाते ही निकाला करते हैं। इसलिए हितबुद्धि से ही वैदिक संस्कृति में अनधिकारियों को वेद का गभीर विज्ञान पढने-पढाने का निषेध किया है। किन्तु उन्हें ज्ञान से सर्वथा वचित नहीं रखा। वेद के ही विषयो को रोचक और सरल

ही सात्त्विको और तामसो का सब प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध भी इस सस्कृति में वर्जित ठहराया गया है। इसमें द्वेषबुद्धि का कोई लेश नहीं है। तमोगुण के सम्पर्क में सत्त्वगुण की हानि हो जाती है। तमोगुणी को इससे कोई लाभ नहीं होगा। जेमा, एक सक्लामक रोगी के सम्पर्क से स्वस्थ पुरुष रोगी हो सकता है, किन्तु उस रोगी को इस स्वस्थ पुरुष के सम्पर्क से कोई लाभ पहुँचाना कोई डॉक्टर नहीं मानता। इसी प्रकार तमोगुणी के सम्पर्क से सात्त्विक पुरुष की हानिमात्र है, तमोगुणी का कोई लाभ उसमें नहीं। इसीलिए वेद में, भगवद्गीता में वा स्मृतियों में इनकी उपासना के स्थान, ज्ञान, भोजनादि व्यवहार और रहन-सहन पृथक्-पृथक् ही माने गये हैं। समय-रक्षा ही इसका उद्देश्य है। यो, विचार करने पर वेदों के आधार पर स्थित रहनेवाली भारतीय सस्कृति में अत्याचार वा रागद्वेष का कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता है। आपात-दृष्टि से ऐसे आक्षेप उठते हैं, जिनका विचार-दृष्टि से समाधान हो सकता है।

उपसंहार

यह वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति का सक्षित निरूपण उपस्थित किया गया है। पहले ही कह चुका हूँ कि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है और इस विषय पर प्राचीन काल में ऋषि, मुनि, आचार्य और विद्वानों ने सैकड़ों ग्रन्थों की रचना की है तथा वर्तमान में भी बहुत बड़े-बड़े ग्रन्थ इस विषय पर बन सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का अन्त नहीं—'अनन्ता वै वेदा.', ऐसा श्रुति ने बार-बार उद्घोष किया है। मेरे समान अल्पज पुरुष उसका अन्त प्राप्त करने की अभिलाषा स्वप्न में भी नहीं कर सकता। मैंने तो, जैसे अनन्त जल में से अपने काम के लिए एक लोटा भर लिया जाता है, उसी प्रकार का कुछ भाग निदर्शन-रूप में विज्ञ पाठको के समक्ष रखा है। इसमें जो कुछ गम्भीर वा सूचिकर अंश आया है, वह गुरु कृपा का प्रसाद है और जो मेरे भ्रम या प्रमाद से त्रुटियाँ रह गई हैं, उनके लिए साञ्जलिबद्ध क्षमाप्रार्थी हूँ, और करुणा-शील पाठक महानुभाव अवश्य क्षमा कर देंगे, ऐसी आशा करता हूँ। जगन्नियन्ता जगदीश्वर सबको सुबुद्धि दे, जिससे इस वैदिक विज्ञान का पुनः यथावत् प्रसार हो और भारतीय सस्कृति सुरक्षित रहे, यही बार-बार प्रार्थना है।

परिशिष्ट

[मूल पुस्तक मे कतिपय वेद म न अद्युत छप गये , जिनका शुद्ध रूप निम्न-
मुद्रित है ।]

पृ० २१—

न मे स्तेनो जनपदे न कठर्यो न मद्यपः ।

नानाहिताग्निर्नाविहान् न स्वैरी स्वैरिणी कुत ॥

—छान्दोग्योप०, अ० ५

यदेतन्मण्डलं तपति, तन्महदुत्थम्, ता ऋचः स
ऋचा लोक ।

पृ० ३३—

वाग्धैव तत्पश्यन्ती वदति ।

—ऋत० १०।५।२

पृ० ३९—

त्वमिमा ओपधी सोम विश्वास्त्वमपो अजनयंस्त्वं गाः ।

त्वमा ततन्थोर्वन्तरिश्चं त्वं ज्योतिषा वि तमो वचर्थ ॥

—ऋ० १।९।१।२२

पृ० ४२—

अग्निर्जागार तमृचः कामयन्तेऽग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति ।

अग्निर्जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सत्ये न्योका ॥

—ऋ० ५।४५।१५

पृ० ४३—

सर्वं हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम् ।

पृ० ४८—

यथा प्रदीप्तात् पावकाद्विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति ॥

पृ० ५०—

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुः तस्मादजायत ॥

—यजु ३१।७, ऋ० १०।९।०।९, अथ० १९।६।१३

पृ० ५२—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वह्नीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशते जहात्येनां भुक्तयोगां अजोऽन्यः ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषद्

पृ० ५३—

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन्त्पिपु प्रविष्टाम् ।

तामाभृत्या व्यद्धुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभि संनवन्ते ॥

—ऋ० १०।७।१३

पृ० ५४—

साक्षात्कृतधर्माण ऋपयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य
उपदेशेन समाप्नासिपुर्वेदं च वेदाङ्गानि च ॥

—नि० १।१

पृ० ६१—

अकारि त इन्द्र गोतमेभिर्ब्रह्माण्योक्ता नमसा हरिभ्याम् ।

सुपेशसं वाजमाभरा नः प्रातर्मक्षु धियावसुर्जगम्यात् ॥

—ऋ० १।६३।९

पृ० ६१—

कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना ।

नाना धियो वसूयवोऽनु गाइव तस्थिमेन्द्रायेन्द्रोपरिस्त्व ॥

—ऋ० ९।११२।३

पृ० ६१—

आभोगयं प्र यद्विच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम केचिदापयः

सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दागुपो गृहम् ॥

—ऋ० १।११०।२

पृ० ६७—

उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ ।

अपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुतापवक्ता हृदयाविधश्चित् ॥

—ऋ० १।२४।८

पृ० ७०—

ऋचां त्वः षोपमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं नो गायति शकरीषु ।

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः ॥

—ऋ० १०।७।१।११

पृ० ८४—

मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विद्यानं शिल्पशास्त्रयोः ।

पृ० ९०—

यदक्षर पञ्चविध समेति युजो युक्ता अभि यत्संघटन्ति ।

सत्यस्य मन्यमनु यत्र युज्यते तत्रदेवा सर्व एकीभवन्ति ॥

—ऐ० उ० ३।८।

पृ० ९१—

उभा जिग्यथुर्न पग जयेथे न पग जिग्ये कतश्च नैतो ।

इन्द्रश्च विष्णो यद्रपस्पृधेया त्रेया सहस्रं वितद्वैर्येथाम् ॥

—ऋ० ६।६।८

पृ० ९३—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा ।

तदेव शुक्रन्तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापति ॥

—यजु० ३२।१

पृ० ९४—

तस्माद् विराडजायत विराजो अधिपूरूपः ।

स जातो अत्यरिच्यत पञ्चाद् भूमिमयो पुर ॥

यत्पुरूपेण हविषा देवा यजमतन्वत ।

वसन्तो अस्यासीद्वाज्यं ग्रीष्म उध्मः शरद्भविः ॥

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः ।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋपयश्च ये ॥

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम् ।

पशूंस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि यज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्याद्यजुस्तस्मादजायत ॥

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः ।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः ॥

—ऋ० १०।९।५-१०

पृ० ९९—

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनहेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् ।

तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥

—यजु० ४०।४

पृ० १००—

सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणं अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छा-

श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

—यजु० ४०।८

पृ० १०९—

आत्मा वा इषमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिपत् । स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति । स इमांल्लोकानसृजत अम्भो मरीचिर्मर आपः । अदोऽम्भः परेण दिवम् द्यौः प्रतिष्ठाः अन्तरिक्षं मरीचयः, पृथिवी मरः, या अधस्तात्ता आपः । स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति । सोऽद्भ्य एव पुरुषं समुद्भृत्यामूर्च्छयत् ।

—ऐ० उ० ४।१

पृ० ११६—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥

—यजु० ३१।१९

पृ० १३१—

ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देवदानवाः ।
देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥
ऋषयो वाव तेऽग्रे असदासीत् ।

—ऋ० ६।१

पृ० १३३—

तस्माद्दश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः ।
गावो ह जश्चिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥

—ऋ० १०।९०।१०

पृ० १३४—

या व्याघ्रं विषूचिकोभौ वृकञ्च रक्षति ।
इयेनं पतत्त्रिणं सिंहम् ।

—यजु० १९।१०

पृ० १४२—

न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवनीयन्ते ।

—वृ० उप०

पृ० १५१—

हे सृती अशृणवं पिचृणामहन्देवानामुत मर्त्यानाम् ॥

—ऋ० १०।८८।१५

पृ० १५४—

पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवति ।

—ऐ० उप० ५।१

पृ० १५५—

यद् द्यो अग्निर्जहादेकमङ्गं पितृभ्यो गमयन् जानवेदा ।
तद् घ षन्तन् पुनर्ग्याप्रयाभि न्नाङ्गा पितर स्वर्गे मादयध्वम् ॥
—अथर्व० १८।४।४

पृ० १६१—

प्रेक्षि प्रेक्षि पृथिभि पूर्वाणे येना ते पूर्वं पितरः परेनाः ।
उभा राजानो न्यधया मटन्तो यमं पश्यासि चरणं च देवम् ॥
—अथर्व० १८।१।१।५४

पृ० १६२—

सूर्यं चक्षुषा गच्छ घातमात्मना द्विवं च गच्छ पृथिवी च धर्मभिः ।
अपो वा गच्छ यद्वि तत्र ते हितमोपधीषु प्रतिनिष्ठा शरीरैः ॥
—(अथर्व० १८।२।७)

पृ० १६५—

गर्भो अम्योपधीता गर्भो वनस्पतीनाम् ।
गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि ॥
—यजु० १२।३७

पृ० १६६—

गर्भो यो अपां गर्भो वनाना गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथाम् ।
अद्रौ चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशा न विश्वो अमृतः स्वाधीः ॥
—ऋ० १।७।२

पृ० १७०—

प्रमातुः प्रतरं गुह्यामिच्छन् कुमारो न वीरुध सर्पदुर्वीः ।
ससं न पक्वमविदच्छुचन्त रिरिह्वांसं रिप उपस्थे अन्तः ॥
—ऋ० १०।७।९।३

पृ० १७२—

स सूर्यः पर्युरू वरासेन्द्रो ववृत्याद्रथ्येव चक्रा ।
अतिष्ठन्तमपश्यं न सर्गं कृष्णा तमांसि त्विप्या जघान ॥
—ऋ० १०।८।९।२

पृ० १७३—

तिस्रो भूमीर्धारयन् त्रीरूत द्युन् त्रीणि व्रता विदथे अन्तरेषाम् ।
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्र चारु ॥
—ऋ० १।२७।८

पृ० १७५—

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥

—(ऋ० १।१६४।२

पृ० १८२—

अभिप्रवन्त समनेव योपाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम् ।
वृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुपाणो हर्यति जातवेदाः ॥

—ऋ० ४।५८।८

पृ० १८६—

अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो रथस्त्रिचक्रः परिवर्त्तते रजः ।
महत्तड्डो देव्यस्य प्रवाचनं द्यामृभवः पृथिवी यच्च पुष्यथ ॥

—ऋ० ४।३६।१

पृ० २०५—

ब्राह्ममद्य विदेयं पितृमन्तं पैतृमत्यमृपिमार्षेयं सुधानुदक्षिणम् ।
अस्मद्राता देवत्रागच्छत प्रदातारमाविशत ॥

—यजु० ७।४६

पृ० २०५—

इमं देवा असपत्कनं सुवद्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान-
राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुष्यै पुत्रमस्यै विश ष्य वोमी राजा सोमो-
ऽस्मार्कं ब्राह्मणानां राजा ॥

—यजु० १०।१८

पृ० २२९—

ऋचो अक्षरे परमे न्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदस्त इमे समासते ॥

—(ऋ० १।१६४।३९

पृ० २४८—

चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि ।
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युजो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥

—(ऋ० १।१०५।१

पृ० २४९—

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।
सतो वन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥

—(ऋ० १०।१२९।४

शब्दानुक्रमणी

अ

अक्षर-१३१ २५३, २५७
 अक्षर-जला-१०३
 अक्षर-पुस्तक-८८, ८९, ९०, ९२, १००,
 १०१, १०३, १०६ १३२, १३३
 १३६, २३२, २५० २६०, २६१
 अगति-१४१
 अग्नि-१३, १९, २०, ३८, ३८, ३९,
 ४२, ४४, ५५, ५५, ६३, ६४, ९०,
 ९१, ९२, ९८, ०५, ९६, ९७, ९९,
 १००, १०१, १०३, १०४, १०९,
 ११०, १११, ११६, १२९, १३२,
 १३५, १३६, १३८, १४५, १५४,
 १६४, १६५, १६६, १७०, १७७,
 १७८, १८१, १८२, १८५, २५०,
 २५४, २५६, २५८, २५९, २६०,
 २६२, २६४
 अग्निगर्भा-१०६
 अग्नि-तत्त्व-४०, ९९, ११०, ११४, १३६
 अग्निदेव-१६४
 अग्निदेवता-७
 अग्निप्रधान-२५१
 अग्निप्राण-१३
 अग्निध्वत्ता-१३६
 अग्निहोत्र-१४७, २२५
 अधमर्षण सूक्त-१६९, १७०
 अधोर-२४९
 अङ्गिरा-९९, १००, १०४, १३६, २३४
 अच्छ-१४२
 अच्छावाकीय-२५३

अज-५२, ५३
 अजपृथिन-५२, ५३
 अजत्रीथी-१५०
 अजातगत्रु-७८
 अडाडा-२२६
 अग्रा-२२६
 अणु-३६
 अणुतत्त्व-१०८
 अणुगत-२६५
 अतिगय-२१३
 अतिगयाधान-२०९, २१०, २११, २१२,
 २१३, २१४
 अत्रि-२३४
 अथर्ववेद-१५, ५०, ९८, ११०, १११
 (टि०), १५९ (टि०), १६१, १६२,
 १६३
 अथर्ववेद-सहिता-७०
 अथर्वश्रुति-११० (टि०)
 अथर्व-सहिता-१८३
 अथर्वान्दिरस्-४८, ९८
 अद्वैतभाव-२३०
 अधम-मार्ग-१५१
 अधर समुद्र-१०६
 अधिदैववादी-२१
 अधोगति-१४३, १५१
 अध्यात्मवाद-१९७
 अध्यात्मवादी-२१
 अध्वर्यु-७०, ७१, १७९, १८०
 अध्वर्युवेद-७०
 अनच्छ-१४२

अनित्यत्ववादी-६५
 अनिरुक्त कृष्ण-२४५, २४६
 अनिरुक्त प्रजापति-११६
 अनुकल्प-२३६
 अनुपाख्य कृष्ण-२४५
 अनुयाज-७, ८
 अनुवाक्या-७, ८
 अनुशय-१५३
 अनेकेश्वरवाद-२२९, २३०
 अनेकेश्वरवादी-२२९
 अन्तरात्मा-१२८
 अन्तरिक्ष-४४, ६३, १०२, १०३, १०६,
 ११०, १३२, १३६, १६४, १६५,
 १६७, १६८, १६९, १७२, १७४,
 १८०, १८१, १८२, २५१
 अन्तरिक्ष-लोक-१८६
 अन्तरिक्षस्थ-१७८, २५२
 अन्तर्यामी नियति-२३३
 अन्न-८८, ९२, १०१, १०३, १०४,
 १३६, १५४, १७४, १८१, २१४,
 २३३, २४९, २५०
 अन्नाद-९२, १०१, १०३, १०४, १०६,
 १०७, १३६, १८१
 अन्वाहार्य-७
 अप-९९, १००, १०१, १११, १७४,
 २१४, २५४, २५९
 अप-तत्त्व-९९, १०९, १११
 अपरा-९३
 अपूर्व-४६, ४७, ५४
 अभिव्यक्तिवाद-१२४
 अमरकोप-७४
 अमृत-३४, ९०, ९२, ९४
 अमृत-अवस्था-२२९
 अमृतप्रकाश-मण्डल-३४
 अमृत-प्राण-३५, ३६
 अमृत-मण्डल-पाण-३५

अम्म-१०९
 अयन-१४७
 अयन-सत्र-१४७
 अरुण-६
 अरिष्टनेमि-१८५
 अर्क-९०
 अर्चन-९०
 अर्चि-४०
 अर्चिर्मागं १३८, १३९, १४२
 अर्थ-८८
 अर्थवाद-१०, ४८
 अर्द्धेन्द्र-१३३
 अवच्छेदवाद-१२०
 अवतार-२३२
 अवतारवाद-२३०
 अवाक्-८८
 अविख्याति-२६३
 अविद्या-१४१
 अव्यक्तात्मा-१२८
 अव्यय-१३१, २३३, २४१, २५३
 अव्यय कला-१०३, २६१
 अव्यय पुरुष-४३, ८७, ८८, ९१, १००,
 १२७, २३२, २४०, २४१, २४४,
 २४८, २५०, २६०
 अव्ययात्मा-२३५
 अज्ञान-१७६
 अशनाया-९०
 अशिति-९०
 अक्षय-२५०
 अष्टक-क्रम-७३
 अष्टमूर्ति-२५२
 असुर-१३१, १३२, १६४
 असुर-प्राण-१७, १४५
 अहत्कृति महान्-१२८
 अहीन-१४७
 आ
 आकाश-३२, ४२, ५०, १०४, ११५,
 १२०, १४८, १४९, १५३, २४६,
 २५२, २५४, २५७

आज्ञान तत्त्व-६६, ११७, ११६
 आकाश मण्डल-१३५, १५०, १८५
 आकाश-लोह-१७४
 आकृति महान्-१२८
 आगति-बल-२५०
 आग्निप्रोथ-२५३
 आग्नीध्र-७
 आग्नेय-७
 आग्नेय जाति-१९३
 आग्नेय प्राण-१७, २९, ३८, १३३, १३६
 आग्नेय मण्डल-२५८
 आग्नायणेष्टि-२२५
 आज्य-८, ९७
 आज्यया-१३६
 आज्य-भाग-७, ८
 आत्मगति-विद्या-१६१, १६३
 आत्मविज्ञान-२४१
 आत्मविद्या-१६३
 आदर्श पर्वत-१८८
 आदान-२६१
 आदित्य-१३, १५, ३९, ४३, ४५, ६३,
 ९६, १०४, १०५, १३२, १३७,
 १६४, १७३
 आदित्य देवता-१७४
 आदित्य-प्राण-४०, ४४
 आदित्य मण्डल-४४
 आधान-७
 आघार-७
 आनन्द-८७, ८८, २४०, २४१, २४८
 आप-९२, १०१, १०३, १०४, १०९
 आपोमय मण्डल-१०४, २४६, २४८
 आम्भृणी वाक्-१००
 आयतन-१२८, १३६, १३५
 आयु-१०५, २३४
 आयुर्वेद-७७, ८९, १५४
 आरप्यक-११, १२, १३, १४, ७२, ७४

आर्यवज-१९१
 आर्यव्य-२९१
 आर्यव्यग-१९१
 आर्यायण-१९१, १९२
 आर्यावर्त्त-२८७, २८८, १९१
 आग्निर्भाव-२३२
 आमुस प्राण-१४२, १४३
 आम्नरण-८
 आहवनीय-२५३
 आहवनीय गुण्ड-१८०, १८१

इ

इच्छा-९८

इण्डिया-१९१

इन्द्र-१५, १७, १९, ४४, ६३, ९०, ९१,
 ९२, १०४, १०५, ११५, ११६,
 १३२, १३३, १३५, १६४, १७२,
 १७५, १८१, १८४, १८५, १९०,
 २३६, २३७, २४१, २४७, २५०,
 २५६, २६१

इन्द्र-तत्त्व-११५

इन्द्रदेव-१८४

इन्द्र देवता-१८२

इन्द्रपत्नी-६६

इन्द्रप्रस्य-१९२

इन्द्रप्राण-१३, १०५

इन्द्र-मण्डल-२४७

इन्द्रविष्टप-२६३

इन्द्र-शक्ति-९१

इन्द्रिय विजय-२६३

इरावती-१२, २६३

इलैक्ट्रोन-४२, ६६, ७९

इष्टापूर्त्त-१४८

इष्टि-७०, २२५

ई

ईथर-६६, ११५, ११६

ईन्धन-९७

ईरान-१९१, १९२

ईरान-२४९, २५३

ईशावास्योपनिषद्-९९

ईश्वर-१९, ९०, ९३, ११७, ११९, १२०,

१२१, १२२, १२९, १३१, २१४,

२१५, २१८, २२१, २२२, २२३,

२२९, २३०, २५३, २५५, २५६,

२५७, २६०, २६१, २६२, २६३

ईश्वर-प्रजापति-११८

ईश्वर-विद्या-१६३

ईश्वर-सत्ता-२२९

ईश्वराद्य-१३०

ईश्वरावतार-१२९, १३०

ईश्वराव्यय-८७

ईश्वरीय नियम-२१५

ईश्वरोपासना-२२१

ईहा-१५

उ

उक्थ-४०, ९०

उज्जयिनी-१९०

उत्क्रमण-१४२, १४३, १४४, १५०

उत्क्रान्ति-२६१

उत्तम पुरुष-८७

उत्तम मार्ग-१५१

उत्तर-१०३

उत्तर खण्ड-१६४

उत्तर मार्ग-१५०

उत्तर मीमासा-११, ५०

उत्थ-४०, ९०

उत्पत्तिवाद-१२४

उत्पत्ति-विनाश-मार्ग-१३८

उदरगुहा-१३४

उदीच्य-६

उद्गाता-७०, १७९

उद्दालक-६, ७, ८, ७८, १६१

उपद्वीप-१९०

उपनिषद्-७२, ७७, १२१

उपाशु-भाषण-५०

उपाकर्म-२१९

उपासना-२२०, २२८, २२९, २३०

उपासना-काण्ड-१८

उपेन्द्र-२६१

उव्वट १८

उरोगुहा-१३४, १३५

उषा-२६४, २६५

उष्ण कटिवन्ध-१४९, १५०

ऊ

ऊर्ज-१२९, १३०

ऊर्ध्वगति-१५१

ऊष्मपा-१३६

ऊ

ऊक्-२७, ३०, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६,

३७, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५,

५०, ६१, ६२, ६३, ७०, ७९, ९३,

९६, ९७, ९८, १०३ (टि०),

११० (टि०)

ऊक्-पिण्ड-४०

ऊक्-सहिता-१३, ३९, ५३, ६०, ६७,

७२ (टि०), ९१, १०६, १८६, १९०

ऊग्-१०४

ऊग्वेद-४३, ४८, ६३, ७०, ७१, ११०,

१११ (टि०), ११३, १३३, १३४,

१६१, १६५, १६६, १६७, १७०,

१७२, १७३, १७४, १७५, १७७,

१८१, १८२, १८६, १९०, २२९,

२४८

ऋग्वेद-सहिता-५, ११, ७३, १८, १०३,
 १३८ (टि०), १६४, १७९
 ऋग्वेदीय पुरुषसूक्त-९४ (टि०)
 ऋचा-३५, ७१, १७१
 ऋत्-२३४
 ऋताग्नि-१६८, १६९
 ऋत्विक्-७०, ७१, ०६५
 ऋभु-६१, १८६
 ऋश्रादव-ऋषि १९०
 ऋषभ वीथी-१५०
 ऋषि-१७, २२, ५३, ५५, ५८, ६८,
 ६२, ९२, ०९, १३१ १३५, १३५,
 १३६, १६१, १६३, १७७, २२०,
 २६९
 ऋषिगण-१८५
 ऋषिदेव-१३२
 ऋषिप्राण-१७, १३५, १३६

 ए
 एकादश रुद्र-२५२
 एकाह-१४७
 एकेचरवाट-२२९
 एनर्जी-१८२
 एप्रिल फूल-२२८
 एगियाना-१९१

 ऐ
 ऐतरेय-१७१
 ऐतरेय ब्राह्मण-१२, ६३ १०९, ११३,
 १६७, २५१
 ऐतरेय महर्षि-९४
 ऐतरेयोपनिषद्-१५४
 ऐन्डी वाक्-११६
 ऐरावत-मार्ग-१५०
 ऐरावत वीथी-१५०

ओ
 ओपश-१७५
 आग्निम्-१९१
 ओपधि-३९

 ओ
 आग्नि-१९३

 क
 कठ-५६
 कठोपनिषत्-९३, १२८
 कणाद-५, ५८ १०७
 कण्ठवृष-१५५
 कण्डिका-२६
 कम्बोज-१९२
 कर्म-७०, १४०, १४१, १४९, १५३
 कर्ममीमांसा-शास्त्र-१०
 कर्मात्मा-१२९, १३०
 कला-८२, ८७, ८८, ९०, ९१, ९२,
 ९८, १०१, १०२, १०४, १०६,
 १०८, ११६, ११९, १२१ १२७,
 १३१, १३४, १३६ १३८, १४८,
 २४०, २४७, २८८, २८९, २५०,
 २५४, २५९, २६१
 कलाप-५६
 कलावृक्ष-२५०
 कवि-१००
 कश्मीर-प्रान्त-६
 काण्व-१९०
 काण्व गात्वा-१४
 कात्यायनी-२००
 काम-१४२
 कामेश्वर-२४९
 काल-५०
 कालिदास-२२८, २५५
 काञ्चीखण्ड-२६३

कुत्स-६१
 कुवेर-१६४
 कुमारसम्भव-२५५
 कुमारिलभट्ट-४५
 कुरु-१८९
 कुरु-पाचाल-६
 कुलाचल-१३
 कुगमुष्टि-८
 कर्मपुराण-७६
 कुगानुरेता-२५१
 कृष्ण-२४७
 कृष्ण-चक्र-१४५
 कृष्ण-मार्ग-१४२, १४३, १४८
 कृष्णयजुः-७३
 कृष्णयजुर्वेद-७१, ७३
 कृष्णसोम-मण्डल-२४६
 कृष्णावतार-२३५
 कैकय-१९२
 केतुमाल-१८९
 केन्द्रविन्दु-३६, ४०
 कैकय-देश-२१
 कैयट-५६
 कोशनिघण्टु-१२
 कौशिक-१८५
 कौषीतकोपनिषद्-१५७
 क्रन्दसी-१०२
 क्रममुक्ति-१४३
 क्राइस्ट-२४४
 क्रिया-८८
 क्रियाप्रधान-९०
 क्षत्रवल्-१२९, २०७
 क्षत्रवीर्य-१०१, २०५
 क्षर-१३१, २५३
 क्षर कला-१००, १०३, १२६, २४७
 क्षर पुरुष-८२, ८७, ८९, ९१, ९२, ९४,
 ९८, १००, १०१, १०३, १०६,

१२०, १२१, १२६, १२७, १३१,
 १३३, १३४, १३६, १३८, १४८,
 २५१
 श्रीणोदक-१४३
 क्षुद्र विराट्-१२०

स

खरोप्री लिपि-१९०
 खानखाना-२४४
 खरासान-१९१, १९२
 खदंस्थान-१९२

ग

गगा-११०, १११
 गडकी-२३०
 गजवीथी-१५०
 गति-१४१
 गति-वल्-२५०
 गणेश-२३१
 गन्धर्व-१३१, १३२
 गन्धर्व-प्राण-१६
 गार्ग्य-१९०
 गायत्री-७, ८, ४३, ७१
 गायत्रीमातृक-४३
 गार्हपत्य-२५३
 गार्हपत्य-कुण्ड १८०
 गीता-७७, १०४ (टि०), २३९
 गीता-रहस्य-१९९
 गृहसूत्र-२२५
 गृहाकाश-२२०
 गोपथ-ब्राह्मण-५२, ९८, ९९ (टि०)
 गोपालसहस्रनाम-२४७
 गो-वीथी-१५०
 गौ-१०६, १०६, १०७, २३४, २४७
 गौतम-५, ५७, ६१
 गौतम-सूत्र-२११

अह-२५७

अह-मण्डल-१५०

गोनविच-१९०

घ

घटाकाग-२२०

घोर-२५१, २५६, २५९

घोररूप-२५२

च

चक्र-उत्पत्ति-१३०

चतुष्पत्र-१८९

चन्द्र-१०६, १५२, २५०

चन्द्र मण्डल-६९, ९१, १०२, १०३,

१०४, १०६, १०७, ११६, १३०.

१३७, १४८, १४९, १५३, १५६,

१५५, १५८, १५०, १६१, २१८

चन्द्रमा-९२, १०४, १०६, १११, १५५,

२४५, २५२, २५४

चन्द्रलोक-१५३

चन्द्रलोक-गति-१३९, १५४

चमस-१८६

चयन-८६, २२५

चरक-८९

चातुर्मास्य-१४७, २२४, २२५

चित्-२३४

चित्तेनिधेय-२९, ३०, ३४, ९६

चित्य-२९, ९६

चिदात्मा-१२९, १४१, १४४

चिदाभास-१२९, १३०

चेतन-देवता-१८

चैतन्य सत्ता-१२७

छ

छन्द-३५, ४१, ५०, ७१

छन्दोवेद-३८, ४१

छान्दोग्योपनिषद्-२१, ४०, ७८, ७९,

१०६ (टि०), १३१, १५५ (टि०),

१४८, ११८ (टि०), १५१, १५३,

१५३ (टि०), १६१, १७५, २१९,

२६८

ज

जगदीशचन्द्र बसु-६६

जटा-२५४

जनक सभा वृत्तान्त-१६

जनलोक-१०२

जयपुर-राजसभा-३

जरयुम्न-१९०, १९१

जरद्वय-मार्ग-१५०

जरद्वय त्रीथी-१५०

जल-२५२

जल तत्त्व-१०६

जवाला-२६८

जावाल-२६८, २६९

जीव-११९, १२०, १२१, १२२, १२७,

१३१

जीव-प्रजापति-११८

जीवात्मा-१२१, १२८, १२०, १३१,

१४२, १४३, २३१

जीवाव्यय-८७

जैमिनि-१० ४५

जैविलि क्षत्रिय-१६१, १६३

ज्ञान-५९, ६४, ६५, ७४, ७७, १२१,

१२२, १२३, १२४, १२५, १२६,

२३७, २४१, २६०

ज्ञानदेव-७६, ७७

ज्योति-१०५

ट

ढीढा-२२६

ढुण्टा-२२६

त	थ
तत्पुरुष-२४९	त्रिवेदी-९३
तनु-१६	त्रिष्टुप्-८
तन्मात्रा-१०८	
तप-९८	
ताज वेगम-२४४	
ताण्ड्य महाब्राह्मण-१३८	
तारस पर्वत-१८८	
तारा-मण्डल-१७, १३२, १३५, १३६, १६४, २५२, २५७	
तारा-विज्ञान-१८४	
तार्क्ष्य-१८४, १८५	
तुलसीदास-१४३, २३०	
तूरस पर्वत-१८८	
तृक्ष-१८५	
तेज-१७४, १७८, २१४, २३४, २५२, २५९	
तैजस-१२१, १२९, १३०, २३४	
तैजस आत्मा-१५२	
तैत्तिरीय-२५६	
तैत्तिरीय आरण्यक-११	
तैत्तिरीय उपनिषद्-८३, १०४ (टि०), २४२	
तैत्तिरीय ब्राह्मण-४३, ५२, १७०, १७१	
तैत्तिरीय संहिता-७१, १८३	
त्रयी-४२	
त्रयी विद्या-३४, ५३	
त्रसरेणु-१०८	
त्रित ऋषि-५६	
त्रिधातु-९३, १४२	
त्रिभुज-३६, ३७	
त्रिलोकी-१०२, १६४, १७४	
त्रिवर्ग-१९८	
त्रिविष्टप-२६३	
त्रिवृत्करण-१७४	
	दक्षिण मार्ग-१५०
	दक्षिणामूर्ति-२४९
	दर्शपूर्णमास-१४७
	दर्शपौर्णमास-६, ७, ८, २२५
	दर्शपौर्णमासेष्टि-२१७, २१९
	दयानन्द सरस्वती-१८
	दशगात्र-पिण्ड १५४
	दहर (अधर)-१०३
	दिव्य पितर-१२७, १५९
	दीपावली-२२३, २२४
	दीर्घतमा-१७७
	देव-१३१, १३४, १३८, १६४
	देव-चिति-९२, १२७, १३८
	देवता-४६, ४७, ५४, ५५, ६६, ९४
	९६, १०१, १३२, १३५, १४२,
	१४९, १६०, १६४, १७१, १८५,
	२१७, २१८, २२९
	देवता-तत्त्व-१६, १७, १३७,
	देव-परिस्थिति-१३०
	देव-प्राण-१६, १३८, १४२, १६३, १६४
	देवयान-१३८, १४३, १५०, १५१,
	१५६, १६१
	देवयान-मार्ग-१३९
	देवलोक-१४९, १५३, १६४, २६४
	देवलोक-गति-१४३
	देवश्रवा-१६१
	देवाग्नि-१०१
	देवासुर-ख्याति-२६३
	दैवत-विज्ञान-६७, १७९
	दोषमार्जन-२०९, २११, २१२, २१३

दोषमार्जन सस्कार-२१०
 दु-१३०, १७४, २६४
 गुल्लोक-१३, १५, ४४, ६३, १०३, १०७,
 १०९, ११०, १६४, १६५, १७०,
 १७३, १७४, १७५, २५८
 यो-१०७ २३४
 द्वारका-१९२

घ

धिष्ण्य-२५३
 धूम मार्ग-१३८, १४२, १४८
 धेनुमती-१२
 ध्यानयोग-२२०
 ध्रुव-स्थान-१११

न

नक्षत्र मण्डल-१५०
 नन्दिनी-१९१, १९२
 नभ्य-९१
 नरक-१४९
 नरक-गति-१४०, १४३
 नर्मदेव्यवर-२३०, २३१
 नवरात्र-२१९, २२२
 नवाल-२४४
 नवान्न-प्राशन-२२५
 नवान्नेष्टि-२२५
 नागवीथि-१५०
 नागेश भट्ट-५६
 नाभि-९१
 नासदीय सूक्त-८८
 निदान-९, २५५
 निघन-४०
 निवृत्ति-२३२
 निरुक्त कृष्ण-२४५
 निरीश्वरवादी-१२१
 निर्वृत्ति-२५६

निष्क-६, ७
 नुमेधा-१९०
 नेष्ट्रीय-२५३
 नैमित्तिक प्रलय-१३
 न्यामयुक्त-५७

प

पंचदेव-२३१
 पंचभूत-१०७, १०८
 पंचमहाभूत-१०९
 पंचमहाभूत-सिद्धान्त-११६
 पंचस्कन्ध-७६
 पचाग्नि विद्या-१६१, १६३
 पचास्तिकाय-७६
 पचीकरण-१०१, १०८
 पतञ्जलि-४, ५६, ७२, १८७
 पत्नी सयाज-७
 पदार्थ-२९, ४०, ८९, ९६, १११
 पद्धति-११
 पद्मपुराण-१८८, १८९, २५५
 पर-१२७
 पर पुरुष-२३३
 परब्रह्म-१२६, २१४, २२९, २३०, २४८
 परब्रह्मरूप-२३५
 परमगति-१२७
 परम मुक्ति-१४२
 परमशिव-२६२
 परमाकाश-२२९, २६२
 परमाणु-१०८
 परमाणुवाद-१०७
 परमात्मा-१२६, १४२, २०३, २०४,
 २३२, २३४, २४३
 परमानन्द-२४३
 परमेश्वर-१२१, १२६, १७९, २३०,
 २३१, २३२, २३५
 परमेष्ठिमण्डल-१०२, १०३, १०४, १०६,

११६, १४८, २३०, २३४, २४४,
 २४६, २४७, २५१, २५४, २५५,
 २५८, २६२
 परमेष्ठी-९२, ९३, १०२, १६८, १७४,
 २३४, २४६, २४७, २५८
 परलोक-१६२
 परलोक-गति-१६१
 परा-५०, ९३
 परात्पर-८७, १३०
 परायण-१२
 परिच्छेद-८७
 परिणामवाद-१०८
 परिधि-८६, ९१
 परीक्षित-२३७, २४३
 पल्हव-१९२
 पवमान-२५२, २५५
 पशुप्राण-१६
 पशुबन्ध-१४७
 पश्यन्ती-५०, ५१, ५९, ६४
 पाणिनि-२७, ४१, ५६, ७१
 पाताल-१६४
 पादगुहा-१३४, १३५
 पाप-१००
 पारद-१९२
 पारस्थान-१९१
 पारस्थानीय-१९१
 पारियात-१८८
 पार्थसारथि-२३९
 पार्थिव अग्नि-१६६
 पार्थिव समुद्र-१०६
 पावक-२५२, २५५
 पिण्ड-९२, १०७, ११८
 पिण्डमूर्ति-२६
 पितर-१७, १३७, १५४, १५८, १६०,
 १६८
 पितृ-१३१, १३४, १३६, १३८, १६३

पितृगति-१४०
 पितृदेव-९९
 पितृप्राण-१६, १७, १३६, १३८, १४५,
 १६३
 पितृयान-१४३, १४९, १५०, १५१,
 १६१
 पितृयान-मार्ग-१३८
 पितृलोक-१३९, १४३, १४९, १५३,
 १५७, १५९, १६४
 पितृलोक-गति-१४८, १६२
 पितृश्राद्ध-१६०
 पुनर्जन्मवाद-१९७
 पुरजन-१०१
 पुरश्चरणश्रुति-६३
 पुसप-३४, ८६, २६१
 पुरुषसूक्त-५०, ६२, ९७, १३३, २०३,
 २६४
 पुरोडाश-७, ८
 पुरोनुवाक्या-७
 पुष्करपर्ण-११४
 पूर्णावतार-२३५, २४२, २४४
 पूर्वगुहा-२३५
 पूर्वपुरुष-२३५
 पूर्वमीमासा-११
 पूषा-१८२, १८३, १८४, १८५
 पृथ्वी-६३, ६९, ९२, ९५, १०२, १०३,
 १०४, १०६, १०७, ११०, १३२,
 १४३, १४५, १५२, १५४, १६६,
 १६८, १८०, १८१, २३४, २४५,
 २४७, २५२, २५४, २५५, २६३,
 २६४
 पृथ्वी-तत्त्व-१०७
 पृथ्वी-पद्म-१८९
 पृथ्वी पिण्ड-१०३, ११५, १४६
 पृथ्वी प्राण-१०७, १४७
 पृथ्वी-मण्डल-१०२, १४३

पृथ्वी रम-१६६
 पृथ्वी-लोक-१४३
 पृथ्वि-७२
 पृथ्वी-९१
 पैजवन-६०
 पौष्ट्रीय-२५३
 प्रमथ-३५, ६३ १०५ १२१ १२२,
 १७८, २४५, २४८, २५७
 प्रकाश-मण्डल-३४, ३५, ४८, १०५ १५०
 प्रकाशमय-२५८
 प्रकाश-१२१, १२२
 प्रकाशाश-१२२
 प्रजा-९२ ९५, १०६, १२७, १३१
 प्रजापति-६, ७, ४८, ४९, ७८, ९८, ९५
 ९६, ११६, ११८, १३२, १३७,
 २३४
 प्रजात्मा-१५२
 प्रज्ञान-२३४
 प्रज्ञानात्मा-१२७, १३१, १३८, १३९,
 १४४
 प्रतिग्राम-५६
 प्रतिविम्बवाद-१२०
 प्रतिष्ठा-प्राण-२३१
 प्रतीकोपासना-१९
 प्रत्यगात्मा-२२९
 प्रधान मण्डल-१०२
 प्रपञ्च-१२१, १३१, २०३, २०४
 प्रमाज-७, ८
 प्रमात्रिय-२५३
 प्रस्ताव-४०
 प्रस्वेद-९८
 प्रहरण-८
 प्राज्ञ-१२९, १५१
 प्राण-३०, ४३, ४४, ८७, ८८, ८९, ९२,
 ९४, ९७, ९८, १०१, १०३, १०४,
 १०७, ११८, १२७, १३१ १३२,

१३३ १३४, १३५, १३७, १३८,
 १३९, १४०, १४४, १८७, १४९,
 १६४, १७४, २१७, २३६, २६०,
 २४८, २५२, २५८
 प्राण कला-२६०
 प्राण-तत्त्व-१६, ३८, ४०, १०६, १०९,
 १३२
 प्राणप्रधान-९० ९३
 प्राणल्प-२५०, २५५
 प्राणविद्या-१६
 प्राण-मिद्धान्त-१७
 प्राणात्मा-३४, १२७, १३१, १३८ १३९,
 १५१, २५२
 प्रातिस्विक वेद-७०
 प्राग्भिन्न-७
 प्रियधाम-१६
 प्रेत पितर-१३७, १३८, १५९
 प्रेतात्मा-१५२, १५८
 प्रोटोन-४२, ६६, ७९

फ

फारस-१९२

व

वन्ध-८८

वर्षर-२२

वह्निपद्-१३६

वल-८५, ८६, ८८, ९०, ९४

वाल गगाधर तिलक-१९९

वालाकिं गार्ग्य-७८

विल्म-५९

वित्मग्रहण-५४, ५५

वीज-चिति-९२, १२७, १३१

बुद्ध महाराज-५

बुद्धि-१४०, १४१, १५४, २३२, २३३,
 २३९

वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति

२८८

बृहज्जावालोपनिषद्-२५८

बृहत्साम-४४

बृहदारण्यक-७८, २६४

बृहदारण्यक उपनिषद्-१२, ४८, ८४,

८८, ९०, १०१, १३१ (टि०),
१३३ (टि०), १६१, २१०, २५२

बृहद्देवता-५६

बृहस्पति-१८४, १८५

ब्रह्म-४३, ९२, ९८, २३४, २४१

ब्रह्मगति-१४०

ब्रह्म-परिस्थिति-१३०

ब्रह्मपुराण-१८९

ब्रह्मबल-१२९

ब्रह्मभाग-७

ब्रह्मरन्ध्र-१३४, १४४, २१३

ब्रह्मलोक-गति-१४३

ब्रह्मविज्ञान-१७२

ब्रह्मविष्टप-२६३

ब्रह्मवीर्य-१०१, २०५

ब्रह्मसूत्र-११९

ब्रह्मा-४८, ९०, ९१, ९२, १०३, १०४,
१७९

ब्रह्माग्नि-१०१

ब्रह्माण्ड-४०, ९२, १०३, १०४, १११,
११३, ११८, १५०, १६०, १६८,
१७५, १७६, २०३, २२२, २३०,
२३१, २४६, २५३, २५५, २५७,
२५८

ब्रह्मानन्द-२४२

ब्रह्मोद्य-१७९

ब्राह्मण-११, ७४, १०१, २५६

ब्राह्मी लिपि-१९०

भ

भक्ति-२२८, २२९, २३०

भग-२४०

भगवद्गीता ७४, १२७, १२९, १३०,
२०१, २०२, २१५, २२५, २३६,
२३७, २३९, २४०, २४१, २७०

भगवान्-२३९

भद्रवटस्थान-२६३

भद्राश्व-१८९

भर-१०९, ११०

भविष्यपुराण-२२६

भागवत-१०१, ११२, ११३, १२१

भारत-१८९

भारद्वाज-१७, १९०

भार्जालीय-२५३

भीष्म-२१

भूत-२५०

भूत चिति-९२, १२७, १३१

भूताग्नि-१०१

भूतात्मा-१२८, १२९, १३०, १३१,
२३४

भूतानुशय-१५४

भूतेश-२५०

भूपद्म-१८९

भूमोदक-१४३

भूरिश्रवा-१९२

भू-स्वर्वा-२६३

भृगु-१७, ९९, १०४, १३२, १३६,
२३४

भृगु तत्त्व-१००

भृग्वङ्गिरोवेद-९८

भोक्ता-१२८, १५४

भोग शरीर-१५२

म

मञ्ज-१९२

मग-१९१

मठाकाश-२२०

मण्डल-३५, ६३, ९२, १०२, १०३,

१०४, १०५, १०६, ११६, १२१,
१७२, १७४, २४५, २४९, २५४,
२५८, २६२

मण्डल-क्रम-७२

मत्स्यपुराण-१८८, १८९

मदन-महोत्सव-२२८

मधुसूदनजी ओशा विद्यावाचस्पति-३, २६३

मध्य कटिवन्ध-१५०

मध्यमा-५०, ५१, ५९, ६४

मध्याकाश-१५०

मन-४३, ८७, ८८, ८९, ९४, ९८,

११८, १३९, १४२, १५५, २१७,

२३०, २३२, २४०, २४१, २४८

मन-शक्ति-२१७

मनीषी-१००

मनु-५८, ६४, ७१, १३१, १३३, १८६,

१८७, १९५, १९८, २११, २१५

मनु-प्राण-१३३

मनुस्मृति-१७, १११, १२८, १३१, १३७,

१३७ (टि०), १५२, २०५

मन्त्रपति-५२

मन्देहा-१५

मरीचि-१०९, ११०

मरुत्-१०९

मर्त्य-मण्डल-३४

महतुकथ-३४

महाकाश-१२०, १४१

महाचैतन्य-१२६

महात्मा गाधी-२४४

महानात्मा-१२७, १३१, १३८, २३४

महाभारत-११२, १९०

महाविराट्-१२०

महाविद्यालय मण्डल-१५०

महाविष्णु-२६२

महाव्रत-१६, ३४, ३८, ४०, ४२, २६५

महीधर-१८

महीभगनार्थ-१४

महेश्वर-२५०, २६०, २६१, २६२

महोत्सव-३८, ४०, ४२

मातरिश्वा-१००

मातु-१८८ (टि०)

माधवाचार्य-५, ९, ११, १४, १६, १८

५२, १७२, १७३, १७४, १८१,

१८२, १८६

मानस पुरुष-१४८

मानसी सिद्धि-२३

मारीचि-११३

मार्कण्डेय पुराण-२३, २८८, १८८(टि०),

१८९

मिति-८६

मुख्यप्राण-२५२

मुण्ड-२५६

मुण्डकोपनिषद्-८७, ९०, ११९ (टि०).

२५४, २६५

मुहूर्तचिन्तामणि-१८५

मूजवान् पर्वत-२५१, २६३

मूर्ति पिण्ड-३५

मूर्ति मण्डल-३५, ८०

मूर्तत्व-८१, ८३, ८५, ८६, ८८, ९२,

१००, १२१, १३१, १३२

मृग-२५६

मृत्यु-३४, ९०, २४८

मृत्युञ्जय-२४९

मृत्यु-मण्डल-३५

मृत्ला-११४

मेघ-मण्डल-१५३, १५४

मैटर-१८२

मैत्रेयी-२००

मैथुनी सृष्टि-१३३

मोक्ष-८८

य

यजमान-१७९, १८०, २१८, २५०,

२६४, २६५
 यजमान पत्नी-२६५
 यजमान-भाग-७
 यजुर्वेद-१४, ४३, ४८, ५१, ६३, ७१,
 ७३, १५९ (टि०), १६५, १७१,
 १८१, १८४
 यजुर्वेद वाजसनेयिसहिता-१४
 यजुर्वेद सहिता-७०, १७९, २०५
 यजु.-२८, ३०, ३३, ३४, ३५, ३६, ४०,
 ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ५०, ६२,
 ६३, ७०, ९३, ९६, ९७, ९८, ९९,
 १०१, १०४, १३४
 यजुःसहिता-१२, ९३, ९९
 यज्जूः-४२, ९९
 यज्ञ-९४, ९५, २३३
 यज्ञोपवीत-२१४
 यम-२१, ९६, १०४, १६२, १६४, २५६
 यम-प्राण-९५
 यवन-१९२
 यज्ञ-२३४
 याच्या-७, ८
 याज्ञवल्क्य-१६, ७३, १३२, १३७, १३८,
 २००, २१०, २१५, २५०
 याज्ञवल्क्य स्मृति-१३७, २०६
 यातना-शरीर-१५२
 यास्क-३, ५४, ५५, १६५, १७५, १८२
 यास्काचार्य-१४, १७
 योगतारा-१८५
 योगविद्या-२२१
 योगानन्द-२४२

र

रघुवग-६०
 रथन्तर साम-४४
 रथि-१६, १३२
 रस-४०, ४४, ८१, ८५, ८६, ९०, ९१,

९४, १०९, ११४, १२०, १२७,
 १२८, १३६, १५२, १५३, १५४,
 १७७, १७८, १८१, २५९
 रसखानि-२४४
 रस तन्मात्रा-१०८, ११४
 रस-रूप-१११, १४३, २३४
 रसवेद-४०, ४१
 रहस्य-९
 रात्रिसत्र-१४७
 राधा-२४६, २४८
 रासभ-१३३
 रद्र-९६, १३२, १३७, २५१, २५२,
 २५३, २५६, २५७, २५९

रुद्र-प्राण-२५२
 रुद्र-मण्डल-२५८
 रुद्राग्नि-२५२
 रूप-तन्मात्रा-१०८
 रेत-२३४
 रेभ-५३
 रोदसी-१०२
 रोम-देश-२५२
 रोमन देश-१९५

ल

लुब्धक बन्धु-२५२
 लेपभाक्-१५८
 लोढी-२२७
 लोकान्तर-१५१
 लोकालोक-१५०, १५१
 लोमश-६
 लौहित्यगिरि-२६३

व

वनस्पति-३९
 वराह-११५
 वरुण-१९, १३२, १६२, १६४, १९०,
 १९१, २५६

वरुण-देवता-६७
 वरुण-प्रथम-२२५
 वर्णमात्रिका-४९
 वषट्कार-१३२
 वसिष्ठ-१७, १३२, १७७, १९०, १९१
 वसु-९६, १३२, १३७
 वस्तु-पिण्ड-४०
 वस्तु-शक्ति-२१७
 वाक्-२८, ३०, ३२, ३४, ३५, ३८, ४१,
 ४३, ४४, ५०, ५१, ५२, ५३, ५५,
 ५६, ५९, ६०, ६२, ६३, ६४, ६६,
 ८७, ८८, ८९, ९१, ९२, ९३, ९४,
 ९८, १००, १०१, १०३, १०८,
 १०७, ११८, १३७, १४२, २१७,
 २३४, २४०, २४८, २५०
 वाक्-तत्त्व-११५
 वाक्-शक्ति-२१७, २४०
 वागाम्बृणीय सूक्त-६१
 वाचस्पति तारा-२६२
 वात-१२
 वात्स्यायन-५७
 वामग-१९१
 वामदेव-१८६, १९०, २५०,
 वामनिर्गो-१९१
 वायु-४२, ४५, ६३, ६४, ९९, १०४,
 १०७, १०९, ११४, ११५, १३०,
 १३२, १५१, १५२, १५३, १५६,
 १६४, १६८, १७१, १७२, १७४,
 १७६, १७७, १७८, २३४, २५१,
 २५२, २५४, २५६, २५९
 वायुदेव-१७१
 वायु मण्डल-१५५, १७६, १८३
 वारुण-सूक्त ६७
 वाल्मीकि-११३
 वासवाग्नि-१०१

वाहीर-१९०, १९२
 विकार-४२
 विक्रमवाद-१९, २०, २१
 विक्रमवादी-२०, २१
 विजयादशमी-२१९, २२३
 विजयानगरम्-५
 विज्ञान-७४, ७७, ७८, ८७, २४०,
 २४१, २४८, २४९
 विज्ञानात्मा-१२७, १२८, १३१, १३८,
 १४४, १५१, २३४
 विद्वत्-१२९
 विद्वीर्य-१०१, २०५
 वितान वेद-३०, ३५, ३८, ४१
 विदेह मुक्ति-१४२
 वित्त-९२, १२७, १३१
 विद्या-१४०, १४१, १६४, २५९
 विद्यानन्द-२४२
 विद्यावाचस्पति-७५
 विद्युत्-१५२, १७२, १७८, १८१, १८२,
 २१६
 विपाश-६०
 विभु-८२, ८६, ११५, १३९
 विभूति-१२९, १३०
 विराट्-१७९
 विवस्वान्-३५
 विश्वकलन-२५८
 विश्वचर-२३३
 विश्वचर ईश्वर-२५३
 विद्वामित्र-२१, ६०, ६१, १९१, १९२
 विपुवत्-वृत्त-१३५, १४७, १४९, १५०
 विष्णु-१२, १३, १४, ६३, ९०, ९१,
 ९२, १०४, १८५, २३१, २५०,
 २६०, २६१, २६२
 विष्णुपद-११२
 विष्णुपदी-११२
 विष्णुपुराण-११२, १५२, १७५, १७६,

२३१, २३१ (टि०)

विष्णु-प्राण-१३, ४४

विष्णु विष्टप-२६३

विष्णुसहस्रनाम-२६०

वीर्य-९२

वृत्त-२४९

वेकुरा वाक्-१००

वेद-४३

वेदव्यास-७०

वेदान्त-दर्शन-७७

वेदान्तसूत्र-२६०

वैखरी-५०, ५१, ५५, ५६, ५९, ६०,

६२, ६४

वैतरणी-१४९

वैनायिक दर्शन-८०

वैशम्पायन-७३

वैश्य-बल-२०७

वैश्वानर-५५, ९६, ९७, १२९, १३०,

१४५, १४८, १५१, १५२, २३४

वैश्वानर आत्मा-२३४

वैश्वानर प्राण-१५१

वैश्वानर-मार्ग-१५०

वैश्वानराग्नि-१४७, १५१, २१८, २६४

व्यास-११, ७२, ७३, २३७

व्याहृति-१०२, १७४

व्योमकेश-११२, २५४

त्रण-१००

श

शकराचार्य-११, ७५, ७८

शक-१९२

शक्ति-३०, ८५, २३१, २५८

शक्तिमान्-८५

शक्त्युपासना-२२०, २२१, २२२

शतपथ-११५ (टि०), १३४ (टि०),

२४५, २५२, २५६

शतपथ-ब्राह्मण-६, १२, १५, १६, ३३,

३४, ३८, ४१, ४४, ४८, ५१, ५२,

५३, ६३, ७१, ७३, ८८, ९०, ९२,

१०१, ११४, १३१, १३२, १३३,

१३४, १६३, १७१, १८३, २१६,

२१७

शबरस्वामी-४५, २२८

शरीरात्मा-१२८, १३०

शर्यणावत पर्वत-१६४

शाकद्वीप-१९२

शाकद्वीपी-१९२

शाकमेध-२२५

शान्तात्मा-१२७, १२८, १३१

शान्त्यानन्द-८१, ८२, २४१, २४२,

२४३

शाम्भ सदाशिव-२५१

शाला-२४

शिर-२६४

शिरोगुहा-१३४

शिव-२३१, २५१, २५२, २५३, २५८,

२६०, २६१, २६२, २६३

शिव-मण्डल-२५८

शिवसहस्रनाम-२६०

शिवावतार-२६३

शिवि-२१

शीत कटिबन्ध-१५०

शुक्र-८७, ९२, ९६, ९७, ९८, ९९,

१००, १०१, १०३, १०४, १२८,

१३०, १३६, १४२, १८२, २०५

शुक्र-निर्वाप-१५७

शुक्राचार्य-२४३

शुक्लचक्र-१४५

शुक्लमार्ग-१४२, १४३, १४४, १४८,

१५०

शुक्लयजुर्वेद-७३

शुक्लयजुः-७३

शुश्रूषु सदिता-१६६
 शुचि-२५२, २५५
 श्रम-९८
 श्रमण-८०
 श्राद्ध-१५५, १५६
 श्री-१२९, १३०, १३४, १३५
 श्रीकृष्ण-२४५
 श्रीमद्भागवत-३, ५१, ७६, २३२, २३८,
 २३७, २६६
 श्रीमद्भागवत गीता-७५, ७६ ९३ ९६,
 १०८, २४३
 श्रीराधा-२४५, २४६
 श्रौतयज्ञ-२२५
 श्रौतसूत्र-११, १८
 श्वेतकेतु-७८
 श्वेताश्वतर श्रुति-५३
 श्वेताश्वतरोपनिषद्-८५, ९०, २५३

प

पोडगी प्रजापति-१०३, ११६

स

सयती-१०२
 सयाज-८
 सवत्सराग्नि-१३, १५५, १४९, १६७,
 १६८, १६९ २६४
 सस्कार-४६, २०९, २११, २१३, २१७
 सगरा-१६९
 सतलज-६०
 सत्ता-४१, ८५, ११८, २३०
 सत्य-२३२, २३३, २३४
 सत्यकाम-२६९
 सत्यपाल-२६८
 सत्यलोक-१०२
 सत्यव्रत सामश्रमी-१९, १७२
 सद्योजात-२५०

सतिवेश-३०, ३५, ५६, ५९, ६८, १८०
 सपिण्ड-१५८
 सपिण्डीकरण-१५८
 सप्तनामा-१७७
 सन्द-१६९
 समता-२३९
 समवल्प्रगति-१४२
 समष्टियु-७
 समानच्छन्द-८
 समृद्धिपानन्द-८१, ८२, २४१, २४२,
 २४३
 सर्पकुण्डली-२५७
 सर्पसूत्र-२५६
 सर्वप्रजापति-११६, ११८
 सर्वहुन् यज्ञ-९४, १०१
 सर्वानुक्रमणी-५६, ६२
 सविता-प्राण-१५
 सास्य-कारिका-३६
 सापिण्ड्य-१५७, १५८
 सापिण्ड्य-सूत्र-१५८
 साम-१६, २८, ३०, ३३, ३४, ३५, ३६,
 ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ५०,
 ६२, ६३, ७०, ९३, ९६, ९७, ९८,
 १०४
 साम मण्डल-३२, ३३, ३५, ३७, ४१,
 ९१, १०३
 सामवेद-४३, ४८, ६३, ७०, १३८, १६५
 सायण-५, १८४
 सायण-भाष्य-१६६, १७२
 सायणाचार्य-१४ १७७
 साहस्री-४४, ६३
 सुनासीरीय-२२५
 सुपर्ण-१९०
 सुलेमान पर्वत-१८८
 सुवेद-९८
 सूक्ष्मशरीर-१५३, १५४

सूत्र-२३४

सूत्रात्मा-११८, १२८, १७९, २३४

सूयवसिनी-१२

सूर्य-४५, ६४, ९२, १०२, १०४, १०५,

१११, १३२, १३९, १४३, १५०,

१५२, १५५, १६५, १६७, १७१,

१७२, १७३, १७४, १७६, १७७,

१८०, २१३, २३१, २४५, २४७,

२४९, २५०, २५२, २५४, २५९,

२६४

सूर्य-अश्व-१७६

सूर्यदेव-१७८

सूर्य-प्राण-१०७, १३४

सूर्य मण्डल-१३, १५, १६, ३५, ४०,

४३, ४४, ६३, ६७, ९१, ९५,

१०२, १०३, १०४, १०५, १०६,

१०९, ११६, १३९, १४५, १६३,

१६४, १६८, १६९, १७२, १७६,

२१६, २४६, २४९, २५१, २५४,

२५८, २६२, २६४

सूर्यरथ-१७५

सूर्यरथ-चक्र-१८५

सूर्यलोक-११०, २६४

सूर्य-सवत्सर-१४८

सूर्य-सिद्धान्त-१८९

सूर्याग्नि-१७०, १८१

सोम-१२, १५, १६, ३८, ३९, ४०,

४५, ६१, ७०, ९०, ९१, ९२, ९४,

९५, ९६, ९७, ९९, १०३, १०४,

१०६, ११०, ११४, ११६, १३६,

१४८, १५३, १५५, १५६, १७०,

१७९, २१८, २२५, २३०, २४९,

२५०, २५४, २५८, २५९, २६०,

२६२

सोम तत्त्व-४०, ९९, ११५, १३६, १३७

सोम-देवता-७

सोमपा-१३६

सोमप्रधान-१६८, २५१

सोम-मण्डल-१०२, २४६, २५४

सोममय पिण्ड-१०६

सोममय मण्डल-१०४, २४६

सोमयज्ञ-९६

सोमयाग-१४७

सोमरस-१२४

सोमाकर्षण-क्रम-१६१

सोह्यसा-२३

सौत्रामणि यज्ञ-२६६

सौमिक शरीर-१५३

सौम्यप्राण-१७, ३८, १३३, १३६, १३७

सौर-अग्नि-१६८, १६९

सौर जगत्-२४९

सौरप्राण-४४

स्कीथिया-१९२

स्कीदिया-१९२

स्नायु-१००

स्पेस-३१, ३२, ६६, ११५

स्वयभू-४८, ४९, ५२, ९२, १००, १०२,

२५८

स्वयभू-ब्रह्मा-६२

स्वयभू मण्डल-४३, १०१, १०२, १०३,

१०४, ११६, १४८, १६८, २३४,

२५४, २५८, २६२

स्वयभू-यज्ञ-९३

स्वर्ग-४६, ४७, ५४

स्वर्ग-गति-१४०

स्वामी दयानन्द-२१२

स्विष्टकृत-७

स्वेद-९८

स्वैदायन-६, ७, ८

ह

हसात्मा-१३०

हजरत ईसा-२६६
 हजरत मुहम्मद-१८८
 हरि-५८, ५९
 हरिवंश-१३७
 हरिश्चन्द्र-२९
 हवि-९७
 हविर्भाग-७
 हिन्दुस्तानी-१९१
 हिरण्यगर्भ-११८, १२१

हिरण्यमूष-१९०
 हीनागप्रति-२०९, २१०, २११
 होता-७०
 होत्रीय-२५३
 होलाका-२२४
 होलिका-२२४, २२६
 होली-२२८
 हामवाद-२०, २१, २२
 हासवादी-२०

